



जैन-आगम-ग्रन्थमाला : ग्रन्थाङ्क ९ (भाग १)

सिरिसामज्जवायगविरद्धयं

# पण्णवणा सुतं

मूलग्रन्थात्मकः प्रथमो भागः

सम्पादकाः


पुण्यविजयो मुनिः

[ जिनागमरहस्यवेदिजैनाचार्यश्रीमद्विजयानन्दसूरिवर(प्रसिद्धनाम-आत्मारामजीमहाराज)-  
शिष्यरत्न-प्राचीनजैनभाण्डागारोद्धारकप्रवर्तकश्रीमत्कान्तिविजयान्तेवासिनां श्रीआत्मानन्द-  
जैनग्रन्थमालासम्पादकानां मुनिप्रवरश्रीचतुरविजयानां विनेयः ]

पण्डित दलसुख मालवणिया

पण्डित अमृतलाल मोहनलाल भोजक

इत्येतौ च



श्री महावीर जैन विद्यालय  
बम्बई-२६

जैन-आगम-ग्रन्थमाला  
प्रधान सम्पादक  
मुनिराज श्री पुण्यविजयजी  
पण्डित दलसुख मालवणिया

प्रथम संस्करण :  
वीर स. २४९५ / विक्र. स. १९२५ / ई. स. १९६९

मूल्य ३० रुपया

प्रकाशक :  
चदुलाल वर्धमान शाह  
जयन्तीलाल रत्नचंद शाह  
बोल्चन्द गांडालाल दोशी  
मानद मंत्रीओ  
श्री महावीर जैन विद्यालय  
गोवालिया टॅक रोट, वर्म्बई २६

सुदृक :  
वि पु भागवत  
मीज प्रिंटिंग व्यूरो  
खटाववाढी, वर्म्बई ४

Jaina-Āgama-Series No. 9 (Part 1)

# PANNAVANĀSUTTAM

Editors

MUNI PUNYAVIJAYA

Pt. DALSUKH MĀLVANIĀ

Pt. AMRITLĀL MOHANLĀL BHOJAK



SHRI MAHĀVĪRA JAINA VIDYĀLAYA

BOMBAY - 26

Jaina-Agama-Series

*General Editors*

MUNIRAJ SHRI PUNYAVIJAYAJI

Pt DALSUKH MALVANIA

*First Published · 1969*

© 1969, by the Publishers

Price Rs 30 00

Printed in India

By V P Bhagwat

Mouj Printing Bureau

Khatau Wadi, Bombay 4

Published by

Chandulal Vardhman Shah

Jayantilal Ratanchand Shah

Balchand Gandalal Doshi

*Hon Secretaries*

Shri Mahavira Jaina Vidyalaya

Gowalia Tank Road, Bombay 26

## गंथसमप्पणं

जीवाइविविष्णाणदेसया गहिरभावयपयत्था ।  
जेहिं पर्खविया, तह वक्खाया जेहि विष्णूहिं ॥ १ ॥

अणुवक्यपरोवक्याण ताण सामज्ज्येरपमुहाणं ।  
पणवणोवंगमिणं पुज्ञाणं तह महेसीणं ॥ २ ॥

वरए पुण्णपविते करजुयकमलम्भि विणयणइजुत्ता ।  
मुणिपुण्णविजय-दलसुखभाई-अमया समपेमो ॥ ३ ॥ विसेसयं ॥

तुम्ह पसाया लङ्घं वत्थुं तुम्हाण अप्पयंताणं ।  
अम्हाण बालचरियं खमंतु पुज्ञा खमासमणा ! ॥ ४ ॥

## ગ્રંથ સમાવેશ

જીવાળાદિ સંબંધી વિવિધ વિજ્ઞાનને દર્શાવનારા અને ગંભીર લાવોનું પ્રદાન કરનારા પહોંચોની જે મણે પ્રરૂપણા કરી છે, તથા જે વિજ્ઞા પુરુષોએ તે ગંભીર પહોંચોની વ્યાપ્તયા કરી છે, તે અમ અનુપકારી ઉપર ઉપકાર કરનારા શ્રીશ્યામાર્ય પ્રમુખ સ્થવિર ખૂન્ય અને મહોર્ણ લગવંતોના પુણ્યશાળી, પવિત્ર અને વરદ કરકુમળમાં અમે—મુનિ પુણ્યવિજ્ય, દલસુખ માલવણિયા અને અસૃતલાલ સ્લોજન—પ્રજ્ઞાપના નામનું આ ઉપાંગસૂત્ર લેટ ધરીએ છીએ. આપના જ કૃપાપ્રસાદથી મેળવેલી—સંશોધિત કરેલી વસ્તુ આપને સમર્પિત કરવાની અમારી ખાલકીડાને આપ ક્ષમાશ્રમણ લગવંતો ક્ષમા કરશો.

## પ્રકાશકીય નિવેદન

જૈનર્ધમેના પાયારપ બધા પવિત્ર મૂળ આગમસત્ત્રોની સશોધિત-સંપાદિત (critical) આવૃત્તિઓ પ્રકાશિત કરવાની યોજનાને મૂર્તીરપ આપવાની જવાખારી, પૂજ્યપાદ આગમપ્રભાકર મુનિવર્ય શ્રી પુણ્યવિજ્યજી મહારાજના આશીર્વાદ તથા તેઓશ્રીના તેમ જ પણિત શ્રી દલસુખભાઈ માલવણિયાના સંક્રિય સહકારથી, શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયે રવીકારી છે, એ સુવિદિત છે.

આ યોજના પ્રમાણે વિદ્યાલયે શરૂ કરેલ “જૈન-આગમ-ગ્રન્થમાલ” ના પ્રથમ ગ્રથ “નંદિસુત્ત અણુઓગદારાં ચ” નો પ્રકાશન વિધિ વિદ્યાલયના સુવર્ણ મહોત્સવની ઉજવણી પ્રસંગે, અમદાવાદમા તાં ૨૬-૨-૧૯૬૮ના રોજ, પૂજ્યપાદ આગમપ્રભાકર મુનિવર્ય શ્રી પુણ્યવિજ્યજીના પવિત્ર સાનિધ્યમાં, જૈન સંધના મુખ્ય અથર્વા શેહ શ્રી કસ્તુરભાઈ લાલભાઈના શુલ્ક હરતે થયો હતો.

આજના અતિ આનંદજનક અને મંગલમય પ્રસંગે આ ગ્રથમાળાના ધીજ ગ્રથનો પ્રકાશન-વિધિ થઈ રહ્યો છે, તે આપણું સહૃદૈ માટે ગૌરવ દેવા જેવી વાત છે. આજનો પ્રસંગ છે, સસ્થાની આગમ પ્રકાશન યોજનાના પ્રણેતા અને પ્રાણું પૂજ્ય આગમપ્રભાકર મુનિવર્ય શ્રી પુણ્ય-વિજ્યજી મહારાજના દીક્ષાપર્યાયની પણિપૂર્તિનો વરોદરા શ્રીસંદે યોજેલ ધર્મમહોત્સવ. આવા પવિત્ર અને પ્રેરક પ્રસંગે વિદ્યાલયની આગમ પ્રકાશન યોજનાના નવમા ગ્રથ “પણવણાસુત્ત” ના પહેલા ભાગનું પ્રકાશન થઈ રહ્યું છે, તે સુવર્ણમા સૌરભ મહ્યા જેવો સુદર અને યાદગાર જોગાનુઝેગ છે. આ પ્રસંગે અમારું અંતર જે આઙ્ગ્લાદ અનુભવે છે, તે અવર્ણનીય છે.

આગમ પ્રકાશનની યોજના પ્રમાણે પણણુવણુસુતને નવમો ગ્રથાંડ આપવામાં આવેલ છે અને એ ગ્રથ એ ભાગમાં પ્રકાશિત કરવાનો છે : પહેલા ભાગમા સમગ્ર મૂળ પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર, જરૂરી સપાદ્ધીય નિવેદન સાથે, પ્રગટ કરવાનું છે, જેનું પ્રકાશન આજે થઈ રહ્યું છે. આના ધીજ ભાગમા, આ ગ્રથમાળાના પ્રથમ ગ્રથની જેમ, સૂત્રમા આવતા બધાય શાખદોની, તે તે શાખના સસ્કૃત ઇપાતર સાથેની, સૂર્યી; ગ્રથ, ગ્રથકાર અને ગ્રથના વિષયનું તેમ જ ગ્રથમાંથી ઉપલબ્ધ થતી સાસ્કૃતિક સામનીનું વિશાદ નિર્ણય કરતી સુવિસ્તૃત પ્રસ્તાવના તથા એનું અંગ્રેજ ભાષાતરઃ; સપાદ્ધકોનું વિશેષ વક્તવ્ય, એના અંગ્રેજ ભાષાતર સાથે; તેમ જ જુદા જુદા વિશિષ્ટ વિષયોની માહિતી આપતાં પરિશિષ્ટો વગેરે સામની આપવામાં આવશે ગ્રથની પ્રસ્તાવનાનો પ્રાથમિક ખરડો ડેનેડામા-ટોરોન્ટોમાં ૫૦ શ્રી દલસુખભાઈ માલવણિયા તૈયાર કરી રહ્યા છે. અને એનું કેટલુક લખાણ એમણે આપણું મોકલી પણ આયું છે.

આગમ પ્રકાશન યોજનાની ઇપરેખાની સંવિસ્તર માહિતી આ ગ્રથમાળાના પહેલા ગ્રથના અમારા નિવેદનમાં આપવામા આવી છે, એટલે એનું અહીં પુનર્મુદ્રણ કરવાની જરૂર નથી. આ યોજના પ્રમાણે ૧૭ ગ્રથોમા આપણા બધા - પિસ્તાલિસે મૂળ આગમો પ્રગટ કરવાનું વિચારવામા આવ્યું છે, કયો આગમગ્રથ કયા અકના ગ્રથ તરીકે પ્રગટ થશે તે પણ ત્યા દર્શાવવામા આવ્યું છે.

### અભિસ

આ યોજના આ રીતે મૂર્તીરપ લાઈ રાંકી છે અને આજે આ ગ્રથરતના પ્રકાશન થઈ રાંક્યુ છે, તે પૂજ્યપાદ આગમપ્રભાકર મુનિવર્ય શ્રી પુણ્યવિજ્યજી મહારાજ અને પણિત શ્રી દલસુખભાઈ માલવણિયાની અસાંધારણ જહેમત અને તેઓની વિદ્યાલય પ્રત્યેની અસીમ ભમતાને કારણે. તેઓ પ્રત્યે અમે આ પ્રસંગે અમારી આભારની ઊરી લાગણી દર્શાવીએ છીએ.

છેલ્દાં ચારેક વર્ષથી આપણે આગમોના અભ્યાસી પંડિત શ્રી અમૃતલાલ મોહનલાલ લોજફની સેવાઓ પ્રાકૃત ટેક્સ્ટ સોસાયટી પાસેથી ઉઠીની લીધી, ત્યારથી આપણા આગમ પ્રકાશનના કાર્યને વિશેષ વેગ મળ્યો છે, એમા શક્તા નથી. સસ્થાના આગમ પ્રકાશન કાર્યમાં આપો સહદ્દી આપવા બદલ અમે પંડિત શ્રી અમૃતલાલ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતાની ઉઠી લાગણી દર્શાવીએ છીએ. તેમ જ પ્રાકૃત ટેક્સ્ટ સોસાયટી તથા આ વિભાગમા કામ કરતા પંડિત શ્રી શાસ્ત્રી હરિશંકર અંધારામ પંજા પ્રત્યે પણ અમે કૃતજ્ઞતા દર્શાવીએ છીએ.

આ ગ્રથમાળાનો પ્રથમ અથ પ્રકાશિત થયા પછી અત્યાર સુધીમાં આ કાર્યને માટે અમને નીચે મુજબ સહાયતા મળ્ણ છે, તે સર્વ દાતાઓના અમે આભારી છીએ :

પ્રિન્સેપ્સ સ્ટ્રીટ લોહારચાલ જૈન સંદ્રભ : ૩૦ ૨,૫૦૦૦

પરચૂરણ રક્ખમો : ૩૦ ૫૨૭.૬૪

ખૂબ ધીરજ અને ખંતપૂર્વક આ ગ્રથમાળાના સુધુડ અને સ્વગ્રહ મુદ્રણકાર્ય માટે મૌજ પ્રિન્ટિંગ લયુરોના સચાલદેનો અમે આભાર માનીએ છીએ.

આગમ પ્રકાશનના કાર્ય અંગે જરૂરી સલાહ-સ્વચ્છના આપવા બદલ, અમે આગમ પ્રકાશન સમિતિના નીચેના સમ્ભોના આભારી છીએ.

૧. ગો. જ્યંતિલાલ યુરચદ બદામી

૫. શ્રી પ્રવીણચંદ્ર હેમચંદ્ર કાપડિયા

૨. શ્રી પરમાનંદ કુવરણ કાપડિયા

૬. શ્રી ચંદુલાલ વર્ધમાન શાહ

૩. શ્રી રતીલાલ ચીમનલાલ કોડારી

૭. શ્રી જ્યંતિલાલ રતનચંદ શાહ } મત્રીઓ

૪. શ્રી સેવંતીલાલ ચીમનલાલ શાહ

૮. શ્રી બાલચદ ગાડાલાલ દોશ્ટી

૯. શ્રી રતિલાલ દીપચદ દેસાઈ (સહમંત્રી, આગમ પ્રકાશન વિભાગ)

### વડોદરા શ્રી સંઘનો વિશેષ આભાર

આ ગ્રથના પ્રકાશનના આજના અવસરે, છ વર્ષ પહેલાં (વિ.૦ સં.૦ ૨૦૧૬ ના કારતક સુદ્દિ પ અને તે પછીના દિવસોએ) કંપન્યંજના શ્રીસંદે પરમપૂર્ણ આગમપ્રભાકર સુનિર્વચ્છ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજના ૬૮ મા જન્મિતિનિ નિમિત્તે યોજેલ ધર્મમહોત્સવનું સહેલે મન્ત્ર થાર્થ આવે છે એ પ્રસગે કંપન્યંજના શ્રીસંદે પૂર્ણ મહારાજશ્રી પ્રત્યેની ભક્તિ નિમિત્તે, પૂર્ણ મહારાજશ્રી ધ્યાને કાર્ય માટે, પંદ્ર હજાર રૂપિયા અર્પણ કરવાની જહેરત કરી હતી પૂર્ણ મહારાજશ્રીએ એ જ વખતે એ રક્મ આગમ પ્રકાશન યોજનાના પહેલા અથ માટે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયને સોધી દેવામા આવે, એવી કંપન્યંજ શ્રીસંઘને ભલામણ કરી હતી.

આજનો પ્રસગ પણ કંઈ એવો જ છે વડોદરા શ્રીસંઘની આગ્રહભરી વિનિતિને સ્વીકારીને પૂર્ણ પુણ્યવિજયજી મહારાજ ગયું (વિ.૦ સં.૦ ૨૦૨૪ નુ) ચતુર્માસ વડોદરામા રહ્યા. પૂર્ણ મહારાજશ્રીનું ચતુર્માસ વીસ વર્પ ખાડ વડોદરામાં થતુ હોવાથી શ્રીસંઘમાં ખૂબ આનંદ અને ઉત્સાહ પ્રવર્તતો હતો પૂર્ણ વધોવિદ્ધ પન્યાસણ મહારાજ શ્રી નેમવિજયજી, પૂર્ણ પન્યાસણ મહારાજ શ્રી ચન્દ્રવિજયજી તથા પૂર્ણ સુનિર્વચ્છ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજ સાથે વડોદરામા ચતુર્માસ રહેલા પૂર્ણ પન્યાસણ મહારાજ શ્રી રમણીકવિજયજી તથા પૂર્ણ સુનિર્વચ્છ શ્રી ચંદ્રોદ્યવિજયજીએ આ ઉત્સાહને કંઈ રચનાત્મક રૂપ આપીને આ ચતુર્માસને ચિરસ્મરણીય બનાવવાનું વિચાર્યુ. પૂર્ણ પુણ્યવિજયજી મહારાજને ચાલુ વર્પના (વિ.૦ સં.૦ ૨૦૨૫ ના) માડ મહિનામાં દીક્ષા લીધા સાડ વર્પ પૂરા થતા હતા એ પ્રસગને અનુભૂતિને તેઓએ પન્યાસણના પ્રકાશનમા સહાયરૂપે પોતાની કુલપાદી અર્પણ કરવાની શ્રીસંઘને પ્રેરણા આપી

શ્રીસંદેખ ખૂખુ ઉમંગપૂર્વક એ પ્રેરણાને વધાવી લીધી, અને પૂજ્ય આગમપ્રસાદ્કર શ્રી પુણ્ય-વિજયળુ મહારાજના દીક્ષાપર્યાયના ષષ્ઠિપૂર્તિ સમારોહ પ્રસંગે, પનવણાસૂત્રના પ્રકાશનમાં સહાયદૃપે, શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયને અર્પણ કરવા માટે ૩૦ ડરે, ૦૦૦૦ જેવો સારો ઝાળો એકત્ર છ્યો. આ ઝાળાની સંવિસ્તર યાદી અમારા આ નિવેદનને અંતે આપવામાં આવી છે.

પૂજ્યપાદ પુણ્યવિજયળુ મહારાજ પ્રત્યે આવી નિર્યાજ ભક્તિ અને વિદ્યાલયના આગમ પ્રકાશનના કાર્ય પ્રત્યે આવી ભમતા દર્શાવવા બદલ અમે વડોદરા શ્રીસધનો સંવિશેષ આભાર માનીએ છીએ.

આ કાર્ય માટે પ્રેરણા આપવા બદલ અમે પૂજ્ય પંન્યાસળ શ્રી રમણીક્ષવિજયળુનો અને પૂજ્ય મુનિ શ્રી ચદ્રોદ્યવિજયળુનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. અને આ માટે જહેમત ઉદ્ઘાવનારંતેમ જ ઝાળો આપનાર વડોદરા શ્રીસધના અગ્રણીઓ તેમજ નાનાં-સોટાં સૌ કાર્યકરો અને ભાઈઓ-અહેનો પ્રત્યે અમારી કૃતજ્ઞતાની લાગણી દર્શાવીએ છીએ.

### અંતમાં

લદે કંઈક ધીમી ગતિએ પણ વિદ્યાલયે હાથ ધરેલ આગમ પ્રકાશનનું કાર્ય આ રીતે ક્રમે ક્રમે આગળ વધી રહ્યું છે, તેનો અમને સંવિશેષ આનંદ છે. અમે તો એ ધન્ય દિવસ જોવાના મનોરથો સેવીએ છીએ કે જ્યારે આ અથમાળાનો અંતિમ અથ પ્રકાશિત થાય, અને આ આપ્યી યોજના, આપણી ધારણા મુજબ, સાંગોપાગ પરિપૂર્ણ થાય. એ માટે પરમાત્મા આપણને સૌને અને સમર્સત શ્રીસધને બુદ્ધિ, શક્તિ અને ભાવનાની રતનત્રયીનું પ્રદાન કરે એવી અંતરની પ્રાર્થના સાથે અમે આ નિવેદન પૂરું કરીએ છીએ.

### લિંગ સેવકો

ગોવાલિયા ટેક રોડ  
મુખ્યદ્વારા ૨૬  
માહ વદ્દ ૭, રવિવાર  
તાં ૮-૨-૧૯૬૬

અંદુલાલ વર્ધમાન શાહ  
જયંતિલાલ રતનયંદ શાહ  
આલયંદ ગાંડાલાલ દોશી  
માનદ મત્રીઓ

પૂજયપાદ આગમપ્રકાર સુનિવર્ય શ્રી પુણ્યવિજયજ મહારાજના  
દીક્ષાપર્યાચની ધાર્થપૂર્તિની ઉજવણી અસંગે વડોદરા શ્રીસંધમાં થયેલ

### શ્રી આગમ પ્રકારાન કુંડ

૩૦

- ૨૦૦૨.૦૦ પૂજય આગમ શ્રી પનવણુસૂત્ર  
રથમાં લાઈ બેસવાની બોલીના—  
શ્રી કેશરીમલજ હિરાચંદજ  
સધવી  
૧૧૧૧.૦૦ શ્રી કેશરીમલજ હિરાચંદજ  
સંધવી  
૧૧૧૧.૦૦ શ્રી ચદુલાલ પુરુપોતમદાસ  
ક્રવેરી  
૧૧૧૧.૦૦ શ્રી શુક્રનરાજજ હિરાચંદજ  
સધવી  
૧૧૧૧.૦૦ શ્રી ભીખમચંદજ ફોજમલજ  
૧૧૧૧.૦૦ શ્રી રગીલદાસ છગનલાલ  
૧૧૧૧.૦૦ શ્રી શાંત રતીલાલ ચુનીલાલ  
સરારવાળા  
૬૫૧.૦૦ શ્રી ભગુભાઈ નગીનભાઈ ક્રવેરી  
૫૫૫.૦૦ શ્રી છગનલાલ હેવચંદ  
(વર્ધમાન ટી-ડેપો)  
૫૪૫.૦૦ શ્રી પિરતાલીસ આગમના  
તપસ્વીઓ  
૫૦૧.૦૦ શ્રી છગનલાલ લક્ષ્મીચંદ  
વડુવાળા  
૫૦૧.૦૦ શ્રી કાન્તિલાલ કેશવલાલ  
ખંભાતી  
૫૦૧.૦૦ શ્રી જૈન મહિલા સમાજ  
૫૦૧.૦૦ શ્રી હસમુખઘહેન મોતીચંદ  
ક્રવેરી  
૫૦૧.૦૦ શ્રી મહેનીલાઈ બાપુભાઈ વૈદ્ય  
૫૦૧.૦૦ શ્રી રમણલાલ મોહનલાલ વૈદ્ય  
૫૦૧.૦૦ શ્રી જૈન મહિલા ઉપાથ્રય  
(અનીશેરી)નાં બહેનો  
૫૦૧.૦૦ શ્રી ભવાનીદાસ કદુનદાસ  
૫૦૧.૦૦ શ્રી ભાઈચંદ ત્રિભોવનદાસ પટવા  
૫૦૧.૦૦ શ્રી પ્રતાપમલજ વક્તાજ

૩૦

- ૫૦૧.૦૦ શ્રી અમથાભાઈ નાનાલાલ ગાંધી  
૫૦૧.૦૦ શ્રી લીલાચંદ વાડીલાલ  
૫૦૧.૦૦ શ્રી આદિતઘહેન મથુરદાસ  
મુજપરવાળા  
૫૦૧.૦૦ શ્રી શાન્તિલાલ નરોતમદાસ  
ગંભીરવાળા  
૫૦૧.૦૦ શ્રી ભોગીલાલ પ્રભુદાસ  
વડતાલવાળા  
૫૦૧.૦૦ શ્રી સોમચંદ મોહનલાલ  
૩૦૧.૦૦ શ્રી વિદ્યાઘહેન ભુવનકુમાર  
બાપુલાલ  
૩૦૧.૦૦ શ્રી રતનઘહેન જયંતીલાલ  
ચુનીલાલ  
૩૦૧.૦૦ શ્રી ભણીલાલ દલપતલાઈ  
૩૦૧.૦૦ શ્રી નાથાલાલ કાળીદાસ  
૨૫૧.૦૦ શ્રી જયંતીલાલ નગીનદાસ  
૨૫૧.૦૦ શ્રી શાતિલાલ છોટાલાલ  
પાદરવાળા  
૨૫૧.૦૦ શ્રી રમણિષ્ટલાલ અમૃતલાલ  
કોહારી  
૨૫૧.૦૦ શ્રી બાખુભાઈ મૂળજીલાઈ  
૨૫૧.૦૦ શ્રી નેમચંદ હેચેરદાસ  
૨૫૧.૦૦ શ્રી કુલચંદ વનમાળીદાસ  
૨૫૧.૦૦ શ્રી જમતાદાસ છોટાલાલ  
દૂધવાળા  
૨૫૧.૦૦ શ્રી જવાનમલજ હંસરાજજ :  
પ્રકાશ અભિજિત કુંઠ  
૨૫૧.૦૦ શ્રી ચંદુલાલ ખોડીદાસ  
૨૫૧.૦૦ શ્રી કેશવલાલ ગુલાખચંદ  
ગોત્રીવાળા  
૨૫૧.૦૦ શ્રી શરદ્ધકુમાર મહિનીલાલ  
૨૫૧.૦૦ શ્રી કાશીઘહેન મગળદાસ  
વડુવાળા

૩૦

૨૫૧.૦૦ શ્રી રવચંદ્ર આશારામ  
ગલીરવાળા  
૨૫૧.૦૦ શ્રી ખુશાલચંદ્ર નેમચંદ્ર  
લીમરીવાળા  
૨૫૧.૦૦ શ્રી વાડીલાલ મગનલાલ વૈદ્ય  
૨૫૧.૦૦ શ્રી સુલદ્રાય્હેન પનાલાલ  
પરીખ  
૨૫૧.૦૦ શ્રી ચંદુલાલ કેશવક્ષાલ સરૈયા  
૨૫૧.૦૦ શ્રી રેવાય્હેન નાથાલાલ  
૨૫૧.૦૦ શ્રી શાંતિલાલ નહાલચંદ્ર ગાંધી  
૨૫૧.૦૦ શ્રી ભણુલાલ બાપુલાલ શાહ  
૨૫૧.૦૦ શ્રી ભગનલાલ ડાલ્ખાલાઈ  
૨૫૧.૦૦ શ્રી પનાલાલ ચંદ્રકાન્ત  
પાલેજવાળા  
૨૫૧.૦૦ શ્રી ચપકલાલ હપચંદ્ર મારતર  
૨૫૧.૦૦ શ્રી જમનાદાસ જેઠાલાઈ  
છાણીવાળા  
૨૫૧.૦૦ શ્રી બાધુરલાઈ બેચરદાસ  
૨૫૧.૦૦ શ્રી મૂળચંદ્ર લક્ષ્મીચંદ્ર  
પાલેજવાળા

૩૦

૨૫૦.૦૦ શ્રી ભણુલાલ બાપુલાલ  
અનાજવાળા  
૨૦૧.૦૦ શ્રી સાકુરલાલ માણેકલાલ  
ગલીરવાળા  
૨૦૧.૦૦ શ્રી મૂળલાલ પુરસોતમહાસ  
૨૦૧.૦૦ શ્રી ચંદ્રાવતીય્હેન પનાલાલ  
૨૦૧.૦૦ શ્રી સોમચંદ્ર ખોડીદાસ શાહ  
૨૦૧.૦૦ શ્રી હીરાચંદ્ર રાયચંદ્ર<sup>૧</sup>  
માસરરોડવાળા  
૨૦૧.૦૦ શ્રી સોમચંદ્ર નાથાલાઈ કંસારા  
૨૦૧.૦૦ શ્રી પ્રકાશચંદ્ર મનહરલાલ વૈદ્ય  
૨૦૧.૦૦ શ્રી રૂખીખ્હેન પુજલાલ  
વડુવાળા  
૨૦૧.૦૦ શ્રી લીલાવતીય્હેન વસંતલાલ  
૨૦૧.૦૦ શ્રી કાતિલાલ લાલચંદ્ર શાહ  
૨૦૧.૦૦ શ્રી ભૂપેન્દ્રકુમાર નાગકુમાર  
મકાતી  
૨૦૧.૦૦ શ્રી યાકૃતપુરા શ્રી જૈન તપાગચ્છ  
મહિલા ઉપાશ્રય  
૪૧૭૩.૦૦ બસોથી નીચેની રકમના

---

૩૩,૦૦૦.૦૦ કુલ રકમ

## अन्थानुक्रम

	पृष्ठां
अकाशकीय निवेदन	६
अन्थानुक्रम	१४
संपादकीय	१५
Editors' Note	21
सङ्केतसूचि:	२६
प्रवापनासूत्रस्य विषयानुक्रमः	२७-५१
पणवणासुत्तं	१-४४८
सुद्धिपत्तयं	४४७-४५०

॥ जयन्तु वीतरागः ॥

## सं पा ह की य

### प्रतिपरिचय

प्रस्तुत प्रज्ञापनासूत्रना सशोधनकार्यमां कुल नव प्रतिअोनो उपयोग क्यों छे. आ नव प्रतिअोभा खं० जे० अने ध० सूत्रक प्रतिअो ताडपत्रीय प्रतिअो छे, म० अथवा वी०, प्र० पु१ पु२ अने पु३—आ पाच प्रतिअो कागण उपर लभायेकी छे, अने सु० सूत्रक आदर्शी भुद्रित छे. प्रस्तुत प्रतिअोनो परिचय आ प्रभाषे छे.

**खं० प्रति**—श्री शान्तिनाथज्ञ ताडपत्रीय जैन ज्ञानलंडार, घंलातनी ताडपत्रीय प्रति छे. आच्यविद्यामहिर-वडोदराथी प्रकाशित थयेकी आ लडारनी सूचिभा आ प्रतिनो क्लमांक १७ छे. पत्रसंख्या १६१ छे. लभाठ-पहोणाई ३२.२×२.५ धूचप्रभाणु छे स्थिति सारी अने लिपि सुहर छे. अंतमा लेखकनी प्रशस्ति-पुष्पिका आहि कर्द लभ्यु नथी, छता प्रतिनी लिपिना आधारे अनुभानथी कडी शकाय के आ प्रति विक्षमना १४ भा शतकना अंतमां लभायेकी होवी जेएच्ये.

**जे० प्रति**—जेसलमेरना किल्लामां रहेला भरतरगच्छीय युगप्रधान आचार्य श्री जिनलद-सूरि ज्ञानलंडारनी आ ताडपत्रीय प्रति छे सूचिभा आ प्रतिनो क्लमाई २७ छे. पत्र संख्या १७० छे. स्थिति सारी अने लिपि श्रेष्ठ छे लभाठ-पहोणाई ३२.२×२.५ धूचप्रभाणु छे. विक्षमसंवत् १३८८ भा आ प्रति लभाठ छे. सप्ततना निर्देश सिवाय अंतमा लेखकनी प्रशस्ति-पुष्पिका आहि कर्द नथी.

**ध० प्रति**—आ पण जेसलमेरना किल्लामा रहेला उपर जणावेला लंडारनी ७ ताडपत्रीय प्रति छे. सूचिभा आ प्रतिनो क्लमाई २८ छे. आमा पत्र १ थी ३३ भा प्रज्ञापनासूत्र मूल छे अने ३३४ थी ३५० पत्रमा आचार्य श्री हरिलदसूरि विरचित प्रज्ञापनासूत्रप्रदेश०याच्या छे प्रतिनी स्थिति सारी अने लिपि सुहर छे. पत्र ७, ११, १५, १६, ५६, २४७ थी २४८, २५३, २५४, २६१ थी २६३ अने २६१ मु ऐम कुल १४ पत्र अप्राप्य छे. लभाठ-पहोणाई ३२.२×२.५ धूचप्रभाणु छे. अंतमा आ प्रभाषे पुष्पिका छे :

संवत् १४८९ वर्षे मार्ग सुदि १० सोमे प्रज्ञापनासूत्रप्रदेशव्याख्या लिखापिता सा. वलिराजेन ॥ छ ॥ श्रीमत् खरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरीश्वराणा भाडागारे ॥

प्रस्तुत ज्ञानलंडारमां परीभ धरणुशाह अने सा. भलिराज-उद्यराजे लभावेला अंथोनु प्रभाणु वधारे छे. आ प्रति परीभ धरणुशाहे लभावेली हशे ऐवा असपृष्ठ ज्यालथी अभोअे आनी ध० सज्ञा आपी छे, पण आ प्रति भलिराजे लभावेली छे ते ज्ञे ग्रालमा याद आव्यु होत, तो तेनी अभो व० सज्ञा आपत

**म० अथवा वी० प्रति**—श्री भहिभालक्ति जैन ज्ञानलंडार, भीकानेनी आ प्रति विक्षमना १७ भा शतकमा लभायेकी छे. आ प्रतिनी म० सज्ञाना भद्रले ऐकाद रथ्ये वी० पण अपाई गाई छे.

**પ્ર૦ પ્રતિ—** વી આભાગમણ કેન જાનમદિર, વડોદરામાં રહેલા વિવિધ લંડારો પૈકીના મરણ બાળ કાનિશિખયણ શાશ્વતસંગ્રહની આ પ્રતિ છે. સુચિમાં આનો ક્રમાંક ૧૧૬૪ છે. એકદિના કંઈ ગાંધીજા-ગાંધીયના દેશુથી આ પ્રતિના પ્રત્યેક પત્રના માર્જિનમા પ્રજાપનાસુન્નતી હતી અને ગુરુભાગિદિશાદિશિન શીકાને દુંડાવીને લખવામાં આવી છે. પ્રતિની પત્રસંખ્યા ૨૧૫ ને. પ્રત્યેક પત્રની પ્રદાન ખૂદિમાં ૧૩ પંક્તિઓ છે. પ્રત્યેક પક્ષિતમા ઓળામા ઓછા ૪૨ અને હજાની દર્દી ૪૭ નાથરો છે. કોઈ અન્યથાસી વિડાને શોધેકી પ્રતિ છે. સ્થિતિ સારી અને લિપિ નાના ને. ગાંધીખણ્ડાઈ ૮૦૦ × ૪૦૦ દ્યુપ્રમાણ છે. મૂક્ખપાડના અંતમાં લેખકની પુણિપક્ષા હિંદુની અચ્છું નથી. અણ ગુલપાડની સાથે જ લખાયેલ ઉપર જણાવેલ શીદાસંક્ષેપના અંતમાં જ અનુષ્ઠાની પુણિપક્ષા છે.

ધાર્મયાગિરિકિચિત્તા ટીજા કિચિત્ત સંક્ષિપ્ત લિખિતા | વા | નરચંદ્રેણ | શ્રી: || સંવત् ૧૭૭૬  
દાદરૂ મંદિર ૧૨

**પુરુષ પ્રતિ—** વી આદભાઈ દ્વારા આઈ ભારતીય સંગૃતિ વિદ્યામંદિર, અમદાવાદમા રહેલા કંઈ ગાંધીખણ્ડના બાળની પૈકીના મુનિ થી પુણ્યવિજયણ ભદ્રાગજના અંથસંગ્રહની આ પ્રતિ છે. નાનાનો ક્રમાંક ૧૧૬૫ છે. કોઈ વાચેકે આ પ્રતિને પ્રત્યેતર સાથે મેળવીને પાડો જીમેદાદ કરી નાના અનિનિત દ્રિપથ્યું ખાનુ લાગેલી છે. આની પત્રસંખ્યા ૨૦૦ છે. પ્રત્યેક પત્રની પ્રત્યેક પ્રક્રિયા ૧૩ પંક્તિઓ છે. પ્રત્યેક પક્ષિતમાં ૫૦ અઠરો છે; જીવદ્દે જ કોઈ પંક્તિમા ઘેરે ૪૫ અને ૪૭ કરતાં ને. જિની શરીર અને લિપિ શ્રેષ્ઠ છે. લંઘાઈખણ્ડાઈ ૧૦૦ × ૪૦૦ દ્યુપ્રમાણ છે. કાંઈ અંખડતી પણિદા આ પ્રમાણે છે :

શિર ૧૬૩૧ કર્દે ગોટ(નેટ) શુદ્ધ ઉ તોમે। અચેહ શ્રીપત્રનવાસ્તવ્ય: શ્રીશ્રીમાલજ્ઞાતીય ।  
દુર્લ્હિતુદુર્લ્હિતો । સુલેખી નાયા કુન ક્રેષિ(છિ) હાંસા માર્યા નુશ્રાવિકા હાસલદે । પુત્ર ૪ શ્રી(શ્રી૦)  
દર્શિને । મે૦ મેદર૦ । મે૦ મેલ૦ । જે૦ દિવુ । સમસ્તકુદ્દુ(દું)વ્યુતે: સે૦ સીવાકેન । શ્રીપૂર્ણિમાપક્ષે  
પ્રદીપનાનાના । ભ૦ ધીનુસ્તનમદ્દુરિ દંયદે ભ૦ શ્રીશ્રીકમલપ્રમદુરિ તત્પદે ભ૦ શ્રી ૫ પુણ્યપ્રમદુરીશ્રાણા  
સર્વદેર । પ્રતિન રણદરમાદુર કિંદા(ના)દ્વા સ્વગુરુસ્ય: પ્રદત્તા । વાન્યમાને ચિર જીયાત । મંડું ભવતુ ॥  
શ્રીશ્રી૦૧૨ માનું માનું ॥૮॥

याद्वशं पुस्तके दृष्टं । ताद्वशं लिषि(खि)तं मया । यदि शुद्धमग्नुर्छं वा । मम दोषो न दीयते ॥ १ ॥  
 भग्नपुष्टि(पृष्ठि)कटिग्रीवा(वं) । बद्धपुष्टिरधोमुखं । कष्टेन लिषि(खि)तं शास्त्रं । यत्नेन परिपालयेत् ॥ २ ॥  
 तैलार्घ्य (तैलाद् रक्षेत) जलं(जलाद्) रक्षेत् । रघ्ये(रक्षेत्) श्रथ(शिथि)लवंधनं(नात्) । यस्य  
 कस्य न दातव्यं(व्या) । एवं वदति पुस्तिका ॥ ३ ॥ यावत्(द) लवणसमुद्रौ(द्रो) । ता(या)वत्(द)  
 नक्षत्रमंडितो मेरु[ः] । यावत्(द) भारकरचंद्रौ तावदयं पुस्तको जयतु ॥ ४ ॥ संवत् १५६८ संवत्सर(रे)  
 प्रवर्तमाने दक्ष(क्षि)णायने शरदक्रत्तौ भाद्रपदमासे कृष्णपक्षे चतुर्थ्यार्या(र्थ्या) तिथौ रविवासरे श्रीअण-  
 हिल्पुरपत्तने लिषा(खा)पितं ॥ ५ ॥ श्री ॥ ५ ॥ शुभं भवतु ॥ कल्याणं भूयात् ॥ ५ ॥ श्रीः ॥  
 श्री श्रीमालज्ञातीय श्रेष्ठि(ष्ठि) सहिजा भार्या अदकू सुतेन श्रेष्ठि(ष्ठि) हरषा(खा)भिधेन प्रज्ञापनोपागसूत्रं  
 लिषा(खा)प्य स्वपुण्यार्थं परोपकाराय च श्रीपूर्णिमापक्षे प्रधानशाश्रा(खा)या श्रीभुवनप्रभसूरीणां प्रदत्तं  
 चिरं नन्द्यात् ॥ ५ ॥ श्रीः शुभं भवतु ॥ श्रीसंघस्य ॥ लेखकपाठक्यो चिरं जीव ॥

**मु० प्रति—**आ प्रति आगमभोद्धारक श्री सागरानंहसूरिवर सपादित आत्मार्थ श्री भद्रयगिरि-  
 द्वृतीकायुक्त छे. आ आवृत्ति वि० स० १६७४-७५ मां आगमभोद्ध भिति (सुरत) द्वारा प्रकाशित  
 थयेली छे.

આજ પર्यंત અમોએ જોયेलા પ્રાચીન જ્ઞાનભારોમાં પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની સૌથી પ્રાચીન ને ઐ  
 પ્રતિઓ અમે જોઈ છે, તે અહીં ઉપયોગમાં લીધેલી જો. અને ખં. પ્રતિઓ છે.

\*

## પ્રસ્તુત સંપાદન-સંશોધન અંગો

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના આ પ્રથમ લાગમા સમય સૂત્રપાડ આવી જય છે. અને મૂળસૂત્રપાડ  
 ઉપરથી તૈયાર કરવામાં આવેલાં પરિશિષ્ટો ખીજ લાગમાં આપવાનાં છે, તેથી પરિશિષ્ટોનો પરિચય  
 પણ ખીજ લાગના સંપાદીયમાં આપીશું.

અમારી આગમ સશોધન વિષેની પદ્ધતિ અમારા તરફથી સંપાદિત થયેલા અને શ્રી મહાવીર  
 જૈન વિદ્યાલય, મુખ્ય તરફથી પ્રકાશિત થયેલા નંદિસુત્ત અણુઓગહારાં ચ ગ્રંથના સંપાદીયના  
 ૧૦ થી ૧૬ પૃષ્ઠ સુધીમા જણાવી છે, તેથી જિજાસુઓને તે જોવા લલામણ કરીએ છીએ.

પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનામૂલ્યનથનું શુદ્ધિપત્રક આ લાગના અંતમાં જ આપ્યું છે. તે  
 અમારે ગ્રંથને સુધારીને વાંચવા તથા અતિલિપિ કરવવા આરપૂર્વક લલામણ  
 કરીએ છીએ.

પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના સપાદનને લગતું કિંચિત્ વક્તવ્ય કે જેમાં અદ્યાવધિ મુદ્રિત થયેલા  
 પાડોમાં અમોને પ્રાચીન પ્રતિઓમાથી જ્યાં જ્યાં મહત્વના પાડો ભલ્યા છે, તે તે સ્થાનો અને  
 મુનિવર શ્રી પુષ્પલિક્ષુજી દ્વારા સપાદિત થયેલા સુત્તાગમેમા છપાયેલા પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રમાં ને દોઈ  
 રથળે પાડેપરિવર્તન કર્યે છે તે સ્થળની ચર્ચા વગેરે પ્રસ્તુત ગ્રંથના ખીજ લાગના સપાદીયમાં  
 આપવામા આવશે.

અમારા પ્રથમ સપાદન નંદિસુત્ત અણુઓગહારાં ચ મા અમોએ નન્દિસૂત્રવિશેપ આપ્યો છે  
 (જુઓ નંદિસુત્ત અણુઓગહારાં ચ ગ્રંથમા સપાદીય ૪૦ ૪૦થી ૫૩) તે મુજબ પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રવિશેપ  
 અહીં આપી શક્યા નથી. તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે—પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના વિપયોને લગતાં અવતરણો  
 ૫ ૨

જૈન આગમ સાહિત્યમાં અનેક સ્થળે વિપુલ પ્રમાણુમા ભણે છે, અને તે બધું નોંધતા કાર્ય તો શુશ્રૂષા થાય જ, ઉપરાત એ કામને પહોંચી વળવાના સમયની પણ સમર્થ્યા છે. તેથી એ માટે અભ્યાસી જિજ્ઞાસુઓને અન્યાન્ય આગમ ગ્રન્થો જોવા તથા તજરૂર વિજ્ઞાનોનો સપર્ક કરવા ભલામણ કરીએ છીએ.

પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનાસૂક્તનો પરિચય તેમા આવતી મહત્વની સારસ્કૃતિક સામગ્રી આદિ વિવિધ વસ્તુઓ આ ગ્રન્થના ખીંચ લાગતી પ્રસ્તાવનામાં આપવામાં આવશે.

૫

## કાણુસ્વીકાર

પ્રસ્તુત સંપાદનમા ને બહુમૂલ્ય હસ્તપ્રતિઓનો અમે ઉપયોગ કર્યો છે, તે પ્રતિઓનો સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકાય, એ માટે એ પ્રતિઓને લાણા સમય સુધી અમારી પાસે રહેવા હેવામા તે તે જાનલભારોના વહીવટકર્તા મહાશયોએ ખૂબ ધીરજ દાખવીને ખૂબ જ મહાનુભાવતા ઘતાવી છે; આથી તેમની જાનલભિત્તિની અતુમોદના કરીને તેમને સવિશેપ ધન્યવાદ આપીએ છીએ.

જિનાગમવાચનપ્રવીણ સુનિવર્ય શ્રી જ્યથ્ધોપ્તવિજ્ઞયજ્ઞાએ પ્રસ્તુત ગ્રન્થના સુદ્રિત ઝોર્મ જોઈને કેટલાંક સ્થળો વિષે ઉપયોગી સૂચના આપી છે, તે બદલ અમો તેમનો સાદર આલાર માનીએ છીએ

અમારા સર્વ કોઈ સંશોધન કાર્યમાં જરૂર જણાય ત્યારે સદાને માટે ઉપયોગી પરામર્શ કરીને સહાય કરનાર ભારતીય દર્શનોના ગંભીર અભ્યાસી વિદ્યદૂર્ય સુનિરાજ શ્રી જંયુવિજ્ઞયજ્ઞ તથા પેંઠો શ્રી બેચરદાસભાઈ દોશીનો અમે અહીં સાદર આલાર માનીએ છીએ.

સુશ્રાવક મત્તીઓ શ્રી ચંહુલાલ વર્ધમાન શાહ, શ્રી જ્યંતિલાલ રતનયંદ શાહ અને શ્રી બાલયંદ ગાડાલાલ દોશી આદિ મહાવીર જૈન વિદ્યાલય આગમ પ્રકાશન સમિતિના સભ્યોએ પ્રસ્તુત સંપાદન કાર્યની એવે સમગ્ર આગમ પ્રકાશન કાર્યની ઉપયોગિતા અને ગાંભીર્યને સમજીને લાણા સમય સુધીની ધીરજ દાખવીને અમારા કાર્યમાં ને સહ્યોગ આપ્યો છે, તે બદલ તેમના પ્રશંસનીય કાર્યની અતુમોદના પુર સર તેમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ.

બધાય આગમ ગ્રન્થોના શાસ્ત્રીય સંપાદન કાર્યની પૂર્ણતા જોવા માટે અવિરત વેદના અનુભવતા શ્રી રતિલાલભાઈ દીપયંદ દેસાઈ (સહમંત્રી, શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય સંચાલિત આગમ પ્રકાશન વિભાગ) એ પ્રકાશન કાર્યને વેગ આપવા માટે તેમ જ શ્રેષ્ઠ સુદ્રાણુની ચકાસણી કરવામા ને સહ્યોગ આપ્યો છે તે અમારા જ નહીં હિન્તુ આગમ પ્રકાશનમાં રસ ધરાવનાર સૌદોઈના માટે પ્રશંસનીય છે.

શ્રી કાન્તિલાલ ડાલ્ચાલભાઈ કોરા (મહામાત્ર, શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય) એ પ્રસ્તુત ગ્રન્થના સુદ્રાણુ સખ્યાંત્રિત પ્રત્યેક કાર્યમા જાત દેખદેખથી નિરતર વ્યવસ્થા કરીને અમારા કાર્યમાં અતુદ્દળતા કરી છે. તેઓનો આ અમ અમારા અને આ કાર્યમા રસ ધરાવનાર સર્વના ધન્યવાદને પાત્ર છે.

શ્રી લાંદો લારતીય સંસ્કૃત વિદ્યામંદિર (અમદાવાદ)ના ઉપસંચાલક (અત્યારે ફરજ ઉપરના ડાયરેક્ટર) હોં નગીનાટક શ્રુતણુલાલ શાહે પ્રસ્તુત 'સંપાદકીય'નો અંગેણ ભાપામાં અતુવાદ કરી આપ્યો છે તે બદલ અમે તેઓ પ્રત્યે અમારો કૃતજ્ઞભાવ વ્યકૃત કરીએ છીએ.

શાસ્ત્રી શ્રી હરિશંકરભાઈ અંખારામ પંજાએ પ્રસ્તુત અન્થના ખીજ લાગનાં પરિશિષ્ટોમાં સહયોગ આપ્યો છે. અહો અમો તેમને ભૂલી રાક્તા નથી.

અને અંતે મુખ્યાંના સુપ્રસિદ્ધ મૌજ પ્રિન્ટિંગ પ્યૂરોના સંચાલક શ્રી વિ. પુ. ભાગવત આદ્દ સન્જણનોએ અમારા પ્રસ્તુત મુદ્રણ કાર્યમા અનેકવિધ સુવિધાઓ આપી છે તે ખફલ તેઓ અમારા માટે ચિરસ્મરણીય બની રહ્યા છે.

ઉપરોક્ત સૌ મહાતુલાવો હંમેશના માટે અમને સહાય સવિશેષ અતુકૂળતા આપે તેવી હાદ્દિક ધ્યાણ વ્યકૃત કરીએ છીએ.

વડોદરા,  
સ.૦ ૨૦૨૫, કાર્તિક વદ્દ ૧૨  
રવિવાર, તા.૦ ૧૭-૧૧-૬૮

સુ.નિ. પુ. ખ્ય. વિ. જ. ચ  
દલસુખ માલવણીયા  
અમૃતલાલ મો.૦ લોજક



# EDITORS' NOTE,

## DESCRIPTION OF MANUSCRIPTS

We have utilized nine mss. in preparing the critical edition of the *Prajñāpanāsūtra*. Out of them the three bearing signs ખો, જો and ધો are palm-leaf mss. and the five bearing signs મો (or વીં), પો, પુ૱, પુર્ણ and પુરુષ are paper mss. And the sign સુ૦ refers to the printed model. Now let us describe them one by one.

**ખો—**This palm-leaf ms. is preserved in the Sāntinātha Jaina Jñāna Bhandāra, Cambay. It is numbered 17 in the Catalogue of this Bhandāra, published by Oriental Institute Baroda. It contains 161 folios. Its size is 32 2" x 2.5". The script is beautiful and condition good. Though it has no colophon, we can infer from the script that it belongs to the fourth quarter of the 14th Cent V. S.

**જો—**This is a palm-leaf ms. of the Jaina Jñāna Bhandāra, Jesalmer, established by Ācārya Śrī Jinabhadrasūri of Kharatara Gaccha. In the catalogue it is listed under No. 27. It has 170 folios. The script is excellent and condition good. Its size is 32 $\frac{1}{2}$ " x 2 $\frac{1}{2}$ ". It has been written in 1389 V. S. There is no other data at the end of the ms. except the mention of the year in which it has been written. It has no colophon.

**ધો—**This ms. too belongs to the above-mentioned Bhandāra of Jesalmer. In the catalogue it is listed under No. 29. Folios 1 to 333 contain only the text of the *Prajñāpanāsūtra* and folios 334 to 350 contain the *Prajñāpanāsūtrapradeśavyākhyā* by Āc. Haribhadrasūri. The script is beautiful and condition good. Fourteen folios (Nos 7, 11, 15, 19, 56, 247–249, 253, 254, 261–263 and 291) are missing. The size is 32 $\frac{1}{2}$ " x 2 $\frac{1}{4}$ ". The colophon reads as follows :

*Samvat 1489 varse mārga૦ sudી 10 some prajñāpanāsūtrapradeśavyākhyā likhāpitā Sā. Balirājena ||chall|| śrīmat kharatara gacche Śrī Jinabhadrasūriśvarānām bhāṇḍāgāre||*

In the Bhandāra of Jesalmer the number of the mss. got copied by Parikha Dharanāśāha and Sā. Balirāja-Udayarāja is very large. Under the vague impression that this ms. might have been got copied by Dharaṇāśāha, we gave ધો sign to it. Had we remembered, in the beginning, that the ms. is got copied by Balirāja, we would have given it sign શો instead of ધો.

---

1. English translation of 'Sampādakīya' written in Gujarati.

**म० (or वी०)**—This ms. belongs to Śrī Mahimābhakti Jaina Jñāna Bhandāra, Bikaner. It has been written in 17th cent. V. S. At one or two places we have referred to it by वी० sign also.

**प्र०**—This ms. belongs to Pravartaka Śrīmat Kantivijayaji Collection, one of the several collections preserved in Śrī Ātmārāmajī Jaina Jñāna Mandir, Baroda. It is numbered 1164 in the list. In the margin of each and every folio, Ac. Śrī Malayagiri's abridged commentary on the *Prajñāpanāsūtra* has been given in order to know or let others know succinctly the meaning of the basic text. It has 215 folios, 13 lines per side, and 42 to 47 letters per line. It has been corrected by some scholar. The script is beautiful and condition good. The size is  $9\frac{3}{4}'' \times 4\frac{1}{4}''$ . There is no colophon at the end of the basic text while there is one at the end of the abridged commentary. It runs as follows :

Śrī Malayagiriviracitā tīkā kīmcit sanksipyā likhitā | vā | narendrena | Śrīh | Samvat 1776 Phālguna Vadi 12.

**पृ १**—This ms. belongs to Muni Shri Punyavijayaji's Collection, one of several collections preserved in Shri Lalbhai Dalpatbhai Bharatiya Sanskriti Vidyamandir, Ahmedabad. In the catalogue it is listed under No 6695. Some reader has compared this ms. with the one belonging to a different group and added readings. Not only that but he has written short notes here and there. It has 200 folios, 13 lines per side and 50 letters per line. The script is excellent and condition good. The size is  $10\frac{1}{2}'' \times 4\frac{1}{4}''$ . At the end there is a colophon of the copyist. It is as follows

Samvat 1611 varse jesta (jyestha) śudī 7 some | adyeha śripattana-vāstavyah śrīśrīmālajñātiya | sugamdhikucham (kutum) be | sugamdhī Nāthāsuta śresti (sthī) Hāmsābhāryā suśrāvīkā Hāmsalade | putra 4 śra (śre०) Haricanda | Se० Sīvā | Se० Meghā | Se० Sighū | samastakuta (u) mbayutaih Se० sīvākena | śripūrnimāpakse pradhānāśākhāyām | Bha० Śrībhuvanaprabhasūri tatpatte Bha० Śrīśrīkamalaprabhasūri tatpatte Bha० śrī 5 Punyaprabhasūriśvarānām upadeśena | śripannavanāupāngasūtra lisā(khā)pya svagurubhyah pradattam | vācyamānam ciram jīyāt | bhadram bhavatu śrīr astu | śubham bhūyāt | cha |

**पृ २**—This ms also belongs to the above mentioned collection of Muni Shri Punyavijayaji. In the catalogue it is numbered 6709. Some enthusiastic and studious scholar has corrected it and at times written notes here and there. It has 346 folios. No. 212 has been given to two different folios. Hence really speaking it contains 347 folios. Each side of a folio has 11 lines and each line has 32 to 38 letters. Its script is beautiful and condition good. Its size is  $10\cdot 4'' \times 4\ 2''$ . At the end there is no colophon by the copyist. But

on the basis of the script, size, etc. we can infer that it should have been written in the 17th Cent. V. S.

**४**—This ms. also belongs to the above mentioned collection of Munī Shri Punyavijayaji. In the catalogue it is listed under No. 7250. It has 146 folios, 15 lines per side of a folio and 52 to 58 letters per line. Its condition is good and script beautiful. Its size is 12" x 4½ 2". The colophon of the copyist is as follows :

yādrśam pustake drstam | tādrśam lisi(likhī) tam mayā | yadi  
śuddham aśuddham vā | mama doso na dīyate || 1 || bhagnapusti(prsthī)-  
katigrīvā(vam) | baddhadrstir adhomukham | kastena lisi(likhī) tam  
śāstram | yatnena paripālayet || 2 || tailarāsyā(tailād rakset) jalām  
(jalād) rakse[t] | rasye(rakset) śratha(sīthī) labandhanam(nāt) |  
yasya kasya na dātavyam(vyā) | evam vadati pustikā || 3 || yāvat(d)  
lavanasamudrau(dro) | tā(yā)vat(d) naksatramamditō meru[h] |  
yāvat(d) bhāskaracandrau tāvad ayam pustako jayatu || 4 || samvat  
1565 samvatsara(re) pravartamāne dakṣa(ksī)nāyane śaradrtau  
bhādrapadamāse krsnapakse catuthyāyām(rthyām) tīthau ravivāsare  
śrīanahillapurapattane lisā(likhā) pitam || cha || śrī || cha || śubham  
bhavatu || kalyānam bhūyāt || cha || śrīḥ || śrīśrīmālajñātīya śresti(sthi)  
harasā(rakhā) bhidhena prajñāpanopāṅgasūtram lisā(likhā) pya svapu-  
nyārtham paropakārāya ca śrīpūrnimāpakse pradhānaśākhāyām  
śrībhuvanaprabhasūrinām pradattam ciram nandyāt || cha || śrīḥ śubham  
bhavatu || śrīsanghasya || lekhakapāthakayoh ciram jīva ||

**५**—This is the printed edition critically prepared by Āgamoddhāraka Shri Sāgarānandasūrijī and published in 1974-75 V. S. by Āgamodaya Samiti, Surat. This edition contains the *Prajñāpanāsūtra* along with the commentary by Ac. Shri Malayagiri

No ms. of the *Prajñāpanāsūtra*, that we have seen so far in various ancient bhandāras is older than the two जे० and ख० that have been utilised by us in the preparation of the present edition.

\*

## ABOUT THE PRESENT EDITION

The first part of the *Prajñāpanāsūtra* contains the complete text of the *Sūtra*. Appendices to the text will be given in the second part. And hence their description too will appear in the 'Editors' Note' to that part.

For an account of the critical method we have adopted for editing the Āgamas, readers are requested to refer to the 'Editor's Note' (pp 88-95) to the *Nandisutta* and *Anuyogaddārāim* printed by Shri Mahavira Jaina Vidyalaya, Bombay.

At the end of this part one will find a list of corrections (śuddhipatraka). We request the scholars to read the text after having corrected it according to this list.

The discussion about places in old mss., where the important readings printed so far are found, is included in the 'Editors' Note' to the second part. There we have discussed a few readings of the *Prajñāpanāsūtra*, which have been changed by Munivara Shri Pushpabhikshu in his *Suttāgame*.

In the first volume, the *Nandisutta* and *Anuogaddāraim*, we have given the *Nandisūtravīśesa* (Editor's Note pp. 123-26).

But due to following reasons we have given up the idea of preparing *Prajñāpanāsūtravīśesa*. First, the Jaina Āgama literature is full of passages similar to those found in the *Prajñāpanāsūtra*. Secondly, the work would have become too lengthy to handle and finish if we had noted down all those passages. Thirdly, it would have created a problem for us, because we were required to complete the work within a certain period of time. Time is really a factor which one cannot ignore. Hence, we request the scholars, who are interested in noting down such passages, to refer to various Āgamic texts and to consult the experts in Āgama learning.

The description of the *Prajñāpanāsūtra*, an account of the cultural data gathered from the *Sūtra*, etc. will be included in the introduction to the second part.

## ACKNOWLEDGEMENTS

We are really thankful to the members of the managing boards of the Jñāna Bhandāras, for, they have, without any hesitation, allowed us to utilise the mss. belonging to their Bhandāras and also to keep them with us for a considerably long period of time.

We are grateful to Jināgamavācanapravīna Munivarya Shri Jayaghoshavijayaji who read the printed forms and made valuable suggestions at various places.

We are failing in our duty if we do not gratefully remember Munirāja Shri Jambuvijayaji, a great scholar of Indian philosophy, and Pt Becharandasji Doshi who are always ready to help us in whatever editing work we undertake.

Our sincere thanks are due to Shri Chandulal Vardhaman Shah, Shri Jayantilal Ratanchand Shah, Shri Balchand Gandalal Doshi and members of the Āgama Publication Committee of Shri Mahavira Jaina Vidyalaya, who, on realising the value and

importance of this and such other publications, have extended their kind co-operation for such a long period of time with undisturbed patience and perseverance.

Shri Ratilal Dipchand Desai (Joint Secretary to the Āgama Publication Dept., Mahavira Jaina Vidyalaya) is always anxious as well as worried about the successful completion of the task of preparing critical edition of all the Āgamas. He has greatly accelerated the publication work and helped us in matters related to excellent printing. He deserves thanks and praise not only from us but from all those who have interest in the publication of the Āgamas.

Shri Kantilal Dhyabhai Kora (Registrar, Shri Mahavira Jaina Vidyalaya) has taken personal interest in matters related to the Press. He has greatly facilitated our work by making all the necessary arrangements with the Press. His hard labour deserves appreciation from us and from all those who have interest in the publication of the Āgamas.

We are grateful to Dr Nagin J Shah, the Acting Director of L. D. Institute of Indology, who has been kind enough to prepare this 'Editors' Note'—an English translation of 'Sampādakīya' of this part

We cannot forget Shastry Shri Harishankarbhai Ambaram Pandya who has prepared the appendices to be included in the second part.

Shri V. P. Bhagvat, the manager of the famous Mouj Printing Bureau, Bombay, has left upon us an everlasting impression by providing us with various printing facilities. We hope that he will continue to be helpful to us in future too.

Again, we express our deep sense of gratitude towards all those who have extended their kind co-operation in our task of Āgama Publication. We hope that their co-operation will continue with unstinted vigour.

Baroda,  
Kartika Vadi 12  
2025 V. S  
Sunday, 17-11-'68

Muni Punyavijaya  
Dalsukh Malvania  
Amritlal M. Bhojak

## सङ्केतसूचिः

अध्य० – अध्ययनम्

उ० – उद्देशकः

ख० – ख० संज्ञकः प्रज्ञापनासूत्रादर्शः

जीटी० – जीवाभिगमसूत्रटीका

जे० – जे० संज्ञकः प्रज्ञापनासूत्रादर्शः

ध० – ध० संज्ञकः „

पु१ – पु१ संज्ञकः „

पु२ – पु२ संज्ञकः „

पु२ सं० – पु२ संज्ञके आदर्शे संशोधितः पाठः

पु३ – पु३ संज्ञकः प्रज्ञापनासूत्रादर्शः

प्र० – प्र० संज्ञकः „

प्रदे०

प्रदेशव्याख्या } – श्रीहरिमद्सूरिकृतप्रज्ञापनासूत्रप्रदेशव्याख्या

ह०

म० } – म० अयवा वी० संज्ञकः प्रज्ञापनासूत्रादर्शः  
वी० }

मल्य०

मल्यटीका

मल्यवृत्ति

मल्यव्याख्या

मु० – मु० संज्ञकः प्रज्ञापनासूत्रादर्शः

सू० – सूत्रम्

} – श्रीमल्यगिरिसूरिकृतप्रज्ञापनासूत्रवृत्तिः

# प्रज्ञापनासूत्रस्य विषयानुक्रमः

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१ - १४७.	प्रथमं प्रज्ञापनापदम्	३ - ४५
१.	मङ्गलमभिधेयं च	३
२ - ३.	प्रज्ञापनासूत्रस्य षट्क्रिंशत्पदानां नामानि प्रज्ञापनापदोप- क्रमश्च	४
४ - १३.	अजीवप्रज्ञापना	४ - १२
५.	अरूप्यजीवप्रज्ञापना	४
६ - १३.	रूप्यजीवप्रज्ञापना	४ - १२
१४ - १४७.	जीवप्रज्ञापना	१२ - ४५
१५ - १७.	असंसारसमापनजीवप्रज्ञापना	१२
१८ - १४७.	संसारसमापनजीवप्रज्ञापना	१२ - ४५
१९ - ५५.	एकेन्द्रियजीवप्रज्ञापना	१३ - २७
१९.	एकेन्द्रियजीवानां भेदाः	१३
२० - २५.	१. पृथ्वीकायिकजीवप्रज्ञापना	१३ - १४
२०.	पृथ्वीकायिकानां सूक्ष्म-बादरेति भेदद्वयम्	१३
२१.	सूक्ष्मपृथ्वीकायिकानां पर्यासकापर्यासकेति भेदद्वयम्	१३
२२.	बादरपृथ्वीकायिकानां श्लक्षण-खरेति भेदद्वयम्	१३
२३.	श्लक्षणबादरपृथ्वीकायिकानां कृष्णमृत्तिकादयः सस भेदाः	१३
२४.	खरबादरपृथ्वीकायिकानां पृथ्वी-शर्करादयश्चत्वारिशास्त्रेदाः	१३ - १४
२५.	पृथ्वीकायिकानां पर्यासकापर्यासक-योन्यादिभेदनिरूपणम्	१४
२६ - २८.	२. अप्कायिकजीवप्रज्ञापना	१४ - १५
२६.	अप्कायिकानां सूक्ष्म-बादरेति भेदद्वयम्	१४
२७.	सूक्ष्माप्कायिकानां पर्यासकापर्यासकेति भेदद्वयम्	१४
२८.	बादराप्कायिकानां अवश्याय-हिमादयो भेदाः, पर्यासका- पर्यासक-योन्यादिभेदनिरूपणं च	१४ - १५
२९ - ३१.	३. तेजस्कायिकजीवप्रज्ञापना	१५
२९.	तेजस्कायिकानां सूक्ष्म-बादरेति भेदद्वयम्	१५
३०.	सूक्ष्मतेजस्कायिकानां पर्यासकापर्यासकेति भेदद्वयम्	१५
३१.	बादरतेजस्कायिकानामङ्गर-ज्वालादयो भेदाः, पर्यासकापर्या- सकयोन्यादिभेदनिरूपणं च	१५
३२ - ३४.	४. वायुकायिकजीवप्रज्ञापना	१५ - १६
३२.	वायुकायिकानां सूक्ष्म-बादरेति भेदद्वयम्	१५
३३.	सूक्ष्मवायुकायिकानां पर्यासकापर्यासकेति भेदद्वयम्	१६
३४.	बादरवायुकायिकानां प्राचीनवात्-प्रतीचीनवातादय एकोन- विशतिर्भेदाः, पर्यासकापर्यासक-योन्यादिभेदनिरूपणं च	१६

# प्रक्षापनासूत्रस्य विषयानुक्रमः

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठांकः
३५—५४.	५. वनस्पतिकायजीवप्रज्ञापना	१६—२५
३५.	वनस्पतिकायिकानां सूक्ष्म-वादरेति भेदद्वयम्	१६
३६.	सूक्ष्मवनस्पतिकायिकानां पर्यासकापर्यासकेति भेदद्वयम्	१६
३७.	वादरवनस्पतिकायिकानां प्रत्येकशरीर-साधारणशरीरेति भेदद्वयम्	१६
३८.	प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिकानां वृक्ष-गुच्छ-गुलमादयो द्वादश भेदाः	१६—१७
३९.	वृक्षाणामेकास्थिक-वहुवीजकेति भेदद्वयम्	१७
४०.	एकास्थिकवृक्षाणां निम्बाम्र-जम्बु-कोसम्बादिनामकदम्बकम्, मूल-कन्द-स्कन्ध-पत्रादिगवजीवसङ्ख्याप्रमाणं च	१७
४१.	वहुवीजकवृक्षाणामस्थिक-तिन्दु-कपित्यादिनामकदम्बकम्, मूल-कन्द-स्कन्ध-पत्रादिगतजीवसङ्ख्याप्रमाणं च	१७—१८
४२.	गुच्छानां वृन्ताकी-सल्लक्षी-त्रोणडक्यादिनामकदम्बकम्	१८
४३.	गुलमानां सेरियम(दे०)-नवमालिकादिनामकदम्बकम्	१८
४४.	लतानां पञ्चलता-नागलतादीनि दशा नामानि	१९
४५.	बलीनां पुष्पफली-कालिङ्गी-तुम्ब्यादिनामकदम्बकम्	१९
४६.	पर्वगाणामिक्षु-हक्षुवाटी-वीरणादिनामकदम्बकम्	१९
४७.	तृणानां सेदिय(दे०)-भत्तिय(दे०)-होत्रिकादिनामकदम्बकम्	२०
४८.	वलयानां ताल-तमाल-तक्कलि(दे०)आदिनामकदम्बकम्	२०
४९.	हरितानां अज्जोरुह(दे०)-बोडाण(दे०)-हरितकादिनाम-कदम्बकम्	२०
५०.	औषधीनां शालि-वीहि-गोधूमादीनि पञ्चविंशतिर्णामानि	२०—२१
५१.	जलसुहाणामुदक-अवक-पनकादिनामकदम्बकम्	२१
५२.	कुहनानां आब(दे०)-काय(दे०)-कुहण(दे०)आदिनाम-कदम्बकम्	२१
५३.	प्रत्येकशरीरवादरवनस्पतिकायिकलक्षणम्	२१
५४.	साधारणशरीर(अनन्तकाय)वादरवनस्पतिकायिकानां ना-मानि, मूल-कन्द-स्कन्ध-त्वचा-शाखा-प्रवाल-पत्र-पुष्प-फल-वीजादीनां साधारणशरीर-प्रत्येकशरीरत्वलक्षणानि	२१—२६
५५.	वनस्पतिकायिकानां पर्यासकापर्यासक-योन्यादिभेदनिरूप-णम्, प्रत्येक-साधारणवनस्पतिकायिकानां भेदविशेषनिरूपणं च	२६
५६.	द्वीन्द्रियजीवप्रज्ञापना	
५७.	द्वीन्द्रियजीवानां पुलाकिमिय(दे०)-कुक्षिकृमिकादिनामकद-म्बकम्, पर्यासकापर्यासक-जातिकुलकोटि-योन्यादिनिरूपणं च श्रीन्द्रियजीवप्रज्ञापना	२७
	श्रीन्द्रियजीवानामवपतिक-रोहिणीकादिनामकदम्बकम्, पर्यासकापर्यासक-जातिकुलकोटि-योन्यादिनिरूपणं च	२७—२८

सूत्राङ्कः

विषयः

पृष्ठाङ्कः

५८.	चतुरिन्द्रियजीवप्रज्ञापना चतुरिन्द्रियजीवानां अंधिय(दे०)-णेत्तिय(दे०)आदिनाम- कदम्बकम्, पर्यासकापर्यासक-जातिकुलकोटि-योन्यादिनिरू- पणं च	२८
५९-१४७.	पञ्चेन्द्रियजीवप्रज्ञापना	२९-४५
५९.	पञ्चेन्द्रियाणां नारकादिभेदचतुष्कम्	२९
६०.	नैरयिकजीवप्रज्ञापना नैरयिकाणां सप्त भेदाः	२९
६१-९१.	पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकजीवप्रज्ञापना	२९
६१.	पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां जलचराद्यस्थयो भेदाः	२९
६२.	जलचरतिरश्चां मत्स्य-कच्छपादिभेदपञ्चकम्	२९
६३.	मत्स्यानां शुक्लेनमत्स्य-खबलमत्स्यादिनामकदम्बकम्	२९-३०
६४.	कच्छपानामस्थिकच्छप-मांसकच्छपेति भेदद्वयम्	३०
६५.	ग्राहाणां दिली(दे०)-वेढल(दे०)आदि भेदपञ्चकम्	३०
६६.	मकराणां शौण्डमकर-मृष्टमकरेति भेदद्वयम्	३०
६७.	सुंसुमाराणामेकाकारप्ररूपणम्	३०
६८.	जलचरतिरश्चां सम्मूर्च्छिम-गर्भव्युत्कान्तिकेति भेदद्वयम्, पर्यासकापर्यासक-जातिकुलकोटि-योन्यादिनिरूपणं च	३०
६९.	स्थलचरतिरश्चां चतुष्पद-परिसर्पेति भेदद्वयम्	३०
७०.	चतुष्पदानामेकक्षुर-द्विक्षुरादि भेदचतुष्कम्	३०
७१.	एकक्षुराणामश्वाश्वतरादिनामकदम्बकम्	३०
७२.	द्विक्षुराणामुष्ट-गो-नावयादिनामकदम्बकम्	३१
७३.	गण्डीपदानां हस्ति-पूयण्य(दे०)आदिनामकदम्बकम्	३१
७४.	सनखपदानां सिंह-न्याघ्रादिनामकदम्बकम्	३१
७५.	स्थलचरतिरश्चां सम्मूर्च्छिम-गर्भव्युत्कान्तिकेति भेदद्वयम्, पर्यासकापर्यासक-जातिकुलकोटि-योन्यादिनिरूपणं च	३१
७६.	परिसर्पतिरश्चामुरःपरिसर्प-भुजपरिसर्पेति भेदद्वयम्	३१
७७.	उरःपरिसर्पाणामहि-अजगरादि भेदचतुष्कम्	३१
७८.	अहीनां दर्वीकर-मुकुलिङ्गिति भेदद्वयम्	३१
७९.	दर्वीकराणामाशीविष-दृष्टिविषादिनामकदम्बकम्	३२
८०.	मुकुलिनां दिव्याक-गोनसादिनामकदम्बकम्	३२
८१.	अजगराणामेकाकारनिरूपणम्	३२
८२.	आसालिकानामुत्पत्तिस्थाननिरूपणम्	३२
८३.	महोरगाणां भेदा उत्पत्तिस्थानानि च	३२ - ३३
८४.	उरःपरिसर्पाणां सम्मूर्च्छ-मगर्भव्युत्कान्तिकेति भेदद्वयम्, पर्यासकापर्यासक-जातिकुलकोटि-योन्यादिनिरूपणं च	३३

सूचकः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
८५.	भुजपरिसर्पणां नकुल-गोधादिनामकद्वयकम्, समूर्च्छिम- -गर्भव्युत्कान्तिकेति भेदद्वयम्, पर्यासकापर्यासक-जातिकुल- कोटि-योन्यादिनिरूपणं च	३३
८६.	खेचरतिरश्चां चर्मपक्षिन्लोमपक्ष्यादि भेदचतुष्यम्	३२
८७.	चर्मपक्षिणां वल्गुली-जलौकोऽटिलादिनामकद्वयकम्	३३ - ३४
८८.	लोमपक्षिणां ढंक(द०) कक्षादिनामकद्वयकम्	३४
८९ - ९०.	समुद्रकपक्षि-विततपक्षिनिरूपणम्	३४
९१.	खेचरतिरश्चां समूर्च्छिम-गर्भव्युत्कान्तिकेति भेदद्वयम्, पर्यासकापर्यासक-जातिकुलकोटि-योन्यादिनिरूपणं च	३४
९२ - १३८.	मनुष्यजीवप्रज्ञापना	३४ - ४४
९२.	मनुष्याणां समूर्च्छिम-गर्भव्युत्कान्तिकेति भेदद्वयम्	३४
९३.	समूर्च्छिममनुष्याणामुत्पत्तिस्थानानि	३५
९४.	गर्भव्युत्कान्तिकमनुष्याणां कर्मभूमकादि भेदद्वयम्	३५
९५.	अन्तर्दीर्घजमनुष्याणामेकोरुकाढीन्यष्टाविंशतिनामानि	३५
९६.	अकर्मभूमकमनुष्याणां त्रिशङ्केदाः	३५
९७ - १३८.	कर्मभूमकमनुष्यप्रज्ञापना	३५ - ४४
९७.	कर्मभूमकमनुष्याणां पञ्चदश भेदाः, आर्य-म्लेच्छभेदद्वयं च	३५
९८.	म्लेच्छानां शक-यवनादिभेदनिरूपणम्	३६
९९.	आर्याणां प्राप्तद्वयार्याप्राप्तद्वयार्येति भेदद्वयम्	३६
१००.	प्राप्तद्वयार्याणां मर्हचक्रवर्त्याद्यः पद् भेदाः	३६
१०१.	अप्राप्तद्वयार्याणां क्षेत्रार्य-जात्यार्याद्यो नव भेदाः	३६ - ३७
१०२.	क्षेत्रार्यवक्तव्यतायां सार्वपञ्चविंशतिदेशनामानि, तत्तदेशराज- धानीनामानि च	३७
१०३.	अस्वष्टकलिन्दाद्यो जात्यार्यभेदाः	३७ - ३८
१०४.	उग्र-भोगाद्यो कुलार्यभेदाः	३८
१०५.	दौष्टिक-सौन्त्रिकाद्यः सप्त कर्मार्यभेदाः	३८
१०६.	शिलपार्याणां तुन्नाग-तन्तुवायाद्य एकोनविंशतिर्भेदाः	३८
१०७.	भापार्यवक्तव्यतायां ब्राह्मी-यवनालिकाद्यष्टादशविधलिपि- नामानि	३८
१०८.	आभिनिवोधिकज्ञानार्याद्यः पञ्च ज्ञानार्यभेदाः	३८
१०९ - १९.	दर्शनार्यवक्तव्यता	३८ - ४१
१०९.	दर्शनार्याणां सरागदर्शनार्य-वीतरागदर्शनार्येति भेदद्वयम्	३८
११०.	सरागदर्शनार्याणां निसर्गरूच्युपदेशस्याद्यो दश प्रकाराः, तेषां विस्तरतः स्वरूपं च	३९ - ४०
१११ - १९.	वीतरागदर्शनार्याणां भेद-प्रभेदाः	४० - ४१
१२० - ३८.	चारित्रार्यवक्तव्यता	४१ - ४४
१२०.	चारित्रार्याणां सरागचारित्रार्य-वीतरागचारित्रार्येति भेदद्वयम्	४१

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
		४१
१२१ – २३.	सरागचारित्रार्थाणां भेद-प्रभेदाः	४१
१२४ – ३२.	वीतरागचारित्रार्थाणां भेद-प्रभेदाः	४२
१३३ – ३८.	प्रकारान्तरेण चारित्रार्थाणां सामायिकचारित्रार्थादयः पञ्च भेदाः, तेषां प्रभेदाश्च	४३ – ४४
१३९ – ४७.	देवजीवप्रज्ञापना चतुर्निकायदेवानां भेद-प्रभेद-नामादिनिरूपणम्	४४ – ४५
<b>१४८ – २११.</b>	<b>द्वितीयं स्थानपदम्</b>	<b>४६ – ८०</b>
१४८ – ५०.	पृथ्वीकायस्थानानि	४६
१५१ – ५३.	अक्षकायस्थानानि	४६ – ४७
१५४ – ५६.	तेजस्कायस्थानानि	४७
१५७ – ५९.	वायुकायस्थानानि	४८
१६० – ६२.	वनस्पतिकायस्थानानि	४८ – ४९
१६३.	द्वीन्द्रियस्थानानि	४९
१६४.	श्रीन्द्रियस्थानानि	४९
१६५.	चतुरिन्द्रियस्थानानि	४९ – ५०
१६६.	पञ्चेन्द्रियस्थानानि	५०
१६७ – ७४.	नैरयिकस्थानानि  सप्तविधानां नारकाणां नरकावासानां च वर्णनम्	५० – ५५
१७५.	पञ्चेन्द्रियतिर्थग्योनिकस्थानानि	५५
१७६.	मनुष्यस्थानानि	५५
१७७ – ८७.	भवनवासिदेवस्थानानि  दशविधानां भवनवासिनां तद्वनानां च वर्णनम्	५५ – ६३
१८८ – १४.	वानव्यन्तरदेवस्थानानि  अष्टविधानां वानव्यन्तराणां तन्नगरावासानां च वर्णनम्	६४ – ६७
१९५.	ज्योतिष्कदेवस्थानानि  ज्योतिष्कदेवानां तद्विमानानां च वर्णनम्	६७ – ६८
१९६ – २१०.	वैमानिकदेवस्थानानि  द्वादशकल्पस्थित-ग्रैवेयकानुत्तरोपपातिकदेवानां तद्विमानानां च वर्णनम्	६८ – ७७
२११.	सिद्धस्थानानि  ईष्टाग्नभारपृथ्वीवर्णनम्, सिद्धजीवानामवगाहना-सुखादि- वर्णनं च	७७ – ८०
<b>२१२ – २३४.</b>	<b>तृतीयं बहुवक्तव्यपदम्</b>	<b>८१ – १११</b>
२१२.	दिग्ग-गत्यादीनि सप्तविंशतिद्वारा राणि	८१
२१३ – २४.	प्रथमं दिग्द्वारम्	

सूत्राङ्कः

	विषयः	पृष्ठाङ्कः
	चतुर्विंशतिदण्डकानां सिद्धानां च दिग्नुपातेनाल्पबहुत्वम्	८१ - ८४
२२५ - २६.	द्वितीयं गतिद्वारम् चतुर्गतिकानां जीवानां सिद्धानां चाल्पबहुत्वम्	८४
२२७ - ३१.	तृतीयमिन्द्रियद्वारम् सभेदानां सेन्द्रियाणामनिन्द्रियाणां च जीवानां विस्तरतोऽल्पबहुत्वम्	८४ - ८६
२३२ - ५१.	चतुर्थं कायद्वारम् सभेदानां सकायिकानामकायिकानां च जीवानां विस्तरतोऽल्पबहुत्वम्	८६ - ९६
२५२.	पञ्चमं योगद्वारम् सभेदानां सयोगिनामयोगिनां च जीवानामल्पबहुत्वम्	९६
२५३.	षष्ठं वेदद्वारम् सभेदानां सवेदानामवेदानां च जीवानामल्पबहुत्वम्	९६
२५४.	सप्तमं कपायद्वारम् सभेदानां सकपायिणामकपायिणां च जीवानामल्पबहुत्वम्	९६ - ९७
२५५.	अष्टमं लेघ्याद्वारम् सभेदानां सलेघ्यानामलेघ्यानां च जीवानामल्पबहुत्वम्	९७
२५६.	नवमं सम्यक्त्वद्वारम् सम्यग्दृष्टि-सिद्ध्यादृष्टि-सम्यग्मिद्ध्यादृष्टीनां जीवानामल्पबहुत्वम्	९७
२५७ - ५९.	दशमं ज्ञानद्वारम् आभिनिवोधिकादिपञ्चज्ञानिनां त्रिविधाज्ञानिनां च जीवानामल्पबहुत्वम्	९७ - ९८
२६०.	एकादशं दर्शनद्वारम् चतुर्विधदर्शनिनां जीवानामल्पबहुत्वम्	९८
२६१.	द्वादशं संयतद्वारम् संयत-असंयत-संयतासंयत-नोसंयतनोअसंयतानां जीवानामल्पबहुत्वम्	९८
२६२.	त्रयोदशं सुपयोगद्वारम् साकारोपयुक्तानामनाकारोपयुक्तानां च जीवानामल्पबहुत्वम्	९८
२६३.	चतुर्दशं माहारद्वारम् आहारकाणामनाहारकाणां च जीवानामल्पबहुत्वम्	९८
२६४.	पञ्चदशं भाषकद्वारम् भाषकाणामभाषकाणां च जीवानामल्पबहुत्वम्	९८ - ९९
२६५.	पोडशं परीक्षद्वारम् परीक्ष-अपरीक्ष-नोपरीक्षनोलपरीक्षानां जीवानामल्पबहुत्वम्	९९

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
२६६.	सप्तदशं पर्याप्तद्वारम्	
	पर्याप्त-अपर्याप्त-नोपर्याप्तनोअपर्याप्तानां जीवानामल्पबहुत्वम्	११
२६७.	अष्टादशं सूक्ष्मद्वारम्	
	सूक्ष्म-त्रादर्श-नोसूक्ष्मनोवादराणां जीवानामल्पबहुत्वम्	११
२६८.	एकोनविंशं संज्ञिद्वारम्	
	संज्ञि-असंज्ञि-नोअसंज्ञिनो जीवानामल्पबहुत्वम्	११
२६९.	विंशं भवद्वारम्	
	भवसिद्धिक-अभवसिद्धिक-नोभवसिद्धिकनोअभवसिद्धिका- नां जीवानामल्पबहुत्वम्	११
२७० - ७३.	एकविंशमस्तिकायद्वारम्	
	धर्मस्तिकायाधर्मस्तिकायाकाशास्तिकाय-जीवास्तिकाय- -पुद्गलस्तिकायाद्वासमयानां द्रव्यार्थता-प्रदेशार्थतादिना विस्तरतोऽल्पबहुत्वम्	१०० - १
२७४.	द्वाविंशं चरमद्वारम्	
	चरमाणामचरमाणां च जीवानामल्पबहुत्वम्	१०१
२७५.	त्रयोविंशं जीवद्वारम्	
	जीव-पुद्गल-अद्वासमय-सर्वद्रव्य-सर्वप्रदेश-सर्वपर्यवाणा- मल्पबहुत्वम्	१०१
२७६ - ३२४.	चतुर्विंशं क्षेत्रद्वारम्	
	जीवानां चतुर्विंशतिदण्डकानां च क्षेत्रानुपातेनाल्पबहुत्वम्	१०१ - ७
३२५	पञ्चविंशं वन्धद्वारम्	
	आयुःकर्मवन्धकानां पर्याप्तापर्याप्त-सुप्त-जागर-समवहतादीनां जीवानामल्पबहुत्वम्	१०७
३२६ - ३३.	षष्ठिंशं पुद्गलद्वारम्	
	३२६ - २९. पुद्गलानां द्रव्याणां च क्षेत्र-दिग्नुपातेनाल्पब- हुत्वम्, ३३० - ३३०. सञ्चयेयप्रदेशकादीनामेकप्रदेशाव- गादादीनामेकसमयस्थितिकादीनामेकगुणकालकादीनां च पुद्गलानां द्रव्यार्थता-प्रदेशार्थतादिना विस्तरतोऽल्प- बहुत्वम्	१०७ - ९
३३४.	सप्तविंशं सर्वजीवाल्पबहुत्वप्ररूपकं महादण्डकद्वारम्	१०९ - ११
३३५ - ४३७.	चतुर्थं स्थितिपदम्	११२ - ३५
३३५ - ४२.	नैरयिकस्थितिप्रज्ञापना	११२ - १४
३४३ - ४४.	देव-देवीस्थितिप्रज्ञापना	११४
३४५ - ५३.	भवनवासिदेवस्थितिप्रज्ञापना	११४ - १६
३५४ - ६८.	एकेन्द्रियजीवस्थितिप्रज्ञापना	११६ - १९
३६९.	द्वीन्द्रियजीवस्थितिप्रज्ञापना	११९

सूत्राङ्कः

विषयः

ग्रन्थाङ्कः

६६६ - ७६. पष्टमुद्वर्तनाद्वारम् चतुर्विंशतिदण्डकेषु गत्यन्तरगमनवक्तव्यता	१७८ - ८१
६७६ - ८३. सप्तमं परभवायुप्कद्वारम् चतुर्विंशतिदण्डकेषु परभवायुर्वन्धकालवक्तव्यता	१८१ - ८२
६८४ - ९२. अष्टमाकर्पद्वारम् चतुर्विंशतिदण्डकेषु जातिनामनिधत्तायुप्कादिपद्विधायुर्वन्ध- निरूपणम्, तदाकर्षाः, अल्पबहुत्वं च	१८२ - ८३
<b>६९३ - ७२४. सप्तममुच्छ्वासपदम्</b>	<b>१८४ - ८७</b>
६९३. नैरयिकाणामुच्छ्वासविरहकालनिरूपणम्	१८४
६९४ - ९६. भवनवासिनामुच्छ्वासविरहकालनिरूपणम्	१८४
६९७ - ९८. एकेन्द्रियारवधानां मनुष्यावसानानामुच्छ्वासविरहकाल- निरूपणम्	१८४
६९९. वानव्यन्तराणामुच्छ्वासविरहकालनिरूपणम्	१८४
७००. ज्योतिष्काणामुच्छ्वासविरहकालनिरूपणम्	१८४
७०१ - २४. वैमानिकानामुच्छ्वासविरहकालनिरूपणम्	१८४ - ८७
<b>७२५ - ३७. अष्टमं संज्ञापदम्</b>	<b>१८८ - ८९</b>
७२५. संज्ञामेदप्ररूपणम् - दशविधसंज्ञानामानि	१८८
७२६ - २१. चतुर्विंशतिदण्डकेषु दशविधसंज्ञावनिरूपणम्	१८८
७३० - ३१. नैरयिकाणां संज्ञाविचारोऽल्पबहुत्वं च	१८८
७३२ - ३३. तिर्थग्रन्थोनिकानां „ „	१८९
७३४ - ३५. मनुष्याणां „ „	१८९
७३६ - ३७. देवानां „ „	१८९
<b>७३८ - ७२. नवमं योनिपदम्</b>	<b>१९० - १२</b>
७३८. योनेः शीतादिभेदव्ययम्	१९०
७३९ - ५२. चतुर्विंशतिदण्डकेषु शीतादियोनिवक्तव्यता	१९० - ११
७५३. शीतादियोनिकानां जीवानामल्पबहुत्वम्	१९१
७५४ - ६३. प्रकारान्तरेण सचित्तादियोनिभेदव्ययनिरूपणम्	१९१
७५४. योनेः सचित्तादिभेदव्ययम्	१९१
७५५ - ६२. चतुर्विंशतिदण्डकेषु सचित्तादियोनिवक्तव्यता	१९१
७६३. सचित्तादियोनिकानां जीवानामल्पबहुत्वम्	१९१
७६५ - ७२. प्रकारान्तरेण संवृत्तादियोनिभेदव्ययनिरूपणम्	१९१ - १२
७६४. योनेः संवृत्तादिभेदव्ययम्	१९१ - १२
७६७ - ७१. चतुर्विंशतिदण्डकेषु संवृत्तादियोनिवक्तव्यता	१९२

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
७७२.	संवृतादियोनिकानां जीवानामल्पबहुत्वम्	१९२
७७३.	मनुष्येषु कूर्मोन्नता शङ्खावर्ती वंशीपत्रा चेति योने: भेदद्रव्यम्, तत्रोत्पत्तिमतां निरूपणं च	१९२
७७४-८२९. दशमं चरमपदम्		१९३-२०८
७७४ - ७६.	लोकालोकयोश्चरमाचरमविभागः	१९३
७७७ - ८०.	चरमाचरमादिपदानां द्रव्यार्थतादिभिरल्पबहुत्वम्	१९३ - १४
७८१ - ९०.	परमाणुपुद्धलानां चरमाचरमादिभिरभागः	१९४ - २०२
७९१ - ८०१.	संस्थाननामानि, संस्थानापेक्ष्या विभागशः प्रमाण-प्रदेश-अवगाढ-चरमादिवक्तव्यता च	२०२ - ३
८०२ - ६.	संस्थानापेक्ष्या विभागशश्चरमादीनां द्रव्यार्थतादिभिरल्प-बहुत्वम्	२०३ - ५
८०७ - ९.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु गतिचरमाचरमनिरूपणम्	२०५
८१० - ११.	, स्थितिचरमाचरमनिरूपणम्	२०५
८१२ - १३.	, भवचरमाचरमनिरूपणम्	२०५ - ६
८१४ - १५.	, भाषाचरमाचरमनिरूपणम्	२०६
८१६ - १७.	, आनप्राणचरमाचरमनिरूपणम्	२०६
८१८ - १९.	, आहारचरमाचरमनिरूपणम्	२०६
८२० - २१.	, भावचरमाचरमनिरूपणम्	२०६-७
८२२ - २३.	, वर्णचरमाचरमनिरूपणम्	२०७
८२४ - २५.	, गन्धचरमाचरमनिरूपणम्	२०७
८२६ - २७.	, रसचरमाचरमनिरूपणम्	२०७
८२८ - २९.	, स्पर्शचरमाचरमनिरूपणम्	२०८
८३०-९००. एकादशं भाषापदम्		२०९-२२
८३० - ३१.	अवधारणीभाषाप्ररूपणम्	२०९
८३२ - ३८.	प्रज्ञापनीभाषाप्ररूपणम्	२०९ - १०
८३९ - ४८.	मन्दकुमारादिभाषासंज्ञाप्ररूपणम्	२१० - ११
८४९ - ५७.	एकवचनादिभाषाप्ररूपणम्	२११ - १३
८५८ - ५९.	भाषास्वरूपम्	२१३
८६० - ६६.	८६०. पर्यासिका अपर्यासिका चेति भाषाभेदद्रव्यम्,	
	८६१. पर्यासिकाया भाषायाः सत्या-मृषेति भेदद्रव्यम्,	
	८६२. सत्याया भाषाया जनपदसत्याप्रभृतयो दश भेदाः,	
	८६३. मृषाभाषायाः क्रोधनिःसृताप्रभृतयो दश भेदाः,	
	८६४. अपर्यासिकाया भाषायाः सत्यामृषा असत्यामृषा चेति भेदद्रव्यम्,	
	८६५. सत्यामृषाया भाषाया उत्पन्नमित्रिका-प्रभृतयो दश भेदाः,	
	८६६. असत्यामृषाया भाषाया आमन्त्रणीप्रभृतयो द्वादश भेदाः:	
		२१३ - १४

# प्रज्ञापनासूत्रस्य विषयानुक्रमः

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठांकः
८६७—८९.	भाषकाभाषकप्रस्तुपणम्	२१४—१५
८७०—७६.	जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु सत्यादिभाषाजातप्रस्तुपणम्	२१५—१६
८७७—९५.	भाषाद्वयग्रहणादिप्रस्तुपणम्	२१६—२१
८८०—८६.	खण्डभेद-प्रतरभेदादिभिः प्रकारैर्भाषाद्वयभेदनप्रस्तुपणम्	२१७
८९६—९००.	एकवचन-द्विवचनादियोदशविधवचनप्रस्तुपणादि	२२१—२२
९०१—२४.	द्वादशं शरीरपदम्	२२३—२८
९०१.	ओदारिकादिपञ्चविधशरीरनामानि	२२३
९०२—१.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु शरीरप्रस्तुपणा	२२३
९१०.	ओघेन वद्ध-सुक्तशरीरप्रस्तुपणा	२२३—२४
९११.	नैरयिकाणां वद्ध-सुक्तशरीरप्रस्तुपणा	२२४—२५
९१२—१३.	भवनवासिनां वद्ध-सुक्तशरीरप्रस्तुपणा	२२५
९१४—१७.	एकेन्द्रियाणां वद्ध-सुक्तशरीरप्रस्तुपणा	२२५—२६
९१८—१९.	विकल्पेन्द्रियाणां वद्ध-सुक्तशरीरप्रस्तुपणा	२२६—२७
९२०.	पञ्चेन्द्रियतिर्थग्नेनिकानां वद्ध-सुक्तशरीरप्रस्तुपणा	२२७
९२१.	मनुष्याणां वद्ध-सुक्तशरीरप्रस्तुपणा	२२७—२८
९२२.	वानव्यन्तराणां वद्ध-सुक्तशरीरप्रस्तुपणा	२२८
९२३.	ज्योतिष्काणां वद्ध-सुक्तशरीरप्रस्तुपणा	२२८
९२४.	वैमानिकानां वद्ध-सुक्तशरीरप्रस्तुपणा	२२८
९२५—५७.	त्रयोदशं परिणामपदम्	२२९—३३
९२५.	परिणामस्य जीवपरिणामाजीवपरिणामेति भेदद्वयम्	२२९
९२६—३७.	जीवपरिणामस्य गतिपरिणामाद्या दश भेदाः, तथाभेदाश्च	२२९—३०
९३८.	नैरयिकाणां परिणामाः	२३०
९३९.	भवनवासिनां परिणामाः	२३१
९४०.	एकेन्द्रियाणां परिणामाः	२३१
९४१.	विकल्पेन्द्रियाणां परिणामाः	२३१
९४२.	पञ्चेन्द्रियतिरथां परिणामाः	२३१
९४३.	मनुष्याणां परिणामाः	२३२
९४४—४६.	वानव्यन्तर-ज्योतिष्क-वैमानिकानां परिणामाः	२३२
९४७—५०.	अजीवपरिणामस्य वन्धनपरिणामाद्या दश भेदाः, तथाभेदाश्च	२३२—३३
९५८—७१.	चतुर्दशं कथायपदम्	२३४—३६
९५८.	कथायस्य ऋधाद्वयश्चत्वारो भेदाः	२३४
९५९.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु कथायप्रस्तुपणा	२३४
९६०.	कथायप्रानिष्टाप्रस्तुपणा-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वात्मप्रतिष्ठितादि- भेदः ऋधादीनां निस्तुपणम्	२३४

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१६१.	कषायोत्पत्तिप्ररूपणा-क्षेत्रादि प्रतीत्य चतुर्विशतिदण्डकेषु क्रोधाद्युत्पत्तिनिरूपणम्	२३४
१६२ - ६३.	कषायप्रभेदप्ररूपणा-चतुर्विशतिदण्डकेष्वनन्तानुबन्ध्यादिभे- दैराभोगनिर्वर्तितादिभेदैश्च क्रोधादीनां निरूपणम्	२३४ - ३५
१६४ - ७१.	चतुर्विशतिदण्डकेषु कषायैः कर्मचयोपचयादिप्ररूपणा	२३५ - ३६
१७२ - १०६७.	पञ्चदशमिन्द्रियपदम्	२३७ - ६०
१७२ - १००५.	प्रथमोहेशकस्य संस्थानादीनि चतुर्विशतिद्वाराणि	२३७
१७३.	इन्द्रियाणां श्रोत्रेन्द्रियादयः पञ्च भेदाः	२३८
१७४.	प्रथमं संस्थानद्वारम्-इन्द्रियाणां संस्थानानि	२३८
१७५.	द्वितीयं बाह्ल्यद्वारम्-इन्द्रियाणां बाह्ल्यनिरूपणम्	२३९
१७६.	तृतीयं पृथुत्वद्वारम्-इन्द्रियाणां पृथुत्वनिरूपणम्	२३९
१७७.	चतुर्थं कतिप्रदेशद्वारम्-इन्द्रियाणां प्रदेशप्रमाणनिरूपणम्	२३९
१७८.	पञ्चममवगाद्वारम्-इन्द्रियाणामवगाहनानिरूपणम्	२३९
१७९ - ८२.	षष्ठमल्पवहुत्वद्वारम्-पञ्चानामिन्द्रियाणामवगाहनार्थता- दिनाऽल्पवहुत्वम्	२३९ - ४१
१८३ - ८१.	चतुर्विशतिदण्डकेषु संस्थानादिद्वाराषट्कनिरूपणम्	२४१ - ४३
१९०.	सप्तमं स्पृष्टद्वारम्-स्पृष्टानां शब्द-रूपादीनां संवेदनानि- रूपणम्	२४३
१९१.	अष्टमं प्रविष्टद्वारम्-प्रविष्टानां शब्दादीनां सविषयत्वम्	२४४
१९२.	नवमं विषयद्वारम्-पञ्चानामिन्द्रियाणां विषयभूतक्षेत्रनि- रूपणम्	२४४
१९३ - १४.	दशममनगारद्वारम्-मारणान्तिकसमुद्धातगतस्य भाविता- तमनोऽनगारस्य चरमनिर्जरापुद्गलानां सूक्ष्मत्वनिरूपणम्	२४४ - ४५
१९५ - १८.	एकादशमाहारद्वारम्-चतुर्विशतिदण्डकेषु निर्जरापुद्गलाह- रणस्य ज्ञाताज्ञातत्व-दृष्टादृष्टत्वविचारः	२४५ - ४६
१९९.	द्वादशतोऽष्टादशपर्यन्तमादर्शादिद्वारसकम्-आदर्शसिसि-म- प्यादिषु स्वप्रतिबिम्बं पश्यन् आदर्शमात्मानं प्रतिबिम्बं च प्रतीत्य किं पश्यति ? इत्येतद्विषयो विचारः	२४६ - २४७
१०००.	एकोनविंशं कम्बलद्वारम्-आवेष्टित-परिवेष्टितकम्बलशाट- कावकाशान्तरविचारः	२४७
१००१.	विंशतितमं स्थूणाद्वारम्-ऊर्ध्व-तिर्यगायतस्थितस्थूणाव- काशान्तरविचारः	२४७
१००२.	एकविंशं थिगलद्वारम्-आकाशखण्डमाश्रित्य पञ्चास्ति- कायस्पर्शविषयको विचारः	२४७

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१००३.	द्वाविशं द्वीपोदधिद्वारम्—द्वीपोदधीन् प्रतीत्य पञ्चास्तिकाय- स्पर्शविषयको विचारः	२४७—४८
१००४.	त्रयोविशं लोकद्वारम्—लोकमाश्रित्य पञ्चास्तिकायस्पर्श- विषयको विचारः	२४८
१००५.	चतुर्विशमलोकद्वारम्—अलोकमाश्रित्य पञ्चास्तिकायस्पर्श- विषयको विचारः	२४८
१००६—६७. द्वितीयोद्देशाकः		२४९—६०
१००६.	द्वितीयोद्देशकस्येन्द्रियोपचयादीनि द्वाउशा द्वाराणि	२४९
१००७—८.	प्रथममिन्द्रियोपचयद्वारम्—चतुर्विशतिदण्डकेषु श्रोत्रादी- न्द्रियोपचयनिरूपणम्	२४९
१००९.	द्वितीयमिन्द्रियनिर्वर्तनाद्वारम्—चतुर्विशतिदण्डकेषु श्रोत्रा- दीन्द्रियनिर्वर्तनानिरूपणम्	२४९
१०१०.	तृतीयमिन्द्रियनिर्वर्तनासमयद्वारम्—चतुर्विशतिदण्डकेषु पञ्चानामिन्द्रियाणां निर्वर्तनासमयनिरूपणम्	२४९
१०११.	चतुर्थमिन्द्रियलिघद्वारम्—चतुर्विशतिदण्डकेषु श्रोत्रादी- न्द्रियलिघनिरूपणम्	२५०
१०१२.	पञ्चममिन्द्रियोपयोगाद्वारम्—चतुर्विशतिदण्डकेषु श्रोत्रादीन्द्रियोपयोगादाल्पवहुत्वद्वारम्—पञ्चानामिन्द्रियाणा- मुपयोगादाया अल्पवहुत्वम्	२५०
१०१३.	षष्ठमिन्द्रियोपयोगादाल्पवहुत्वद्वारम्—पञ्चानामिन्द्रियाणा- मुपयोगादाया अल्पवहुत्वम्	२५०—५१
१०१४.	सप्तममिन्द्रियावगाहनाद्वारम्—चतुर्विशतिदण्डकेषु श्रोत्रा- दीन्द्रियावगाहनानिरूपणम्	२५१
१०१५.	अष्टममिन्द्रियापायद्वारम्—चतुर्विशतिदण्डकेषु श्रोत्रादी- न्द्रियापायनिरूपणम्	२५१
१०१६.	नवममिन्द्रियेहाद्वारम्—चतुर्विशतिदण्डकेषु श्रोत्रादीन्द्रिये- हानिरूपणम्	२५१
१०१७—२३.	उत्तममवग्रहद्वारम्—अवग्रहस्यार्थवग्रह-न्यज्ञनावग्रहेति भेदद्वयम्, न्यज्ञनावग्रहस्य चत्वारो भेदाः, अर्थवग्रहस्य पद् भेदाः, चतुर्विशतिदण्डकेष्ववग्रहनिरूपणं च	२५१—५२
१०२४.	प्रकारान्तरेणेन्द्रियाणां द्रव्येन्द्रिय-भावेन्द्रियेति भेदद्वयम्	२५२
१०२५—५५.	एकादशं द्रव्येन्द्रियद्वारम्—१०२७. द्रव्येन्द्रियसङ्घायानि- रूपणम्, १०२६—२९. चतुर्विशतिदण्डकेष्वेकत्व-पृथकत्वा- भ्यामतीत-वद्वपुरस्कृतद्रव्येन्द्रियसङ्घायानिरूपणम्, १०३८— ५५. चतुर्विशतिदण्डकेषु चतुर्विशतिदण्डकान् प्रतीत्यैकत्व- पृथकत्वाभ्यामतीत-वद्व-पुरस्कृतद्रव्येन्द्रियसङ्घायानिरूपणं च	२५२—५९

सूत्राङ्कः

विषयः

पृष्ठाङ्कः

१०५६—६७. द्वादशं भावेन्द्रियद्वारम्—१०५६. भावेन्द्रियस्य श्रोत्रे-  
न्द्रियादयः पञ्च भेदाः, १०५७. चतुर्विंशतिदण्डकेषु  
भावेन्द्रियसङ्घानिरूपणम्, १०५८—६४. चतुर्विंश-  
तिदण्डकेष्वेकत्व-पृथक्त्वाभ्यामतीत-बद्ध-पुरस्कृतभावेन्द्रिय-  
सङ्घानिरूपणम्, १०६५—६७. चतुर्विंशतिदण्डकेषु  
चतुर्विंशतिदण्डकान् प्रतीत्यैकत्व-पृथक्त्वाभ्यामतीत-बद्ध-  
पुरस्कृतभावेन्द्रियसङ्घानिरूपणम् २५९—६०

१०६८—११२२. द्वोडशं प्रयोगपदम् २६१—७३

१०६८.	प्रयोगस्य सत्यमनःप्रयोगादयः पञ्चदश भेदाः	२६१
१०६९.	जीवेष्वोधेन प्रयोगप्ररूपणम्	२६१
१०७०—७६.	चतुर्विंशतिदण्डकेष्वोधेन प्रयोगप्ररूपणम्	२६१—६२
१०७७.	जीवेषु विभागेन प्रयोगप्ररूपणम्	२६२
१०७८—८२.	नैरयिक-भवनवास्येकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय-पञ्चेन्द्रियतिर्थयो- निकेषु विभागेन प्रयोगप्ररूपणम्	२६२—६२
१०८३.	मनुष्येषु विभागेन प्रयोगप्ररूपणम्	२६३—६७
१०८४.	वानव्यन्तर-ज्योतिष्क-वैमानिकेषु विभागेन प्रयोगप्ररूपणम्	२६७—६८
१०८५.	गतिप्रपातस्य प्रयोगगत्यादिकाः पञ्च भेदाः	२६८
१०८६—८९.	प्रयोगगतिप्ररूपणम्—प्रयोगगतेः सत्यमनःप्रयोगगत्या- दिकाः पञ्चदश भेदाः, चतुर्विंशतिदण्डकेषु प्रयोगगतिप्ररू- पणं च	२६८
१०९०.	तत्त्वगतिप्ररूपणम्	२६८
१०९१.	बन्धनच्छेदनगतिप्ररूपणम्	२६८
१०९२—११०४.	उपपातगतिप्ररूपणम्—क्षेत्रोपपातगति-भवोपपातगति- नोभवोपपातगतीनां विस्तरतः प्ररूपणम्	२६९—७१
११०५—२२.	विहायोगगतिप्ररूपणम्—सपृशद्वत्यादिसप्तदशविधानां गती- नां विस्तरतः प्ररूपणम्	२७१—७३

११२३—१२५८. सप्तदशं लेश्यापदम् २७४—३०३

११२३—५५.	प्रथमोद्देशकः	२७४—७९
११२३.	प्रथमोद्देशकस्य समाहारादीनि सप्त द्वाराणि	२७४
११२४—३०.	नैरयिकेषु समाहारादिसप्तदशप्ररूपणम्	२७४—७५
११२३—३६.	भवनवासिषु समाहारादिसप्तदशप्ररूपणम्	२७५—७६
११३७—४०.	एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियेषु समाहारादिसप्तदशप्ररूपणम्	२७६
११४१.	पञ्चेन्द्रियतिर्थयोनिकेषु समाहारादिसप्तदशप्ररूपणम्	२७७
११४२.	मनुष्येषु समाहारादिसप्तदशप्ररूपणम्	२७७—७८

सूचाक्रमः	विषयः	पृष्ठाक्रमः
११४३ - ४४.	वानव्यन्तर-ज्योतिष्क-वैमानिकेषु समाहारादिससद्वारप्रसू- पणम्	२७८
११४५.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेष्वोधेन समाहारादिससद्वारप्रसू- पणम्	२७८
११४६ - ५५.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेषु विभागेन समाहारादिसस- द्वारप्रसूपणम्	२७८ - ७९
११५६ - ९८.	द्वितीयोद्देशकः	२७९ - ८७
११५६.	लेश्यायाः कृष्णलेश्यादिपद्मेदनिरूपणम्	२७९
११५७ - ६९.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु लेश्याप्रसूपणम्	२७९ - ८९
११७०.	सलेश्येषु जीवेषु कृष्णादिलेश्यावतामल्पवहुत्वम्	२८१
११७१ - ९०.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेषु कृष्णादिलेश्यावतामल्पवहुत्वम्	२८१ - ८६
११९१.	सलेश्येषु जीवेषु क्रद्धयल्पवहुत्वम्	२८६
११९२ - ९८.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेषु क्रद्धयल्पवहुत्वम्	२८६ - ८७
११९९ - १२१७.	तृतीयोद्देशकः	२८७ - ९१
११९९ - १२००.	नयमतेन चतुर्विंशतिदण्डकेषु पूपपातोदर्तनाप्रसूपणम्	२८७
१२०१ - ७.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेष्वोधेनोपपातोदर्तनाप्रसूपणम्	२८७ - ८८
१२०८ - १४.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेषु विभागेनोपपातोदर्तनाप्र- सूपणम्	२८८ - ८९
१२१५.	कृष्णादिलेश्येषु नैरविकेष्ववधिक्षेत्रप्रसूपणम्	२९० - ९१
१२१६ - १७.	कृष्णादिलेश्येषु जीवेषु ज्ञानप्रसूपणम्	२९१
१२१८ - ४९.	चतुर्थोद्देशकः	२९१ - ३००
१२१८.	चतुर्थोद्देशकस्य परिणामादीनि पञ्चदण्ड द्वाराणि	२९१
१२१९.	लेश्यायाः पद्म भेदाः	२९२
१२२० - २७.	प्रथमं परिणामद्वारम् - कृष्णादिलेश्यानां पारस्परिकपरिण- मनप्रसूपणम्	२९२ - ९३
१२२६ - ३२.	द्वितीयं वर्णद्वारम् - कृष्णादिलेश्यानां वर्णप्रसूपणम्	२९३ - ९५
१२२३ - ३८.	तृतीयं रसद्वारम् - कृष्णादिलेश्यानां रसप्रसूपणम्	२९५ - ९७
१२३७ - ४१.	चतुर्थोद्वयमपर्यन्तानि गन्ध-शुद्ध-अग्रगस्त-संक्लिष्ट-उपण- नातिद्वाराणि - कृष्णादिलेश्यानां गन्धादिग्रसूपणम्	२९७
१२४२.	द्वारमं परिणामद्वारम् - कृष्णादिलेश्यासु परिणामसञ्ज्ञाप्रसू- पणम्	२९७
१२४३.	एकादशं प्रदेशद्वारम् - कृष्णादिलेश्यानां ग्रत्येकमनन्तप्रदे- शात्मकत्वप्रतिपादनम्	२९८

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१२४४.	द्वादशमवगाहनाद्वारम्—कृष्णादिलेश्यानां प्रत्येकमसङ्घेय- यप्रदेशावगाढत्वप्रतिपादनम्	२९८
१२४५.	त्रयोदशं वर्गणाद्वारम्—कृष्णादिलेश्यानां प्रत्येकमनन्तवर्ग- णाप्रतिपादनम्	२९८
१२४६.	चतुर्दशं स्थानद्वारम्—कृष्णादिलेश्यानां प्रत्येकमसङ्घेय- स्थानप्रतिपादनम्	२९९
१२४७—४९.	पञ्चदशमल्पबहुत्वद्वारम्—पड्लेश्यास्थानानामल्पबहुत्वम् २९९—३००	२९९—३००
१२५०—५५.	पञ्चमोद्देशकः	३००—१
१२५०.	लेश्यामेदप्ररूपणम्	३००
१२५१—५५.	लेश्यानां रूप-वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शेः पारस्परिकपरिणमन- विचारः	३००—१
१२५६—५८.	षष्ठोद्देशकः	३०१—२
१२५६.	लेश्यामेदप्ररूपणम्	३०१
१२५७.	मनुज्येषु लेश्याप्ररूपणम्	३०१—२
१२५८.	लेश्यां प्रतीत्य गर्भोत्पत्तिप्ररूपणम्	३०२—३
१२५९—१३१८.	अष्टादशं कायस्थितिपदम्	३०४—१७
१२५९.	अष्टादशपदस्य जीव-गत्यादीनि द्वाविंशतिद्वारा राणि	३०४
१२६०.	प्रथमं जीवद्वारम्—जीवस्थितिप्ररूपणम्	३०४
१२६१—७०.	द्वितीयं गतिद्वारम्—नैरयिकादिगतीराश्रित्य स्थितिप्ररूपणम्	३०४—५
१२७१—८४.	तृतीयमिन्द्रियद्वारम्—एकेन्द्रियादिषु कायस्थितिप्ररूपणम्	३०५—६
१२८५—१३२०.	चतुर्थं कायद्वारम्—षष्ठिधकायिकेषु कायस्थितिप्ररूपणम्	३०६—७
१३२१—२५.	पञ्चमं योगद्वारम्—मनो-वाक्-काययोग्यादिषु कायस्थिति- प्ररूपणम्	३०७—१०
१३२६—३०.	षष्ठं वेदद्वारम्—स्त्री-पुं-नपुंसकवेदकादिषु स्थितिप्ररूपणम्	३१०
१३३१—३४.	सप्तमं कपायद्वारम्—क्रोधकषायिकादिषु स्थितिप्ररूपणम्	३१०—११
१३३५—४२.	अष्टमं लेश्यद्वारम्—कृष्णादिलेश्यावतां स्थितिप्ररूपणम्	३११
१३४३—४५.	नवमं सम्यक्त्वद्वारम्—सम्यग्-मिथ्या-लम्यग्मथ्यादृष्टीनां स्थितिप्ररूपणम्	३१२
१३४६—५३.	दशमं ज्ञानद्वारम्—पञ्चविधज्ञानिनां त्रिविधाज्ञानिनां च स्थितिप्ररूपणम्	३१२—१३
१३५४—५७.	एकादशं दर्शनद्वारम्—चक्षुर्दर्शनादिचतुर्विधदर्शनिनां स्थि- तिप्ररूपणम्	३१३
१३५८—६१.	द्वादशं संयतद्वारम्—संयत-असंयत-संयतासंयत-नोसंयत- नोअसंयतनोसंयतासंयतानां स्थितिप्ररूपणम्	३१३

सूत्राङ्कः

विषयः

पृष्ठाङ्कः

१३६२ - ६३.	त्रयोदशमुपयोगद्वारम् - साकारानाकागेपयोगोपयुक्तयोः स्थितिप्ररूपणम्	३१४
१३६४ - ७३.	चतुर्दशमाहारद्वारम् - छब्दस्थ-क्रेवल्याहारकानाहारकयोर्विं- स्तरेण स्थितिप्ररूपणम्	३१४ - १५
१३७४ - ७५.	पञ्चदशं भाष्टकद्वारम् - भाष्टकभाष्टकयोः स्थितिप्ररूपणम्	३१५
१३७६ - ८२.	षोडशं परित्तद्वारम् - काय-संसारपरित्तापरित्तयोर्नोपरित्त- नोब्धपरित्तस्य च स्थितिप्ररूपणम्	३१५
१३८३ - ८५.	सप्तदशं पर्यासद्वारम् - पर्यास-अपर्यास-नोपर्यासनोअपर्या- सानां स्थितिप्ररूपणम्	३१६
१३८६ - ८८.	अष्टादशं सूक्ष्मद्वारम् - सूक्ष्म-वाद्वार-नोसूक्ष्मनोवाद्वाराणां स्थितिप्ररूपणम्	३१६
१३८९ - ९१.	एकोनविंशं संज्ञिद्वारम् - संज्ञि-असंज्ञि-नोसंज्ञिनोअसंज्ञिनां स्थितिप्ररूपणम्	३१६
१३९२ - ९४.	विंशतितमं भवसिद्धिकद्वारम् - भवसिद्धिक-अभवसिद्धिक- नोभवसिद्धिकनोअभवसिद्धिकानां स्थितिप्ररूपणम्	३१६ - १७
१३९५ - ९६.	एकविंशमस्तकायद्वारम् - धर्मास्तिकायादीनां पण्णां स्थितिप्ररूपणम्	३१७
१३९७ - ९८.	द्वाविंशं चरमद्वारम् - चरमाचरमयोः स्थितिप्ररूपणम्	३१७
१३९९ - १४०५.	एकोनविंशं सम्यक्त्वपदम्	३१८
१३९९ - १४०५.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु सिद्धेषु च सम्यग्-मिथ्या-सम्यग्मि- थ्यादित्वविचारः	३१८
१४०६ - ७३.	विंशतितममन्तक्रियापदम्	३१९ - २८
१४०६.	विंशतितमपदस्यान्तक्रियादीनि दश द्वाराणि	३१९
१४०७ - ९.	प्रथममन्तक्रियाद्वारम् - चतुर्विंशतिदण्डकेष्वन्तक्रियाकरण- प्ररूपणम्	३१९
१४१० - १३.	द्वितीयमनन्तरद्वारम् - अनन्तरागत-परम्परागतानां चतुर्विं- शतिदण्डकानामन्तक्रियाकरणप्ररूपणम्	३१९ - २०
१४१४ - १६.	तृतीयमेकसमयद्वारम् - अनन्तरागतानां चतुर्विंशतिदण्ड- कानामेकसमयेनान्तक्रियां कुर्वाणानां सङ्ख्याप्ररूपणम्	३२०
१४१७ - ४३.	चतुर्थमुद्रर्तेद्वारम् - अनन्तरोद्वृत्तचतुर्विंशतिदण्डकानामुप- पातविचारः	३२१ - २५
१४२२ - ५८.	पञ्चमं तीर्थकद्वारम् - चतुर्विंशतिदण्डकेभ्य उद्वृत्तानामन- न्तरं तीर्थकरत्वप्राप्तिविचारः	३२५ - २६
१४५० - ६३.	पष्ठं चक्रिद्वारम् - चतुर्विंशतिदण्डकेभ्य उद्वृत्तानामनन्तरं चक्रवर्तित्वप्राप्तिविचारः	३२६ - २७

संक्षेपः

विषयः

पृष्ठाङ्कः

१४६४ – ६९.	सप्तमादिद्वयमपर्यन्तानि वलन्त्रासुदेव-माण्डलिकचक्रिरत्न- द्वाराणि – चतुर्विंशतिदण्डकेभ्य उद्गृह्णानां वलदेवत्वादि- प्राप्तिविचारः	३२७
१४७०.	असंयतभव्यदेव-अविराधितसंयम-विराधितसंयमादीनां देव- लोकोपपातप्ररूपणम्	३२७ – २८
१४७१ – ७३.	असंज्ञ्यायुप्ररूपणम्	३२८

### १४७४–१५६६. एकविंशतिमवगाहनापदम्

३२९–४९

१४७४.	एकविंशतिमपदस्य विधि-संस्थानादीनि सप्त द्वाराणि	३२९
१४७५ – १५५२.	प्रथम-द्वितीय-तृतीयानि विधि-संस्थान-प्रमाणद्वाराणि	३२९ – ४६
१४७५.	औदारिकादीनि पञ्च शरीराणि	३२९
१४७६ – ८७.	औदारिकशरीरे विधिद्वारम् – औदारिकशरीरस्य भेदाः प्रभेदाश्च	३२९ – ३१
१४८८ – १५०१.	औदारिकशरीरे संस्थानद्वारम् – औदारिकशरीरभेद- प्रभेदानां संस्थानानि	३३१ – ३३
१५०२ – १३.	औदारिकशरीरे प्रमाणद्वारम् – औदारिकशरीरभेदप्रभेदाना- मवगाहनाप्रमाणप्ररूपणम्	३३३ – ३५
१५१४ – २०.	वैक्रियशरीरे विधिद्वारम् – वैक्रियशरीरस्य भेदाः प्रभेदाश्च	३३५ – ३८
१५२१ – २६.	वैक्रियशरीरे संस्थानद्वारम् – वैक्रियशरीरभेद-प्रभेदानां संस्थानानि	३३९ – ४०
१५२७ – ३२.	वैक्रियशरीरे प्रमाणद्वारम् – वैक्रियशरीरभेद-प्रभेदानामवगा- हनाप्रमाणप्ररूपणम्	३४० – ४१
१५३३ – ३५.	आहारकशरीरस्य भेद-संस्थान-अवगाहनाप्रमाणप्ररूपणम्	३४२ – ४२
१५३६ – ३९.	तैजसशरीरे विधिद्वारम् – तैजसशरीरस्य भेदाः प्रभेदाश्च	३४४
१५४० – ४४.	तैजसशरीरे संस्थानद्वारम् – तैजसशरीरभेद-प्रभेदानां संस्थानानि	३४४ – ४५
१५४५ – ५१.	तैजसशरीरे प्रमाणद्वारम् – जीव - चतुर्विंशतिदण्डकानां तैजसशरीरमहदवगाहनाप्रमाणप्ररूपणम्	३४५ – ४६
१५५२.	कार्मणशरीरस्य भेद-संस्थान-अवगाहनाप्रमाणप्ररूपणम्	३४६
१५५३ – ५८.	चतुर्थं पुद्गलच्यनद्वारम् – पञ्चानामपि शरीराणां दिशः प्रतीत्य पुद्गलच्यनप्ररूपणम्	३४६ – ४७
१५५९ – ६४.	पञ्चमं शरीरसंयोगद्वारम् – पञ्चानामपि शरीराणां समका- लमन्यान्यशरीरसंयोगविचारः	३४७ – ४८
१५६५.	षष्ठं द्रव्य-प्रदेशाल्पबहुत्वद्वारम् – पञ्चानामपि शरीराणां द्रव्यार्थतादिनाऽल्पबहुत्वम्	३४८
१५६६.	सप्तमं अरीरावगाहनाल्पबहुत्वद्वारम् – पञ्चानामपि शरी- राणां जघन्याद्यवगाहनाया अल्पबहुत्वम्	३४८ – ४९

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१५६७-१६६३. द्वार्चिंशं क्रियापदम्		३५०-६२
१५६७-७२. क्रियाणां कायिक्यादिकाः पञ्च भेदाः, तद्यमेदाश्च		३५०
१५७३. जीवेषु सक्रियत्वाक्रियत्वप्ररूपणम्		३५०-५१
१५७४-८०. चतुर्विंशतिदण्डकेषु क्रियाविषयप्ररूपणम्		३५१
१५८१-८४. चतुर्विंशतिदण्डकेषु क्रियाहेतुभिः कर्मप्रकृतिबन्धप्ररूपणम्		३५२
१५८५-८७. जीवादिषु कर्मवन्धमधिकृत्य क्रियाप्ररूपणम्		३५२
१५८८-१६०४. चतुर्विंशतिदण्डकेष्वेक्त्व-पृथक्त्वाभ्यां क्रियासहभावप्ररूपणम्		३५३-५४
१६०५-६. चतुर्विंशतिदण्डकेषु पञ्चक्रियत्वप्रतिपादनम्		३५५
१६०७-१६. चतुर्विंशतिदण्डकेषु पञ्चानां क्रियाणा सहभाववक्तव्यता		३५६-५६
१६१७-१९. चतुर्विंशतिदण्डकेष्वायोजिकाक्रियाप्ररूपणम्		३५६
१६२०. जीवेषु क्रियाणां स्पृष्टास्पृष्टभावप्ररूपणम्		३५६-५७
१६२१. प्रकाशन्तरेण क्रियाणामारस्भक्यादिकाः पञ्च भेदाः		३५७
१६२२-२६. आरस्भक्यादिक्रियास्त्रामित्वप्ररूपणम्		३५७
१६२७. चतुर्विंशतिदण्डकेष्वारस्भक्यादिक्रियाप्ररूपणम्		३५७
१६२८-३६. चतुर्विंशतिदण्डकेष्वारस्भक्यादिक्रियाणां सहभाववक्तव्यता		३५८-५९
१६३७-४१. चतुर्विंशतिदण्डकेष्वष्टादशपापस्थानविरतिप्ररूपणम्		३५९
१६४२-४९. पापस्थानविरतेषु चतुर्विंशतिदण्डकेषु कर्मप्रकृतिबन्धप्ररूपणम्		३६०-६१
१६५०-६२. पापस्थानविरतेषु चतुर्विंशतिदण्डकेष्वारस्भक्यादिक्रियामेदाश्च		३६१-६२
१६६३. आरस्भक्यादिक्रियाणामल्पवहुत्वम्		३६२
१६६४-१७५३. त्रयोर्विंशं कर्मप्रकृतिपदम्		३६३-८४
१६६४-८६. प्रथमोद्देशकस्य कतिप्रकृत्यादीनि पञ्च द्वाराणि		३६३
१६६५-६६. प्रथमं कतिप्रकृतिद्वारम्-अष्टविधकर्मप्रकृतिनामानि, चतुर्विंशतिदण्डकेष्वष्टकर्मप्रकृतिसङ्घावप्रतिपादनं च		३६३
१६६७-६९. द्वितीयं कथंवन्धतिद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वष्टकर्मप्रकृतिवन्धहेतुप्ररूपणम्		३६३-६४
१६७०-७४. तृतीयं कतिस्थानवन्धद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वष्टकर्मप्रकृतिवन्धस्थानप्ररूपणम्		३६४
१६७५-७८. चतुर्थं कतिप्रकृतिवेदद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वष्टकर्मप्रकृतिवेदवक्तव्यता		३६४

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१६७९ - ८६.	कतिविधानुभावद्वारम् - ज्ञानावरणीयाद्यष्टकर्मणां विस्तरतोऽनुभावस्वरूपप्ररूपणम्	३६५ - ६७
१६८७-१७५३. द्वितीयोद्देशकः		३६७ - ८४
१६८७ - ९६.	कर्मप्रकृतीनां मूलोत्तरभेदप्ररूपणम्	३६७ - ७०
१६९७ - १७०४.	कर्मप्रकृतीनां स्थितिप्ररूपणम्	३७१ - ७७
१७०५ - १४.	एकेन्द्रियेषु कर्मप्रकृतिस्थितिवन्धप्ररूपणम्	३७७ - ७९
१७१५ - २०.	द्वीन्द्रियेषु कर्मप्रकृतिस्थितिवन्धप्ररूपणम्	३७९
१७२१ - २४.	त्रीन्द्रियेषु कर्मप्रकृतिस्थितिवन्धप्ररूपणम्	३८०
१७२५ - २७.	चतुर्न्द्रियेषु कर्मप्रकृतिस्थितिवन्धप्ररूपणम्	३८०
१७२८ - ३३.	असंज्ञिपञ्चेन्द्रियेषु कर्मप्रकृतिस्थितिवन्धप्ररूपणम्	३८० - ८१
१७३४ - ४१.	संज्ञिपञ्चेन्द्रियेषु कर्मप्रकृतिस्थितिवन्धप्ररूपणम्	३८१ - ८२
१७४२ - ४४.	जघन्यस्थितिवन्धकप्ररूपणम्	३८३
१७४५ - ५३.	उत्कृष्टस्थितिवन्धकप्ररूपणम्	३८३ - ८४
१७५४ - ६८. चतुर्विंशं कर्मवन्धपदम्		३८५ - ८७
१७५४ - ६१.	ज्ञानावरणीयवन्धकेषु जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु कर्मप्रकृतिवन्धप्ररूपणम्	३८५ - ८६
१७६२.	दर्शनावरणीयवन्धकेषु जीवादिषु कर्मप्रकृतिवन्धप्ररूपणम्	३८६
१७६३ - ६५.	वेदनीयवन्धकेषु जीवादिषु कर्मप्रकृतिवन्धप्ररूपणम्	३८६ - ८७
१७६६ - ६८.	मोहनीय-आयुः-नाम-गोत्र-अन्तरायवन्धकेषु जीवादिषु कर्मप्रकृतिवन्धप्ररूपणम्	३८७
१७६९ - ७४. पञ्चविंशं कर्मवन्धवेदपदम्		३८८
१७६९ - ७४.	ज्ञानावरणीयादिवन्धकेषु जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु कर्मप्रकृतिवेदप्ररूपणम्	३८८
१७७५ - ८६. षष्ठिविंशं कर्मवेदवन्धपदम्		३८९ - ९०
१७७५ - ८२.	ज्ञानावरणीय-दर्शनावरणीय-अन्तरायवेदकेषु जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु कर्मप्रकृतिवन्धप्ररूपणम्	३८९ - ९०
१७८३ - ८४.	वेदनीयवेदकेषु जीवादिषु कर्मप्रकृतिवन्धप्ररूपणम्	३९०
१७८५ - ८६.	आयुः-नाम-गोत्र-मोहनीयवेदकेषु जीवादिषु कर्मप्रकृतिवन्धप्ररूपणम्	३९०
१७८७ - ९२. सप्तविंशं कर्मवेदवेदकपदम्		३९१
१७८७ - ९२.	ज्ञानावरणीयादिवेदकेषु जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु कर्मप्रकृतिवेदप्ररूपणम्	३९१

## प्रब्रापनासूत्रस्य विषयानुक्रमः

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१७२३-१९०७. अग्राविशमाहारपदम्		३९२-४०६
१७२३-१८६४. प्रथमोदेशकः		३९२-४००
१७१३. प्रथमोदेशकस्य सचित्ताहारादीन्येकादश द्वाराणि		३९२
१७१४. प्रथमं सचित्ताहारद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेषु सचित्ता- चित्त-मिथ्राहारवक्तव्यता		३९२
१७१५-१८०३. नैरग्रिकेषु आहारार्थ्य-कियल्काल-किं-सर्वतः-कतिभागं-सर्वे- -परिणामद्वाराणां वक्तव्यता		३९२-९४
१८०६. भवनवासिषु आहारार्थ्यादिद्वारसप्तकवक्तव्यता		३९४
१८०७-१३. एकेन्द्रियेषु आहारार्थ्यादिद्वारसप्तकवक्तव्यता		३९४-९५
१८१४-२३. विकलेन्द्रियेष्वाहारार्थ्यादिद्वारसप्तकवक्तव्यता		३९५-९६
१८२४-२८. पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक-मनुष्य-वानव्यन्तर-ज्योतिष्केष्वाहा- रार्थ्यादिद्वारसप्तकवक्तव्यता		३९६-९७
१८२९-५२. वैमानिकेष्वाहारार्थ्यादिद्वारसप्तकवक्तव्यता		३९७-९९
१८५३-५८. नवममेकेन्द्रियशरीरादिद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वेकेन्द्रिया- -डिग्रीरीहारवक्तव्यता		३९९
१८५९-६१. दृश्यमं लोभाहारद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेषु लोभाहार-प्र- -क्षेपाहारवक्तव्यता		३९९
१८६२-६४. पुकादशं मनोभक्षिद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेषु ओजआहार- -मनोभक्षित्ववक्तव्यता		४००
१८६५-१९०७. द्वितीयोदेशकः		४००-६
१८६५. द्वितीयोदेशकस्याहार-भव्यादीनि त्रयोदश द्वाराणि		४००
१८६६-७०. प्रथममाहारद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वाहारकानाहारकत्व- -वक्तव्यता		४००-१
१८७१-७५. द्वितीयं भव्यद्वारम्-भवसिद्धिक-अभवसिद्धिक-नोभवसि- -द्धिकनोभवसिद्धिकानामाहारकानाहारकाववक्तव्यता		४०१
१८७६-८२. तृतीयं संशिद्वारम्-संज्ञि-असंज्ञि-नोसंज्ञिनोअसंज्ञिषु जीव- -चतुर्विंशतिदण्डकेष्वाहारकानाहारकत्ववक्तव्यता		४०१-२
१८८३-८६. चतुर्थं लेश्यद्वारम्-सलेश्यानामलेश्यानां च जीवानामा- -हारकानाहारकत्ववक्तव्यता		४०२-३
१८८७-८०. पञ्चमं दृष्टिद्वारम्-सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि-सम्यग्मिथ्यादृ- -ष्टिषु जीवेष्वाहारकानाहारकत्ववक्तव्यता		४०२
१८९०-९३. पष्ठं संयतद्वारम्-संयत-असंयत-संयतासंयत-नोसंयतनोअ- -संयतेषु जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वाहारकानाहारकत्ववक्तव्यता		४०३-४

सूत्राङ्कः

विषयः

पृष्ठाङ्कः

१८९४ - ९६.	सप्तमं कषायद्वारम् - सकषायाकषायेषु जीवादिप्वाहार- कानाहारकत्ववक्तव्यता	४०४
१८९७ - ९९.	अष्टमं ज्ञानद्वारम् - ज्ञान्यज्ञानेषु जीवादिप्वाहारकानाहार- कत्ववक्तव्यता	४०४ - ५
१९००.	नवमं योगद्वारम् - सयोग्ययोगिषु जीवादिप्वाहारकानाहार- कत्ववक्तव्यता	४०५
१९०१.	दशमं मुपयोगद्वारम् - साकारानाकारोपयोगोपयुक्तेष्वाहार- कानाहारकत्ववक्तव्यता	४०५
१९०२.	एकादशं वेदद्वारम् - स्त्री-पुं-नपुंसकवेदकेष्ववेदकेषु चाहारका- नाहारकत्ववक्तव्यता	४०५
१९०३.	द्वादशं शरीरद्वारम् - औदारिकादिशरीरिष्वशरीरिषु चाहा- रकानाहारकत्ववक्तव्यता	४०५ - ६
१९०४ - ७.	त्र्योदशं पर्यासिद्वारम् - आहारादिपर्यासिपर्यासकापर्यासकेष्वा- हारकानाहारकत्ववक्तव्यता	४०६
१९०८-३५.	एकोनत्रिंशमुपयोगपदम्	४०७-९
१९०८ - १०.	उपयोगस्य साकारोपयोगानाकारोपयोरेति भेदद्वयम्, तत्प्रभेदाश्र	४०७
१९११ - २७.	जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु पूपयोगभेद-प्रभेदवक्तव्यता	४०७ - ८
१९२८ - ३५.	जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु साकारानाकारोपयोगित्ववक्तव्यता	४०८ - ९
१९३६ - ६४.	त्रिंशं पश्यत्तापदम्	४१०-१२
१९३६ - ३८.	पश्यत्तायाः साकारानाकारपश्यत्तेति भेदद्वयम्, तत्प्रभेदाश्र	४१०
१९३९ - ५३.	जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु पश्यत्तभेद-प्रभेदवक्तव्यता	४१० - ११
१९४४ - ६२.	जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु साकारानाकारपश्यत्तित्ववक्तव्यता	४११ - १२
१९६३ - ६४.	केवल्युपयोगवक्यव्यता	४१२
१९६५ - ७३.	एकत्रिंशं संज्ञिपदम्	४१३
१९६५ - ७३.	जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु संज्ञि-असंज्ञि-नोसंज्ञिनोभसंज्ञि- त्ववक्तव्यता	४१३
१९७४ - ८०.	द्वात्रिंशं संयमपदम्	४१४
१९७४ - ८०.	जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु-संयत-असंयत-संयतासंयत-नोसंय- तनोभसंयतनोसंयतासंयतत्ववक्तव्यता	४१४
१९८१ - २०३१.	त्र्यस्त्रिंशत्तमपदस्य भेद-विषयादीनि सप्त द्वाराणि	४१५ - १८
१९८१.		४१५

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१९८२.	प्रथमं सेद्धारम्—अवधिज्ञानस्य भवप्रत्ययिक-आयोपश- मिकेति भेद्धयम्	४१५
१९८३—२००७.	द्वितीयं विषयद्वारम्—नैरयिकादिष्ववधिज्ञानविषयकस्ते- व्रवक्तव्यता	४१५—१७
२००८—१६.	तृतीयं संख्यानद्वारम्—नैरयिकाद्यवधिज्ञानस्य संस्थानानि	४१७—१८
२०१७—२१.	चतुर्थमध्यभ्यन्तर-वहिद्वारम्—नैरयिकादिष्वभ्यन्तर-वाहा- वधिवक्तव्यता	४१८
२०२२—२६.	पञ्चमं देशावधिद्वारम्—नैरयिकादिषु देशावधि-सर्वावधि- त्ववक्तव्यता	४१८*
२०२७—३१.	षष्ठं सप्तमं अवधिक्षय-वृद्धिद्वारं प्रतिपात्यप्रतिपातिद्वारं च—नैरयिकादिष्वानुगामिकाद्यवधिज्ञानवक्तव्यता	४१८
२०३२—५३.	चतुर्थिंशं प्रवीचारपदम्	४१९—२३
२०३२.	चतुर्थिंशत्तमपदस्यानन्तरागताहारादीनि पद् द्वाराणि	४१९
२०३३—३७.	प्रथममनन्तरागताहारद्वारम्—चतुर्थिंशतिदण्डकेष्वनन्तराहार- निर्वर्तनता-पर्यादानता-परिचारणादिविक्रि- याणांप्रस्तुपणम्	४१९
२०३८—३९.	द्वितीयमाहाराभोगताद्वारम्—चतुर्थिंशतिदण्डकेष्वाभोगनि- र्वर्तितानाभोगनिर्वर्तिताहारवक्तव्यता	४१९—२०
२०४०—४६.	तृतीयं पुद्लज्जानद्वारम्—चतुर्थिंशतिदण्डकेष्वाहारपुद्ललानां ज्ञातज्ञात्व-दृष्टादृष्टविचारः	४२०
२०४७—४८.	चतुर्थमध्यवसानद्वारम्—चतुर्थिंशतिदण्डकेष्वध्यवसानस- ङ्गया, तव्यास्तत्वाप्रश्नास्तत्वनिरूपणं च	४२०
२०४९—५०.	पञ्चमं सम्यक्त्वाभिगमद्वारम्—चतुर्थिंशतिदण्डकेषु सम्य- क्त्व-मिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्वाभिगमित्ववक्तव्यता	४२१
२०५१—५३.	षष्ठं परिचारणाद्वारम्—चतुर्थिंशदेवनिकायेषु काय-स्पर्श- -रूपादिग्रीचारवक्तव्यता, तदल्पवहुत्वं च	४२१—२३
२०५४—८४.	पञ्चत्रिंशं वेदनापदम्	४२४—२७
२०५४.	पञ्चत्रिंशत्तमपदस्य शीतादीनि सप्त द्वाराणि	४२४
२०५५—५०.	प्रथमं शीतादिवेदनाद्वारम्—चतुर्थिंशतिदण्डकेषु शीत-उपण- शीतोष्णवेदनाववक्तव्यता	४२४
२०६०—६२.	द्वितीयं द्रव्यादिवेदनाद्वारम्—चतुर्थिंशतिदण्डकेषु द्रव्य- क्षेत्र-काल-भाववेदनाप्रतिपादनम्	४२५
२०६३—६५.	तृतीयं शारीरादिवेदनाद्वारम्—चतुर्थिंशतिदण्डकेषु शारीर- मानस-शारीरमानसवेदनाववक्तव्यता	४२५
२०६६—६८.	चतुर्थं शारादिवेदनाद्वारम्—चतुर्थिंशतिदण्डकेषु सात- असात-सातासातवेदनाप्रतिपादनम्	४२५

सूत्राङ्कः

विषयः

पृष्ठाङ्कः

२०६९ - ७१.	पञ्चमं दुःखादिवेदनाद्वारम् - चतुर्विंशतिदण्डकेषु दुःख-सुख- भद्रुःखासुखवेदनाप्रतिपादनम्	४२५ - २६
२०७२ - ७६.	षष्ठमाभ्युपगमिक्यादिवेदनाद्वारम् - चतुर्विंशतिदण्डकेष्वा- भ्युपगमिक्यौपक्रमिकीवेदनावक्तव्यता	४२६
२०७७ - ८४.	सप्तमं निदादिवेदनाद्वारम् - चतुर्विंशतिदण्डकेषु निदा- निदावेदनावक्तव्यता	४२६ - २७

### २०८५-२१७६. पद्मिंशं समुद्धातपदम्

२०८५ - ८६.	समुद्धातस्य वेदनासमुद्धातादिका. पद् भेदाः	४२८
२०८७ - ८८.	समुद्धातकालप्ररूपणम्	४२८
२०८९ - ९२.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु समुद्धातप्ररूपणम्	४२८ - २९
२०९३ - ९६.	चतुर्विंशतिदण्डकेष्वेक्त्वेनातीत-पुरस्कृतसमुद्धातप्ररूपणम्	४२९
२०९७ - २१००.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु पृथक्त्वेनातीत-पुरस्कृतसमुद्धातप्ररू- पणम्	४३०
२१०१ - २०.	चतुर्विंशतिदण्डकानां चतुर्विंशतिदण्डकेष्वेक्त्वेनातीतादि- समुद्धातप्ररूपणम्	४३० - ३३
२१२१ - २४.	चतुर्विंशतिदण्डकानां चतुर्विंशतिदण्डकेषु पृथक्त्वेनातीतादि- समुद्धातप्ररूपणम्	४३३ - ३४
२१२५ - ३२.	समुद्धातसमवहतासमवहतानां जीव-चतुर्विंशतिदण्डकाना- मलयबहुत्वम्	४३४ - ३६
२१३३ - ४६.	चतुर्विंशतिदण्डकानां चतुर्विंशतिदण्डकेष्वेक्त्वपृथक्त्वाभ्यां कथायसमुद्धातवक्तव्यता	४३६ - ३८
२१४७ - ५२.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु छायास्थिकसमुद्धातप्ररूपणम्	४३८ - ३९
२१५३ - ५४.	वेदनासमुद्धातसमवहतजीवादीनामवगाह-स्पर्शादिप्ररूपणम्	४३९ - ४०
२१५५.	कथायसमुद्धातसमवहतजीवादीनामवगाह-स्पर्शादिप्ररूपणम्	४४०
२१५६ - ५८.	मारणान्तिकसमुद्धातसमवहतजीवादीनामवगाह-स्पर्शादिप्र- रूपणम्	४४० - ४१
२१५९ - ६४.	वैक्तिक्यसमुद्धातसमवहतजीवादीनामवगाह-स्पर्शादिप्ररूपणम्	४४१
२१६५.	तैजससमुद्धातसमवहतजीवादीनामवगाह-स्पर्शादिप्ररूपणम्	४४१ - ४२
२१६६ - ६७.	आहारकसमुद्धातसमवहतजीवादीनामवगाह-स्पर्शादिप्ररूप- णम्	४४२
२१६८ - ७५.	केवलिसमुद्धातवक्तव्यता	४४२ - ४५
२१७६.	सिद्धस्वरूपम्	४४६



भगवंसिरिसामज्जवायगविरद्दयं

# पण्णवणासुक्तं

चउत्थमुवंगं



॥ नमो त्यु णं समणस्स भगवओ महइमहावीरचद्धमाणसामिस्स ॥

नमो अणुओगधराणं थेराणं ।

## भगवंसिरिसामज्जवायगविरङ्गं

### पणवणासुत्तं

#### १. पठमं पणवणापदं

ञ्च नमो वीतरागाय ।

[ तुत्तं १. मंगलं अभिधेयं च ]

[ नमो अरहिंताणं । नमो सिद्धाणं । नमो आयरियाणं ।  
नमो उवज्ञायाणं । नमो लोए सव्वसाहूणं । ]

१. ववगयजर-मरणभए सिद्धे अभिवंदिऊण तिविहेण ।  
वंदामि जिणवरिंदं तेलोक्कुरुं महावीरं ॥ १ ॥  
सुयरयणनिहाणं जिणवेरेण भवियजणणिव्वुइकरेण ।  
उवदंसिया भयवया पणवणा सव्वभावाण ॥ २ ॥  
[ वैयगवरवंसाओ तेवीसइमेण धीरपुरिसेण ।  
दुद्धरधरेण मुणिणा पुव्वसुयसमिद्धबुद्धीण ॥ १ ॥  
सुयसागरा विणेऊण जेण सुयरयणमुत्तमं दिन्नं ।  
सीसगणस्स भगवओ तस्स नमो अज्जसामस्स ॥ २ ॥ ]

[ पक्षित्तं गाहाजुयलयं ]

अज्जयणमिणं चित्तं सुयरयणं दिट्ठिवायणीसंदं ।  
जह वणिणयं भगवया अहमवि तह वण्णइस्सामि ॥ ३ ॥

१. श्रीहरिभद्रसूरि-श्रीमलयगिरिपादाभ्या स्वस्ववृत्तावव्यातोऽप्ययं पञ्चपरमेष्ठिनमस्कार.  
प्रन्थादौ मङ्गलार्थमुपन्थस्त सर्वेष्वपि मूलसूत्रादर्शेषूपलभ्यते ॥ २. °हूण । एसो पचनमुक्तारो  
सव्वपावप्पणासणो । मंगलाणं च सर्वेसिं पठमं हवइ मगलं ॥] ववग° जे०ध०॥ ३. भगवच्छ्यामार्य-  
वन्दनप्रख्यापकमिं गाथायुगल श्रीहरिभद्रपाद-मलयगिरिपादाभ्या स्वस्ववृत्तौ प्रक्षिप्तवेन निष्टङ्कितं  
व्याख्यातं च दृश्यते ॥ ४. चियेझण ह० ॥

## [ सुत्ताइं २-३. छत्तीसपयनामाणि पण्णवणोवक्षमो य ]

२. पण्णवणा १ ठाणाइं २ बहुवत्तव्वं ३ ठिईं ४ विसेसा य ५ ।  
 वक्षंती ६ उस्सासो ७ सण्णा ८ जोणी य ९ चरिमाइं १० ॥ ४ ॥  
 भासा ११ सरीर १२ परिणाम १३ कसाए १४ इंदिए १५  
 पओगे य १६ ।

लेसा १७ कायठिईं या १८ सम्मते १९ अंतकिरिया य २० ॥ ५ ॥  
 ओगाहणसंठाणे २१ किरिया २२ कम्मे त्ति यावरे २३ ।  
 कम्मस्स वंवए २४ कम्मवेदए २५ वेदस्स वंधए २६  
 वेयवेयए २७ ॥ ६ ॥

अहारे २८ उवओगे २९ पासण्णा ३० सण्णि ३१ संजमे ३२ चेव ।  
 ओही ३३ पवियारण ३४ वेयणा य ३५ तत्तो ससुरघाए ३६ ॥ ७ ॥

३. से किं तं पण्णवणा ? पण्णवणा दुविहा पन्नता । तं जहा-जीव-  
 पण्णवणा य १ अजीवपण्णवणा य २ ।

## [ सुत्ताइं ४-१३. अजीवपण्णवणा ]

४. से किं तं अजीवपण्णवणा ? अजीवपण्णवणा दुविहा पण्णता ।  
 तं जहा-रूविअजीवपण्णवणा य १ अरूविअजीवपण्णवणा य २ ।

## [ सुत्तं ५. अरूविअजीवपण्णवणा ]

५. से किं तं अरूविअजीवपण्णवणा ? अरूविअजीवपण्णवणा दसविहा  
 पन्नता । तं जहा-धम्मत्थिकाए १ धम्मत्थिकायस्स देसे २ धम्मत्थिकायस्स  
 २० पदेसा ३, अधम्मत्थिकाए ४ अधम्मत्थिकायस्स देसे ५ अधम्मत्थिकायस्स पदेसा ६,  
 आगासत्थिकाए ७ आगासत्थिकायस्स देसे ८ आगासत्थिकायस्स पदेसा ९,  
 अद्वासमए १० । से तं अरूविअजीवपण्णवणा ।

## [ सुत्ताइं ६-१३. रूविअजीवपण्णवणा ]

६. से किं तं रूविअजीवपण्णवणा ? रूविअजीवपण्णवणा चउविहा  
 २५ पण्णता । तं जहा-खंधा १ खंधदेसा २ खंधप्पएसा ३ परमाणुपोगगला ४ ।

१. “इत अपरे” पुरप्रत्नां टिप्पणी ।

७. ते समासतो पंचविहा पण्णता । तं जहा-वण्णपरिणया १  
गंधपरिणया २ रसपरिणया ३ फासपरिणया ४ संठाणपरिणया ५ ।

८. [१] जे वण्णपरिणया ते पंचविहा पण्णता । तं जहा-काल-  
वण्णपरिणया १ नीलवण्णपरिणया २ लोहियवण्णपरिणया ३ हालिद्वण्णपरिणया  
४ सुक्रिलवण्णपरिणया ५ ।

[२] जे गंधपरिणता ते दुविहा पञ्चता । तं जहा-सुभिगंधपरिणता  
य १ दुभिगंधपरिणता य २ ।

[३] जे रसपरिणता ते पंचविहा पञ्चता । तं जहा-तित्तरसपरिणता १  
कड्डुयरसपरिणता २ कसायरसपरिणता ३ अंबिलरसपरिणता ४ महुररसपरिणता ५ ।

[४] जे फासपरिणता ते अट्टविहा पण्णता । तं जहा-कक्खडफासपरिणता १  
मउयफासपरिणता २ गस्यफासपरिणता ३ लहुयफासपरिणता ४ सीयफास-  
परिणता ५ उसिणफासपरिणता ६ निञ्छफासपरिणता ७ लुक्खफासपरिणता ८ ।

[५] जे संठाणपरिणता ते पंचविहा पण्णता । तं जहा-परिमंडल-  
संठाणपरिणता १ वद्वसंठाणपरिणता २ तंससंठाणपरिणता ३ चउरंससंठाणपरिणता  
४ आयतसंठाणपरिणता ५ । २५ ।

५

१०

१५

२०

२५

९. [१] जे वण्णओ कालवण्णपरिणता ते गंधओ सुभिगंधपरिणता  
वि दुभिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कड्डुयरसपरिणता वि  
कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ  
कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गस्यफासपरिणता वि लहुयफास-  
परिणता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निञ्छफासपरिणता वि  
लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वद्वसंठाणपरिणता वि  
तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २० ।

[२] जे वण्णओ नीलवण्णपरिणता ते गंधओ सुभिगंधपरिणता वि  
दुभिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कड्डुयरसपरिणता वि कसायरस-  
परिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ कक्खडफासपरिणता  
वि मउयफासपरिणता वि गस्यफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीतफास-  
परिणता वि उसिणफासपरिणता वि निञ्छफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि,  
संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वद्वसंठाणपरिणता वि तंससंठाणपरिणता वि  
चउरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २० ।

[३] जे वण्णओ लोहियवण्णपरिणता ते गंधओ सुब्मिगंधपरिणता वि दुब्मिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कड्डुयरसपरिणता वि कसायरस-परिणता वि अंविलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ कक्खडफास-परिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि ५ सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निञ्चफासपरिणता वि लुक्खफास-परिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंसंठाणपरिणता वि चउरंसंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २०।

[४] जे वण्णओ हालिद्वण्णपरिणता ते गंधओ सुब्मिगंधपरिणता वि दुब्मिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कड्डुयरसपरिणता वि कसायरस-परिणता वि अंविलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ कक्खडफास-परिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि १० सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निञ्चफासपरिणता वि लुक्खफास-परिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंसंठाणपरिणता वि चउरंसंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २०।

[५] जे वण्णओ सुक्किलवण्णपरिणता ते गंधओ सुंब्मिगंधपरिणता वि दुब्मिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कड्डुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंविलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ कक्खडफास-परिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफास-परिणता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निञ्चफासपरिणता वि १५ लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंसंठाणपरिणता वि चउरंसंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणता वि २०।१००।१।

१०. [१] जे गंधओ सुब्मिगंधपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता वि णीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्वण्णपरिणता वि सुक्किल-वण्णपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कड्डुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंविलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि २५ मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीय-फासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि णिञ्चफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता

वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणता वि २३ ।

[२] जे गंधओ दुँभिगंधपरिणया ते वण्णओ कालवण्णपरिणया वि नीलवण्णपरिणया वि लोहियवण्णपरिणया वि हालिद्वण्णपरिणया वि सुक्रिलवण्णपरिणया वि, रसतो तित्तरसपरिणया वि कड्डुरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंविलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निछ्फासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणया वि वट्टसंठाणपरिणया वि तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणया वि । २३। ४६।२।

११. [१] जे रसओ तित्तरसपरिणया ते वण्णओ कालवण्णपरिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्वण्णपरिणता वि सुक्रिलवण्णपरिणता वि, गंधओ सुभिगंधपरिणता वि दुभिगंधपरिणता वि, फासओ कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निछ्फासपरिणया वि लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणया वि तंससंठाणपरिणया वि चउरंससंठाणपरिणया वि आययसंठाणपरिणता वि २० ।

[२] जे रसओ कड्डुरसपरिणता ते वण्णओ कालवण्णपरिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्वण्णपरिणता वि सुक्रिलवण्णपरिणता वि, गंधओ सुभिगंधपरिणता वि दुभिगंधपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निछ्फासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २० ।

[३] जे रसओ कसायरसपरिणता ते वण्णओ कालवण्णपरिणता वि २७

१. दुरभिगंध<sup>०</sup> म० पु२विना ॥ २. कालवन्नपरिणया वि जाव आययसंठाणपरिणया वि जे० । कालवन्नपरिणया वि जाव सुक्रिलवन्नपरिणया वि, रसओ तित्तरसपरिणया वि जाव महुररसपरिणया वि, फासओ कक्खडफासपरिणया वि जाव लुक्खफासपरिणया वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणया वि जाव आग्रतसंठाणपरिणया वि प्र० म० ॥ ३. सुरभिगंध<sup>०</sup> ध० ॥ ४. दुरभिगंध<sup>०</sup> ध० ॥

नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्वण्णपरिणता वि सुक्रिलवण्ण-परिणता वि, गंधओ सुब्मिगंधपरिणता वि दुब्मिगंधपरिणया वि, फासओ कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफास-परिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंसंठाणपरिणता वि चउरंसंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणता वि २० ।

[४] जे रसओ अंविलरसपरिणता ते वण्णओ कालवण्णपरिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्वण्णपरिणता वि सुक्रिलवण्ण-परिणता वि, गंधओ सुब्मिगंधपरिणता वि दुब्मिगंधपरिणता वि, फासओ कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफास-परिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंसंठाणपरिणता वि चउरंसंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणता वि २० ।

[५] जे रसओ महुररसपरिणता ते वण्णओ कालवण्णपरिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्वण्णपरिणता वि सुक्रिलवण्ण-परिणता वि, गंधतो सुब्मिगंधपरिणता वि दुब्मिगंधपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफास-परिणता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि, संठाणतो परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंसंठाणपरिणता वि चउरंसंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणता वि २०।१००।३।

१२. [१] जे फासतो कक्खडफासपरिणता ते वण्णओ कालवण्ण-परिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्वण्णपरिणता वि सुक्रिलवण्णपरिणता वि, गंधओ सुब्मिगंधपरिणता वि दुब्मिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कहुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंविलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासतो गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीतपासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफास-

१. सुरमिगंध० व० ॥ २. हुरमिगंध० ध० ॥ ३. सुरमिगंध० ध० ॥ ४. हुरमिगंध० ध० ॥  
५. सुरमिगंध० ध० ॥ ६. हुरमिगंध० ध० ॥

परिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वृद्धसंठाणपरिणता वि तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणता वि २३।

[२] जे फासतो मउयफासपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिहवण्णपरिणता वि सुक्रिलवण्णपरिणया वि, गंधओ सुब्मिंगंधपरिणता वि दुविभिंगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरस-परिणता वि कङ्गुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ गरुयफासपरिणया वि लहुयफासपरिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निछ्फासपरिणता वि लुक्खफास-परिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणया वि बद्वसंठाणपरिणता वि तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणया वि २३ ।

6

[३] जे फासतो गरुयफासपरिणता ते वष्णतो कालवण्णपरिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिदवण्णपरिणता वि सुक्किलवण्ण-परिणता वि, गंधओ सुब्भिगंधपरिणता वि दुब्भिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कड्डुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंबिलरस-परिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरि-णता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निढ्ढफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणया वि २३।

20

[४] जे फासतो लहुयफासपरिणता ते वण्णओ कालवण्णपरिणता वि जीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिहवण्णपरिणता वि सुक्षिलवण्णपरिणता वि, गंधओ सुभिगंधपरिणता वि दुष्भिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कड्युयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि आंबिलरस-परिणता वि महुररसपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणया वि सीयफासपरिणया वि उसिणफासपरिणया वि णिढ्फासपरिणया वि लुक्खफास-परिणया वि, संठाणतो परिमंडलसंठाणपरिणया वि वट्टसंठाणपरिणया वि तंससंठाणपरिणया वि चउरंससंठाणपरिणया वि आययसंठाणपरिणया वि २३ ।

[५] जे फासतो सीयफासपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्वण्णपरिणता वि सुक्रिलवण्ण-परिणता वि, गंधतो सुब्मिगंधपरिणता वि दुब्मिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरस-परिणता वि कड्ड्यरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता वि

३०

महुररसपरिणता वि, फासओ कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि निज्जफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंसंठाणपरिणता वि चउरंसंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २३।

५ [६] जे फासतो उसिणफासपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्वण्णपरिणता वि सुक्किलवण्णपरिणता वि, गंधतो सुंभिगंधपरिणता वि दुंभिगंधपरिणता वि, रसतो तित्तरसपरिणया वि कहुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि १० गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि निज्जफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि, संठाणतो परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंसंठाणपरिणता वि चउरंसंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २३।

१५ [७] जे फासतो निज्जफासपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्वण्णपरिणता वि सुक्किलवण्णपरिणता वि, गंधतो सुंभिगंधपरिणता वि दुंभिगंधपरिणता वि, रसतो तित्तरसपरिणता वि कहुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि, संठाणतो परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि २० तंसंठाणपरिणया वि चउरंसंठाणपरिणया वि आययसंठाणपरिणता वि २३।

२५ [८] जे फासतो लुक्खफासपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्वण्णपरिणता वि सुक्किलवण्णपरिणता वि, गंधओ सुंभिगंधपरिणता वि दुंभिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कहुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि, संठाणतो परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंसंठाणपरिणया वि चउरंसंठाणपरिणया वि आययसंठाणपरिणता वि २३। १८४। है ॥

१. सुरभिगंध<sup>१</sup> ध० ॥ २. दुरभिगंध<sup>०</sup> व० ॥ ३. 'हु' इति चतु सख्याद्योतकोऽक्षराङ् ॥

१३. [१] जे संठाणतो परिमिंडलसंठाणपरिणता ते वण्णतो कालवण्ण-  
परिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्वण्णपरिणता वि  
सुक्किलवण्णपरिणता वि, गंधतो सुब्भिगंधपरिणता वि दुब्भिगंधपरिणता वि, रसतो  
तित्तरसपरिणता वि कङ्गुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंचिलरसपरिणता  
वि महुररसपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि  
गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफास-  
परिणता वि णिढ्डफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि २०।

6

[२] जे संठाणओ वृृसंठाणपरिणता ते वेण्णओ कालवण्णपरिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्वण्णपरिणता वि सुक्रिलवण्ण-परिणता वि, गंधतो सुभिर्गंधपरिणता वि दुभिर्गंधपरिणता वि, रसओ तित्तरस-परिणता वि कड्डयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंविलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपारिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफास-परिणता वि णिढ्डफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि २०।

30

[३] जे संठाणतो तंसंठाणपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्वण्णपरिणता वि सुक्षिलवण्ण-परिणया वि, गंधओ सुब्मिगंधपरिणता वि दुब्मिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरस-परिणता वि कड्डुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंविलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफास-परिणता वि निझ्फासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि २०।

१६

[४] जे संठाणओ चउरंससंठाणपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्वण्णपरिणता वि सुक्षिलवण्णपरिणता वि, गंधओ सुब्निंगंधपरिणता वि दुब्निंगंधपरिणता वि, रसतो तित्तरसपरिणता वि कड्डुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निझ्डफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि २० ।

२०

[५] जे संठाणतो आयतसंठाणपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता  
वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्वण्णपरिणता वि

三〇

सुक्षिलवण्णपरिणता वि, गंधतो सुबिगंधपरिणता वि दुबिगंधपरिणता वि, रसतो तित्तरसपरिणता वि कहुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंविलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफास-  
५ परिणता वि निझफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि २०११००१५ । से तं रुविअजीवपण्णवणा । से तं अजीवपण्णवणा ।

## [ सुत्ताइँ १४-१४७. जीवपण्णवणा ]

१४. से किं तं जीवपण्णवणा ? जीवपण्णवणा दुविहा पण्णता । तं जहा—संसारसमावण्णजीवपण्णवणा य १ असंसारसमावण्णजीवपण्णवणा य २ ।

## [ सुत्ताइँ १५-१७. असंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ]

१५. से किं तं असंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? असंसारसमावण्णजीव-  
पण्णवणा दुविहा पण्णता । तं जहा—अणंतरसिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवण  
य १ परंपरसिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा य २ ।

१६. से किं तं अणंतरसिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? अणंतर-  
१५ सिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा पञ्चरसविहा पञ्चता । तं जहा—तित्थसिद्धा १  
अतित्थसिद्धा २ तित्थगरसिद्धा ३ अतित्थगरसिद्धा ४ सयंबुद्धसिद्धा ५ पत्तेयबुद्ध-  
सिद्धा ६ बुद्धवेहियसिद्धा ७ इत्थीलिंगसिद्धा ८ पुरिसलिंगसिद्धा ९ नपुंसकलिंग-  
सिद्धा १० सलिंगसिद्धा ११ अण्णलिंगसिद्धा १२ गिहिलिंगसिद्धा १३ एगसिद्धा  
१४ अणेगसिद्धा १५ । से तं अणंतरसिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ।

२० १७. से किं तं परंपरसिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? परंपरसिद्ध-  
असंसारसमावण्णजीवपण्णवणा अणेगविहा पण्णता । तं जहा—अपदमसमयसिद्धा  
दुसमयसिद्धा तिसमयसिद्धा चउसमयसिद्धा जाव संखेजसमयसिद्धा असंखेजसमय-  
सिद्धा अणंतसमयसिद्धा । से तं परंपरसिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा । से तं  
असंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ।

## [ सुत्ताइँ १८-१४७. संसारसमावण्णजीवपण्णवणा ]

१८. से किं तं संसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? संसारसमावण्णजीव-  
पण्णवणा पंचविहा पञ्चता । तं जहा—एगिदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा १

बदियंसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा २ तेंदियंसंसारसमावन्नजीवपण्णवणा ३  
चउरेंदियंसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ४ पंचेंदियंसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ५ ।

[ सुत्ताइं १९-५५. एगेंदियजीवपण्णवणा ]

१९. से किं तं एगेंदियंसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? एगेंदियंसंसार-  
समावण्णजीवपण्णवणा पंचविहा पण्णत्ता । तं जहा-पुढविकाइया १ ५  
आउकाइया २ तेउकाइया ३ वाउकाइया ४ वणस्सइकाइया ५ ।

[ सुत्ताइं २०-२५. पुढवीकायजीवपण्णवणा ]

२०. से किं तं पुढविकाइया ? पुढविकाइया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-  
सुहुमपुढविकाइया य चादरपुढविकाइया य ।

२१. से किं तं सुहुमपुढविकाइया ? सुहुमपुढविकाइया दुविहा पण्णत्ता । १०  
तं जहा-पज्जत्तसुहुमपुढविकाइया य अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइया य । से तं  
सुहुमपुढविकाइया ।

२२. से किं तं चादरपुढविकाइया ? चादरपुढविकाइया दुविहा पन्नत्ता ।  
तं जहा-सण्हबादरपुढविकाइया य खरबादरपुढविकाइया य ।

२३. से किं तं सण्हबादरपुढविकाइया ? सण्हबादरपुढविकाइया १६  
सत्तविहा पन्नत्ता । तं जहा-किण्हमत्तिया १ नीलमत्तिया २ लोहियमत्तिया ३  
हालिद्मत्तिया ४ सुक्रिल्मत्तिया ५ पंडुमत्तिया ६ पणगमत्तिया ७ । से तं  
सण्हबादरपुढविकाइया ।

२४. से किं तं खरबादरपुढविकाइया ? खरबादरपुढविकाइया अणेगविहा  
पण्णत्ता । तं जहा-

२०

पुढवी य १ सक्करा २ वालुया य ३ उवले ४ सिला य ५ लोण्से ६-७ ।

अँय ८ तंब ९ तउय १० सीसय ११ रुप्प १२ सुवण्णे य १३ वझे  
य १४ ॥ ८ ॥

हरियाले १५ हिंगुलुए १६ मणोसिला १७ सासगंडंजण १८-१९

पवाले २० । २५

१. बेहंदिय० ध० पु२ ॥ २. तेहंदिय० ध० पु२ ॥ ३. चउरिंदि० म० प्र० पु२ ॥  
४. अय तउय तंब सीसय जे० पु२ ॥

अबमपडल२१ उभवालुय २२ वादरकाए मणिविहाणा ॥ ९ ॥

गोमेज्जए य २३ स्यए २४ अंके २५ फलिहे य २६ लोहियक्खे य २७ ।

मरगय २८ मसारगले २९ भुयमोयग ३० इंदनीले य ३१ ॥ १० ॥

चंदण ३२ गेस्य ३३ हंसे ३४ पुलए ३५ सोगंधिए य ३६ घोधव्वे ।

चंदप्पभ ३७ वेस्लिए ३८ जलकंते ३९ सूरकंते य ४० ॥ ११ ॥

६ जे यावऽणे तहप्पगारा ।

२५. [१] ते समासतो दुविहा पन्नता । तं जहा—पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य ।

[२] तथ णं जे ते अपज्जत्तगा ते णं असंपत्ता ।

[३] तथ णं जे ते पज्जत्तगा एतेसि णं वणादेसेणं गंधादेसेणं रसा-

१० देसेणं फासादेसेणं सहस्रगगसो विहाणाइं, संखेज्जाइं जोणिष्पमुहसतसहस्राइं ।

पज्जत्तगणिस्साए अपज्जत्तगा वक्कमंति—जत्थ एगो तथ णियमा असंखिज्ञा । से तं खरबादरपुढविकाइया । से तं वादरपुढविकाइया । से तं पुढविकाइया ।

### [सुत्ताइं २६—२८, आउक्कायजविपणवणा]

२६. से किं तं आउक्काइया ? आउक्काइया दुविहा पणता । तं जहा—

१५ सुहुमआउक्काइया य वादरआउक्काइया य ।

२७. से किं तं सुहुमआउक्काइया ? सुहुमआउक्काइया दुविहा पन्नता ।

तं जहा—पज्जत्तसुहुमआउक्काइया य अपज्जत्तसुहुमआउक्काइया य । से तं सुहुमआउक्काइया ।

२८. [१] से किं तं वादरआउक्काइया ? वादरआउक्काइया अणेगविहा पणता । तं जहा—ओसौं हिमए महिया करए हरतण्णौ सुझ्दोदए सीतोदए

१. गोमेज्जए य २३ स्यगे २४ अंके २५ फलिहे य २६ लोहियक्खे य २७ । चंदण २८ गेस्य २९ हंसग ३० भुयमोय ३१ मसारगले य ३२ ॥ ७५ ॥ चंदप्पह ३३ वेस्लिए ३४ जलकंते ३५ चेव सूरकंते य ३६ । एए खरपुढवीए नामं छत्तीसर्थं होइ ॥ ७६ ॥ डतिरुपे आचाराङ्गसूत्रनिर्युक्तिगाथे आचार्यश्रीशीलाङ्गेन व्याख्याते । आचाराङ्गचूर्णिकृता तु प्रज्ञापनोपाङ्गसमे एव व्याख्याते स्त । उत्तराध्ययनसूत्रे पट्टिंशेऽध्ययनेऽपि प्रजापनासूत्रसमे एव गाथे विद्येते । केवलं तत्र हंसे इति स्थाने हंसगव्वभ इति पाठमेदो दद्यते, गा० ७६—७७ ॥ २. उस्सा ध० । आचाराङ्गसूत्रनिर्युक्तिकृता “सुझ्दोदए य १ उस्सा २ हिमे य ३ महिया य ४ हरतण्णौ चेव ५ । वायरआउविहाणा पंचविहा वणिया एए ॥ १०८ ॥” इत्येवं वादराकायस्य पञ्चैव भेदा निर्दिष्टा. सन्ति । उत्तराध्ययनसूत्रेऽपि पञ्चैव भेदा वर्तन्ते, अ. ३६ गा. ८६ ॥

उसिणोदए खारोदए खट्टोदए अंविलोदए लवणोदए वारुणोदए खीरोदए घैओदए  
खोतोदए रँसोदए, जे यावऽणे तहप्पगारा ।

[२] ते समासतो दुविहा पन्नता । तं जहा – पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य ।

[३] तथ्य णं जे ते अपज्जत्तगा ते णं असंपत्ता ।

[४] तथ्य णं जे ते पज्जत्तगा एतेसि णं वण्णादेसेणं गंधादेसेणं ५  
रसादेसेणं फासादेसेणं सहस्सगसो विहाणाइं, संखेज्जाइं जोणीपमुहसयसहस्साइं ।  
पज्जत्तगणिस्साए अपज्जत्तगा वक्खमंति – जत्थ एगो तथ्य णियमा असंखेज्जा ।  
से तं बादरआउक्काइया । से तं आउक्काइया ।

[सुत्ताइं २९-३१. तेउक्कायजीवपणवणा]

२९. से किं तं तेउक्काइया ? तेउक्काइया दुविहा पण्णता । तं जहा – १०  
सुहुमतेउक्काइया य बादरतेउक्काइया य ।

३०. से किं तं सुहुमतेउक्काइया ? सुहुमतेउक्काइया दुविहा पन्नता । तं  
जहा – पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य । से तं सुहुमतेउक्काइया ।

३१. [१] से किं तं बादरतेउक्काइया ? बादरतेउक्काइया अणेगविहा १६  
पण्णता । तं जहा – इंगाले जाला मुम्मुरे अच्ची अलाए सुद्धागणी उक्का विजू  
असणी णिगधाए संघरिसिसमुढ्हिए सूरकंतमणिणिसिसए, जे यावऽणे तहप्पगारा ।

[२] ते समासतो दुविहा पन्नता । तं जहा – पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य ।

[३] तथ्य णं जे ते अपज्जत्तगा ते णं असंपत्ता ।

[४] तथ्य णं जे ते पज्जत्तगा एएसि णं वण्णादेसेणं गंधादेसेणं २०  
रसादेसेणं फासादेसेणं सहस्सगसो विहाणाइं, संखेज्जाइं जोणीपमुहसयसहस्साइं ।  
पज्जत्तगणिस्साए अपज्जत्तगा वक्खमंति – जत्थ एगो तथ्य णियमा असंखेज्जा । से  
तं बादरतेउक्काइया । से तं तेउक्काइया ।

[सुत्ताइं ३२-३४. वाउकायजीवपणवणा]

३२. से किं तं वाउक्काइया ? वाउक्काइया दुविहा पण्णता । तं जहा –  
सुहुमवाउक्काइयो य बादरवाउक्काइया य । २५

१. टीकाकृताऽस्वीकृतमपि घओङ्ग सर्वास्वपि सूत्रप्रतिषु दृश्यते ॥ २. रसोदए इति  
पदं पुःप्रतावेवोपलभ्यते ॥

३३. से किं तं सुहुमवाउक्काइया ? सुहुमवाउक्काइया दुविहा पन्नता । तं जहा — पज्जतगसुहुमवाउक्काइया य अपज्जतगसुहुमवाउक्काइया य । से तं सुहुमवाउक्काइया ।

३४. [१] से किं तं वादरवाउक्काइया ? वादरवाउक्काइया अणेगविहा पण्णता । तं जहा — पाईणवाए पडीणवाए दाहिणवाए उदीणवाए उडूवाए अहोवाए तिरियवाए विदिसीवाए वाउव्वभामे वाउक्कलिया वाँयमंडलिया उँक्कलियावाए मंडलियावाए गुंजावाए झंझाँवाए संवद्वगवाए घणवाए तणुवाए सुद्धवाए, जे यावडणे तहप्पगारे ।

[२] ते समासतो दुविहा पण्णता । तं जहा — पज्जतगा य अपज्जतगा य ।

[३] तत्थ णं जे ते अपज्जतगा ते णं असंपत्ता ।

[४] तत्थ णं जे ते पज्जतगा एतेसि णं वण्णादेसेणं गंधादेसेणं रसादेसेणं फासादेसेणं सहस्रगगसो विहाणाइं, संखेज्जाइं जोणिष्पसुहसयसहस्राइं । पज्जतगणिस्साए अपज्जतग्या वक्कमंति—जत्थ एगो तत्थ णियमा असंखेज्जा । से तं वादरवाउक्काइया । से तं वाउक्काइया ।

१६

[सुत्ताइ ३५—५५. वणस्सइक्कायजीवपणवणा]

३५. से किं तं वणस्सइक्काइया ? वणस्सइक्काइया दुविहा पण्णता । तं जहा — सुहुमवणस्सइक्काइया य वादरवणस्सतिक्काइया य ।

३६. से किं तं सुहुमवणस्सइक्काइया ? सुहुमवणस्सइक्काइया दुविहा पन्नता । तं जहा — पज्जतसुहुमवणस्सइक्काइया य अपज्जतसुहुमवणस्सइक्काइया य । से तं सुहुमवणस्सइक्काइया ।

३७. से किं तं वादरवणस्सइक्काइया ? वादरवणस्सइक्काइया दुविहा पण्णता । तं जहा — पत्तेयसरीरवादरवणप्फइक्काइया य साहारणसरीरवादरवणप्फ-इक्काइया य ।

३८. से किं तं पत्तेयसरीरवादरवणप्फइक्काइया ? पत्तेयसरीरवादरवण-प्फइक्काइया दुवालसविहा पन्नता । तं जहा —

रुख्खा १ गुँच्छा २ गुम्मा ३ लता य ४ वल्ली य ५ पव्वगा चेव ६।

१. °वाए स्थाने °वाते ध० ॥ २. वाउमं पु० ॥ ३. उक्कलिवाए मंडलिवाए जे० ॥ ४. गुंजालिया-वाते ध० ॥ ५. छुंजावाए जे० ॥ ६. संवद्वाए जे० म०पु० ॥ संवद्वाए ध० ॥ ७. गच्छा जे० ॥

तण ७ वलय ८ हरिय ९ ओसहि १० जलसह ११ कुहणा य १२  
बोधवा ॥ १२ ॥

३९. से किं तं रुक्खा १ रुक्खा दुविहा पन्नता । तं जहा—एँगडिया  
य बहुबीयगा य ।

४०. से किं तं एँगडिया १ ऐँगडिया अणेगविहा पण्णता । तं जहा— ५  
णिंवंब जंभु कोसंब साल अंकोल्हं पीलु सेलू य ।

सलझ मोयइ मालुय चउल पलासे करंजे य ॥ १३ ॥

पुतंजीवयउरिडे बिभेलैए हर्डेए य भैलाए ।

उंचेमरिया खीरिणि बोधव्वे धायइ पियाले ॥ १४ ॥

पूँझकरंज सेण्हा(सण्हा) तह सीसवा य असणे य ।

पुण्णाग णागरुक्खे सीवण्णि तहा असोगे य ॥ १५ ॥

१०

जे यावडणे तहप्पगारा । एतेसि णं मूला वि असंखेजजीविया, कंदा वि  
खंधा वि तया वि साला वि पवाला वि । पत्ता पत्तेयजीविया । पुण्फा अंणेग-  
जीविया । फला एगडिया । से तं एगडिया ।

४१. से किं तं बहुबीयगा ? बहुबीयगा अणेगविहा पण्णता । १५  
तं जहा—

अतिथिय तिंदु कविडे अंबाडग माउलिंग बिल्हे य ।

आँमलग फणस दाडिम आसोत्थे उंबर वडे य ॥ १६ ॥

णंगोह णंदिरुक्खे पिष्परि सयरी पिलुक्खरुक्खे य ।

काउंबरि कुत्थुंभरि बोधव्वा देवदाली य ॥ १७ ॥

तिलए लैउए छत्तोह सिरिसे संत्तिवण्ण दहिवन्ने ।

लोङ्घ धव चंदणउज्जुण णीमे कुडए कयंबे य ॥ १८ ॥

२०

जे यावडणे तहप्पगारा । एएसि णं मूला वि असंखेजजीविया, कंदा वि खंधा

१-२-३. एगबीयगा ध० ॥ ४. अंकुल जे० म० ॥ ५. चित्तलए जे० । बिहेलए म० ।  
बहेलए प्र० ॥ ६. हरिडए ध० म० ॥ ७. भिल्हाए म० पु२ ॥ ८. खीरिणि म० ॥  
९. पूँझ य निंब सेण्हा पासिय तह जे० । पूँझ य निंब करए सेण्हा तह ध० म० । पूँझ य  
करए सेण्हा पासिय तह पु२ । पूँझ य निंब करंजे सुण्हा तह मु० ॥ १०. अणेगजीवा जे० पु२ ॥  
११. आगलग जे० ध० म० ॥ १२. णिगोह प्र० ॥ १३. पिलुक्खुरु० प्र० ॥ १४. काउंभरि  
कुत्थुंभरि जे० ध० ॥ १५. मल्यगिरिपादैत्र दीकायां लवक इति नाम निर्दिष्टमस्ति प्रतिष्ठु तु  
रुउए इत्येव पाठो वर्तते ॥ १६. सत्तिवण्ण पु२ ॥

वि तथा वि साला वि पवाला वि । पत्ता पत्तेयजीविया । पुफ्फा अणेगजीविया ।  
फला वंहुवीया । से तं वहुवीयगा । से तं रुक्खा ।

४२. से किं तं गुच्छा ? गुच्छा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-

वाइंगैण सल्लइ वोँडई य तह कच्छुरी य जासुमणा ।

६. रुद्वी आढ़ि नीली तुलसी तह माउलिंगी य ॥ १९ ॥

कंत्युंभरि पिप्पलिया अतसी विल्ही य कायमाई या ।

चुच्चु पडोला कंदलि बाऊच्चा वत्थुले वदरे ॥ २० ॥

पत्तउर सीयउरए हवति तहा जवसए य वोधव्वे ।

णिगुंडि अक्क तूवरि आंडई चेव तलऊडा ॥ २१ ॥

१० सण वीण कास महग अगधाडग साम सिंदुवारे य ।

कैरमद अद्रूसग करीर एरावण मैहित्ये ॥ २२ ॥

जाऊलग माल परिली गयमारिणि कुच्च कारिया भंडी ।

जावडे केयडे तह गंज पाडला दासि अंकोले ॥ २३ ॥

जे यावडणे तहप्पगारा । से तं गुच्छौ ।

४३. से किं तं गुम्मा ? गुम्मा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-

सेरियैण णोमालिय कोरंट्यै वंधुजीवग मणोजे ।

पीईय पाण कैणझर कुज्जय तह सिंदुवारे य ॥ २४ ॥

जाई मोगगर तह जूहिया य तह मल्लिया य वासंती ।

वत्थुल कंच्छुले सेवाल गंठि मगदंतिया चेव ॥ २५ ॥

२० चंपगजाती णवणीईया य कुंदो तहा महाजाई ।

एवमणेगगारा हवंति गुम्मा मुणेयव्वा ॥ २६ ॥

से तं गुम्मा ।

१. वहुवीयगा मु० ॥ २-३. गच्छा जे० ध० ॥ ४. °गणि मु० ॥ ५. शुंडई मु० ॥

६. कृत्युंभरि ध० पु२ । कुच्छुंभरि म० प्र० । कच्छुंभरि मु० ॥ ७. वल्ही जे० म० पु२ ॥

८. चुच्चपडोला कडलि ध० म० प्र० । चुच्चू पडोलकंडे मु० ॥ ९. अष्टडे जे० ध० ॥

१०. पाण काम मुहग अग्वाडग म० प्र० मु० पु२ ॥ ११. करमहियऽहरूसग ध० ।

करमह अहरूसग मु० ॥ १२. महल्ये ध० प्र० ॥ १३. जाऊल तमाल परिली ध० पु२ ॥

१४. गच्छा जे० ध० ॥ १५. सेणियए पु२ । सेणयए मु० ॥ १६. णोमालिय पु२ ।

गोमालिय प्र० ॥ १७. कोसिटे पु२ ॥ १८. कणयर पु२ ॥ १९. कत्थुल म० प्र० मु० ॥

२०. °णीतया ध० ॥

४४. से किं तं लयाओ ? लयाओ अणेगविहाओ पण्णत्ताओ । तं जहा—  
पउमलता नागलता असोग-चंपयलता यं चूतलता ।  
वणलय वासंतिलया अइमुत्तय-कुंदं-सामलता ॥ २७ ॥

जे यावङ्णे तहप्पगारा । से तं लयाओ ।

४५. से किं तं वल्लीओ ? वल्लीओ अणेगविहाओ पण्णत्ताओ । तं ५  
जहा—

पूसफली कालिंगी तुंबी तैउसी य एलवालुंकी ।  
घोसाडई पडोला पंचंगुलिया यं णालीया ॥ २८ ॥  
कंगूया कहुइया कैकोडई कारियलई सुभगा ।  
कुँवधा(या) य वागली पाववल्लि तह देवदारू य ॥ २९ ॥ १०  
अफोया अइमुत्तय णागलया कण्ह-सूरवल्ली य ।  
संघट्ट सुमणसा वि य जासुवण कुविंदवल्ली य ॥ ३० ॥  
मुहिय अंप्पा भल्ली छीरविराली जियंति गोवांली ।  
पाणी माँसावल्ली गुंजावल्ली य वच्छाणी ॥ ३१ ॥  
संसर्विंदु गोत्तफुसिया गिरिकण्णइ मालुया य अंजणई । १५  
दहफुल्लइ कागणि मोगली य तह अक्खोंदी य ॥ ३२ ॥

जे यावङ्णे तहप्पगारा । से तं वल्लीओ ।

४६. से किं तं पव्वगा ? पव्वगा अणेगविहा पन्नता । तं जहा—

इकरबू य इकखुवांडी वीरण तह एकडे भमासे य ।  
सुंबे सरे य वेते तिमिरे सतपोरग णले य ॥ ३३ ॥ २०  
वंसे वेलू कणए कंकावंसे यं चाववंसे य ।  
उदए कुडए विमए कंडावेलू य कल्लाणे ॥ ३४ ॥

जे यावङ्णे तहप्पगारा । से तं पव्वगा ।

१. य भूतलता जे० म० । य पूयलता प्र० ॥ २. °कंद० पु२ विना ॥ ३. तपुसी प्र० ॥
४. घोसालती पडोला ध० । घोसाई य पडोला जे० । घोसाडहं पंडोला मु० ॥ ५. य णीली य प्र० मु० ॥ ६. कैकोडह ध० ॥ ७. कुयवा यवा गली ध० पु२ मु० ॥ ८. देवदाली मु० पु२ ॥
९. अंबावली किहछिराली जयंति मु० ॥ १०. गोवल्ली ध० ॥ ११. सामावली पु२ ॥
१२. ससिची हुगोत्त० मु० ॥ १३. दहफोल्लइ कागलि ध० । दहिफोल्लइ कागलि मु० ॥
१४. °वाडिग वी० प्र० ॥ १५. एकडे य मासे म० पु२ मु० ॥ १६. य वाउवंसे य प्र० ॥

४७. से किं तं तणा ? तणा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-

‘सेडिय भत्तिय होत्तिय डब्म कुसे पव्वए य पोड़इला ।

अज्जुण असाढए रोहियसे सुय वेय खीर तुँसे ॥ ३५ ॥

एरंडे कुरुविंदे कर्कुखड सुंठे तहा विमंगूय ।

महुरतण लुँणय सिप्पिय चोधच्वे सुंकलितणा य ॥ ३६ ॥

६

जे यावडणे तहप्पगारा । से तं तणा ।

४८. से किं तं वलया ? वलया अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-

ताल तमाले तक्कलि तेयलि संरे य सारकलाणे ।

सरले जावति केयइ कंदंलि तह धम्मस्कखे य ॥ ३७ ॥

सुयस्कख हिंगुस्कखे लवंगस्कखे य होति चोधच्वे ।

पूयफली खज्जूरी चोधच्वा नालिएरी य ॥ ३८ ॥

१०

जे यावडणे तहप्पगारा । से तं वलया ।

४९. से किं तं हरिया ? हरिया अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-

अंजोरुह चोडाणे हरितिग तह तंदुलेज्जग तणे य ।

१५

वथुल पारंग मंजार पाइ चिल्ली य पालक्का ॥ ३९ ॥

दगपिप्पली य दब्बी सोत्थियसाए तहेव मंडुक्की ।

मूलग सरिसिव अंविलसाए य जियंतए चेव ॥ ४० ॥

तुलसी कण्ह उराले फणिज्जए अज्जए य भूयणए ।

चोरंग दमणग मस्यग सयपुण्ठिवरे य तहा ॥ ४१ ॥

२०

जे यावडणे तहप्पगारा । से तं हरिया ।

५०. से किं तं ओसहीओ ? ओसहीओ अणेगविहाओ पणत्ताओ ।  
तं जहा-

साली १ वीही २ गोधूम ३ जवजवा ४ कल ५ मसूर ६ तिल ७ मुग्गा ।

१. सेडिय गंनिय ध० पु२ । संडिय मंतिय मु० ॥ २. डब्म ध० पु२ ॥ ३. पाड़इला जे० ॥

४. भुसे म० प्र० ॥ ५. करकर सुंठे म० प्र० पु२ ॥ ६. चिसंगू म० प्र० ॥ ७. धुरय म० ।

दुरय प्र० पु२ मु० ॥ ८. °वडणा जे० ध० ॥ ९. सारे य सालक० ध० । साले य

सारक० म० । साली य सारक० मु० पु२ । सरले य सारक० प्र० ॥ १०. कदली मु० ॥

११. अब्मोरुह म० ॥ १२. तंदुलिज्जग म० प्र० ॥ १३. पोरग म० प्र० पु२ मु० ॥

१४. मज्जारयाह प्र० मु० ॥ १५. पालंका प्र० ॥ १६. चारग पु२ ॥

मास ९ निष्काव १० कुलत्थ ११ अलिसंद १२ सतीण १३  
पलिमंथा १४ ॥ ४२ ॥

अैयसी १५ कुसुंभ १६ कोद्व १७ कंगू १८ रालग १९  
वरसामग २० कोदूसा २१ ।

सण २२ सरिसव २३ मूलग २४ बीय २५ जा यावङ्णा तहपगारा ॥ ४३ ॥ ५  
से तं ओसहीओ ।

५१. से किं तं जलरुहा ? जलरुहा अणेगविहा पण्णता । तं जहा-  
उदए अवए पणए सेवाले कलंबुया हडे कसेस्या कच्छा भाणी उप्पले पउमे  
कुमुदे नलिणे सुभए सुगंधिए पोंडरीए महापोंडरीए सयपत्ते सहस्सपत्ते कल्हारे  
कोकणदे अरविंदे तामरसे भिसे भिसमुणाले पोकखलैत्थिभए, जे यावङ्णे १०  
तहपगारा । से तं जलरुहा ।

५२. से किं तं कुहणा ? कुहणा अणेगविहा पण्णता । तं जहा-आए  
काए कुहणे कुँणके दब्बहलिया सँप्काए सँज्जाए सिंचाए वंसी णँहिया कुरए, जे  
यावङ्णे तहपगारा । से तं कुहणा ।

५३. णाणाविहसंठाणा रुक्खाणं एगजीविया पत्ता । १६

खंधो वि एगजीवो ताल-सरल-नालिएरीणं ॥ ४४ ॥

जह सगलसरिसवाणं सिलेसमिस्साण वट्ठिया वट्टी ।

पत्तेयसरीराणं तह होंति सरीरसंघाया ॥ ४५ ॥

जह वा तिलप्पडिया बहुएहिं तिलेहि संहिता संती ।

पत्तेयसरीराणं तह होंति सरीरसंघाया ॥ ४६ ॥ २०

से तं पत्तेयसरीरबादरवणफङ्काइया ।

५४. [१] से किं तं साहारणसरीरबादरवणस्सइकाइया ? साहारण-  
सरीरबादरवणस्सइकाइया अणेगविहा पण्णता । तं जहा-

अवए पणए सेवाले लोहिणी मिहू त्थिहू त्थिभगा ।

अंसकण्णी सीहकण्णी सिउंदि तत्तो मुसुंदी य ॥ ४७ ॥ २५

१. अयसि कुसुंभक कोद्व ध० ॥ २. °लविभाषु ध० । °लत्थिभुषु मु० ॥ ३. कुड्के ध० ।  
अणुके म० ॥ ४. सप्पाए प्र० ॥ ५. सज्जाए ध० म० प्र० मु० ॥ ६. सत्ताए प्र० ।  
छत्ताए ध० म० पु० ॥ ७. अणहिया जे० ॥ ८. °णी त्थिहू त्थिभुगा म०  
प्र० ॥ ९. असकिणही सीहकिणही जे० ॥

रुह कंडुरिया जारू छीरविराली तहेव किड्डीया ।  
 हलिदा सिंगवेरे य आलूगा मूलए इ य ॥ ४८ ॥  
 कंबू य कण्हकडबू महुओ वलई तहेव महुसिंगी ।  
 णिरुहा सप्पसुयंधा छिण्णरुहा चेव वीयरुहा ॥ ४९ ॥  
 ५  
 पाढा मियवालुंकी महुररसा चेव रायवली य ।  
 पउमा य माढरी दंती चंडी किड्डि ति यावरा ॥ ५० ॥  
 मासपण्णी मुग्गपण्णी जीविय रसभेय रेणुया चेव ।  
 काओली खीरकाओली तंहा भंगी णही इ य ॥ ५१ ॥  
 किमिरासि भद्रमुत्था णंगलई पलुँगा इ य ।  
 १०  
 किण्हे पउले य हुठे हरतणुया चेव लोयाणी ॥ ५२ ॥  
 कण्हे कंदे वजे सूरणकंदे तहेव खलूडे ।  
 एए अणंतजीवा, जे यावडणे तहाविहा ॥ ५३ ॥

[ २ ] तणमूल कंदमूले वंसमूले ति यावे ।  
 संखेजमसंखेजा घोघब्बाऽणंतजीवा य ॥ ५४ ॥  
 १५  
 सिंघाडगस्स गुच्छे अणेगजीवो उ होति नायब्बो ।  
 पत्ता पत्तेयजिया, दोणिं य जीवा फले भणिता ॥ ५५ ॥

[ ३ ] जस्स मूलस्स भग्गस्स समो भंगो पैदीसए ।  
 अणंतजीवे उ से मूले, जे यावडणे तहाविहा ॥ ५६ ॥  
 जस्स कंदस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसए ।  
 २०  
 अणंतजीवे उ से कंदे, जे यावडणे तहाविहा ॥ ५७ ॥  
 जस्स खंधस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसई ।  
 अणंतजीवे उ से खंधे, जे यावडणे तहाविहा ॥ ५८ ॥  
 जीसे तयाए भग्गाए समो भंगो पदीसए ।  
 अणंतजीवा तया सा उ, जा यावडणा तहाविहा ॥ ५९ ॥

१. कुंडरिया ध० मु० । कुंणुरिया पु२ । कुंडरिया म० । कुंड्यारी प्र० ॥ २. जीरु म० ॥  
 ३. किटीया प्र० मु० ॥ ४. कण्णुकडत्त महुओ ध० । कञ्जुकड सुमत्तओ मु० ॥ ५. विरुहा  
 प्र० ॥ ६. तथामं० म० ॥ ७. पेलुगा म० प्र० पु२ मु० ॥ ८. वंसीमूले पु२ ॥  
 ९. गच्छो जे० ॥ १०. दोणिं य म० पु२ ॥ ११. अन्र गाथा कदम्बके पदीसए, पदीसई,  
 पदीसइ, पदीसती, पदीसति स्थाने सर्वास्वपि प्रतिष्ठावृत्या य दीसए, य दीसई, य दीसइ,  
 य दीमनी, य दीसति इति पाठो वरीवृत्यते ॥

जस्स सालस्स भगगस्स समो भंगो पदीसई ।  
 अणंतजीवे उ से साले, जे यावडणे तहाविहा ॥ ६० ॥  
 जस्स पवालस्स भगगस्स समो भंगो पदीसई ।  
 अणंतजीवे पवाले से, जे यावडणे तहाविहा ॥ ६१ ॥  
 जस्स पत्तस्स भगगस्स समो भंगो पदीसई ।  
 अणंतजीवे उ से पत्ते, जे यावडणे तहाविहा ॥ ६२ ॥  
 जस्स पुण्फस्स भगगस्स समो भंगो पदीसई ।  
 अणंतजीवे उ से पुण्फे, जे यावडणे तहाविहा ॥ ६३ ॥  
 जस्स फलस्स भगगस्स समो भंगो पदीसती ।  
 अणंतजीवे फले से उ, जे यावडणे तहाविहा ॥ ६४ ॥  
 जस्स वीयस्स भगगस्स समो भंगो पदीसई ।  
 अणंतजीवे उ से वीए, जे यावडणे तहाविहा ॥ ६५ ॥

[४] जस्स मूलस्स भगगस्स हीरो भंगो पदीसई ।  
 परित्तजीवे उ से मूले, जे यावडणे तहाविहा ॥ ६६ ॥  
 जस्स कंदस्स भगगस्स हीरो भंगो पदीसई ।  
 परित्तजीवे उ से कंदे, जे यावडणे तहाविहा ॥ ६७ ॥  
 जस्स खंधस्स भगगस्स हीरो भंगो पदीसई ।  
 परित्तजीवे उ से खंधे, जे यावडणे तहाविहा ॥ ६८ ॥  
 जीसे तयाए भगगाए हीरो भंगो पदीसई ।  
 परित्तजीवा तया सा उ, जा यावडणे तहाविहा ॥ ६९ ॥  
 जस्स सालस्स भगगस्स हीरो भंगो पदीसती ।  
 परित्तजीवे उ से साले, जे यावडणे तहाविहा ॥ ७० ॥  
 जस्स पवालस्स भगगस्स हीरो भंगो पदीसति ।  
 परित्तजीवे पवाले उ, जे यावडणे तहाविहा ॥ ७१ ॥  
 जस्स पत्तस्स भगगस्स हीरो भंगो पदीसति ।  
 परित्तजीवे उ से पत्ते, जे यावडणे तहाविहा ॥ ७२ ॥  
 जस्स पुण्फस्स भगगस्स हीरो भंगो पदीसति ।  
 परित्तजीवे उ से पुण्फे, जे यावडणे तहाविहा ॥ ७३ ॥  
 जस्स फलस्स भगगस्स हीरो भंगो पदीसति ।  
 परित्तजीवे फले से उ, जे यावडणे तहाविहा ॥ ७४ ॥

५

१०

१५

२०

२५

३०

जस्स वीयस्स भगगस्स हीरो भंगे पदीसति ।  
परित्तजीवे उ से वीए, जे यावडणे तहाविहा ॥ ७५ ॥

- [५] जस्स मूलस्स कट्टाओ छल्ली बहलतरी भवे ।  
अणंतजीवा उ सा छल्ली, जा यावडणा तहाविहा ॥ ७६ ॥  
६ जस्स कंदस्स कट्टाओ छल्ली बहलतरी भवे ।  
अणंतजीवा तु सा छल्ली, जा यावडणा तहाविहा ॥ ७७ ॥  
जस्स खंधस्स कट्टाओ छल्ली बहलतरी भवे ।  
अणंतजीवा उ सा छल्ली, जा यावडणा तहाविहा ॥ ७८ ॥  
१० जीसे सालाए कट्टाओ छल्ली बहलतरी भवे ।  
अणंतजीवा उ सा छल्ली, जा यावडणा तहाविहा ॥ ७९ ॥

- [६] जस्स मूलस्स कट्टाओ छल्ली तणुयतरी भवे ।  
परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावडणा तहाविहा ॥ ८० ॥  
१५ जस्स कंदस्स कट्टाओ छल्ली तणुयतरी भवे ।  
परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावडणा तहाविहा ॥ ८१ ॥  
जस्स खंधस्स कट्टाओ छल्ली तणुयतरी भवे ।  
परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावडणा तहाविहा ॥ ८२ ॥  
जीसे सालाए कट्टाओ छल्ली तणुयतरी भवे ।  
परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावडणा तहाविहा ॥ ८३ ॥

- [७] चक्कागं भज्जमाणस्स गंठी चुण्णघणो भवे ।  
२० पुंदविसरिसेण भेण अणंतजीवं वियाणाहि ॥ ८४ ॥  
गूढछिरागं पत्तं सच्छीरं जं च होति णिच्छीरं ।  
जं पि य पणहुसंधिं अणंतजीवं वियाणाहि ॥ ८५ ॥

- [८] पुण्फा जलया थलया य वेंटबद्धा य णालबद्धा य ।  
२५ संखेजमसंखेजा घोधब्वाडणंतजीवा य ॥ ८६ ॥  
जे केइ नालियाबद्धा पुण्फा संखेजजीविया भणिता ।  
णिहुया अणंतजीवा, जे यावडणे तहाविहा ॥ ८७ ॥  
पउसुप्पलिणीकंदे अंतैरकंदे तहेव द्विल्ली य ।

१. पुढवीसरिसभेण जे० म० पु२ ॥ २. यावडणा प्र० ॥ ३. अणंतर० जे० ध० म० प्र० ॥

४. जिल्ली जे० म० प्र० ॥

एते अणंतजीवा एगो जीवो भिसं-मुणाले ॥ ८८ ॥  
 पलंडू-ल्हसणकंदे य कंदली य कुसुंबए ।  
 एए परित्तजीवा, जे यावऽणे तहाविहा ॥ ८९ ॥  
 पउमुप्पल-नलिणाणं सुभग-सोगंधियाण य ।  
 अरविंद-कोंकणाणं सतवत्त-सहस्रवत्ताणं ॥ ९० ॥  
५  
 वेंटं बाहिरपत्ता य कणिण्या चेव एगजीवस्स ।  
 अर्भितरगा पत्ता पत्तेयं केसैरा मिंजा ॥ ९१ ॥  
 वेणु णल इक्खुवाडिय मैसमा सद्ग्रह् य इक्कडेरंडे ।  
 करकर सुंठि विहुंगुं तणाण तह पव्वगाणं च ॥ ९२ ॥  
 अर्छि पञ्चं बलिमोडओ य एगस्स होंति जीवस्स ।  
१०  
 पत्तेयं पत्ताइं पुफ्काइं अणेगजीवाइं ॥ ९३ ॥  
 पुँस्सफलं कालिंगं तुंबं तउसेलवालु वालुंकं ।  
 घोसांडयं पडोलं तिंदूयं चेव तेंदूसं ॥ ९४ ॥  
 विंटं संमंस-कडाहं एयाइं होंति एगजीवस्स ।  
 पत्तेयं पत्ताइं सकेसरमकेसरं मिंजा ॥ ९५ ॥  
१५  
 संप्फाए सज्जाए उव्वेहलिया य कुहण कंदुके ।  
 एए अणंतजीवा कंडुके होति भयणा उ ॥ ९६ ॥

[९] <sup>१६</sup>जोणिब्भूए बीए जीवो वक्कमइ सो व अण्णो वा ।  
 जो वि य मूले जीवो सो वि य पत्ते पढमताए ॥ ९७ ॥  
 सव्वो वि किसलओ खलु उगगममाणो अणंतओ भणिओ ।  
२०  
 सो चेव विवडुंतो होइ परित्तो अणंतो वा ॥ ९८ ॥

[१०] समयं वक्कंताणं समयं तेसिं सरीरनिवत्ती ।  
 समयं आणुगहणं समयं ऊसास-नीसासे ॥ ९९ ॥

१. बिस-मुणाले मु० ॥ २. कुडुंबए जे० ध० । कुडुंबए म० प्र० ॥ ३. <sup>०</sup>कोंकणाणं म० प्र० । कुंकु-  
 णाणं पु२ ॥ ४. केसरं पु२ ॥ ५. ममसा सद्ग्रह् जे० ध० । गसमा सद्ग्रह् प्र० । समास इक्खु-  
 मु० पु२ ॥ ६. विहंगु मु० ॥ ७. पूसफलं मु० ॥ ८. घोसालयं म० प्र० पु२ ॥ ९. <sup>०</sup>दय पंडोलं  
 मु० ॥ १०. तिंदूयं चेव तेंदूसं म० प्र० ॥ ११. विंटं संसकडाहं म० । विंटं गिरं कडाहं प्र०,  
 श्रीहरिभद्रपादसम्मतोऽयं पाठ ॥ १२. पु२ प्रती समंसइत्यस्योपरि “गिर” इति कडाहइत्यस्योपरि  
 “घो(खो)परि” इति च टिप्पणी वर्तते ॥ १३. सप्पाए जे० ध० म० ॥ १४. कुंडुके जे०  
 ध० म० ॥ १५. श्रीमलयगिरिभिः बीए जोणिब्भूए इति पाठ आदतोऽस्ति, नोपलब्धोऽसावादर्शेषु ॥

एकस्स उ जं गहणं वहूण साहारणाण तं चेव ।  
 जं वहुयाणं गहणं समासओ तं पि एगस्स ॥ १०० ॥  
 साहारणमाहारो साहारणमाणुप्राणगहणं च ।  
 साहारणजीवाणं साहारणलक्षणं प्रयं ॥ १०१ ॥  
 जह अयगोलो धंतो जाओ तत्तत्वणिज्जसंकासो ।  
 सब्बो अगणिपरिणतो निगोयजीवे तहा जाण ॥ १०२ ॥  
 एगस्स दोणह तिणह व संखेज्ञाण व न पासिउं सक्का ।  
 दीसंति सरीराइं णिओयजीवाणऽणंताणं ॥ १०३ ॥

[११] लोगागासपएसे णिओयजीवं ठवेहि एकेकं ।

एवं मवेज्ञमाणा हवंति लोया अणंता उ ॥ १०४ ॥  
 लोगागासपएसे परित्तजीवं ठवेहि एकेकं ।  
 एवं मविज्जमाणा हवंति लोया असंख्यमागमेता उ ॥ १०५ ॥  
 पतेया पञ्जत्ता पयरस्स असंख्यमागमेता उ ।  
 लोगाऽसंख्याऽपञ्जत्तगाण साहारणमणंता ॥ १०६ ॥  
 [ऐएहिं सरीरेहिं पञ्चकर्खं ते परुविया जीवा ।

सुहुमा आणागेज्ञा चक्रवृप्कासं ण ते एंति ॥ १ ॥ ] [ पक्षित्ता गाहा ]  
 जे यावऽणे तहप्पगारा ।

५५. [१] तं समासओ दुविहा पणत्ता । तं जहा—पञ्जत्तगा य  
 अपञ्जत्तगा य ।

[२] तत्थ णं जे ते अपञ्जत्तगा ते णं असंपत्ता ।

[३] तत्थ णं जे ते पञ्जत्तगा तेसिं वण्णादेसेणं गंधादेसेणं रसादेसेणं  
 फासादेसेणं सहस्रगगसो विहाणाइं, संखेज्ञाइं जोणिप्पमुहसयसहस्राइं ।  
 पञ्जत्तगणिस्साए अपञ्जत्तगा वक्मंति—जत्थ एगो तत्थ सिय संखेज्ञा  
 सिय असंखेज्ञा सिय अणंता । एसि णं इमाओ गाहाओ अणुगंतव्याओ ।

२५ तं जहा—

कंदा य १ कंदमूला य २ रुखमूला इ ३ यावेरे ।

गुच्छा य ४ गुम्म ५ वल्ली य ६ वेलुयाणि ७ तणाणि य ८ ॥ ॥१०७॥

१. एकस्स प्र० ॥ २. इयं गाथा दीक्षाकृद्यां व्याख्याता नास्ति ॥

पउमुप्पल ९-१० संघाडे ११ हैंडे य १२ सेवाल १३ किँहए १४ पणए १५ ।

अवए य १६ कच्छ १७ भाणी १८ कंडुक्केक्कूणवीसइमे १९ ॥ १०८ ॥  
तय-छलि-पवालेसु य पत्त-पुष्फ-फलेसु य ।

मूलउग्ग-मज्ज-बीएसु जोणी कस्स य कित्तिया ? ॥ १०९ ॥

से तं साहारणसरीरवादरवणस्सइकाइया । से तं बादरवणस्सइकाइया । से तं वणस्सइकाइया । से तं एर्गिदिया ।

### [सुत्तं ५६. वेइंदियजीवपण्णवणा]

५६. [१] से किं तं वेंदियाँ ? वेंदिया (? से किं तं वेइंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? वेइंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा) अणेगविहा पन्नता । तं जहा - पुलाकिमिया कुच्छिकिमिया गंडूयलगा गोलोमा णेउरा सोमंगलगा वंसिमुहा सूईमुहा गोजलोया जलोया जैलोउया संखा संखणगा घुलाँ खुला वराडा सोत्तिया मोत्तिया कलुया वासा एगओवत्ता दुहओवत्ता पंदियावत्ता संबुक्का माईवाहा सिप्पिसंपुडा चंदणा समुद्दलिक्खा, जे यावडणे तहप्पगारा । सव्वेते सम्मुच्छिमा नपुंसगा ।

[२] ते समासतो दुविहा पन्नता । तं जहा-पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य । एएसि णं एवमादियाणं वेइंदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं सत्त जाइकुलकोडिजोणी-पमुहसतसहस्सा भवंतीति मक्खातं । से तं वेइंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ।

### [सुत्तं ५७. तेइंदियजीवपण्णवणा]

५७. [१] से किं तं तेंदिर्यसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? तेंदिर्य-संसारसमावण्णजीवपण्णवणा अणेगविहा पन्नता । तं जहा-ओवइया रोहिणीया कुंथू पिपीलिया उद्दंसगा उद्देहिया उक्कलिया उप्पाया उक्कडा उप्पडा तणाहारा

१. हडे य म० प्र० ॥ २. किणहए अवए । पणए य कच्छ इति पाठानुसारेण श्रीमलयगिरिपादै-व्याख्यातमस्ति । नोपलभ्यतेऽयं पाठ क्षाप्यादर्शे ॥ ३. वेइंदिया ? वेइंदिया पु२ म० प्र० ॥ ४. णेयरा म० प्र० ॥ ५. सूयीमुहा म० प्र० ॥ ६. जालाउया म० प्र० पु२ म० ॥ ७. घेला कुला कुब्बा वराडा जे० । घला फुला खंधा वराडा ध० । घेला फुला गुलया खुला वराडा म० । घुला खुला गुलया खंधा वराडा म० । घुला फुला गुलया खुला वराडा पु२, अत्र खुला इत्येतस्योपरि “खंधा” इनि पु२ प्रतौ टिप्पणी वर्तते । प्रदेशव्याख्याया तु खुला खुद्दा वराडा इति पाठानुसारेण व्याख्यातं वर्तते ॥ ८-९. तेइंदियसं म० पु२ ॥ १०. वप्पाया उप्पाडा तणहारा कट्टहारा समालुया म० प्र० । वप्पाया उप्पाडा तणहारा मालुया पु२ ॥

कहाहारा मालुया पत्ताहारा तणविंटिया पत्तविंटिया पुफविंटिया फलविंटिया वीयविंटिया तेदुरणमजिया तउसमिजिया कप्पासडिसमिजिया हिलिया शिलिया शिंगिरा किंगिरिडौं पाहुया सुभगा सोवच्छिया सुयविंटा इंदिकौइया इंदगोवया उंखलुंचगा कोत्थलवाहगा जूया हालाहला पिसुया सतवाइया गोम्ही हत्थिसोंडा, जे यावडणे ५ तहप्पगारा । सब्बेते समुच्छिम-णपुंसगा ।

[२] ते समासतो दुविहा पणता । तं जहा-पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य । एसि णं एवमाइयाणं तेइंदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं अहु जातिकुलकोडिजोणिष्प-मुहसतसहस्ता भवंतीति मक्खायं । से तं तेंदियसंसारसमावणजीवपणवणा ।

### [सुन्त ५८. चउरिंदियजीवपणवणा]

१० ५८. [१] से किं तं चउरिंदियसंसारसमावणजीवपणवणा ? चउरिंदियसंसारसमावणजीवपणवणा अणेगविहा पणता । तं जहा-

अंधिय णेतियैं मच्छिय र्मगमिगकीडे तहा पयंगे य ।

दिंकुंण कुक्कुड कुक्कुह णंदावते य सिंगिरिडे ॥ ११० ॥

१५ किण्हपत्ता नीलपत्ता लोहियपत्ता हलिदपत्ता सुक्किलपत्ता चित्तपक्खा विचित्तपक्खा ओभंजलिया जलचारिया गंभीरा पीणिया तंतवा अच्छिरोडा अच्छिवेहा सारंगा ऐडैला दोला भमरा भरिली जस्ता तोड्हौं विच्छुता पत्तविच्छुयैं छाणविच्छुया जलविच्छुया पियंगाला कैणगा गोमयकीडगा, जे यावडणे तहप्पगारा । सब्बेते समुच्छिमा नपुंसगा ।

२० [२] ते समासतो दुविहा पणता । तं जहा-पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य । एतेसि णं एवमाइयाणं चउरिंदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं णव जातिकुलकोडि-जोणिष्पमुहसयसहस्ता भवंतीति मक्खायं । से तं चउरिंदियसंसारसमावण-जीवपणवणा ।

१. पणविंटिया म० ॥ २. तंदुरुणमजिया म० प्र० । तिंदुरणमजिया ध० । तेदुरणमिजिया मु० पु० ॥ ३. शिंगिरिडा प्र० ॥ ४. वाहुया लहुया सुभगा मु० पु० ॥ ५. इंदकाहुया प्र० मु० ॥ ६. ठन्नुभुगा म० प्र० पु० । तुस्तुवगा मु० ॥ ७. पोत्तिय म० प्र० पु०सें० । पत्तिय मु० पु० ॥ ८. मगसिङ्गकीडे म० । मगालकीडे प्र० पु० । मसगा कीडे मु० ॥ ९. दंकुण म० प्र० मु० पु० ॥ १०. णेडरा म० प्र० पु० ॥ ११. तोद्वा म० प्र० पु० ॥ १२. ओया वालजणविच्छुता जै० ॥ १३. कणभागा जै० ॥

## [ सुत्ताहं ५९-१४७, पंचिंदियजीवपण्णवणा ]

५९. से किं तं पंचिंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? पंचिंदियसंसार-  
समावण्णजीवपण्णवणा चउव्विहा पण्णता । तं जहा-नेरइयपंचिंदियसंसार-  
समावण्णजीवपण्णवणा १ तिरिक्खजोणियपंचिंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा २  
मणुस्सपंचिंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ३ देवपंचिंदियसंसारसमावण्णजीव- ५  
पण्णवणा ४ ।

## [ सुत्तं ६०, नेरइयजीवपण्णवणा ]

६०. से किं तं नेरइया ? नेरइया सत्तविहा पण्णता । तं जहा-रयण-  
प्पभापुढविनेरइया १ सक्करप्पभापुढविनेरइया २ वालुयप्पभापुढविनेरइया ३ १०  
पंकप्पभापुढविनेरइया ४ धूमप्पभापुढविनेरइया ५ तमप्पभापुढविनेरइया ६  
तंमतमप्पभापुढविनेरइया ७ । ते समासतो दुविहा पण्णता । तं जहा-पज्जत्तगा य  
अपज्जत्तगा य । से तं नेरइया ।

## [ सुत्ताहं ६१-९१, तिरिक्खजोणियजीवपण्णवणा ]

६१. से किं तं पंचिंदियतिरिक्खजोणिया ? पंचिंदियतिरिक्खजोणिया  
तिविहा पण्णता । तं जहा-जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया १ थलयरपंचिंदिय- १५  
तिरिक्खजोणिया २ खहयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया ३ ।

६२. से किं तं जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया ? जलयरपंचिंदियतिरिक्ख-  
जोणिया पंचविहा पण्णता । तं जहा-मच्छा १ कच्छहा २ गाहा ३ मगरा ४  
सुंसुमारा ५ ।

६३. से किं तं मच्छा ? मच्छा अणेगविहा पण्णता । तं जहा-सण्हमच्छा २०  
खवल्मच्छा जुँगमच्छा विज्ञँडियमच्छा हॉलिमच्छा मँगरिमच्छा रोहियमच्छा  
हलीसागरा गागरा वडा वडगर्रा तिमी तिमिंगिलां णक्का तंदुलमच्छां कणिक्कामच्छा

१. तमतमापुढवी० प्र० ॥ २. सिंसुमारा जे० । सुसुमारा सु० ॥ ३. जुँगमच्छा मु०॥  
४. विभिभड० म० प्र० जीटी० । विज्ञँडियमच्छा मु० ॥ ५. हॉलिहमच्छा म० । हेलियमच्छा  
जीटी० ॥ ६. मगरि० पु२ सु० ॥ ७. लोहिय० म० ॥ ८. °रा गव्भगा ज्ञासगारा  
तिमी पु२ । °रा गव्भया उसगारा तिमी मुद्रिते । °रा तिमितिमंगिलमच्छा तंदुल० प्र० ॥  
९. तिमंगिला म० ॥ १०. °च्छा सलिच्छ्यामच्छा लेमूलमच्छा पडागाति० जे० ॥

सालिसच्छियामच्छा लंभणमच्छा पडागा पडागातिपडागा, जे यावऽणे तहप्पगारा । से तं मच्छा ।

६४. से किं तं कच्छभा ? कच्छभा दुविहा पणता । तं जहा-अद्विकच्छभा य मंसकच्छभा य । से तं कच्छभा ।

६५. से किं तं गाहा ? गाहा पंचविहा पणता । तं जहा-दिली १ वेढला २ सुँद्रया ३ पुलगा ४ सीमागारा ५ । से तं गाहा ।

६६. से किं तं मगरा ? मगरा दुविहा पणता । तं जहा-सोँडमगरा य मँडुमगरा य । से तं मगरा ।

६७. से किं तं सुंसुमारा ? सुंसुमारा एगागारा पणता । से तं सुंसुमारा । जे यावऽणे तहप्पगारा ।

६८. [१] ते समासतो दुविहा पणता । तं जहा-समुच्छिमा य गव्वबक्कंतिया य ।

[२] तत्थ णं जे ते समुच्छिमा ते सब्बे नपुंसगा ।

६९. [३] तत्थ णं जे ते गव्वबक्कंतिया ते तिविहा पणता । तं जहा-इत्थी १ पुरिसा २ नपुंसगा ३ ।

[४] एतेसि णं एवमाइयाणं जलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जता-पज्जताणं अद्घतेरस जाइकुलकोडिजोणिप्पमुहसयसहस्सा भवंतीति मक्खायं । से तं जलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया ।

७०. से किं तं थलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया ? थलयरपंचेदियतिरिक्ख-जोणिया दुविहा पणता । तं जहा-चउप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया य परिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया य ।

७१. से किं तं चउप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया ? चउप्पथल-यरपंचेदियतिरिक्खजोणिया चउविहा पणता । तं जहा-एगखुरा १ दुँखुरा २ गंडीपदा ३ सणप्फदा ४ ।

७२. से किं तं एगखुरा ? एगखुरा अणेगविहा पणता । तं जहा-अस्सा अस्सतरा घोडगा गद्भा गोरक्खरा कंदलगा सिरिकंदलगा आवत्ता, जे यावऽणे तहप्पगारा । से तं एगखुरा ।

१. वेढगा प्र० सु० पु२सं० । वेढली पु२ ॥ २. सुँद्रया म० प्र० ॥ ३. मँडुमगरा म० प्र० ॥  
४. विखुरा जे० विना ॥

७२. से किं तं दुखुरा ? दुखुरा अणेगविहा पण्णता । तं जहा—उद्वा  
गोणा गवया रोज्जा पसया महिसा मिया संवरा वराहा अय-एलग-रुह-सरभ-चमर-  
कुरंग-गोकण्णमांदी । से तं दुखुरा ।

७३. से किं तं गंडीपया ? गंडीपया अणेगविहा पण्णता । तं जहा—  
हृथी पूयणया मंकुणहृथी खगा गंडा, जे यावऽणे तहप्पगारा । से तं ५  
गंडीपया ।

७४. से किं तं सणप्पदा ? सणप्पदा अणेगविहा पण्णता । तं जहा—  
सीहा वग्धा दीविया अच्छा तरच्छा परस्सरा सियाला बिडाला सुणगा कोलसुणगा  
[ग्रन्थाग्रम् ५००] कोकंतिया ससगा चित्तगा चित्तलगा, जे यावऽणे तहप्पगारा ।  
से तं सणप्पदा । १०

७५. [१] ते समासतो दुविहा पण्णता । तं जहा—समुच्छिमा य  
गब्भवक्षंतिया य ।

[२] तत्थ णं जे ते समुच्छिमा ते सव्वे णपुंसगा ।

[३] तत्थ णं जे ते गब्भवक्षंतिया ते तिविहा पण्णता । तं जहा—इत्थी १  
पुरिसा २ णपुंसगा ३ । १५

[४] एतेसि णं एवमादियाणं थलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पञ्चता-  
ऽपञ्चताणं दस जाईकुल्कोडिजोणिप्पमुहसयसहस्सा हवंतीति मक्खातं । से तं  
चउप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया ।

७६. से किं तं परिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया ? परिसप्पथलयर-  
पंचेदियतिरिक्खजोणिया दुविहा पण्णता । तं जहा—उरपरिसप्पथलयरपंचेदिय-  
तिरिक्खजोणिया य भुयपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया य । २०

७७. से किं तं उरपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया ? उरपरि-  
सप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया चउव्विहा पण्णता । तं जहा—अही १  
अयगरा २ आसालिया ३ महोरगा ४ ।

७८. से किं तं अही ? अही दुविहा पण्णता । तं जहा—दब्बीकरा य २५  
मउलिणो य ।

१. °मादी, जे यावऽणे तहप्पगारा । से तं मुद्रिते ॥ २. हृथी हत्थिपूयणया म० मु० ।  
हृथी हत्थिपूयणा पु२ ॥ ३. चिल्लगा प्र० मु२ ॥

७९. से किं तं दब्बीकरा ? दब्बीकरा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-आसीविसा दिङ्गीविसा उगविसा भोगविसा तयाविसा लालविसा उस्सासविसा निस्सासविसा कण्हसप्पा सेदेसप्पा कौओदरा दज्जपुण्का कोलहा भेलिर्मिर्दा, जे यावडणे तहप्पगारा । से तं दब्बीकरा ।

८०. से किं तं मउलिणो ? मउलिणो अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-दिव्यागा गोणसा कसाहीया वइउला चित्तलिणो मंडलिणो माँलिणो अही अहिसलार्गा पडागा, जे यावडणे तहप्पगारा । से तं मउलिणो । से तं अही ।

८१. से किं तं अँयगरा ? अयगरा प्रगागारा पणत्ता । से तं अयगरा ।

८२. से किं तं आसालिया ? कहि णं भंते ! आसालिया समुच्छति ?  
 १० गोयमा ! अंतोमणुस्साखिते अडूइज्जेसु दीवेसु, निव्वाधाएणं पणरससु कम्मभूमीसु, वावातं पडुच्च पंचसु महाविदेहेसु, चक्रवट्टिखंधावारेसु वां वासुदेवखंधावारेसु वलदेव-खंधावारेसु मंडलियखंधावारेसु महामंडलियखंधावारेसु वां गामनिवेसेसु नंगरनिवेसेसु निगमणिवेसेसु खेडनिवेसेसु कन्वडनिवेसेसु मठंवनिवेसेसु वां दोणमुहनिवेसेसु पट्टणनिवेसेसु आगरनिवेसेसु आसमनिवेसेसु संवाहनिवेसेसु रायहाणीनिवेसेसु एतेसि  
 १५ णं चेवं विणासेसु एत्थ णं आसालिया समुच्छति, जहणेणं अंगुलस्स असंखेन्ड-भार्गमेत्तीए ओगाहणाए उक्कोसेणं वारसजोयणाइं, तेयणुरुत्वं च णं विक्खंभ-धाहलेणं भूर्मि दालित्ताणं समुद्देति अस्सणी मिच्छदिङ्गी अण्णाणी अंतोमुहुत्तंद्धा-उया चेव कालं करेड । से तं आसालिया ।

८३. से किं तं महोरगा ? महोरगा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-  
 २० अत्येगाइया अंगुलं पि अंगुलपुहत्तिया वि वियत्थि पि वियत्थिपुहत्तिया वि रथणि पि रथणिपुहत्तिया वि कुच्छिपुहत्तिया वि धणुं पि धणुपुहत्तिया वि

१. सेससप्पा प्र० ॥ २. काऊदरा जे० ॥ ३. दव्वमपुण्का म० प्र० ॥ ४. °दा सेसिंद्रा, जे च° मु० ॥ ५. मउलिणो ध० ॥ ६. °गा वायपडागा ध० । °गा वासपडागा मु० ॥ ७. अहगरा जे० ॥ ८. आसालिया ? आसालिया प्रगागारा पणत्ता । कहि णं प्र० ॥ ९, १०, १२, वा इति पु२ प्रतावेवोपलभ्यते । “वाशव्व र्सव्वत्रापि विकल्पार्थो द्रष्टव्य.” इति मलयटीका-व्याख्यानात् चक्रवट्टिखंधावारेसु इत्यत आरव्धाना रायहाणीनिवेसेसु इत्येतदन्ताना सर्वेषामपि पटानामनन्तरं श्रीमलयगिरिपादा वाशव्वं निर्दिशन्ति, पर नोपलभ्यतेऽयं ऐदंयुगीनेवादर्शेषु ॥
११. नगरनिवेसेसु इति पदं मलयवृत्तौ न व्याख्यातम् ॥ १३. चेव निवासेसु जे० ध० ॥
१४. °गमेत्ताए पु२ ॥ १५. तयाणु° ध० प्र० ॥ १६. °त्तमद्वाउया ध० । °त्तटिङ्गेया प्र० ॥
१७. °मुहुत्तं पि रथणि जे०-ध० ॥

गाउयं पि गाउयपुहत्तिया वि जोयणं पि जोयणपुहत्तिया वि जोयणसतं पि जोयणसतपुहत्तिया वि जोयणसंहसं पि । ते णं थले जाता जले वि चरंति थले वि चरंति । ते णत्थि इहं, बाहिरएसु दीव-समुद्रएसु हवंति, जे यावऽणे तहप्पगारा । से तं महोरगा ।

८४. [१] ते समासतो दुविहा पण्णता । तं जहा-समुच्छिमा य ५ गब्बवक्षंतिया य ।

[२] तथ्य णं जे ते समुच्छिमा ते सब्बे नपुंसगा ।

[३] तथ्य णं जे ते गब्बवक्षंतिया ते णं तिविहा पण्णता । तं जहा-इत्थी १ पुरिसा २ नपुंसगा ३ ।

[४] एएसि णं एवमाइयाणं पञ्जताऽपञ्जताणं उरपरिसप्पाणं दस जाइ- १० कुलकोडीजोणिप्पमुहसतसहस्सा हवंतीति मक्खातं । से तं उरपरिसप्पा ।

८५. [१] से किं तं भुयपरिसप्पा ? भुयपरिसप्पा अणेगविहा पण्णता । तं जहा-णउला गोहै सरडा सल्ला सरंठा सारा खारा घोइला विस्संभरा मूसा मंगुँसा पयलाइया छीरविरालिया जाहा चउप्पाइया, जे यावऽणे तहप्पगारा ।

[२] ते समासतो दुविहा पण्णता । तं तहा-समुच्छिमा य १५ गब्बवक्षंतिया य ।

[३] तथ्य णं जे ते समुच्छिमा ते सब्बे णपुंसगा ।

[४] तथ्य णं जे ते गब्बवक्षंतिया ते णं तिविहा पण्णता । तं जहा-इत्थी १ पुरिसा २ नपुंसगा ३ ।

[५] एतेसि णं एवमाइयाणं पञ्जताऽपञ्जताणं भुयपरिसप्पाणं णव २० जाइकुलकोडीजोणीप्पमुहसतसहस्सा हवंतीति मक्खायं । से तं भुयपरिसप्पथलयर-पंचेंदियतिरिक्खजोणिया । से तं परिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ।

८६. से किं तं खहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ? खहयरपंचेंदिय-तिरिक्खजोणिया चउविहा पण्णता । तं जहा-चम्मपक्खी १ लोमपक्खी २ समुगपक्खी ३ वियतपक्खी ४ ।

२५

८७. से किं तं चम्मपक्खी ? चम्मपक्खी अणेगविहा पण्णता । तं जहा-वग्गुली जलोया औंडिला भारंडपक्खी जीवंजीवा समुद्रवायसा कण्णत्तिया

१. °सहस्रिया वि । ते ध० ॥ २. सेहा मु० पु२ सं० ॥ ३. मगुंसा जै० । मंगूसा पु२ ॥

४. अछिला पु२ मु० ॥

पवित्रविराली, जे यावडणे तहप्पगारा । से तं चम्मपक्खी ।

८८. से किं तं लोमपक्खी ? लोमपक्खी अणेगविहा पज्जता । तं जहा-ठंका कंका कुरला वायसा चैक्कागा हंसा कलहंसा पायहंसा रायहंसा अडा सेडी वगा बलागा पारिष्पवा कोंचा सारसा मेसैरा मसूरा मयूरा सँतवच्छा गहरा पोंडरीया कागा कामिंजुगा वंजुलगा तित्तिरा वैद्वगा लावगा कवोया कविंजला पारेवया चिडगा चासा कुक्कुडा सुगा वरहिणा मदणसलागा कोइला सेहं वरेलगमादी । से तं लोमपक्खी ।

८९. से किं तं समुगपक्खी ? समुगपक्खी एगागारा पण्णता । ते णं नत्थि इहं, वाहिरएसु दीव-समुद्रएसु भवंति । से तं समुगपक्खी ।

९०. से किं तं विततपक्खी ? विततपक्खी एगागारा पण्णता । ते णं नत्थि इहं, वाहिरएसु दीव-समुद्रएसु भवंति । से तं विततपक्खी ।

९१. [१] ते समासतो दुविहा पण्णता । तं जहा-समुच्छिमा य गव्ववक्षंतिया य ।

[२] तथ्य णं जे ते समुच्छिमा ते सच्चे नपुंसगा ।

[३] तथ्य णं जे ते गव्ववक्षंतिया ते णं तिविहा पण्णता । तं जहा-इत्थी १ पुरिसा २ नपुंसगा ३ ।

[४] एएसि णं एवमाइयाणं खहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जता-उपज्जताणं वारस जातीकुलकोडीजोणिष्पुहसतसहस्सा भवंतीति मक्खातं ।

सत्तद्व जातिकुर्लकोडिलक्ख नव अद्वतेरसाइं च ।

दस दस य होंति णवगा तह वारस चेव वोधव्वा ॥ १११ ॥

से तं खहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया । से तं पंचेंदियतिरिक्खजोणिया ।  
से तं तिरिक्खजोणिया ।

[सुत्ताइ ९२-१३८. मणुससजीवपण्णवणा ]

९२. से किं तं मणुस्सा ? मणुस्सा दुविहा पण्णता । तं जहा-  
२५ समुच्छिममणुस्सा य गव्ववक्षंतियमणुस्सा य ।

१. °विरालिया पु२सं० मु० ॥ २. चक्कंगा म० प्र० ॥ ३. सेसरा म० प्र० ॥ ४. सत्तवल्सा पु१ पु२ पु३ म० प्र० । सत्तहत्या मु० ॥ ५. कामिंजुगा पु२ म० प्र० मु० ॥ ६. वद्वगा पु२ ॥  
७. सिला ल० ध० ॥ ८. °लक्कोडि होंति नव पु२सं० विना ॥

९३. से किं तं समुच्छिममणुस्सा ? कहि णं भंते ! समुच्छिममणुस्सा समुच्छंति ? गोयमा ! अंतोमणुस्सखेते पंणुतालीसाए जोयणसयसहस्रेसु अडूइज्जेसु दीव-समुद्रेसु पन्नरससु कम्मभूमीसु तीसाए अकम्मभूमीसु छप्पणाए अंतरदीवएसु गब्बवक्षंतियमणुस्साणं चेव उच्चारेसु वा १ पासवणेसु वा २ खेलेसु वा ३ सिंधाणेसु वा ४ वंतेसु वा ५ पितेसु वा ६ पूँएसु वा ७ सोणिएसु वा ८ सुकेसु वा ९ सुक्कपोगलपरिसाडेसु वा १० विगतजीवकलेवरेसु वा ११ थी-पुरिसंजोएसु वा १२ [गांमणिद्वमणेसु वा १३] णगरणिद्वमणेसु वा १४ सञ्चेसु चेव असुइएसु ठाणेसु, एथं णं समुच्छिममणुस्सा समुच्छंति । अंगुलस्स असंखेज्ज-भागमेत्तीए ओगाहणाए असण्णी मिच्छद्विं सञ्चार्हिं पज्जत्तीर्हिं अपज्जत्तगा अंतोमुहुत्ताउया चेव कालं करेति । से तं समुच्छिममणुस्सा । . १०

९४. से किं तं गब्बवक्षंतियमणुस्सा ? गब्बवक्षंतियमणुस्सा तिविहा पण्णता । तं जहा—कम्मभूमगा १ अकम्मभूमगा २ अंतरदीवगा ३ ।

९५. से किं तं अंतरदीवया ? अंतरदीवया अडूवीसतिविहा पण्णता । तं जहा—एगोरुया १ आभासिया २ वेसाणिया ३ णंगोली ४ हयकण्णा ५ गयकण्णा ६ गोकण्णा ७ सक्कुलिकण्णा ८ आयंसमुहा ९ मेंदमुहा १० अयोमुहा १५ ११ गोमुहा १२ आसमुहा १३ हत्थिमुहा १४ सीहमुहा १५ वर्घमुहा १६ आसकण्णा १७ सीहकण्णा १८ अकण्णा १९ कण्णपाउरणा २० उक्कामुहा २१ मेहमुहा २२ विज्जुमुहा २३ विज्जुदंता २४ घणदंता २५ लट्टुदंता २६ गूढदंता २७ सुद्धदंता २८ । से तं अंतरदीवगा ।

९६. से किं तं अकम्मभूमगा ? अकम्मभूमगा तीसतिविहा पन्नता । तं २० जहा—पंचहिं हेमवएहिं पंचहिं हिरण्णवएहिं पंचहिं हरिवासेहिं पंचहिं रम्मगवासेहिं पंचहिं देवकुँरहिं पंचहिं उत्तरकुँरहिं । से तं अकम्मभूमगा ।

९७. [१] से किं तं कम्मभूमया ? कम्मभूमया पण्णरसविहा पण्णता । तं जहा—पंचहिं भरहेहिं पंचहिं एरवतेहिं पंचहिं महाविदेहेहिं ।

[२] ते समासतो दुविहा पण्णता । तं जहा—आरिया य मिलकर्तू य । २५

१. पण्ता<sup>०</sup> पु२ म० प्र० मु० ॥ २. पासवणेसु वा इति जे० ध० नास्ति ॥ ३. सिंधाणएसु म० प्र० पु२ मु० ॥ ४. पूँएसु वा इति जे० ध० मलयगिरिन्द्रीटीकायामुद्धरणे च नास्ति ॥ ५. गामणिद्वमणेसु वा इति पाठो मलयगिरिन्द्रीटीकोद्धरणे वर्तते ॥ ६. <sup>०</sup>कुराहिं ध० म० ॥ ७. <sup>०</sup>कुराहिं पु२ ॥

९८. से किं तं मिलक्खू ? मिलक्खू अणेगविहा पणता । तं जहा-  
सगै-जवण-चिलाय-सवर-बव्वर-काय-मुरुंडोडौ-भडग-णिणणग-पक्कणिय-कुलक्ख-  
गोंड-सिंहलै-पारस-गोंधोडंब-दमिल-चिर्लै-पुलिंद-हारोस-डोंबं-वोक्काण-गंधाहाँरग-  
वहलिय-अँजल-रोम-पासं-पउसा-मलया यैं चुंचुया य मूयलि-कोंकणग-मेय-पल्हव-  
मालव-नाँगर-आभासिय-णक्क-चीणा लहसिय-र्खस-खासिय-णेडूर-मंद-डोंविलग-  
लउस-बैउस-केक्कया अरवांगा हूण-रोसंग-भरुग-स्य-विलायविसयवासी य एवमादी ।  
से तं मिलक्खू ।

९९. से किं तं औरिया ? आरिया दुविहा पणता । तं जहा-  
इडिपत्तारिया य अणिडिपत्तारिया य ।

१००. से किं तं इडिपत्तारिया ? इडिपत्तारिया छविहा पणता । तं जहा-  
अरहंता १ चक्रवट्टी २ वलदेवा ३ वासुदेवा ४ चारणा ५ विजाहरा ६ । से तं  
इडिपत्तारिया ।

१०१. से किं तं अणिडिपत्तारिया ? अणिडिपत्तारिया णवविहा पणता ।

१-२. मिलक्खा म० प्र० ॥ ३. एतदेशविशेषज्ञानार्थमिमाः प्रवचनसारोद्धारप्रकरणसत्का गाथा  
अत्रोद्धधियन्ते—“ सग-जवण-सवर-बव्वर-काय-मुरुंडोडौ-गोण-पक्कणया । अरवाग-होण रोमय-पारस  
खसदासिया चेव ॥ १५,८३ ॥ दुंविलय-लउस-वोक्कस-मिलंडंध-पुलिंद-कुञ्च-भमरस्या । केवाय-चीण-  
चंचुय मालव-दमिला कुलघाय ॥ १५,८४ ॥ केक्कय-किराय-हयमुह-खरमुह-गय-तुरय-मिंदयमुहा य ।  
हयक्का गयक्का अज्जे वि अणारिया वहवे ॥ १५,८५ ॥ ” “ शक्का यवनाः शवरा. वर्वरा. काया.  
मुरुण्डाः उष्टा गौष्टाः पक्कणगा अरवागा. हूणा रोमकाः पारसाः खसा खासिकाः द्रुम्बिलकाः  
लक्क्या. वोक्कगा. मिलाः अन्द्रा. पुलिन्द्राः कुञ्चाः भ्रमरस्चाः कोर्पकाः चीनाः चञ्चुकाः मालवा  
द्रविडाः कुलाधाः केक्कयाः किराताः हयमुखा. खरमुखाः गजमुखा तुरङ्गमुखा. मिणकमुखा  
हयकर्णा. गजकर्णश्वेत्येते डेगा अनार्या । ” इति वृत्ति । पत्रं ४४५-२ ॥ ४. °मुरुंडो° म० मु० ॥  
५. °डोडौ° जे० म० प्र० मु० ॥ ६. °सीहलौ° म० प्र० ॥ ७. °पारस-गोधोत्त्व-दमिलौ° जे० म० ॥  
°पारस-गोधोहृच्च-उमिलौ° पु२, °पारस-कोंच-अंवं-डंव-दमिलौ° पु२सं० । °पारस-कोंच-  
अच्चवं-दमिलौ° प्र० । °पारस-गोवा-कोंच-अंवडू-उमिलौ° मु० ॥ ८. °विल्लसौ° जे० । °चिल्लसौ°  
ध० ॥ ९. °टोंवौ° म० । °डोवौ° मु० । °चोवौ° ध० । °येचसौ° प्र० ॥ १०. °हारवा वौ  
जे० म० प्र० मु० । °हार-व्वाणव्वा-वा° पु२ ॥ ११. °अज्ज्वलौ° म० मु० ॥ १२. °मोसौ°  
ध० ॥ १३. °पज्जोसौ° ध० ॥ १४. य वंदुया य जे० म० प्र० पु२ मु० ॥ १५. सूयलिौ  
म० मु० ॥ १६. °भगरौ° जे० म० प्र० मु० ॥ १७. °कण-चीणौ° ध० । °कणवीरौ° मु० ॥  
१८. °खग-वासियौ° जे० म० पु२ ॥ १९. °चडसौ° ध० ॥ २०. °केक्कया ध० पु२ ॥  
२१. अक्कागा पु२ पु३ विना ॥ २२. °रोमगौ° जे० ध० प्र० मु० ॥ २३. °भरु-भरुयौ° म०  
प्र० मु० ॥ २४. मिलक्खा ध० विना ॥ २५. आयरियाौ° जे० ॥ २६. °हरा पडिवासुदेवा ।  
से तं ध० ॥

तं जहा—खेत्तारिया १ जातिआरिया २ कुलारिया ३ कम्मारिया ४ सिप्पारिया  
५ भासारिया ६ णाणारिया ७ दंसणारिया ८ चरित्तारिया ९ ।

१०२. से किं तं खेत्तारिया ? खेत्तारिया अद्वच्छब्वीसतिविहा पण्णता ।

तं जहा—

रायगिह मगह १, चंपा अंगा २, तह तामलिति वंगा य ३ ।  
कंचणपुरं कलिंगा ४, वाणारसि चेव कासी य ५ ॥ ११२ ॥  
साएय कोसला ६, गयपुरं च कुरु ७, सोरियं कुसद्वा य ८ ।  
कंपिलं पंचाला ९, अहिछत्ता जंगला चेव १० ॥ ११३ ॥  
बाँरवती य सुरद्वा ११, महिल विदेहा य १२, वच्छ कोसंबी १३ ।  
यंदिपुरं संडिल्लौ १४, भद्रिलपुरमेव मलया य १५ ॥ ११४ ॥  
वइराड वच्छ १६, वरणा अच्छा १७, तह मत्तियावइ दसण्णा १८ ।  
सुंतीमई य चेदी १९, वीझभयं सिंधुसौवीरा २० ॥ ११५ ॥  
मथुरा य सूरसेणा २१ पावा भंगी य २२ मासपुरि वद्वा २३ ।  
सावत्थी य कुणाला २४, कोडीवरिसं च लाढा य २५ ॥ ११६ ॥  
सेयविया वि य णयरी केयइअद्वं च २५ ॥ आरियं भणितं ।  
एत्थुप्पति जिणाणं चक्कीणं राम-कण्हाणं ॥ ११७ ॥

से तं खेत्तारिया ।

१०३. से किं तं जातिआरिया ? जातिआरिया छविहा पण्णता । तं जहा—

१. मलयटीकायां प्रवचनसारोद्वारवृत्तौ च “तामलिती” इति व्याख्यातम् ॥ २. °पुरी प्र० ॥
३. बारवती सोरद्वा ११ मिहिल म० प्र० ॥ ४. अत्र मलयगिरिवृत्तिः—“वत्सेषु कौशाम्बी १३ शाणिडल्येषु नन्दिपुरं १४ मलयेषु भद्रिलपुरं १५ वत्सेषु वैराटपुरं १६ वरणेषु अच्छापुरी १७ दशार्णेषु मृत्तिकावती १८ चेदिषु शौक्रितकावती १९ वीतभयं सिन्धुषु २० सौवीरेषु मथुरा २१ शूरसेनेषु पापा २२ भज्जेषु मासपुरिवद्वा २३ कुणालेषु श्रावस्ती २४” । अत्रार्थे पुनरियं प्रवचन सारोद्वारसत्क १५८९ तं ९२ पर्यन्तगाथावृत्तिर्विचारार्हा—“वत्सादेशः कौशाम्बी नगरी १३ नन्दिपुरं नगरं शाणिडल्यो शाणिडल्या वा देशः १४ भद्रिलपुरं नगर मलयादेशः १५ वैराटो देशः वत्सा राजधानी, अन्ये तु ‘वत्सादेशो वैराटं पुरं नगरम्’ इत्याहु १६ वरुणानगर अच्छादेशः, अन्ये तु ‘वरणेषु अच्छापुरी’ इत्याहुः १७ तथा मृत्तिकावती नगरी दशाणो देशः १८ हृष्टिमती नगरी चेदयो देशः १९ वीतभयं नगरं सिन्धुसौवीरा जनपदः २० मथुरा नगरी सूरसेनाख्यो देशः २१ पापा नगरी भज्जयो देशः २२ मासपुरी नगरी वर्तो देशः २३, अन्ये त्वाहुः ‘चेदिषु सौक्रित-कावती, वीतभयं सिन्धुषु, सौवीरेषु मथुरा, सूरसेनेषु पापा, भज्जेषु मासपुरीवद्वा’ इति, तदतिव्यव-हृतम्, परं बहुश्रुतसम्प्रदायः प्रमाणम्, तथा श्रावस्ती नगरी कुणालादेशः २४” [पत्रं ४४६-२] ॥
५. संडिलभा जे० ध० ॥ ६. सोक्तियमई य चेदी १९ वीयभयं म० पुर २ मु० ॥

अंबद्वा १ य कलिंदा २ विदेहा ३ वेदंगा ४ इय।

हरिया ५ चुंचुणा ६ चेव, छ एया इङ्गजातिओ ॥ ११८ ॥

से तं जातिआरिया ।

१०४. से किं तं कुलारिया ? कुलारिया छविहा पन्नत्ता । तं जहा-

उग्गा १ भोगा २ राइण्णा ३ इक्खागा ४ णाता ५ कोरव्वा ६ । से तं कुलारिया ।

१०५. से किं तं कम्मारिया ? कम्मारिया अणेगविहा पण्णत्ता । तं जहा-दोस्सिया सोतिया कप्पासिया सुत्तवेयालिया भंडवेयालिया कोलालिया णरदावणिया, जे यावडणे तहप्पगारा । से तं कम्मारिया ।

१०६. से किं तं सिप्पारिया ? सिप्पारिया अणेगविहा पण्णत्ता । तं

जहा-तुण्णागा तंतुवाया पट्टगारा देयडा वैरणा छविया कट्टपाउयारा सुंजपाउयारा छत्तारा वैज्ञारा पोत्थारा लेप्पारा चित्तारा संखारा दंतारा भंडारा जिज्ञारारा सेल्लारा कोडिगारा, जे यावडणे तहप्पगारा । से तं सिप्पारिया ।

१०७. से किं तं भासारिया ? भासारिया जे णं अद्धमागहाए भासाए

भासिंति, जत्थ वि य णं बंभी लिवी पवत्तइ । बंभीए णं लिवीए अद्वारसविहे लेक्खविहणे पण्णत्ते । तं जहा-बंभी १ जवणालिया २ दोसांपुरिया ३ खंरोट्टी ४ पुक्खरसारिया ५ भोगवईया ६ पहरईयाओ य ७ अंतक्खरसिया ८ अक्खरपुट्टिया ९ वेणईया १० णिणहईया ११ अंकलिवी १२ गणितलिवी १३ गंधवलिवी १४ आयंसलिवी १५ साहेसरी १६ दैमिली १७ पोलिंदी १८ । से तं भासारिया ।

१०८. से किं तं णाणारिया ? णाणारिया पंचविहा पण्णत्ता । तं जहा-

आभिणिवोहियणाणारिया १ सुयणाणारिया २ ओहिणणारिया ३ मणपञ्जवणाणारिया ४ केवलणाणारिया ५ । से तं णाणारिया ।

१०९. से किं तं दंसणारिया ? दंसणारिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-सरागदंसणारिया य वीयरागदंसणारिया य ।

१. विंदगा जे० । वेदमा पु२ ॥ २. चंचुणा म० प्र० ॥ ३. अज्जजातिवो जे० ध० ॥

४. णरवावणिया म० प्र० । णरवाहणिया पु२ सु० ॥ ५. वरुणा म० प्र० पु२ । वरुद्धा मु०, दीकारुताऽथमेव पाठ आद्वोऽस्ति, नोपलब्धोऽयमस्माभिः प्रतिषु ॥ ६. पठभारा म० प्र० । चञ्चारा वज्ञारा पु२ सं० ॥ ७. जिभभारा प्र० । जिभभारा म० ॥ ८. सेल्लारा म० प्र० मु० ॥

९. दासापुरिया पु१ पु३ मु० विना अन्यत्र ॥ १०. खरोट्टी म० प्र० ॥ ११. °राह्याष अंत० म० मु० ॥ १२. दोमिली प्र० । दोमिलिवी म० ॥

११०. से किं तं सरागदंसणारिया ? सरागदंसणारिया दसविहा पण्णता । तं जहा-

निस्सगुवएसरुई१-२ आणारुइ३ सुत्त४-बीयरुई५ मेव ।

अहिगम६-वित्थाररुई७ किरिया८-संखेव९-धम्मरुई१० ॥ ११९ ॥

भूअत्थेणाधिगया जीवाऽजीवं च पुण्ण-पावं च ।

सहस्रमुड्याऽसव-संवरे यै रोएइ उ णिसग्गो ॥ १२० ॥

जो जिणदिङ्गे भावे चउविहे सद्हाइ सयमेव ।

एमेव णडण्णह ति य णिस्सग्गरुइ ति णायव्वो १ ॥ १२१ ॥

एते चेव उ भावे उवदिङ्गे जो परेण सद्हाइ ।

छउमत्थेण जिणेण व उवएसरुइ ति नायव्वो २ ॥ १२२ ॥

जो हेउमयाणंतो आणाए रोयए पवयणं तु ।

एमेव णडण्णह ति य एसो आणारुई नाम ३ ॥ १२३ ॥

जो सुत्तमहिजंतो सुएण ओगाहुई उ सम्मतं ।

अंगेण वाहिरेण व सो सुत्तरुइ ति णायव्वो ४ ॥ १२४ ॥

एगपएडणेगाइं पदाइं जो पसरई उ सम्मतं ।

उदए व्व तेलबिंदू सो बीयरुइ ति णायव्वो ५ ॥ १२५ ॥

सो होइ अहिगमरुई सुयणाणं जस्स अत्थओ दिङ्गं ।

एक्कारस अंगाइं पडण्णगं दिङ्गिवाओ य ६ ॥ १२६ ॥

दव्वाण सञ्चभावा सञ्चपमाणेहिं जस्स उवलद्धा ।

सञ्चाहिं णयविहीहिं वित्थाररुइ ति णायव्वो ७ ॥ १२७ ॥

दंसण-णाण-चरिते तव-विणए सञ्चसमिइ-गुत्तीसु ।

जो किरियाभावरुई सो खलु किरियारुई णाम ८ ॥ १२८ ॥

अणभिग्गहियकुदिङ्गी संखेवरुइ ति होइ णायव्वो ।

अविसारओ पवयणे अणभिग्गहिओ य सेसेसु ९ ॥ १२९ ॥

जो अत्थिकायधम्मं सुयधम्मं खलु चरित्तधम्मं च ।

सद्हाइ जिणाभिहियं सो धम्मरुइ ति नायव्वो १० ॥ १३० ॥

१. °रुइ चेव पु२ ॥ २. °ऽजीवे य पु० म० प्र० सु० । °ऽजीवाइ पु० पु२ ॥

३. य रोवेइ उ प्र० । श्रीमलयगिरिपादैः पुनः य वैएइ उ इति पाठानुसारेण व्याख्यातमस्ति, किन्तु नोपलब्धोऽयं पाठः कर्मस्त्रिदप्यादर्शे ॥

परमत्थसंथवो वा सुदिङ्गपरमत्थसेवणा वा वि ।

वावण्ण-कुदंसणवज्जणा य सम्मत्सद्वहणा ॥ १३१ ॥

निस्संकिय १ निक्षंखिय २ निवित्तिगिच्छा ३ अमूढिङ्गी ४ य ।

उववूह ५ थिरीकरणे ६ वच्छल्ल ७ पभावणे ८ अङ्ग ॥ १३२ ॥

६ से तं सरागदंसणारिया ।

१११. से किं तं वीयरागदंसणारिया ? वीयरागदंसणारिया दुविहा पण्णता ।  
तं जहा—उवसंतकसायवीयरायदंसणारिया खीणकसायवीयरायदंसणारिया ।

११२. से किं तं उवसंतकसायवीयरायदंसणारिया ? उवसंतकसायवीय-  
रायदंसणारिया दुविहा पण्णता । तं जहा—पठमसमयउवसंतकसायवीयरायदंस-  
१० णारिया अपठमसमयउवसंतकसायवीयरायदंसणारिया, अहवा चरिमसमयउवसंत-  
कसायवीयरायदंसणारिया य अचरिमसमयउवसंतकसायवीयरायदंसणारिया य ।

११३. से किं तं खीणकसायवीयरायदंसणारिया ? खीणकसायवीयराय-  
दंसणारिया दुविहा पण्णता । तं जहा—छउमत्थखीणकसायवीयरागदंसणारिया य  
केवलिखीणकसायवीयरागदंसणारिया य ।

११४. से किं तं छउमत्थखीणकसायवीयरागदंसणारिया ? छउमत्थ-  
खीणकसायवीयरागदंसणारिया दुविहा पण्णता । तं जहा—सयंबुद्धछउमत्थ-  
खीणकसायवीयरागदंसणारिया य बुद्धवोहियछउमत्थखीणकसायवीयराय-  
दंसणारिया य ।

२० ११५. से किं तं सयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीयरागदंसणारिया ?  
सयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीयरागदंसणारिया दुविहा पण्णता । तं जहा—पठम-  
समयसयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीयरागदंसणारिया य अपठमसमयसयंबुद्धछउ-  
मत्थखीणकसायवीयरायदंसणारिया य, अहवा चरिमसमयसयंबुद्धछउमत्थखीण-  
कसायवीयरायदंसणारिया य अचरिमसमयसयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीयराय-  
दंसणारिया य । से तं सयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीयरायदंसणारिया ।

२५ ११६. से किं तं बुद्धवोहियछउमत्थखीणकसायवीयरायदंसणारिया ?  
बुद्धवोहियछउमत्थखीणकसायवीयरायदंसणारिया दुविहा पण्णता । तं जहा—  
पठमसमयबुद्धवोहियछउमत्थखीणकसायवीयरायदंसणारिया य अपठमसमयबुद्धवो-  
हियछउमत्थखीणकसायवीयरागदंसणारिया य, अहवा चरिमसमयबुद्धवो-  
हियछउमत्थखीणकसायवीयरायदंसणारिया य अचरिमसमयबुद्धवोहियछउमत्थ-

खीणकसायवीयरायदंसणारिया य । से तं बुद्धबोहियछउमत्थखीणकसायवीत-  
रागदंसणारिया । से तं छउमत्थखीणकसायवीयरायदंसणारिया ।

११७. से किं तं केवलिखीणकसायवीतरागदंसणारिया ? केवलिखीण-  
कसायवीतरागदंसणारिया दुविहा पण्णता । तं जहा—सजोगिकेवलिखीण-  
कसायवीतरागदंसणारिया य अजोगिकेवलिखीणकसायवीतरागदंसणारिया य ।

११८. से किं तं सजोगिकेवलिखीणकसायवीतरागदंसणारिया ? सजोगि-  
केवलिखीणकसायवीतरागदंसणारिया दुविहा पण्णता । तं जहा—पढमसमयस-  
जोगिकेवलिखीणकसायवीतरागदंसणारिया य अपढमसमयसजोगिकेवलिखीण-  
कसायवीतरागदंसणारिया य, अहवा चरिमसमयसजोगिकेवलिखीणकसायवीत-  
रागदंसणारिया य अचरिमसमयसजोगिकेवलिखीणकसायवीतरागदंसणारिया य । १०  
से तं सजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागदंसणारिया ।

११९. से किं तं अजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागदंसणारिया ? अजोगि-  
केवलिखीणकसायवीयरागदंसणारिया दुविहा पण्णता । तं जहा—पढमसमय-  
अजोगिकेवलिखीणकसायवीतरागदंसणारिया य अपढमसमयअजोगिकेवलिखीण-  
कसायवीतरागदंसणारिया य, अहवा चरिमसमयअजोगिकेवलिखीणकसायवीत-  
रागदंसणारिया य अचरिमसमयअजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागदंसणारिया य । १५  
से तं अजोगिकेवलिखीणकसायवीतरागदंसणारिया । से तं केवलिखीणकसाय-  
वीतरागदंसणारिया । से तं खीणकसायवीतरागदंसणारिया । से तं  
वीयरायदंसणारिया । से तं दंसणारिया ।

१२०. से किं तं चरित्तारिया ? चरित्तारिया दुविहा पण्णता । तं २०  
जहा—सरागचरित्तारिया य वीयरागचरित्तारिया य ।

१२१. से किं तं सरागचरित्तारिया ? सरागचरित्तारिया दुविहा पन्नता ।  
तं जहा—सुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया य बायरसंपरायसरागचरित्तारिया य ।

१२२. से किं तं सुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया ? सुहुमसंपरायसराग-  
चरित्तारिया दुविहा पण्णता । तं जहा—पढमसमयसुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया २५  
य अपढमसमयसुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया य, अहवा चरिमसमयसुहुमसंपराय-  
सरागचरित्तारिया य अचरिमसमयसुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया य; अहवा  
सुहुमसंपरायसंरागचरित्तारिया दुविहा पण्णता, तं जहा—संकिलिस्समाणा य  
विसुज्ज्ञमाणा य । से तं सुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया ।

१२३. से किं तं वादरसंपरायसरागचरित्तारिया ? वादरसंपरायसराग-  
चरित्तारिया दुविहा पण्णता । तं जहा—पढमसमयवादरसंपरायसरागचरित्तारिया  
य अपढमसमयवादरसंपरायसरागचरित्तारिया य, अहवा चरिमिसमयवादरसंपराय-  
सरागचरित्तारिया य अचरिमिसमयवादरसंपरायसरागचरित्तारिया य; अहवा  
वादरसंपरायसरागचरित्तारिया दुविहा पण्णता, तं जहा—पडिवाती य अपडिवाती  
य । से तं वादरसंपरायसरागचरित्तारिया । से तं सरागचरित्तारिया ।

१२४. से किं तं वीयरागचरित्तारिया ? वीयरागचरित्तारिया दुविहा  
पण्णता । तं जहा—उवसंतकसायवीयरायचरित्तारिया य खीणकसायवीतरागचरि-  
त्तारिया य ।

१२५. से किं तं उवसंतकसायवीयरायचरित्तारिया ? उवसंतकसायवीय-  
रायचरित्तारिया दुविहा पण्णता । तं जहा—पढमसमयउवसंतकसायवीयराय-  
चरित्तारिया य अपढमसमयउवसंतकसायवीयरायचरित्तारिया य, अहवा चरिम-  
समयउवसंतकसायवीयरागचरित्तारिया य अचरिमिसमयउवसंतकसायवीयराग-  
चरित्तारिया य । से तं उवसंतकसायवीयरागचरित्तारिया ।

१२६. से किं तं खीणकसायवीयरायचरित्तारिया ? खीणकसायवीयराय-  
चरित्तारिया दुविहा पण्णता । तं जहा—छउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया  
य केवलिखीणकसायवीतरागचरित्तारिया य ।

१२७. से किं तं छउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया ? छउमत्थ-  
खीणकसायवीतरागचरित्तारिया दुविहा पण्णता । तं जहा—सयंबुद्धछउमत्थ-  
खीणकसायवीयरागचरित्तारिया य बुद्धवोहियछउमत्थखीणकसायवीयरायचरित्ता-  
रिया य ।

१२८. से किं तं सयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया ?  
सयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया दुविहा पण्णता । तं जहा—  
पढमसमयसयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया य अपढमसमयसयंबुद्ध-  
छउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया य, अहवा चरिमिसमयसयंबुद्ध-  
छउमत्थखीणकसायवीयरायचरित्तारिया य अचरिमिसमयसयंबुद्धछउमत्थखीणक-  
सायवीतरागचरित्तारिया य । से तं सयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीतराग-  
चरित्तारिया ।

१२९. से किं तं बुद्धवोहियछउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया ?

बुद्धबोहियछउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया दुविहा पण्णता । तं जहा-पढमसमयबुद्धबोहियछउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया य अपढमसमयबुद्ध-बोहियछउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया य, अहवा चरिमसमयबुद्धबोहिय-छउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया य अचरिमसमयबुद्धबोहियछउमत्थखीण-कसायवीयरायचरित्तारिया य । से तं बुद्धबोहियछउमत्थखीणकसायवीयराय-चरित्तारिया । से तं छउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया ।

१३०. से किं तं केवलिखीणकसायवीतरागचरित्तारिया ? केवलिखीण-कसायवीतरागचरित्तारिया दुविहा पण्णता । तं जहा-सजोगिकेवलिखीणकसाय-वीयरागचरित्तारिया य अजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागचरित्तारिया य ।

१३१. से किं तं सजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागचरित्तारिया ? सजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागचरित्तारिया दुविहा पण्णता । तं जहा-पढम-समयसजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायचरित्तारिया य अपढमसमयसजोगिकेवलि-खीणकसायवीयरायचरित्तारिया य, अहवा चरिमसमयसजोगिकेवलिखीणक-सायवीतरागचरित्तारिया य अचरिमसमयसजोगिकेवलिखीणकसायवीयराय-चरित्तारिया य । से तं सजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागचरित्तारिया ।

१३२. से किं तं अजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागचरित्तारिया ? अजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागचरित्तारिया दुविहा पन्नता । तं जहा-पढमसमयअजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागचरित्तारिया य अपढमसमयअजोगि-केवलिखीणकसायवीयरागचरित्तारिया य, अहवा चरिमसमयअजोगिकेवलिखीण-कसायवीयरागचरित्तारिया य अचरिमसमयअजोगिकेवलिखीणकसायवीतराग-चरित्तारिया य । से तं अजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागचरित्तारिया । से तं केवलिखीणकसायवीतरागचरित्तारिया । से तं खीणकसायवीतरागचरित्तारि-या । से तं वीयरागचरित्तारिया ।

१३३. अहवा चरित्तारिया पंचविहा पन्नता । तं जहा-सामाइयचरित्ता-रिया १ छेदोवद्वावणियचरित्तारिया २ परिहारविसुद्धियचरित्तारिया ३ सुहुम-संपरायचरित्तारिया ४ अहक्खायचरित्तारिया ५ ।

१३४. से किं तं सामाइयचरित्तारिया ? सामाइयचरित्तारिया दुविहा पण्णता । तं जहा-इत्तरियसामाइयचरित्तारिया य आवकहियसामाइयचरित्ता-रिया य । से तं सामाइयचरित्तारिया ।

१३५. से किं तं छेदोवद्वावणियचरित्तारिया ? छेदोवद्वावणियचरित्तारिया दुविहा पण्णता । तं जहा—साइयारछेदोवद्वावणियचरित्तारिया य णिरइयारछेओवद्वावणियचरित्तारिया य । से तं छेदोवद्वावणियचरित्तारिया ।

१३६. से किं तं परिहारविसुद्धियचरित्तारिया ? परिहारविसुद्धियचरित्तारिया दुविहा पण्णता । तं जहा—निव्विसमाणपरिहारविसुद्धियचरित्तारिया य निव्विडुकाइयपरिहारविसुद्धियचरित्तारिया य । से तं परिहारविसुद्धियचरित्तारिया ।

१३७. से किं तं सुहुमसंपरायचरित्तारिया ? सुहुमसंपरायचरित्तारिया दुविहा पण्णता । तं जहा—संकिलिस्समाणसुहुमसंपरायचरित्तारिया य विसुज्ज्माणसुहुमसंपरायचरित्तारिया य । से तं सुहुमसंपरायचरित्तारिया ।

१३८. से किं तं अहक्खायचरित्तारिया ? अहक्खायचरित्तारिया दुविहा पण्णता । तं जहा—छउमत्थअहक्खायचरित्तारिया य केवलिअहक्खायचरित्तारिया य । से तं अहक्खायचरित्तारिया । से तं चरित्तारिया । से तं अणिड्हिपत्तारिया । से तं आरिया । से तं कम्मभूमगा । से तं गब्मवक्षंतिया । से तं मणुस्सा ।

### [ सुत्ताहं १३९—१४७, देवजीवपणवणा ]

१३९. से किं तं देवा ? देवा चउव्विहा पण्णता । तं जहा—भवणवासी १ वाणमंतरा २ जोइसिया ३ वेमाणिया ४ ।

१४०. [१] से किं तं भवणवासी ? भवणवासी दसविहा पन्नता । तं जहा—असुरकुमारा १ नागकुमारा २ सुवण्णकुमारा ३ विज्ञुकुमारा ४ अग्निकुमारा ५ दीवकुमारा ६ उदहिकुमारा ७ दिसाकुमारा ८ वाउकुमारा ९ थणियकुमारा १० ।

[२] ते समासतो दुविहा पण्णता । तं जहा—पञ्जत्तगा य अपञ्जत्तगा य । से तं भवणवासी ।

१४१. [१] से किं तं वाणमंतरा ? वाणमंतरा अद्विहा पण्णता । तं जहा—किन्नरा १ किंपुरिसा २ महोरगा ३ गंधव्वा ४ जक्खा ५ रक्खसा ६ भूया ७ पिसाया ८ ।

[२] ते समासतो दुविहा पण्णता । तं जहा—पञ्जत्तगा य अपञ्जत्तगा य । से तं वाणमंतरा ।

१४२. [१] से किं तं जोइसिया ? जोइसिया पंचविहा पन्नता । तं जहा-चंदा १ सूरा २ गहा ३ नक्खता ४ ताँरा ५ ।

[२] ते समासतो दुविहा पण्णता । तं जहा-पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य । से तं जोइसिया ।

१४३. से किं तं वेमाणिया ? वेमाणिया दुविहा पण्णता । तं जहा- ६ कप्पोवगा य कप्पातीता य ।

१४४. [१] से किं तं कप्पोवगा ? कप्पोवगा वारसविहा पण्णता । तं जहा-सोहम्मा १ ईसाणा २ सणंकुमारा ३ माहिंदा ४ बंभलोया ५ लंत्याँ ६ सुक्का ७ सहस्रारा ८ आणता ९ पाणता १० आरणा ११ अच्चुता १२ ।

[२] ते समासतो दुविहा पण्णता । तं जहा-पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य । १० से तं कप्पोवगा ।

१४५. से किं तं कप्पातीया ? कप्पातीया दुविहा पण्णता । तं जहा- गेवेज्जगा य अणुत्तरोववाइया य ।

१४६. [१] से किं तं गेवेज्जगा ? गेवेज्जगा णवविहा पण्णता । तं जहा-हेड्महेड्मगेवेज्जगा १ हेड्ममज्जिमगेवेज्जगा २ हेड्मउवरिमगेवेज्जगा ३ १५ मज्जिमहेड्मगेवेज्जगा ४ मज्जिममज्जिमगेवेज्जगा ५ मज्जिमउवरिमगेवेज्जगा ६ उवरिमहेड्मगेवेज्जगा ७ उवरिममज्जिमगेवेज्जगा ८ उवरिमउवरिमगेवेज्जगा ९ ।

[२] ते समासतो दुविहा पण्णता । तं जहा-पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य । से तं गेवेज्जगा ।

१४७. [१] से किं तं अणुत्तरोववाइया ? अणुत्तरोववाइया पंचविहा २० पण्णता । तं जहा-विजया १ वेजयंता २ जयंता ३ अपराजिता ४ सब्बड्डसिद्धा ५ ।

[२] ते समासतो दुविहा पण्णता । तं जहा-पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य । से तं अणुत्तरोववाइया । से तं कप्पाईया । से तं वेमाणिया । से तं देवा । से तं पंचिंदिया । से तं संसारसमावणजीवपण्णवणा । से तं जीवपण्णवणा । से तं पण्णवणा ।

॥ पण्णवणाए भगवईप पढमं पण्णवणापयं समतं ॥

## २. बिंद्यं ठाणपयं

[सुत्ताइँ १४८-१५०. पुढविकायठाणाइँ]

१४८. कहि ण भंते ! वादरपुढविकाइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा पण्णता ?  
गोयमा ! सद्वाणेण अट्टसु पुढविसु । तं जहा-रयणप्पभाए १ सक्करप्पभाए २  
५ वालुयप्पभाए ३ पंकप्पभाए ४ धूमप्पभाए ५ तमप्पभाए ६ तमतमप्पभाए ७  
इसीपव्वभाराए ८-१, अहोलोए पायालेसु भवणेसु भवणपत्थडेसु णिरएसु  
निरयावलियासु निरयपत्थडेसु २, उड्डलोए कप्पेसु विमाणेसु विमाणावलियासु  
१० विमाणपत्थडेसु ३, तिरियलोए टंकेसु कूडेसु सेलेसु सिहरीसु पन्भारेसु विजएसु  
वक्खारेसु वासेसु वासहरपव्वएसु वेलासु वेइयासु दारेसु तोरणेसु दीवेसु समुद्देसु  
१५ एक, एत्थं ण वादरपुढविकाइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा पण्णता । उववाएणं  
लोयस्स असंखेज्जभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जभागे, सद्वाणेण लोयस्स  
असंखेज्जभागे ।

१४९. कहि ण भंते ! वादरपुढविकाइयाणं अपज्जत्तगाणं ठाणा पण्णता ?  
गोयमा ! जत्थेव वादरपुढविकाइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा तत्थेव वादरपुढ-  
१५ विकाइयाणं अपज्जत्तगाणं ठाणा पण्णता । तं जहा-उववाएणं सव्वलोए,  
समुग्घाएणं सव्वलोए, सद्वाणेण लोयस्स असंखेज्जभागे ।

१५०. कहि ण भंते ! सुहुमपुढविकाइयाणं पज्जत्तगाणं अपज्जत्तगाण-  
य ठाणा पण्णता ? गोयमा ! सुहुमपुढविकाइया जे पज्जत्तगा जे य अपज्जत्तगा ते  
२० सब्बे एगविहा अविसेसा अणाणता सव्वलोयपरियावण्णगा पण्णता समणाउसो ! ।

२०

[सुत्ताइँ १५१-१५३. आउक्कायठाणाइँ]

१५१. कहि ण भंते ! वादरआउक्काइयाणं पैज्जत्ताणं ठाणा पण्णता ?  
गोयमा ! सद्वाणेण सत्तसु घणोदधीसु सत्तसु घणोदधिवलएसु १, अहोलोए  
पायालेसु भवणेसु भवणपत्थडेसु २, उड्डलोए कप्पेसु विमाणेसु विमाणावलियासु  
२५ विमाणपत्थडेसु ३, तिरियलोए अगडेसु तलाएसु नदीसु दहेसु वावीसु  
पुक्करिणीसु दीहियासु गुंजालियासु सरेसु सरपंतियासु बिलेसु

१. 'भाणु ६ धहेयत्तमाणु ७ ध० ॥ २. 'एक' इति चतु संख्याद्योतक्तेऽक्षराङ् ॥ ३. पज्जत्तगाणं  
ध० म० प्र० ॥

चिलपंतियासु उज्ज्वरेसु निज्ज्वरेसु चिळ्लेसु पल्लेसु वप्पिणेसु दीवेसु समुद्देसु सव्वेसु चेव जलासएसु जलडाणेसु ४, एथं णं वादरआउक्काइयाणं पैज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जभागे, समुग्धाएणं लोयस्स असंखेज्जभागे, सद्गाणेणं लोयस्स असंखेज्जभागे ।

१५२. कहि णं भंते ! वादरआउक्काइयाणं अपैज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ?  
गोयमा ! जत्थेव वादरआउक्काइयाणं पैज्जत्तगाणं ठाणा तत्थेव वादरआउक्काइयाणं  
अपैज्जत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं सव्वलोए, समुग्धाएणं सव्वलोए,  
सद्गाणेणं लोयस्स असंखेज्जभागे । ५

१५३. कहि णं भंते ! सुहुमआउक्काइयाणं पैज्जत्ताऽपैज्जत्ताणं ठाणा  
पण्णत्ता ? गोयसा ! सुहुमआउक्काइया जे पैज्जत्तगा जे य अपैज्जत्तगा ते सव्वे  
एगविहा अविसेसा अणाणत्ता सव्वलोयपरियावण्णगा पन्नत्ता समणाउसो ! । १०

[सुत्ताइँ १५४-१५६, तेउकायठाणाइँ]

१५४. कहि णं भंते ! वादरतेउकाइयाणं पैज्जत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता ?  
गोयमा ! सद्गाणेणं अंतोमणुस्सखेते अडूइज्जेसु दीव-समुद्देसु निव्वाघाएणं  
पण्णरससु कम्मभूमीसु, वांधायं पङ्गुच्च पंचसु महाविदेहेसु एथं णं वादरतेउक्काइयाणं  
पैज्जत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता । ५ उववाएणं लोयस्स असंखेज्जभागे, समुग्धाएणं  
लोयस्स असंखेज्जभागे, सद्गाणेणं लोयस्स असंखेज्जभागे । - १५

१५५. कहि णं भंते ! वादरतेउकाइयाणं अपैज्जत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता ?  
गोयमा ! जत्थेव वादरतेउकाइयाणं पैज्जत्तगाणं ठाणा तत्थेव वादरतेउक्काइयाणं  
अपैज्जत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता । उववाएणं लोयस्स दोसुद्धकवाडेसुं तिरियलोयतडे य,  
समुग्धाएणं सव्वलोए, सद्गाणेणं लोयस्स असंखेज्जभागे । २०

१५६. कहि णं भंते ! सुहुमतेउकाइयाणं पैज्जत्तगाणं अपैज्जत्तगाण य ठाणा  
पण्णत्ता ? गोयमा ! सुहुमतेउक्काइया जे पैज्जत्तगा जे य अपैज्जत्तगा ते सव्वे  
एगविहा अविसेसा अणाणत्ता सव्वलोयपरियावण्णगा पण्णत्ता समणाउसो ! ।

१. चिळ्लएसु पल्ललएसु जे० ॥ २. पैज्जत्तगाणं ध० पु२ ॥ ३. °ज्जत्तगाणं ध० पु२ ॥ ४. वाघा-  
एणं पंचसु पद-३ सू० २३८ मलयटीकायाम् ॥ ५. प्रदेशव्याख्याष्ट्विद्विः श्रीहरिभद्रपादैस्तु  
- न एतच्छिवान्तर्गतपाठस्थाने तीसु वि लोगात् असंखेज्जतिभागे हति सूत्रपाठ आदतोऽस्ति ॥  
६. दोसु उडूक० प्र० मु० मलयटीका । ७. दोसुद्धक० इत्थेव पाठो निर्दिष्टोऽस्ति ॥

## [सुत्ताइं १५७-१५९. वाउकायठाणाइं]

१५७. कहि ण भंते ! बादरवाउकाइयाणं पज्जतगाणं ठाणा पण्णता ?  
गोयमा ! सड्डाणेणं सत्तसु घणवाएसु सत्तसु घणवायवलएसु सत्तसु तणुवाएसु  
सत्तसु तणुवायवलएसु १, अहोलोए पायालेसु भवणेसु भवणपत्थडेसु  
५ भवणछिद्देसु भवणणिखुडेसु निरएसु निरयावलियासु णिरयपत्थडेसु णिरयछिद्देसु  
णिरयणिखुडेसु २, उडूलोए कण्णेसु विमाणेसु विमाणावलियासु विमाणपत्थडेसु  
विमाणछिद्देसु विमाणणिखुडेसु ३, तिरियलोए पाईण-पडीण-दाहिण-उदीण सब्बेसु  
चेव लोगागासछिद्देसु लोगनिखुडेसु य ४, एत्य णं बायरवाउकाइयाणं पज्जतगाणं  
१० ठाणा पन्नता । उववाएणं लोयस्स असंखेजेसु भागेसु, समुग्धाएणं लोयस्स  
असंखेजेसु भागेसु, सड्डाणेणं लोयस्स असंखेजेसु भागेसु ।

१५८. कहि ण भंते ! अपज्जत्वादरवाउकाइयाणं ठाणा पन्नता ?  
गोयमा ! जत्येव बादरवाउकाइयाणं पज्जतगाणं ठाणा तत्येव बादरवाउकाइयाणं  
अपज्जतगाणं ठाणा पण्णता । उववाएणं सब्बलोए, समुग्धाएणं सब्बलोए,  
सड्डाणेणं लोयस्स असंखेजेसु भागेसु ।

१५९. कहि ण भंते ! सुहुमवाउकाइयाणं पैज्जतगाणं अपज्जतगाणं ठाणा  
पन्नता ? गोयमा ! सुहुमवाउकाइया जे य पज्जतगा जे य अपज्जतगा ते सब्बे  
एगविहा अविसेसा अणाणता सब्बलोयपरियावण्णगा पण्णता समणाउसो ॥

## [सुत्ताइं १६०-१६२ वणस्सइकायठाणाइं]

१६०. कहि ण भंते ! बादरवणस्सइकाइयाणं पज्जतगाणं ठाणा पन्नता ?  
गोयमा ! सड्डाणेणं सत्तसु घणोदहीसु सत्तसु घणोदहिवलएसु १, अहोलोए  
पायालेसु भवणेसु भवणपत्थडेसु २, उडूलोए कण्णेसु विमाणेसु विमाणावलियासु  
विमाणपत्थडेसु ३, तिरियलोए अगडेसु तंडागेसु नदीसु दहेसु वावीसु पुक्खरि-  
णीसु दीहियासु गुंजालियासु सरेसु सरपंतियासु सरसरपंतियासु विलेसु विलपंतियासु  
उज्ज्वरेसु निज्ज्वरेसु चिल्लेसु फ्ललेसु वण्णिणेसु दीवेसु समुद्देसु सब्बेसु चेव  
जलासएसु जलड्डाणेसु ४, एत्य णं बादरवणस्सइकाइयाणं पज्जतगाणं ठाणा पन्नता ।  
उववाएणं सब्बलोए, समुग्धाएणं सब्बलोए, सड्डाणेणं लोयस्स असंखेज्जइमागे ।

१. °त्तगाणं बादर° ध० ॥ २. पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ध० पु२ ॥ ३. सुहुमा बाड° जे० ॥  
४. तलागेसु ध० पु२ ॥

१६१. कहि ण भंते ! वादरवणस्सइकाइयाणं अपज्जत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जत्थेव वादरवणस्सइकाइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा तत्थेव वादरवणस्सइकाइयाणं अपज्जत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं सञ्चलोए, समुग्धाएणं सञ्चलोए, सड्डाणेणं लोयस्स असंखेजइभागे ।

१६२. कहि ण भंते ! सुहुमवणस्सइकाइयाणं पज्जत्तगाणं अपज्जत्तगाण य ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! सुहुमवणस्सइकाइया जे य पज्जत्तगा जे य अपज्जत्तगा ते सञ्चे एगविहा अविसेसा अणाणत्ता सञ्चलोयपरियावण्णगा पण्णत्ता समणाउसो ॥

५

### [सुत्तं १६३. वेइंदियठाणाइं]

१६३. कहि ण भंते ! वेइंदियाणं पज्जत्तगाऽपज्जत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! उडूलोए तदेक्कदेसभागे १, अहोलोए तदेक्कदेसभाए २, तिरियिलोए अगडेसु तलाएसु नदीसु दहेसु वावीसु पुक्खरिणीसु दीहियासु गुंजालियासु सरेसु सरपंतियासु सरसरपंतियासु विलेसु विलपंतियासु उज्ज्वरेसु निज्ज्वरेसु चिल्लेसु पल्लेसु वप्पिणेसु दीवेसु समुद्रेसु सञ्चेसु चेव जलासएसु जलट्टाणेसु ३, एथं ण वेइंदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं लोगस्स असंखेजइभागे, समुग्धाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, सड्डाणेणं लोयस्स असंखेजइभागे ।

१०

१५

### [सुत्तं १६४. तेइंदियठाणाइं]

१६४. कहि ण भंते ! तेइंदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! उडूलोए तदेक्कदेसभाए १, अहोलोए तदेक्कदेसभाए २, तिरियिलोए अगडेसु तलाएसु नदीसु दहेसु वावीसु पुक्खरिणीसु दीहियासु गुंजालियासु सरेसु सरपंतियासु सरसरपंतियासु विलेसु विलपंतियासु उज्ज्वरेसु निज्ज्वरेसु चिल्लेसु पल्लेसु वप्पिणेसु दीवेसु समुद्रेसु सञ्चेसु चेव जलासएसु जलट्टाणेसु ३, एथं ण तेइंदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुग्धाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, सड्डाणेणं लोयस्स असंखेजइभागे ।

२०

२५

### [सुत्तं १६५. चउरिंदियठाणाइं]

२५

१६५. कहि ण भंते ! चउरिंदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! उडूलोए तदेक्कदेसभाए १, अहोलोए तदेक्कदेसभाए २, तिरियिलोए

४

अगडेसु तलाएसु नदीसु दहेसु वावीसु पुक्खरिणीसु दीहियासु गुंजालियासु सरेसु सरपंतियासु सरसरपंतियासु विलेसु विलपंतियासु उज्ज्वरेसु निज्ज्वरेसु चिल्लेसु पल्लेसु वणिणेसु दीवेसु समुद्देसु सब्बेसु चेव जलासएसु जलट्टणेसु ३, एत्थं णं चउरिंदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे ५ समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, सद्गाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे ।

## [ सुन्त १६६. पंचिंदियठाणाइं ]

१६६. कहि णं भंते ! पंचिंदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! उडूलोएं तदेकदेसभाए १, अहोलोएं तदेकदेसभाए २, तिरियलोए १० अगडेसु तलाएसु नदीसु दहेसु वावीसु पुक्खरिणीसु दीहियासु गुंजालियासु सरेसु सरपंतियासु सरसरपंतियासु विलेसु विलपंतियासु उज्ज्वरेसु निज्ज्वरेसु चिल्लेसु पल्लेसु वणिणेसु दीवेसु समुद्देसु सब्बेसु चेव जलासएसु जलट्टणेसु ३, एत्थं पंचेंदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, सद्गाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे ।

## [ सुन्ताइं १६७-१७४. नेरइयठाणाइं ]

१६७. कहि णं भंते ! नेरइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! नेरइया परिवसंति ? गोयमा ! सद्गाणेणं सत्तसु पुढवीसु । तं जहार्यणप्पभाए सक्करप्पभाए वालुयप्पभाए पंकप्पभाए धूमप्पभाए तमप्पभाए तमतमप्पभाए, एत्थं णं ऐरइयाणं चउरासीति णिरैयावाससतसहस्रा भवंतीति मक्खायं । ते णं णरगा अंतो वद्वा वाहिं चउरंसा अहे खुरप्पसंठाणसंठिता णिच्चंधयारतमसा २० ववगयगह-चंद-सूर-णक्खवत्त-जोड़सपहा मेद-वसा-पूय-सहिर-मंसचिकिवँल्लिता-णुलेवणतला असुई वीर्सा परमदुन्मिगंधा कांडअगणिवण्णाभा कक्खडफासा दुरहियासा असुभा णरगा असुभा णरगेसु वेयणाओ, एत्थं णं ऐरइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स

१-२. °लोयस्स त° पु२ विना ॥ ३. ऐरइयावास° ध० ॥ ४. खुरप्प° ध० ॥ ५. °जोड़सियपहा पु२स° मलय० ॥ ६. °पूयपडल-सहिर° जे० म० म० म० ॥ ७. °चिस्खल्ल° ध० म० प्र० पु२, एवमप्रेडपि ॥ ८. वीमच्छा इति मलय० । नोपलब्धोऽयं पाठः प्रतिषु । वीसा इति पाठमेदो श्रीमलयगिरिभिर्निर्दियेऽस्ति ॥ ९. काऊणअगणि° ध० । काऊणअगणि° प्र० पु२ कोओयअगणि° म० । एवमप्रेडपि पंचसु सूत्रेषु ॥

असंखेज्जइभागे, सट्टाणेण लोयस्स असंखेज्जइभागे । एत्थ णं वहवे ऐरइया परिवसंति काला कालोभासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परमकण्हा वणेण पण्णत्ता समणाउसो ! । ते णं तत्थ णिच्चं भीता णिच्चं तत्था णिच्चं तसिया णिच्चं उच्चिगगा णिच्चं परममसुहं संबद्धं णरगभयं पच्छणुभवमाणा विहरंति ।

१६८. कहि णं भंते ! रयणप्पभापुढविणेरइयाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! रयणप्पभापुढविणेरइया परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए आसीउत्तरजोयणसतसहस्राहल्लाए उवरि० एगं जोयणसहस्रं ओगाहित्ता हेड्डा वेगं जोयणसहस्रं वजेत्ता मज्जे अड्हहत्तरे जोयणसतसहस्रे, एत्थ णं रयणप्पभापुढविणेरइयाणं तीसं णिरयावाससतसहस्रा भवंतीति मक्खातं । ते णं णरगा अंतो वट्टा वाहिं चउरंसा अहे खुरप्पसंठाणसंठिता णिच्चंधयारतमसा ववगय-  
गह-चंद-सूर-णक्खतजोड्सप्पभा मेद-वसा-पूयपडल-रहिर-मंसचिक्खललित्ताणुले-  
वणतला असुई वीसौ परमदुब्बिगंधा काऊअगणिवण्णाभा कक्खडफासा दुरहियासा असुभा णरगा असुभा णरगेसु वेयणाओ, एत्थ णं रयणप्पभापुढविणेरइयाणं पज्जता-  
ऽपज्जताणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्धातेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, सट्टाणेण लोयस्स असंखेज्जइभागे । एत्थ णं वहवे रयणप्पभापुढ-  
विणेरइया परिवसंति काला कालोभासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परम-  
किण्हा वणेण पण्णत्ता समणाउसो ! । ते णं णिच्चं भीता णिच्चं तत्था णिच्चं तसिया णिच्चं उच्चिगगा णिच्चं परममसुहं संबद्धं णरगभयं पच्छणुभवमाणा विहरंति ।

१६९. कहि णं भंते ! सक्करप्पभापुढविणेरइयाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! सक्करप्पभापुढविणेरइया परिवसंति ? गोयमा ! सक्करप्पभाए पुढवीए वत्तीसुत्तरजोयणसयसहस्राहल्लाए उवरि० एगं जोयणसहस्रं ओगाहित्ता हेड्डा वेगं जोयणसहस्रं वजित्ता मज्जे तीसुत्तरे जोयणसतसहस्रे, एत्थ णं संक्करप्पभापुढविणेरइयाणं पणवीसं णिरयावाससतसहस्रा हवंतीति मक्खातं । ते णं णरगा अंतो वट्टा वाहिं चउरंसा अहे खुरप्पसंठाणसंठिता णिच्चंधयारतमसा ववगयगह-चंद-सूर-णक्खतजोड्सप्पहा मेद-वसा-पूयपडल-रहिर-  
मंसचिक्खललित्ताणुलेवणतला असुई वीसा परमदुब्बिगंधा काऊअगणिवण्णाभा कक्खडफासा दुरहियासा असुभा नरगा असुभा नरगेसु वेयणाओ, एत्थ णं  
२०  
२५

१. तत्थ णं जे० ध० पु२ ॥ २. आसीउत्तर० ध० प्र० । आसीहुत्तर० प्रदे० ॥ ३. विस्सा ध० ॥ ४. तत्थ णं जे० प्र० म० पु२ ॥ ५. सक्करापुढविं० म० पु२ ॥

संकरप्पभापुढविनेरइयाणं पज्जाऽपज्जाणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं लोयस्स  
असंखेज्जभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जभागे, सद्गुणेणं लोयस्स  
असंखेज्जभागे । तत्थ णं वहवे संकरप्पभापुढविणेरइया परिवसंति काला  
कालोभासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परमकिण्हा वण्णेणं पण्णत्ता  
समणाउसो ! । ते णं णिच्चं भीता णिच्चं तत्था णिच्चं तसिया णिच्चं उच्चिगा  
णिच्चं परममसुहं संवद्धं नरगभयं पच्छुभवमाणा विहरन्ति ।

१७०. कहि णं भंते ! वालुयप्पभापुढविनेरइयाणं पज्जाऽपज्जाणं ठाणा  
पण्णत्ता ? गोयमा ! वालुयप्पभाए पुढवीए अङ्गुवीसुत्तरजोयणसत्सहस्रवाहल्लाए  
उवरि॑ एगं जोयणसहस्रं ओगाहेता हेड्ग वेगं जोयणसहस्रं वजेता मज्जे छव्वीसुत्तरे  
४० जोयणसत्सहस्रे, एत्थ णं वालुयप्पभापुढविनेरइयाणं पण्णरस णिरयावाससत्सहस्रा  
भवंतीति मक्खातं । ते णं णरगा अंतो वट्टा वाहिं चउरसा अहे खुरप्पसंठाणसंठिता  
णिच्चंधयारतमसा ववगयगह-चंद-सूर-नक्खत्तजोइसपहा मेद-वसा-पूयपडल-  
रुहिर-मंसचिकित्तलित्ताणुलेवणतला असुई वीसा परमदुव्विगंधा काऊ-  
अगणिवण्णाभा कक्खडफासा दुरहियासा असुभा नरगा असुभा नरएसु वेदणाओ,  
१५ एत्थ णं वालुयप्पभापुढविनेरइयाणं पज्जाऽपज्जाणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं  
लोयस्स असंखेज्जभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जभागे, सद्गुणेणं लोगस्स  
असंखेज्जभागे । तत्थ णं वहवे वालुयप्पभापुढवीनेरइया परिवसंति काला  
कालोभासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परमकिण्हा वण्णेणं पण्णत्ता  
समणाउसो ! । ते णं णिच्चं भीता णिच्चं तत्था णिच्चं तसिता णिच्चं उच्चिगा णिच्चं  
२० परममसुहं संवद्धं णरगभयं पच्छुभवमाणा विहरन्ति ।

१७१. कहि णं भंते ! पंकप्पभापुढविनेरइयाणं पज्जाऽपज्जाणं ठाणा  
पञ्चत्ता ? गोयमा ! पंकप्पभाए पुढवीए वीसुत्तरजोयणसत्सहस्रवाहल्लाए उवरि॑  
एगं जोयणसहस्रं ओगाहिता हिड्ग वेगं जोयणसहस्रं वजेता मज्जे अङ्गुरसुत्तरे  
जोयणसत्सहस्रे, एत्थ णं पंकप्पभापुढविनेरइयाणं दस णिरयावाससत्सहस्रा  
भवंतीति मक्खातं । ते णं णरगा अंतो वट्टा वाहिं चउरसा अहे खुरप्पसंठाण-  
संठिता णिच्चंधयारतमसा ववगयगह-चंद-सूर-नक्खत्तजोइसपहा मेद-वसा-पूयपडल-  
रुहिर-मंसचिकित्तलित्ताणुलेवणतला असुई वीसैं परमदुव्विगंधा काऊअगणि-

१. संकरपुढवि० म० ॥ २. असुभाओ णग्यवेदणाओ ध० ॥ ३. अङ्गुर० ल० ॥ ४. वीभत्सा  
परम० ध० ॥

वण्णाभा कक्खडफासा दुरहियासा असुभा नरगा असुभा नरगेसु वेयणाओ,  
एत्थ णं पंकप्पभापुढविनेरह्याणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पण्णता । उववाएणं  
लोयस्स असंखेज्जइभागे, ससुग्धाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, सट्टाणेणं लोयस्स  
असंखेज्जइभागे । तत्थ णं वहवे पंकप्पभापुढविनेरह्या परिवसंति काला  
कालोभासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परमकिण्हा वण्णेणं पण्णता  
समणाउसो ! । ते णं निच्चं भीता निच्चं तत्था निच्चं तसिया निच्चं उव्विग्गा निच्चं  
परममसुहं संबद्धं णरगभयं पच्छणुभवमाणा विहरंति ।

१७२. कहि णं भंते ! धूमप्पभापुढविनेरह्याणं पज्जताऽपज्जताणं  
ठाणा पण्णता ? गोयमा ! धूमप्पभाए पुढवीए अद्वारसुत्तरजोयणसयसहस्रावाहल्लाए  
उवरिं एगं जोयणसहस्सं ओगाहिता हिड्डा वेगं जोयणसहस्सं वज्जेता मज्जे  
सोलसुत्तरे जोयणसत्सहस्से, एत्थ णं धूमप्पभापुढविनेरह्याणं तिन्नि निरयावाससत-  
सहस्स<sup>१</sup> भवंतीति मक्खातं । ते णं णरगा अंतो वट्टा वाहिं चउरंसा अहे  
खुरप्पसंठाणसंठिता णिच्चंधयारतमसा ववगयगह-चंद-सूर-नक्खत्तजोइसपहा मेद-  
वसा-पूयपडल-सहिर-मंसचिकिखल्लित्ताणुलेवणतला असुई वीसा परमदुव्विगंधा  
काऊअगणिवण्णाभा कक्खडफासा दुरहियासा असुभा नरगा असुभा णरगेसु  
वेयणाओ, एत्थ णं धूमप्पभापुढविनेरह्याणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पण्णता ।  
उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, ससुग्धाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, सट्टाणेणं  
लोयस्स असंखेज्जइभागे । तत्थ णं वहवे धूमप्पभापुढविनेरह्या परिवसंति काला  
कालोभासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परमकिण्हा वण्णेणं पण्णता  
समणाउसो ! । ते णं णिच्चं भीता णिच्चं तत्था णिच्चं तसिया णिच्चं उव्विग्गा  
णिच्चं परममसुहं संबद्धं णरगभयं पच्छणुभवमाणा विहरंति ।

१७३. कहि णं भंते ! तमंप्पभापुढविनेरह्याणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा  
पण्णता ? गोयमा ! तमंप्पभाए पुढवीए सोलसुत्तरजोयणसत्सहस्रावाहल्लाए उवरिं  
एगं जोयणसहस्सं ओगाहिता हिड्डा वि एगं जोयणसहस्सं वज्जेता मज्जे चोद्दसुत्तरे  
जोयणसत्सहस्से, एत्थ णं तमंप्पभापुढविनेरह्याणं एगे पंचूणे णरगावाससत्सहस्से  
हवंतीति मक्खातं । ते णं णरगा अंतो वट्टा वाहिं चउरंसा अहे खुरप्पसंठाण-  
संठिता निच्चंधयारतमसा ववगयगह-चंद-सूर-नक्खत्तजोइसपहा मेद-वसा-पूयपडल-

१. तमापुढवी<sup>१</sup> ध० म० प्र० पु३ ॥ २. तमाए पुढ<sup>२</sup> ध० म० पु३ प्र० ॥ ३. हेड्डा  
वेगं ध० म० प्र० पु२ ॥

रुहिर-मंसचिकिखलुलिताणुलेवणतला असुई वीसा परमदुष्मिगंधा कक्खडफासा  
दुरहियासा असुभा णरगा असुभा नरगेसु वेदणाओ, एत्थं णं तमप्पभापुढविनेरइ-  
याणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पणत्ता। उववाएणं लोयस्स असंखेज्जभागे,  
समुरघाएणं लोयस्स असंखेज्जभागे, सद्वाणेणं लोयस्स असंखेज्जभागे। तथ्य  
५ णं वहवे तमप्पभापुढविणेरइया परिवसंति काला कालोभासा गंभीरलोमहरिसा  
भीमा उत्तासंणगा परमकिण्हा वणेणं पणत्ता समणाउसो!। ते णं णिच्चं भीता  
णिच्चं तत्था णिच्चं तसिया णिच्चं उव्विग्गा णिच्चं परममसुहं संवद्धं नरगभयं  
पच्छणुभवमाणा विहरंति।

१७४. कहि णं भंते! तमतमापुढविनेरइयाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा  
१० पणत्ता? गोयमा! तमतमाए पुढवीए अडोत्तरजोयणसतसहस्रवाहलाए उवरि  
अद्धतेवण्णं जोयणसहस्राइं ओगाहिता हिडा वि अद्धतेवण्णं जोयणसहस्राइं  
वज्जेता मज्जे तिसु जोयणसहस्रेसु, एत्थं णं तमतमापुढविनेरइयाणं पज्जताऽपज्जताणं  
१५ पंचदिसिं पंच अणुत्तरा महइमहालया महाणिरया पणत्ता, तं जहा-काले १  
महाकाले २ रोहुए ३ महारोहुए ४ अपइड्डाणे ५। ते णं णरगा अंतो वहा वाहिं  
२० चउरंसा अहे खुरप्पसंठाणसंठिता निच्चंधयारतमसा ववगयगह-चंद-सूर-नक्खरत-  
जोइसपहा सेद-वसा-पूयपडल-रुहिर-मंसचिकिखलुलिताणुलेवणतला असुई वीसा  
परमदुष्मिगंधा कक्खडफासा दुरहियासा असुभा नरगा असुभा नरगेसु वेयणाओ,  
एत्थं णं तमतमापुढविनेरइयाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पणत्ता। उववाएणं  
२५ लोयस्स असंखेज्जभागे, समुरघाएणं लोयस्स असंखेज्जभागे, सद्वाणेणं लोयस्स  
असंखेज्जभागे। तथ्य णं वहवे तमतमापुढविनेरइया परिवसंति काला कालोभासा  
गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणया परमकिण्हा वणेणं पणत्ता समणाउसो!।  
ते णं णिच्चं भीता णिच्चं तत्था णिच्चं तसिया णिच्चं उव्विग्गा णिच्चं परममसुहं संवद्धं  
३० णरगभयं पच्छणुभवमाणा विहरंति।

आसीतं १ वत्तीसं २ अड्डावीसं च होइ ३ वीसं च ४।

३५ अड्डारस ५ सोलसगं ६ अड्डुत्तरमेव ७ हिडिमया ॥ १३३ ॥

अँड्डुत्तरं च १ तीसं २ छब्बीसं चेव सतसहस्रं तुँ ३।

अड्डारस ४ सोलसगं ५ चोद्दसमहियं तु छड्डीए ६ ॥ १३४ ॥

१. तमापु<sup>१</sup> पु२ ॥ २. °सणा पर° जे० ॥ ३. अड्डुत्तरं पु२ ॥ ४. च ध० ॥

अद्वतिवण्णसहस्रा उवरिमऽहे वज्जिऊण तो भणियं ।  
 मंज्जे उ तिसु सहस्रेसु होंति नरगा तमतमाए ७ ॥ १३५ ॥  
 तीसा य १ पण्णवीसा २ पण्णरस ३ दसेव सयसहस्राहं ४ ।  
 तिणि य ५ पंचूणेगं ६ पंचेव अणुत्तरा नरगा ७ ॥ १३६ ॥

## [ सुत्तं १७५. पंचिदियतिरिक्खजोणियठाणाहं ]

१७५. कहि णं भंते ! पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पण्णता ? गोयमा ! उड्डलोए तदेक्कदेसभाए १, अहोलोए तदेक्कदेसभाए २, तिरियिलोए अगडेसु तलाएसु नदीसु दहेसु वावीसु पुक्खरिणीसु दीहियासु गुंजालियासु सरेसु सरपंतियासु सरसरपंतियासु विलेसु चिलपंतियासु उज्जरेसु निज्जरेसु चिललेसु पह्यलेसु वप्पिणेसु दीवेसु समुद्देसु सब्बेसु चेव जलासएसु जलटुणेसु ३, एत्थं णं पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पण्णता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, सद्गाणेणं लोगस्स असंखेज्जइभागे ।

## [ सुत्तं १७६. मणुस्सठाणाहं ]

१७६. कहि णं भंते ! मणुस्साणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पण्णता ? गोयमा ! अंतोमणुस्सखेते पणतालीसाए जोयणसतसहस्रेसु अड्डाइज्जेसु दीव-समुद्देसु पण्णरससु कम्मभूमीसु तीसाए अकम्मभूमीसु छप्पणाए अंतरदीवेसु, एत्थं णं मणुस्साणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पण्णता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्घाएणं सब्बलोए, सद्गाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे ।

## [ सुत्ताहं १७७-८७. भवणवासिदेवठाणाहं ]

२०

१७७. कहि णं भंते ! भवणवासीणं देवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पण्णता ? कहि णं भंते ! भवणवासी देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे र्यणप्पभाए पुढवीए अैसीउत्तरजोयणसतसहस्रबाह्याए उवरि एगं जोयणसहस्रं ओगाहिता हेडा वेगं जोयणसहस्रं वज्जेता मैज्जिमअड्डहत्तरे जोयणसतसहस्रे, एत्थं णं भवणवासीणं देवाणं सन्त भवणकोडीओ वावत्तरि च भवणवाससतसहस्रा भवंतीति मक्खातं । ते णं भवणा वाहिं वट्टा अंतो समचउरंसा अहे पुक्खरकणि-

२५

१. मज्जे तिसहस्रेसु होंति उ नरगा म० प्र० ॥ २. आमी० ध० ॥ ३. मज्जिम अट्ट० ज० ॥

यासंठाणसंठिता उँक्षिण्णंतरविउलगंभीरखात-पैरिहा पागार-इद्वालय-कवाड-तोरण-  
पडिदुवारदेसभागा जंत-सयन्धि-मुसल-मुसंदिपरियैरिया अउज्ज्ञा सदाजैता सदागुत्ता  
अडयालकोहुगरइया अडयालकयवणमाला खेमा सिवा किंकरामरदंडोवरकिखया  
लाउलोइयमहिया गोसीस-सरसरत्तचंदणददरदिण्णपंचंगुलितला उवचियचंदण-  
कलसा चंदणघडसुक्ततोरणपडिदुवारदेसभागा आसत्तोसत्तविउलवहुवग्नधारिय-  
मैलुदामकलावा पंचवण्णसरससुरहिसुक्पुफ्पुजोवयारकलिया [ग्रन्थाघम् १०००]  
कालागरु-पवरकुंदुरुक्त-तुरुक्खधूवमधमवेंतगंहुद्युयाभिरामा सुंगंववरगंधगंधिया  
गंधवहिभूता अच्छरगणसंवंसंविगिण्णा दिव्वतुडितसद्वसंपणदिता सञ्चरयणामया  
अच्छा सण्हा लैण्हा घड्हा मझा णीरया णिम्मला निप्पंका निकंकडच्छाया संप्पहा  
संस्तिरिया संमरिया सउज्जोया पासातीता दंरसणिज्जा अभिरुवा पडिरुवा, एत्यं पं  
भवणवासीणं देवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पण्णता। उववाएणं लोगस्स असं-  
खेज्जभागे, समुग्धाएणं लोगस्स असंखेज्जभागे, सट्टाणेणं लोयस्स असंखेज्जभागे।  
तत्यं पं वहवे भवणवासी देवा परिवसंति। तं जहा-

असुरा १ नाग २ सुवण्णा ३ विज्जू ४ अग्नी य ५ दीव ६ उद्दीय ७।

१५ दिसि ८ पवण ९ थणिय १० नामा दसहा एए भवणवासी ॥ १३७ ॥  
चूडामणिमउडरयण १-भूसणणागफड २-गरुल ३-वडर ४-पुण्णकलसविउफ्फेस ५-सीहैं-  
६-हयवर ७-गयजंक ८-मगर ९-वद्धमाण १० निज्जुत्तचित्तचिंधगता सुरुवा महिडीया  
महज्जुतीया महायसा महवला महाणुभाँगा महासोक्खा हारविराइयवच्छा  
कडग-तुडियथंभियमुया अंगद-कुंडल-महुगंडतलकण्णपीढधारी विचित्तहत्याभरणा  
२० विचित्तमाला-मउलीमउडा कलाणगपवरवत्यपरिहिया कलाणगपवरमलाणुलेवणधरा  
भाँसुरवोंदी पलंववणमालधरा दिव्वेणं वण्णेणं दिव्वेणं गंधेणं दिव्वेणं फासेणं

१. उक्षिण्णंतरगंभीर० इति हरिभद्रटीकायां पाठ ॥ २. °फलिहा इति मलयटीका ॥ ३. °परियारिया  
जे० । परिवारिया हति पु२सं० मलयटीकायां च ॥ ४. °जदा ध० ॥ ५. °महल्ल० ध० ॥  
६. सुंगंधिवर० ध० ॥ ७. °संवसंधिगिद्वा दिव्व० जे० । °संवविगिण्णा इति पाठानुसारेण  
मलयटीका ॥ ८. लिट्टा(लट्टा) जे० ॥ ९. संप्पहा सस्तिरिया समिरिया सउज्जोता  
पासादीया उंसणिज्जा ध० म० प्र० ॥ १०. सस्तिरिया इत्येतत् पदं पु२ प्रतौ नास्ति, नापि  
मलयटीकाया व्याख्यातम् ॥ ११. समरीईया पु३, एवमन्यत्रापि ॥ १२. दरिस० पु२,  
एवमन्यत्रापि ॥ १३. °भूसणणिउत्तणाग० इति मलयटीकायाम् ॥ १४. °सीह६-मगर ७-गयंक-  
८-अस्तवर ९-वद्धमाण० जे० म० ॥ १५. °भावा ध० ॥ १६. महेसक्खा इति मलयटीकायाम्,  
महासोक्खा महासक्खा इति पाठमेद्वयनिर्देशोऽपि तत्र ॥ १७. °गंडकण्णपीढधारी एतत्याठानुसारिणी  
मलयटीका ॥ १८. भासर० ध० ॥

दिव्वेण संघयणेण दिव्वेण संठाणेण दिव्वाए इहुीए दिव्वाए जुतीए दिव्वाए पभाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चीए दिव्वेण तेण दिव्वाए लेसाए दसदिसाओ उज्जोवेमाणा पभासेमाणा । ते णं तत्थ साणं साणं भवणवाससयसहस्साणं साणं साणं सामाणियसाहस्रीणं साणं साणं तायत्तीसगाणं साणं साणं लोगपालाणं साणं साणं अगमहिसीणं साणं साणं परिसाणं साणं साणं अणियाणं साणं साणं अणियाहितीणं साणं साणं आयरक्खदेवसाहस्रीणं अणेसि॑ च बहूणं भवणवासीणं देवाण य देवीण य आहेवचं पोरेवचं सामित्तं भद्रित्तं मँहयरगत्तं आणाईसरसेणावचं कारेमाणा पालेमाणा महताऽहतनहृ-गीत-वाइततंती-तल-ताल-तुडिय-घणमुयंग-पहुण्वाइयरवेण दिव्वाइं भोगभोगाइं मुंजमाणा विहरंति ।

१७८. [१] कहि णं भंते ! असुरकुमाराणं देवाणं पज्ञत्ताऽपज्ञत्ताणं १० ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! असुरकुमारा देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रतणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसतसहस्रवाहळाए उवरिं एगं जोयणसहस्रं ओगाहित्ता हेड्डा वेगं जोयणसहस्रं वज्जेत्ता मज्जे अद्भुत्तरे जोयणसतसहस्रे, एत्थ णं असुरकुमाराणं देवाणं चोवड्हि॑ भवणवाससतसहस्रा हवंतीति मक्खायं । ते णं भवणा वाहिं वळा अंतो चउरंसा अहे पुक्खरकणियासंठाणसंठिता १५ उक्किणिंतरविउल-गंभीरखायै-परिहा पागार-उद्भालय-कवाड-तोरण-पडिदुवारदेस-भागा जंतसयगिध-मुसल-मुसुंठिपरियरिया अओज्ज्ञा सदाजया सदागुत्ता अडयालकोड्हगरइया अडयालक्यवणमाला खेमा सिवा किंकरामरदंडोवरकिखया-लाउलोइयमहिया गोसीस-सरसरत्तचंदणददरदिणपंचंगुलितला उवचितचंदण-कलसा चंदणघडसुक्यतोरणपडिदुवारदेसभागा आसत्तोसत्तविउलवङ्गधारिय-मळदामकलावा पंचवणणसरससुरभिसुक्षपुण्पुंजोवयारकलिया कालागरु-पवरकुंदुरु-क-तुरुक्कंधूवमधमधेतगंधुङ्गुयाभिरामा सुगंधवरगंधगंधिया गंधवद्विभूता अच्छरगण-संघसंविगिणा दिव्वतुडितसद्दसंपणदिया सञ्चरयणामया अच्छा सणहा लणहा घड्हा मङ्गा णीरया निम्मला निप्पंका णिक्कंकडच्छाया सप्पभाँ समरीया सउज्जोया पासाईया दरसणिज्जा अभिरुवा पडिरुवा, एत्थ णं असुरकुमाराणं देवाणं पज्ञत्ताऽपज्ञत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुग्धाएणं लोयस्स

१. तावत्तीसगाणं ध० पु२ । तायत्तीसगाणं म० प्र० ॥ २. मयहर० ध० विना, नवरं पु२ प्रतौ महत्तरगत्त इति पाठः ॥ ३. °य-फलिहा० ध० म० ॥ ४. °क्कङ्क्कूवडज्जंतमध० जे० । °क्कडज्जंत-धूवमध० म० ॥ ५. °गंधङ्गुया० जे० म० प्र० पु२ ॥ ६. °भा सस्सरीया समरीइया सउ० पु२ ॥

असंखेज्जहभागे, सद्गुणेण लोयस्स असंखेज्जहभागे । तत्थ णं वहवे असुरकुमारा  
 देवा परिवसंति काला लोहियकख-विचोद्वा धवलपुण्कदंता असियकेसा वामेयकुंडल-  
 धरा अहंदणाणुलित्तगत्ता, ईसीसिलिंधपुण्कपगासाइं असंकिलिड्वाइं सुहुमाइं वत्थाइं  
 पवर परिहिया, वयं च पढमं समइकंता, विड्यं च असंपत्ता, भेदे जोव्यणे  
 वद्गमाणा, तलमंगय-तुडिते-पवरभूसूण-निम्मलमणि-रयणमंडितभुया दसमुद्दामंडियग-  
 हत्था चूडामैणिचित्तचिंधगता सुरुवा महिड्विया महज्जुइया महायसा महन्वला  
 महाणुभागा महासोकखा हारविराइयवच्छा कडय-तुडियथंभियभुया अंगय-कुंडल-  
 मद्गंडयलकण्णपीढधारी विचित्तहत्थाभरणा विचित्तमाला-मउली कल्याणगपवरवत्थ-  
 परिहिया कल्याणगपवरमल्लाणुलेवणधरा भासुरवोंदी पलंववणमालधरा दिव्येण  
 २० वणेण दिव्येण गंधेण दिव्येण फासेण दिव्येण संघयणेण दिव्येण संठाणेण  
 दिव्याए इड्डीए दिव्याए जुईए दिव्याए पभाए दिव्याए छायाए दिव्याए अच्चीए  
 दिव्येण तेणेण दिव्याए लेसाए दस दिसाओ उज्जोवेमाणा पभासेमाणा । ते णं तत्थ  
 साणं साणं भवणावासमतसहस्राणं साणं साणं सामाणियसाहस्रीणं साणं साण  
 २५ तावत्तीसाणं साणं साणं लोगपालाणं साणं साणं अगमहिसीणं साणं साणं परिसाणं  
 साणं साणं अणियाणं साणं साणं अणियाधिवतीणं साणं साणं आयरक्खदेव-  
 साहस्रीणं अणेसिं च वहूणं भवणवासीणं देवाण य देवीण य अहेवचं पोरंवचं  
 साँमिचं भट्टिचं महत्तरगत्तं आणाईसरसेणावचं कारेमाणा पालेमाणा महताऽहतणद्व-  
 गीत-वाइयतंती-तल-ताल-तुडिय-वणमुद्गंगपडुप्पवाइयरवेणं दिव्याइं भोगभोगाइं  
 मुंजमाणा विहरंति ।

[ २ ] चमर-चलिणो यँ॒त्थ दुवे असुरकुमारिंदा असुरकुमाररायाणो  
 परिवसंति काला महानीलसरिसा णीलगुलिय-गवल-अयसिकुसुमप्पगासा वियसिय-  
 सयवत्तणिम्मलइसीसित-रत्त-तंबणयणा गरुलाययउज्जुतुंगणासा ओयवियसिलप्पवाल-  
 विवफलसन्निभाहरोड्वा पंडरससिसगलविमल-निम्मलदहिघण-संख-गोखीर-कुंद-  
 दगरय-मुणालियाधवलदंतसेढी हुयवहणिद्वंतधोयतत्तवणिजरत्ततल-तालु-जीहा  
 २५ अंजण-धंणकसिणरुयगरमणिजणिद्वकेसा वामेयकुंडलधरा अहंदणाणुलित्तगत्ता,  
 ईसीसिलिंधपुण्कपगासाइं असंकिलिड्वाइं सुहुमाइं वत्थाइं पवर परिहिया, वयं च पढमं

१. वामे पुणकुंडल० जे० ॥ २. °त-वरभूसूण० एतदनुसारिणी मलयव्याख्या ॥ ३. °मणि-  
 चिचित्त० जे० पु२ ॥ ४. °भावा जे० ॥ ५. सामित्त पु२ ॥ ६. मयहरगत्तं ध० ॥ ७.  
 दृथ्य म० प्र० पु२ । य तत्थ ध० ॥ ८. °लाइय० जे० ॥ ९. °घणमसिण० पु२  
 विना ॥

संमझकंता, बिड्यैं तु असंपत्ता, भद्रे जोव्वणे वट्ठमाणा, तलभंगय-तुडित-पवरभूसूण-  
निम्मलमणि-रयणमंडितभुया दसमुद्दामंडितगहत्था चूडामैणिचित्तचिंधगता सुखवा  
महिडीया महज्जुईया महायसा महाबला महाणुभागा महासोकखा हारविराइयवच्छा  
कडय-तुडितथंभियभुया अंगद-कुंडल-मटुगंडतलकण्णपीढधारी विचित्तहत्थाभरणा-  
विचित्तमाला-मउली कल्हाणगपवरवत्थपरिहिया कल्हाणगपवरमल्हाणुलेवणा भासर-  
बोंदी पलंबवणमालधरा दिव्वेण वण्णेण दिव्वेण गंधेण दिव्वेण फासेण दिव्वेण  
संघयणेण दिव्वेण संठाणेण दिव्वाए इडीए दिव्वाए जुतीए दिव्वाए भासाए दिव्वाए  
छायाए दिव्वाए पहाए दिव्वाए अच्चीए दिव्वेण तेण दिव्वाए लेसाए दस  
दिसाओ उज्जोवेमाणा पभासेमाणा । ते णं तथ्य साणं साणं भँवणावाससतसहस्साणं  
साणं साणं सामाणियसाहस्रीणं साणं साणं तावत्तीसाणं साणं साणं लोगपालाणं  
साणं साणं अग्गमहिसीणं साणं साणं परिसाणं साणं साणं अणियाणं साणं  
साणं अणियाधिवतीणं साणं साणं आतरक्खदेवसाहस्रीणं अणेसि च बहूणं  
भवणवासीणं देवाण य देवीण य आहेवच्चं पोरेवच्चं सामित्तं भद्रित्तं मँहयरगत्तं  
आणाईसरसेणावच्चं कारेमाणा पालेमाणा महताऽहतनहनीत-वाइततंती-तल-ताल-  
तुडित-घणमुङ्गपहुण्पवाइतरवेण दिव्वाइं भोगभोगाइं भुंजमाणा विहरंति ।

१७९. [१] कहि णं भंते ! दाहिणिल्हाणं असुरकुमाराणं देवाणं  
पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! दाहिणिल्हा असुरकुमारा देवा  
परिवसंति ? गोयमा ! जंबुदीवे दीवे मंदरस्स पवतस्स दाहिणेण इमीसे रयण-  
प्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसतसहस्रवाहल्हाए उवरिं एगं जोयणसहस्रं  
ओगाहिता हेड्डा वेगं जोयणसहस्रं वजित्ता मज्जे अद्गहत्तरे जोयणसतसहस्रे,  
एथं णं दाहिणिल्हाणं असुरकुमाराणं देवाणं चोत्तीसं भवणवाससतसहस्रा  
भवंतीति मक्खातं । ते णं भवणा वाहिं वट्ठा अंतो चउरंसा, सो चेव वण्णओ  
(सु. १७८[१]) जाव पडिरुवा । एथं णं दाहिणिल्हाणं असुरकुमाराणं देवाणं  
पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पण्णत्ता । तिसु वि लोगस्स असंखेज्जभागे । तथ्य णं  
वहवे दाहिणिल्हा असुरकुमारा देवा य देवीओ य परिवसंति । काला लोहियक्खा  
तहेव (सु. १७८[१]) जाव भुंजमाणा विहरंति । एतेसि णं तहेव  
तायत्तीसगलोगपाला भवंति । एवं सब्बत्थं भाणितव्वं भवणवासीणं ।

१. समयकंता जे० ॥ २. बीयं च असं० ध० पु२ ॥ ३. °मणिचित्त° जे० ॥ ४. भवणवा०  
जे० पु२ ॥ ५. मयहरगत्तं ध० । महत्तरगत्तं पु२ ॥ ६. जाणितव्वं ध० ॥

[२] चमरे अत्थ असुरकुमारिंदे असुरकुमारराया परिवसति काले महानीलसरिसे जाव (सु. १७७[१]) पभासेमाणे । से णं तत्थ चोत्तीसाए भवणावाससतसहस्राणं चउसट्टीए सामाणियसाहस्रीणं तावत्तीसाए तावत्तीसाणं चउण्हं लोगपालाणं पंचण्हं अगगमहिसीणं सपरिवाराणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणियाणं सत्तण्हं अणियाधिवतीणं चउण्ह य चउसट्टीणं आयरक्खदेवसाहस्रीणं अण्णेसिं च वहूणं दाहिणिलाणं देवाणं देवीण य आहेवच्चं पोरेवच्चं जाव (सु. १७८[२]) विहरति ।

१८०. [१] कहि णं भंते ! उत्तरिलाणं असुरकुमाराणं देवाणं पज्जत्ता-उपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! उत्तरिला असुरकुमारा देवा परिवसंति ?  
१० गोयमा ! जंबुद्धीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेण इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए [ग्रन्थाग्रम् ११००] असीउत्तरजोयणसयसहस्रवाहल्लाए उवरि एगं जोयण-सहसं ओगाहेता हेडा वेगं जोयणसहसं वज्रेता मज्जे अद्भुत्तरे जोयण-सतसहस्से, एत्थं णं उत्तरिलाणं असुरकुमाराणं देवाणं तीसं भवणावाससतसहस्रा भवंतीति मक्खातं । ते णं भवणा वाहिं वद्वा अंतो चउरंसा, सेसं जहा  
१५ दाहिणिलाणं (सु. १७९[१]) जाव विहरति ।

[२] वली यडत्थ वड्रोयणिंदे वड्रोयणराया परिवसति काले महानील-सरिसे जाव (सु. १७७[२]) पभासेमाणे । से णं तत्थ तीसाए भवणावाससय-शहस्राणं सट्टीए सामाणियसाहस्रीणं तावत्तीसाए तावत्तीसगाणं चउण्हं लोगपालाणं पंचण्हं अगगमहिसीणं सपरिवाराणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणियाणं सत्तण्हं अणियाधिवतीणं चउण्ह य सट्टीणं आयरक्खदेवसाहस्रीणं अण्णेसिं च वहूणं उत्तरिलाणं असुरकुमाराणं देवाण य देवीण य आहेवच्चं पोरेवच्चं कुञ्चमाणे विहरति ।

१८१. [१] कहि णं भंते ! णागकुमाराणं देवाणं पज्जत्ता-उपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! णागकुमारा देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहस्रवाहल्लाए उवरि एगं जोयणसहसं ओगाहिता हेडा वेगं जोयणसहसं वज्जिज्जण मज्जे अद्भुत्तरे जोयणसयसहस्से, एत्थं णं णागकुमाराणं देवाणं पज्जत्ता-उपज्जत्ताणं चुलसीइ भवणावाससयसहस्रा हवंतीति मक्खातं । ते णं भवणा वाहिं वद्वा अंतो चउरंसा जाव (सु. १७७[१]) पडिरुवा । तत्थं णं णागकुमाराणं देवाणं पज्जत्ता-उपज्जत्ताणं ठाणा

पण्ठा । तिसु वि लोगस्स असंखेज्जइभागे । तत्थ णं बहवे णागकुमारा देवा परिवसंति महिडीया महाजुतीया, सेसं जहा ओहियाणं (सु. १७७[१]) जाव विहरंति ।

[२] धरण-भूयाणंदा एत्थ दुवे णागकुमारिंदा णागकुमाररायाणो परिवसंति महिडीया, सेसं जहा ओहियाणं जाव (सु. १७७[२]) विहरंति ।

१८२. [१] कहि णं भंते ! दाहिणिल्लाणं णागकुमाराणं देवाणं पज्जता-४पज्जताणं ठाणा पण्ठा ? कहि णं भंते ! दाहिणिल्ला णागकुमारा देवा परिवसंति १ गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेण इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहस्रबाहल्लाए उवरि एगं जोयणसहस्रं ओगाहेता हेडा वेगं जोयणसहस्रं वजेता मज्जे अडुहत्तरे जोयणसयसहस्रे, एत्थ णं दाहिणिल्लाणं णागकुमाराणं देवाणं चोयालीसं भवणावाससयसहस्रा भवंतीति मक्खातं । ते णं भवणा वाहिं वट्टा अंतो चउरंसा जाव पडिरुवा । एत्थ णं दाहिणिल्लाणं णागकुमाराणं देवाणं पज्जता४पज्जताणं ठाणा पण्ठा । तिसु वि लोगस्स असंखेज्जइभागे । एत्थ णं बहवे दाहिणिल्ला नागकुमारा देवा परिवसंति महिडीया जाव (सु. १७७[१]) विहरंति ।

[२] धरणे यै४त्थ णागकुमारिंदे णागकुमारराया परिवसति महिडीए जाव (सु. १७७[२]) पभासेमाणे । से णं तत्थ चोयालीसाए भवणावाससयसहस्राणं छण्हं सामाणियसाहस्रीणं तावत्तीसाए तावत्तीसगाणं चउण्हं लोगपालाणं पंचैण्हं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणियाणं सत्तण्हं अणियाधिवतीणं चउव्वीसाए आयरक्खदेवसाहस्रीणं अणेसिं च बहूणं दाहिणिल्लाणं नागकुमाराणं देवाण य देवीण य आहेवचं पोरेवचं कुव्वमाणे विहरति ।

५

१०

१५

२०

२५

१८३. [१] कहि णं भंते ! उत्तरिल्लाणं णागकुमाराणं देवाणं पज्जता-४पज्जताणं ठाणा पण्ठा ? कहि णं भंते ! उत्तरिल्ला णागकुमारा देवा परिवसंति १ गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वतस्स उत्तरेण इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसतसहस्रबाहल्लाए उवरि एगं जोयणसहस्रं ओगाहेता हेडा वेगं जोयणसहस्रं वजेता मज्जे अडुहत्तरे जोयणसतसहस्रे, एत्थ णं उत्तरिल्लाणं णागकुमाराणं देवाणं चत्तालीसं भवणावाससतसहस्रा भवंतीति मक्खातं । ते णं भवणा वाहिं वट्टा सेसं जहा दाहिणिल्लाणं (सु. १८२[१]) जाव विहरंति ।

१. °कुमारदेवाणं ध० पु१ पु२ पु३ विना ॥ २. एत्थ ध० स० प्र० । अत्थ पु२ ॥ ३. उण्हं म० पु२ ॥

[२] भूयाणदे यज्ञत्थ णागकुमारिंदे नागकुमारराया परिवसति महिंडीए जाव (सु. १७७[२]) पभासेमाणे । से णं तत्थ चत्तालीसाए भवणावाससत-सहस्राण आहेवचं जाव (सु. १७७[२]) विहरति ।

१८४. [१] कहि णं भंते ! सुवण्णकुमाराणं देवाणं पञ्जताऽपञ्जताणं ठाणा पण्णता ? कहि णं भंते ! सुवण्णकुमारा देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रथणप्पभाए पुढवीए जाव एत्थ णं सुवण्णकुमाराणं देवाणं वावत्तरि भवणावाससतसहस्रा भवंतीति मक्खातं । ते णं भवणा वाहिं वट्टा जाव पडिरुवा । तत्थ णं सुवण्णकुमाराणं देवाणं पञ्जताऽपञ्जताणं ठाणा पण्णता । तिसु वि लोगस्स असंखेजइभागे । तत्थ णं वहवे सुवण्णकुमारा देवा परिवसंति २० महिंडिया, सेसं जहा ओहियाणं (सु. १७७[१]) जाव विहरंति ।

[२] वेणुदेव-वेणुदाली यज्ञत्थ दुवे सुवण्णकुमारिंदा सुवण्णकुमाररायाणो परिवसंति महिंडीया जाव (सु. १७७[२]) विहरंति ।

१८५. [१] कहि णं भंते ! दाहिणिल्लाणं सुवण्णकुमाराणं पञ्जता-२५ ऽपञ्जताणं ठाणा पण्णता ? कहि णं भंते ! दाहिणिल्ला सुवण्णकुमारा देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे जाव मज्जे अड्हहत्तरे जोयणसतसहस्रे, एत्थ णं दाहिणिल्लाणं सुवण्णकुमाराणं अडुत्तीसं भवणावाससतसहस्रा भवंतीति मक्खातं । ते णं भवणा वाहिं वट्टा जाव पडिरुवा । एत्थ णं दाहिणिल्लाणं सुवण्णकुमाराणं पञ्जताऽपञ्जताणं ठाणा पण्णता । तिसु वि लोगस्स असंखेजइभागे । एत्थ णं वहवे सुवण्णकुमारा देवा परिवसंति ।

२० [२] वेणुदेवे यज्ञत्थ सुवण्णिंदे सुवण्णकुमारराया परिवसइ । सेसं जहा णागकुमाराणं (सु. १८२[२]) ।

१८६. [१] कहि णं भंते ! उत्तरिल्लाणं सुवण्णकुमाराणं देवाणं पञ्जताऽपञ्जताणं ठाणा पण्णता ? कहि णं भंते ! उत्तरिल्ला सुवण्णकुमारा देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रथणप्पभाए जाव एत्थ णं उत्तरिल्लाणं २५ सुवण्णकुमाराणं चोत्तीसं भवणावाससतसहस्रा भवंतीति मक्खातं । ते णं भवणा जाव एत्थ णं वहवे उत्तरिल्ला सुवण्णकुमारा देवा परिवसंति महिंडिया जाव (सु. १७७[१]) विहरंति ।

[२] वेणुदाली यज्ञत्थ सुवण्णकुमारिंदे सुवण्णकुमारराया परिवसति महिंडीए, सेमं जहा णागकुमाराणं (सु. १८३[२]) ।

१८७. एवं जहा सुवण्णकुमाराणं वत्तव्या भणिता तहा सेसाण वि  
चोद्दसण्हं इंदाणं भाणितव्वा । नवरं भवणनाणतं इंदणाणतं वण्णणाणतं परिहण-  
णाणतं च इमाहिं गाहाहिं अणुगंतव्वं—

चोवडिं असुराणं १ चुलसीती चेव होंति णागाणं २ ।

वावत्तरिं सुवण्णे ३ वाउकुमाराण छण्णउई ४ ॥ १३८ ॥

दीव-दिसा-उद्दीणं विज्जुकुमारिंद-थणिय-मग्गीणं ।

छण्हं पि जुवलयाणं छावत्तरि मो सतसहस्रा १० ॥ १३९ ॥

चोत्तीसा १ चोयाला २ अद्वत्तीसं च सयसहस्राइं ३ ।

पण्णा ४ चत्तालीसा ५-१० दाहिणओ होंति भवणाइं ॥ १४० ॥

तीसा १ चत्तालीसा २ चोत्तीसं चेव सयसहस्राइं ३ ।

छायाला ४ छत्तीसा ५-१० उत्तरओ होंति भवणाइं ॥ १४१ ॥

चउसझी १ सझी २ खलु छ च्च सहस्रा ३-१० उ असुरबज्जाणं ।

सामाणिया उ एए, चउग्गुणा आयरकखा उ ॥ १४२ ॥

चमरे १ धरणे २ तह वेणुदेव ३ हरिकिंत ४ अग्निसीहे य ५ ।

पुण्णे ६ जलकंते या ७ अमिय ८ विलंबे य ९ घोसे य १० ॥ १४३ ॥

वलि १ भूयाणंदे २ वेणुदालि ३ हरिस्सहे ४ अग्निमाणव ५

वसिङ्गे ६ ।

जलप्पहे ७ अमियवाहण ८ पभंजणे या ९ महाघोसे १० ॥ १४४ ॥

उत्तरिल्लाणं जाव विहरंति ।

काला असुरकुमारा, णागा उद्दी य पंडरा दो वि ।

वरकंणगणिहसगोरा होंति सुवण्णा दिसा थणिया ॥ १४५ ॥

उत्तत्कणगवन्ना विज्जू अग्गी य होंति दीवा य ।

सामा पियंगुवण्णा वाउकुमारा मुणेयव्वा ॥ १४६ ॥

असुरेसु होंति रत्ता, सिलिंधपुफ्प्पभा य नाशुद्दी ।

आसासगवसणधरा होंति सुवण्णा दिसा थणिया ॥ १४७ ॥

णिलाणुरागवसणा विज्जू अग्गी य होंति दीवा य ।

संझाणुरागवसणा वाउकुमारा मुणेयव्वा ॥ १४८ ॥

[सुन्नाहं १८८-१९४. वाणमंतरदेवठाणाहं]

१८८. कहि णं भंते ! वाणमंतराणं देवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा  
पणत्ता ? कहि णं भंते ! वाणमंतरा देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रथणप्पभाए  
पुढवीए रथणामयस्स कंडस्स जोयणसहस्रवाहृस्स उवरि एगं जोयणसतं  
५ ओगाहित्ता हेडा वि एगं जोयणसतं वज्जेत्ता मज्जे अट्टसु जोयणसएसु, एत्थं णं  
वाणमंतराणं देवाणं तिरियमसंखेजा भोमेज्जणगरावाससतसहस्रा भवंतीति  
मक्खातं । ते णं भोमेज्जा णगरा वाहिं वट्टा अंतो चउरंसा अहे पुक्खर-  
कण्णियासंठाणसंठिता उक्किणंतरविउलगंभीरखाय-परिहा पागार-उद्घालय-कवाड-  
१० तोरण-पडिदुवारदेसभागा जंत-सयग्धि-मुसल-मुसुंठिपैरियरिया अओज्ज्ञा सदाजता  
सदागुत्ता अड्यालकोड्यगरझ्या अड्यालकयवणमाला खेमा सिवा किंकरामरदंडोवर-  
किखया लाउलोइयमहिया गोसीस-सरसरतचंदणैददरदिन्नपंचंगुलितला उवचितचं-  
१५ दणकलसा चंदणघडसुक्यतोरणपडिदुवारदेसभागा आसत्तोसत्तविउलवृद्धवग्धारिय-  
मल्हदामकलावा पंचवण्णसरससुरभिमुक्पुष्पपुंजोवयारकलिया कालागरु-पवर-  
कुंदुरुक्क-तुरुक्कधूवमधमवेंतगंवुद्धुयाभिरामा सुगंधवर्वरगंधगंधिया गंधवट्टिभूता  
२० अच्छरगणसंघसंविकिणा दिव्वतुडितसद्संपणदिता पडागमालाउलाभिरामा  
सञ्चरयणामया अच्छा सण्हा लण्हा घट्टा मट्टा नीरया निम्मला निष्पंका णिष्कंक-  
डच्छाया सप्पभा सैमरीया सउज्जोता पासातीता दरसणिज्जा अभिरुवा पडिरुवा,  
एत्थं णं वाणमंतराणं देवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पणत्ता । तिसु वि  
लोगस्स असंखेज्जभागे । तत्थं णं वहवे वाणमंतरा देवा परिवसंति । तं जहा-  
२५ पिसाया १ भूया २ जक्खा ३ रक्खसा ४ किन्नरा ५ किंपुरिसा ६ भुयगवड्णो  
य महाकाया ७ गंधव्वगणा य निउणगंधव्वगीतरड्णो ८ अणवण्णय१-  
पणवण्णय२-इसिवाइय३-भूयवाइय४-कंदित५-महाकंदिया य ६ कुहंड७-पूयगदेवा  
८ चंचलचलचलचित्तकीलण-दवण्णिया गहिरहसियंगीय-णव्वणरई वणमाला-  
२५ मेल-मउल-कुंडल-सच्छंदविउवियाभरणचारुभूसूणधरा सञ्चोउयसुरभिकुसुमसुरड-  
यपलंवसोहंतकंतवियंसंतचित्तवणमालरड्यवच्छा कंमकामा कामरुवदेहधारी

१. °स्यात्-फलिहा ध० ॥ २. °परियारिया जे० विना । °परिवारिया मु० ॥ ३. °चंदणदिन्न°  
म० प्र० ॥ ४. °वरगंधिया म० विना ॥ ५. सस्सरीया म० प्र० पु२ ॥ ६. °पवग° जे० ॥  
७. °यपियगीय° ध० ॥ ८. °सच्छविउ° जे० ॥ ९. °विहसंत° जे० मु०पु२ ॥ १०. कामगमा  
मलयटीकायाम्, कामकामा इति पाठमेदस्तत्र । कामकमा जे० ध० ॥

णाणाविहवण्णरागवरवत्थचित्तचिल्ल[ल]गणियंसणा विविहदेसिणेवच्छगहियवेसा  
पमुइयकंदप्प-कलह-केलि-कोलाहलप्पिया हास-बोलबहुला असि-मोगगर-संति-कोंत-  
हत्था अणेगमणि-रयणविविहणिजुत्तैविचित्तचिंधगया सुखवा महिडीया महज्जुतीया  
महायसा महाबला महाणुभाँगा महासोकखा हारविराइयवच्छा कडय-तुडितथंभिय-  
भुया अंगय-कुङ्डल-मटुगंडयलकन्नपीढधारी विचित्तहत्थाभरणा विचित्तमाला-मउली  
कल्लाणगपवरवत्थपरिहिया कल्लाणगपवरमल्लाणुलेवणधरा भासुरबोंदी पँलंबवणमालधरा  
दिव्वेणं वणेणं दिव्वेणं गंधेणं दिव्वेणं फासेणं दिव्वेणं संधयणेणं दिव्वेणं संठाणेणं  
दिव्वाए इडीए दिव्वाए जुतीए दिव्वाए पभाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चीए  
दिव्वेणं तेणं दिव्वाए लेस्साए दस दिसाओ उज्जोवेमाणा पभासेमाणा । ते णं  
तत्थ साणं साणं भोमेज्जगणगरावाससतसहस्साणं साणं साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं  
साणं साणं अगमहिसीणं साणं साणं परिसाणं साणं साणं अणियाणं साणं साणं  
अणियाधिवतीणं साणं साणं आयरकखदेवसाहस्सीणं अणेसिं च बहूणं वाणमं-  
तराणं देवाण य देवीण य आहेवच्चं पोरेवच्चं सामित्तं भट्टितं मंहयरगत्तं आणाई-  
सरसेणावच्चं कारेमाणा पालेमाणा मह्याऽहतण्डु-गीय-वाइयतंती-तल-ताल-तुडिय-  
घणसुइंगपडुप्पवाइयवेणं दिव्वइं भोगभोगाईं भुंजमाणा विहरंति ।

१८९. [१] कहि णं भंते ! पिसायाणं देवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा  
पण्णता ? कहि णं भंते ! पिसाया देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्पमाए  
पुढवीए रयणामयस्स कंडस्स जोयणसहस्सबाहल्लस्स उवरिं एगं जोयणसतं ओगाहित्ता  
हेड्डा वेगं जोयणसतं वजेत्ता मज्जे अट्टुसु जोयणसएसु, एत्थं णं पिसायाणं देवाणं  
तिरियमसंखेज्जा भोमेज्जंगरावाससतसहस्सा भवंतीति मकखातं । ते णं भोमेज्जणगरा  
बाहिं वट्टा जहा ओहिओ भवणवैणओ (सु. १७७) तहा भाणितव्वो जाव  
पडिस्त्रवा । एत्थं णं पिसायाणं देवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पण्णता । तिसु वि  
लोगस्स असंखेज्जभागे । तत्थ णं बहवे पिसाया देवा परिवसंति महिडीया जहा  
ओहिया जाव (सु. १८८) विहरंति ।

५

१०

१५

२०

१. °वल्यललंतचित्तख्यगणियं° पु२ मु० विनाऽन्यत्र, नवरं ध० प्रतौ °चित्तदेवालयणियं°  
इति पाठभेदो वर्तते ॥ २. °सन्त्तिमोत्थहत्था जे० ॥ ३. °त्तचित्त° ध० मु० विना ॥ ४. °भावा  
म० ॥ ५. संगय° म० प्र० मु० ॥ ६. °त्तवत्था° जे० ध० ॥ ७. पलंबमाणवण° जे० ॥  
८. साणं असंखेज्जभोमे° मु० ॥ ९. मयहर° जे० । महत्तरगत्तं पु२ ॥ १०. भोमेज्जा ण° ध० ॥  
११. °वणणओ भणितो तहा ध० ॥

[२] काल-महाकाला यज्ञत्थ दुवे पिसायरायाणो परिविसंति महिंडिया महज्जुइया जाव (सु. १८८) विहरंति ।

१९०. [१] कहि णं भंते ! दाहिणिल्लाणं पिसायाणं देवाणं पज्जता-  
५ उपज्जताणं ठाणा पण्णता ? कहि णं भंते ! दाहिणिल्ला पिसाया देवा परिविसंति ?  
गोयमा ! जंबुद्धीवे दीवे मंदरस्स पव्ययस्स दाहिणेण इमीसे रयणण्यभाए पुढवीए  
१० रयणामयस्स कंडस्स जोयणसहस्रावाहलस्स उवरिं एगं जोयणसतं ओगाहिता हेडा वेगं  
जोयणसतं वजेता मज्जे अद्गुसु जोयणसएसु, एत्य णं दाहिणिल्लाणं पिसायाणं देवाणं  
१५ तिरियमसंखेज्जा भोमेज्जनगरावाससतसहस्रात् भवंतीति मक्खातं । ते<sup>३</sup> णं भोमेज्जनगरा  
वाहिं वद्वा जहा ओहियो भवणवण्णओ (सु. १७७) तंहा भाणियव्वो जाव  
२० पडिरुवा । एत्य णं दाहिणिल्लाणं पिसायाणं देवाणं पज्जताउपज्जताणं ठाणा पण्णता ।  
तिसु वि लोगस्स असंखेज्जभागे । तत्थ णं वहवे दाहिणिल्ला पिसाया देवा  
परिविसंति महिंडिया जहा ओहिया जाव (सु. १८८) विहरंति ।

[२] काले येऽत्थ पिसायइंदे पिसायराया परिविसति महिंडीए (सु. १८८)  
जाव पभासेमाणे । से णं तत्थ तिरियमसंखेज्जाणं भोमेज्जनगरावाससतसहस्राणं चउण्हं  
१५ सामाणियसाहस्रीणं चउण्हमगमहिसीणं सपरिविराणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणि-  
याणं सत्तण्हं अणियाविवतीणं सोलसण्हं आतरक्खदेवसाहस्रीणं अण्णेसिं च वहूणं  
दाहिणिल्लाणं वाणमंतराणं देवाण य देवीण य आहेवच्यं (सु. १८८) जाव विहरति ।

१९१. [१] उत्तरिल्लाणं पुच्छा । गोयमा ! जहेव दाहिणिल्लाणं वत्तव्यया  
(सु. १९० [१]) तहेव उत्तरिल्लाणं पि । नवरं मंदरस्स पव्ययस्स उत्तरेण ।  
२० [२] महाकाले यज्ञत्थ पिसायइंदे पिसायराया परिविसति जाव (सु.  
१९० [२]) विहरति ।

१९२. एवं जहा पिसायाणं (सु. १८९-१९०) तहा भूयाणं पि जाव  
गंधव्वाणं । णवरं इंदेसु णाणतं भाणियव्वं इमेण विहिणा-भूयाणं सुरुव-  
२५ पडिरुवा, जक्खाणं पुण्णभद्र-भाणिभद्रा, रक्खसाणं भीम-महाभीमा, किण्णराणं  
किण्णर-किंपुरिसा, किंपुरिसाणं सप्पुरिस-महापुरिसा, महोरगाणं अइकाय-महाकाया,  
गंधव्वाणं गीतरती-गीतजसे जाव (सु. १८८) विहरति ।

१. पिसायंदा म० प्र० ॥ २. देवाणं ठाणा लै० ध० म० मु० ॥ ३. ते णं भवणा जहा  
जै० ध० प्र० मु० पु० ॥ ४. तहेव भा० व० म० मु० पु० ॥ ५. एत्य प्र० मु० । इत्य पु० ॥

काले य महाकाले १ सुरुव पडिरुव २ पुण्यमदे य ।

अमरवइ माणिमदे ३ भीमे य तहा महाभीमे ४ ॥ १४९ ॥

किण्णर किंपुरिसे खलु ५ सप्पुरिसे खलु तहा महापुरिसे ६ ।

अइकाय महाकाए ७ गीयरई चेव गीतजसे ८ ॥ १५० ॥

१९३. [१] कहि णं भंते ! अणवन्नियाणं देवाणं [पञ्जताऽपञ्जताणं] ५

ठाणा पण्णता ? कहि णं भंते ! अणवण्णिया देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए रयणामयस्स कंडस्स जोयणसहस्सबाहल्लस्स उवरिं हेड्डा य एगं जोयणसयं वजेत्ता मज्ज्वे अद्दुसु जोयणसतेसु, एथ्य णं अणवण्णियाणं देवाणं तिरियम-संखेज्जा णगरावाससयसहस्सा भवंतीति मक्खातं । ते णं जाव (सु. १८८) पडिरुवा । एथ्य णं अणवण्णियाणं देवाणं ठाणा । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्धाएणं १० लोयस्स असंखेज्जइभागे, सद्गाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे । तत्थ णं वहवे अणवन्निया देवा परिवसंति महड्डिया जहा पिसाया (सु. १८९[१]) जाव विहरंति ।

[२] सन्निहिय-सामाणा यऽत्थ दुवे अणवण्णिदा अणवण्णियकुमाररायाणो परिवसंति महिड्डिया जहा काल-महाकाला (सु. १८९[२]) ।

१९४. एवं जहा काल-महाकालाणं दोणहं पि दाहिणिल्लाणं उत्तरिण्णिय १५ य भणिया (सु. १९०[२], १९१[२]) तहा सन्निहिय-सामाणा[ई]णं पि भाणियव्वा । संगहणिगाहा—

अणवन्निय १ पणवन्निय २ इसिवाइय ३ भूयवाइया चेव ४ ।

कंद ५ महाकंदिय ६ कुहंडे ७ पैययदेवा ८ इमे इंदा ॥ १५१ ॥

सण्णिहिया सामाणा १ धाय विधाए २ इसी य इसिपाले ३ । २०

ईसर महेसरे या ४ हवइ सुवच्छे विसाले य ५ ॥ १५२ ॥

हासे हासरई वि य ६ सेते य तहा भवे महासेते ७ ।

पैयते पययपई वि य ८ नेयव्वा आणुपुव्वीए ॥ १५३ ॥

[सुन्तं १९५. जोइसियदेवठाणाहँ]

१९५. [१] कहि णं भंते ! जोइसियाणं देवाणं -पञ्जताऽपञ्जताणं २५ ठाणा पण्णता ? कहि णं भंते ! जोइसिया देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे

१. °णियरायाणो जे० ॥ २. पवय° जे० ॥ ३. हस्से जे० ॥ ४. पयते य पययपयते नेयव्वा म० प्र० ॥ ५. नायव्वा पु२ ॥

न्तवपनाए पुढीर्वा च हुसमरमणिज्ञाओ भूमिभागाओ सत्ताणउते जोयणसते उहुं  
 उगडता दमुतरे जोयणसतवाहले तिरियमसंखेजे जोतिसविसये, एत्य णं  
 जोडमियाण देवाणं तिरियमसंखेजा जोडसियविमाणावाससतसहस्रा भवंतीति  
 मरुचानं । ते णं विमाणा अद्वकविद्वगसंठाणसंठिता सब्बफालियामया अव्युगय-  
 मृमियरहमिया इव विविहमणि-कणग-रतणभत्तिचित्ता वाउद्धुतविजयवेजयंती-  
 गडाग-छत्ताइळतकलिया तुंगा गगणतंलमणुलिहमाणसिहरा जालंतररतण-पंजरुम्मि-  
 लिय य भणि-कणगवृभियागा वियसियसयवत्तपुंडरीया(य-)तिल्य-र्यणद्वचंदचित्ता  
 पाणामणिगवदामालंकिया अंतो वहिं च सण्हा तवणिजरुइलवालुयापैत्थडा  
 उहाजामा नम्बिर्गिया मुरुवा पासाईया दरसणिज्ञा अभिरुवा पडिरुवा । एत्य णं  
 जोडमियाणं देवाणं पञ्चताऽपञ्चताणं ठाणा पण्णता । तिसु वि लोगस्स असंखिन्ति-  
 भाने । तत्य णं वहवे जोडमिया देवा परिवसंति, तं जहा-वहस्ती चंदा सूरा सुका  
 नागिन्द्वा गह धूमकेऊहा अंगारगा तनतवणिजकणगवण्णा, जे य गहा जोडसम्मि-  
 नां चर्गनि केन् य गडरड्या अद्वावीसतिविहा य नक्खतदेवयगणा, पाणासंठाण-  
 मौठयांगो य पंचवण्णाओ ताग्याओ, ठितलेस्सा चारिणो अविस्साममंडलगड्य-  
 वैत्यगामंक्षागडियचिंथमउडा महिड्या जाव (सु. १८८) पभासेमाणा । ते णं  
 तत्य नाणं साणं विमाणावाममतसहस्राणं साणं साणं सामाणियसाहस्रीणं साणं  
 नाणं अग्गमहिर्गीणं सपण्डिगणं साणं साणं परिसाणं साणं साणं अणियाणं  
 नाणं साणं अणियाभिवतीणं साणं साणं आयगक्षेदेवमाहस्रीणं अणेसिं च वहृणं  
 जोडमियाणं देवाण य देवीण य आहेवचं पोरेवचं जाव (सु. १८८) विहरंति ।

[२] चांदिम-मृगिया यज्ञ्य दुवे जोडसिंदा जोडसियरायाणो परिवसंति  
 गर्हाईया जाव (सु. १८८) पभासेमाणा । ते णं तत्य साणं साणं जोडसियवि-  
 भान्नामममतमहस्राणं चउण्हं नामाणियमाहस्रीणं चउण्हं अग्गमहिस्रीणं  
 मर्गियागानं निन्हं परिसाणं ननण्हं अणियाणं सत्तण्हं अणियाभिवतीणं सोलमण्हं  
 आयगक्षेदमाहस्रीणं अणेसिं च वहृणं जोडमियाणं देवाण य देवीण य  
 अणेक्षणं पोरेवचं जाव गिरंगनि ।

पण्णता ? कहि णं भंते ! वेमाणिया देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रतणप्पभाए  
पुढवीए बहुसमरमणिजातो भूमिभागातो उड्हुं चंदिम-सूरिय-गँह-णक्खत्त-तारारूपवाणं  
बहूइं जोयणसताहृं बहूइं जोयणसहस्राहृं बहूइं जोयणसयसहस्राहृं बहुगीओ  
जोयणकोडीओ बहुगीओ जोयणकोडीओ उड्हुं दूरं उप्पइत्ता एथं णं सोह-  
म्मीसाण-सणंकुमार-माहिंद-बंभलोय-लंतग-महासुक्ष-सहस्रार-आणय-पाणय-आरण-  
अच्चुत-गेवेज-अणुत्तरेसुं एथं णं वेमाणियाणं देवाणं चउरासीइ विमाणावाससत-  
सहस्रा सत्ताणउइं च सहस्रा तेवीसं च विमाणा भवंतीति मक्खातं । ते णं  
विमाणा सब्वरतणामया अच्छा सण्हा लण्हा घट्टा मट्टा नीरया निम्मला निप्पंका  
निक्कंकडच्छाया सप्पभा सस्मिरीया सुउज्जोया पासातीता दरसणिजा अभिरूपा  
पडिरूपा । एथं णं वेमाणियाणं देवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पञ्चता । तिसु  
वि लोयस्स असंखेज्जभागे । तत्थं णं बहवे वेमाणिया देवा परिवसंति ।  
तं जहा-सोहम्मीसाण-सणंकुमार-माहिंद-बंभलोग-लंतग-महासुक्ष-सहस्रार-आणय-  
पाणय-आरण-ऽच्चुय-गेवेजगा-अणुत्तरोववाइया देवा । ते णं मिग१-सहिस२-  
वराह३-सीह४-छगल५-दहुर६-हय७-गयवइ८-भुयग९-खग्ग१०-उसभंक११-  
विडिम१२-पागडियचिंधमउडा पसडिलवरमउड-तिरिडधारिणो वर-कुंडलुज्जोइयाणणा  
मउडदित्तसिरया रत्ताभा पउमपम्हगोरा सेया सुहवण्ण-गंध-फासा उत्तमवेउव्विणो  
पवरवत्थ-गंध-मलाणुलेवणधरा महिडीया महाजुइया महायसा महावला महाणुभागा  
महासोक्खा हारविराइयवच्छा कडय-तुडियथंभियमुया अंगद-कुंडल-मट्टगंडतेलकण्ण-  
पीढधारी विचित्तहत्थाभरणा विचित्तमाला-मउली कल्याणगपवरवत्थपरिहिया कल्याण-  
गपवरमल्लाऽपुलेवणा भासरबोंदी पलंववणमालधरा दिव्वेणं वण्णेणं दिव्वेणं गंधेणं  
दिव्वेणं फासेणं दिव्वेणं संघयणेणं दिव्वेणं संठाणेणं दिव्वाए इड्हुए दिव्वाए जुतीए  
दिव्वाए पभाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चीए दिव्वेणं तेणं दिव्वाए लेस्साए दस  
दिसाओ उज्जोवेमाणा पभासेमाणा । ते णं तत्थं साणं साणं विमाणावाससयसह-  
स्साणं साणं साणं सामाणियसाहस्रीणं साणं साणं तावत्तीसगाणं साणं साणं  
लोगपालाणं साणं साणं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं साणं साणं परिसाणं साणं साणं  
अणियाणं साणं साणं अणियाधिवतीणं साणं साणं आयरक्खदेवसाहस्रीणं अण्णेसिं  
च बहूणं वेमाणियाणं देवाणं देवीण य आहेवचं पोरेवचं सामित्तं भद्रितं महयरगतं

१. °गहगण-णक्खत्त° ध० ॥ २. °रेसु त पुल्य जे० ॥ ३. °णियदेवाणं जे० ॥ ४. सउज्जोवा  
जे० ॥ ५. °तलपीड° म० प्र० ॥

आणाईसरसेणावचं कारेमाणा पालेमाणा महताऽहतनद्व-गीय-वाइततंती-तल-  
ताल-तुडित-घणमुइंगपहुप्पवाइतरवेणं दिव्वाइं भोगभोगाइं भुंजमाणा विहरंति ।

१९७. [१] कहि णं भंते ! सोहम्मगदेवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा  
पण्णता ? कहि णं भंते ! सोहम्मगदेवा परिवसंति ? गोयमा ! जंबुदीवे दीवे  
५ मंदरस्स पञ्चतस्स दाहिणेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए वहुसमरमणिज्ञाओ  
भूमिभागाओ उडुं चंदिम-सूरिय-गँह-नक्खतताँरास्वाणं वहूणि जोयणसताणि  
वहूइं जोयणसहस्साइं वहूइं जोयणसतसहस्साइं वहुगीओ जोयणकोडीओ  
वहुगीओ जोयणकोडाकोडीओ उडुं दूरं उप्पइता एत्थ णं सोहम्मे णामं कप्पे  
१० पण्णते पाईण-पडीणायते उदीण-दाहिण॑वित्थिणे अद्धचंदसंठाणसंठिते अच्चिमालि-  
भासरासिवण्णामे असंखेज्ञाओ जोयणकोडीओ असंखेज्ञाओ जोयणकोडाकोडीओ  
आयाम-विक्खंभेणं, असंखेज्ञाओ जोयणकोडाकोडीओ परिक्खेवेणं, सञ्चरयणामए  
अच्छे जाव (सु. १९६) पडिरूवे । तत्थ णं सोहम्मगदेवाणं वत्तीसं  
विमाणावाससतसहस्सा हवंतीति मक्खातं । ते णं विमाणा सञ्चरयणामया अच्छा  
जाव (सु. १९६) पडिरूवा । तेसि णं विमाणाणं वहुमज्जदेसभागे पंच वडेंसया  
१५ पण्णता । तं जहा—असोगवडेंसए १ सत्तिवण्णवडेंसए २ चंपगवडेंसए ३ चूयवडेंसए  
४ मज्जे यऽत्थ सोहम्मवडेंसए ५ । ते णं वडेंसया सञ्चरयणामया अच्छा जाव  
(सु. १९६) पडिरूवा । एत्थ णं सोहम्मगदेवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पण्णता ।  
तीसु वि लोगस्स असंखेज्ञामागे । तत्थ णं वहवे सोहम्मगदेवा परिवसंति महिडीया  
२० जाव (सु. १९६) पभासेमाणा । ते णं तत्थ साणं साणं विमाणावाससतसहस्साणं  
साणं साणं सामाणियसाहस्रीणं एवं जहेव ओहियाणं (सु. १९६) तहेव एतेसिं पि  
भाणितव्वं जाव आयरक्खदेवसाहस्रीणं अण्णेसिं च वहूणं सोहम्मगकप्पवासीणं  
वेमाणिय॑णं देवाण य देवीण य आहेवचं पोरेवचं जाव (सु. १९६) विहरंति ।

[२] सक्के यऽत्थ देविंदे देवराया परिवसति वज्जपाणी पुरंदरे सतक्कू  
सहस्सक्खे मध्वं पागसासणे दाहिणडुलोगाधिवती वत्तीसविमाणावाससतसहस्सा-  
२५ धिवती एरावणवाहणे सुरिंदे अरयंबरवत्थधरे आलइयमाल-मउडे णवहेमचारु-  
चित्तचंचलकुंडलविलिहिज्ञमाणगंडे महिडीए जाव (सु. १९६) पभासेमाणे ।  
से णं तत्थ वत्तीसाए विमाणावाससतसहस्साणं चउरासीए सामाणियसाहस्रीणं

१. °गहगण-नक्ख॑ ध० म० पु२ ॥ २. °तारगङ्ग॑ ध० ॥ ३. °णविच्छिण्णे पु१ पु३ विना ॥  
४. °णियदेवाणं देवीण ध० म० ॥

तावत्तीसाए तावत्तीसगाणं चउणहं लोगपालाणं अटुणहं अगगमहिसीणं सपरिवाराणं  
तिणहं परिसाणं सत्तणहं अणियाणं सत्तणहं अणियाधिवतीणं चउणहं चउरासीईणं  
आयरक्खदेवसाहस्रीणं अण्णोसिं च बहूणं सोहम्मगकप्पवासीणं वेमाणियाणं देवाण  
य देवीण य आहेवचं पोरेवचं कुञ्चमाणे जाव (सु. १९६) विहरइ।

१९८. [१] कहि णं भंते ! ईसाणगदेवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा ५  
पण्णता ? कहि णं भंते ! ईसाणगदेवा परिवसंति ? गोयमा ! जंबुदीवे दीवे  
मंदरस्स पब्बतस्स उत्तरेण इमीसे र्यणप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिज्जाओ भूमि-  
भागाओ उडुं चंदिम-सूरिय-गहगण-णक्खत-तारारूपवाणं बहूइं जोयणसताइं बहूइं  
जोयणसहस्राइं जाव (सु. १९७ [१]) उप्पइत्ता एत्थं णं ईसाणे णामं कप्पे पण्णते  
पाईण-पडीणायते उदीण-दाहिणविच्छिणे एवं जहा सोहम्मे (सु. १९७ [१]) १०  
जाव पडिरुवे। तत्थं णं ईसाणगदेवाणं अट्टावीसं विमाणावाससतसहस्रा हवंतीति  
मक्खातं। ते णं विमाणा सञ्चरयणामया जाव पडिरुवा। तेसि णं बहुमज्जदेसभाए १५  
पंच वडेंसगा पण्णता, तं जहा—अंकवडेंसए १ फलिहवडेंसए २ रतणवडेंसए ३  
जातरूपवडेंसए ४ मज्जे एत्थं ईसाणवडेंसए ५। ते णं वडेंसया सञ्चरयणामया  
जाव (सु. १९६) पडिरुवा। एत्थं णं ईसाणाणं देवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा  
पण्णता। तिसु वि लोगस्स असंखेज्जतिभागे। सेसं जहा सोहम्मगदेवाणं जाव १६  
(सु. १९७ [१]) विहरंति।

- [२] ईसाणे यऽत्थ देविंदे देवराया परिवसति सूलपाणी वसभवाहणे  
उत्तरडुलोगाधिवती अट्टावीसविमाणावाससतसहस्राधिवती अरयंबरवत्थधरे सेसं  
जहा सक्कस्स (सु. १९७ [२]) जाव पभासेमाणे। से णं तत्थ अट्टावीसाए विमाणा-  
वाससतसहस्राणं असीतीए सामाणियसाहस्रीणं तावत्तीसाए तावत्तीसगाणं चउणहं  
लोगपालाणं अटुणहं अगगमहिसीणं सपरिवाराणं तिणहं परिसाणं सत्तणहं अणियाणं  
सत्तणहं अणियाधिवतीणं चउणहं असीतीणं आयरक्खदेवसाहस्रीणं अण्णोसिं च  
बहूणं ईसाणकप्पवासीणं वेमाणियाणं देवाण य देवीण य आहेवचं पोरेवचं  
कुञ्चमाणे जाव (सु. १९६) विहरति। २५

१९९. [१] कहि णं भंते ! सणंकुमारदेवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा  
पण्णता ? कहि णं भंते ! सणंकुमारा देवा परिवसंति ? गोयमा ! सोहम्मस्स कप्पस्स

उंपिं संपर्किंख सपडिदिसि वहूङ् जोयणाइं वहूङ् जोयणसताइं वहूङ् जोयणसहस्साइं वहूङ् जोयणसतसहस्साइं वहुगीओ जोयणकोडीओ वहुगीओ जोयणकोडाकोडीओ उहुं दूरं उप्पइत्ता एत्थ णं सणंकुमारे णामं कप्पे पाईण-पडीणायते उदीण-दाहिण-विच्छिणे जहा सोहम्मे (सु. १९७ [१]) जाव पडिरुवे। एत्थ णं सणंकुमाराणं देवाणं ५ वारस विमाणावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खातं। ते णं विमाणा सब्बरयणामया जाव (सु. १९६) पडिरुवा। तेसि णं विमाणाणं वहुमज्जदेसभागे पंच वडेसगा पण्णत्ता। तं जहा—असोगवडेसए १ सत्तिवण्णवडेसए २ चंपगवडेसए ३ चूयवडेसए ४ मज्जे यडत्थ सणंकुमारवडेसए ५। ते णं वडेसया सब्बरयणामया अच्छा जाव (सु. १९६) पडिरुवा। एत्थ णं सणंकुमारदेवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता। १० तिसु वि लोगस्स असंखेज्जभागे। तत्थ णं वहवे सणंकुमारा देवा परिवसंति माहिंद्रिया जाव (सु. १९६) पभासेमाणा विहरंति। णवरं अगममहिसीओ णत्थि।

[२] सणंकुमारे यडत्थ देविंदे देवराया परिवसति, अरयंवरवत्थधरे सेसं जहा सक्षस्स (सु. १९७ [२])। से णं तत्थ वारसणं विमाणावाससतसहस्साणं वावतरीए सामाणियसाहस्सीणं सेसं जहा सक्षस्स (सु. १९७ [२]) अगममहिसीवज्जं। १५ णवरं चउण्हं वावतरीणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं जाव (सु. १९६) विहरइ।

२००. [१] कहि णं भंते ! माहिंदाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! माहिंदगदेवा परिवसंति ? गोयमा ! ईसाणस्स कप्पस्स उंपिं संपर्किंख सपडिदिसि वहूङ् जोयणाइं जाव (सु. १९९ [१]) वहुगीओ जोयणकोडाकोडीओ उहुं दूरं उप्पइत्ता एत्थ णं माहिदे णामं कप्पे २० पायीण-पडीणायए एवं जहेव सणंकुमारे (सु. १९९ [१]), णवरं अडु विमाण-वाससतसहस्सा। वडेसया जहा ईसाणे (सु. १९८ [१]), णवरं मज्जे यडत्थ माहिंदवडेसए। एवं सेसं जहा सणंकुमारगदेवाणं (सु. १९६) जाव विहरति।

[२] माहिदे यडत्थ देविंदे देवराया परिवसति अरयंवरवत्थधरे, एवं जहा सणंकुमारे (सु. १९९ [२]) जाव विहरति। णवरं अडुण्हं विमाण-२५ वाससतसहस्साणं सत्तरीए सामाणियसाहस्सीणं चउण्हं सत्तरीणं आयर्क्खदेवसाहस्सीणं जाव (सु. १९६) विहरइ।

---

१. उच्चि सप० म० ॥ २. सपक्खपडिं जे० म० ॥ ३. °सरीए सेसं व० ॥ ४. माहिन्देवाण व० म० प्र० मु० ॥ ५. उहुं जे० ॥ ६. °रक्खदेवाणं जाव ध० । °रक्ख० जाव म० । °रक्खाणं जाव जे० प्र० ॥

२०१. [१] कहि णं भंते ! बंभलोगदेवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पण्णता ? कहि णं भंते ! बंभलोगदेवा परिवसंति ? गोयमा ! सणंकुमार-माहिंदाणं कप्पाणं उप्पिं सपकिंख सपडिदिसिं बहूइं जोयणाइं जाव (सु. १९९ [१]) उप्पइत्ता एत्थ णं बंभलोए णामं कप्पे पाईण-पडीणायए उदीण-दाहिणविच्छिणे पडिपुन्नचंदसंठाणसंठिते अञ्जिमाली-भासरासिष्पमे अवसेसं जहा सणंकुमाराणं ५ (सु. १९९ [१]), णवरं चत्तारि विमाणावाससतसहस्सा । वडिंसगा जहा सोहम्मवडेंसया (सु. १९७ [१]), णवरं मज्जे यऽत्थ बंभलोयवडिंसए । एत्थ णं बंभलोगाणं देवाणं ठाणा पन्नता । सेसं तहेव जाव (सु. १९६) विहरंति ।

[२] वंसे यऽत्थ देविंदे देवराया परिवसति अरयंबरवत्थधरे, एवं जहा सणंकुमारे (सु. १९९ [२]) जाव विहरति । णवरं चउण्हं विमाणावाससतसहस्साणं सट्टीए सामाणियसाहस्रीणं चउण्ह य सट्टीणं आयरक्खदेवसाहस्रीणं अण्णेसिं च बहूणं जाव (सु. १९६) विहरति । १०

२०२. [१] कहि णं भंते ! लंतगदेवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पण्णता ? कहि णं भंते ! लंतगदेवा परिवसंति ? गोयमा ! बंभलोगस्स कप्पस्स उप्पि सपकिंख सपडिदिसिं बहूइं जोयणसयाइं जाव (सु. १९९ [१]) बहुगीओ १५ जोयणकोडाकोडीओ उड्हं दूरं उप्पइत्ता एत्थ णं लंतए णामं कप्पे पण्णते पाईण-पडीणायए जहा बंभलोए (सु. २०१ [१]), णवरं पण्णासं विमाणावाससहस्सा भवंतीति मक्खातं । वडेंसगा जहा ईसाणवडेंसगा (सु. १९८ [१]), णवरं मज्जे यऽत्थ लंतगवडेंसए । देवा तहेव जाव (सु. १९६) विहरंति ।

[२] लंतए यऽत्थ देविंदे देवराया परिवसति जहा सणंकुमारे । (सु. १९९ [२]) णवरं पण्णासाए विमाणावाससहस्साणं पण्णासाए सामाणियसाहस्रीणं चउण्ह य पण्णासाणं आयरक्खदेवसाहस्रीणं अण्णेसिं च बहूणं जाव (सु. १९६) विहरति । २०

२०३. [१] कहि णं भंते ! महासुक्काणं देवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पण्णता ? कहि णं भंते ! महासुक्का देवा परिवसंति ? गोयमा ! लंतयस्स कप्पस्स २५ उप्पि सपकिंख सपडिदिसिं जाव (सु. १९९ [१]) उप्पइत्ता एत्थ णं महासुक्के णामं कप्पे पण्णते पायीण-पडीणायए उदीण-दाहिणवित्थिणे जहा बंभलोए (सु.

१. चउण्हं पण्णा० म० प्र० ॥ २. ०णविच्छिणे प्र० पु२ म० ॥

२०१ [१]), णवरं चत्तालीसं विमाणावाससहस्ता भवंतीति मक्खातं । वडेंसगा जहा सोहम्मवडेंसगा (सु. १९७ [१]), णवरं मज्जे यऽत्थ महासुक्कवडेंसए जाव (सु. १९६) विहरति ।

५ [२] महासुके यऽत्थ देविंदे देवराया जहा सणंकुमारे (सु. १९९ [२]), णवरं चत्तालीसाए विमाणावाससहस्ताणं चत्तालीसाए सामाणियसाहसीणं चउण्ह य चत्तालीसाणं आयरक्खदेवसाहसीणं जाव (सु. १९६) विहरति ।

२०४. [१] कहि णं भंते ! सहस्तारदेवाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! सहस्तारदेवा परिवसंति ? गोयमा ! महासुक्कस्स कप्पस्स उप्पि सपक्किख सपडिदिसिं जाव (सु. १९९ [१]) उप्पइत्ता एत्थ णं सहस्तारे १० णामं कप्पे पण्णते पाईण-पडीणायते जहा वंभलोए (सु. २०१ [१]), णवरं छविमाणावाससहस्ता भवंतीति मक्खातं । देवा तहेव (सु. १९७ [१]) जाव वडेंसगा जहा ईसाणस्स वडेंसगा (सु. १९८ [१]), णवरं मज्जे यऽत्थ सहस्तारवडेंसए जाव (सु. १९६) विहरति ।

१५ [२] सहस्तारे यऽत्थ देविंदे देवराया परिवसति जहा सणंकुमारे (सु. १९९ [२]), णवरं छण्हं विमाणावाससहस्ताणं तीसाए सामाणियसाहसीणं चउण्ह य तीसाए आयरक्खदेवसाहसीणं जाव (सु. १९६) आहेवच्चं कारेमाणे विहरति ।

२०५. [१] कहि णं भंते ! आणय-पाणयाणं देवाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! आणय-पाणया देवा परिवसंति ? गोयमा ! सहस्तारस्स कप्पस्स उप्पि सपक्किख सपडिदिसिं जाव (सु. १९९ [१]) उप्पइत्ता एत्थ णं आणय-पाणयनामेण दुवे कप्पा पण्णत्ता पाईण-पडीणायता उदीण-दाहिणवित्तिणा अद्धचंदसंठाणसंठिता अच्चिमाली-भासरासिप्पभा, सेसं जहा सणंकुमारे (सु. १९९ [१]) जाव पडिरुवा । तत्थ णं आणय-पाणयदेवाणं चत्तारि विमाणावाससता भवंतीति मक्खायां जाव पंडिरुवा । वडिंसगा जहा सोहम्मे (सु. १९७ [१]), णवरं मज्जे पाणयवडेंसए । ते णं वडेंसगा २५ सञ्चरयणामया अच्छा जाव पडिरुवा (सु. १९६) । एत्थ णं आणय-पाणयदेवाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । तिसु वि लोगस्स असंखेज्जभागे । तत्थ णं वहवे आणय-पाणयदेवा परिवसंति महिडीया जाव (सु. १९६) पभासेमाणा । ते णं तत्थ साणं साणं विमाणावाससयाणं जाव (सु. १९६) विहरति ।

[२] पाणए यऽत्थ देविंदे देवराया परिवसति जहा सणंकुमारे (सु. १९९

[२]), णवरं चउण्हं विमाणावाससयाणं वीसाए सामाणियसाहस्रीणं असीतीए आयरक्खदेवसाहस्रीणं अण्णोसिं च बहूणं जाव (सु. १९६) विहरति ।

२०६. [१] कहि णं भंते ! आरण-इच्छुताणं देवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पण्णता ? कहि णं भंते ! आरण-इच्छुता देवा परिवसंति ? गोयमा ! आणय-पाणयाणं कप्पाणं उप्पि सपर्किंख सपडिदिसिं एथं णं आरण-इच्छुया णामं दुवे ५ कप्पा पण्णता, पाईण-पडीणायया उदीण-दाहिणविच्छिण्णा अद्धुचंदसंठाणसंठिता अन्चिमाली-भासरासिवण्णाभा असंखेज्जाओ जोयणकोडाकोडीओ आयामविक्खंभेणं १० असंखेज्जाओ जोयणकोडाकोडीओ परिक्खेवेणं सञ्चरयणामया अच्छा सण्हा लण्हा घट्टा मट्टा नीरया निम्मला निप्पंका निकंकडच्छाया सप्पभा सस्सरीया सउज्जोया पासाईया दरसणिज्जा अभिरूवा पडिरूवा, एथं णं आरण-इच्छुताणं १५ देवाणं तिन्नि विमाणावाससता हवंतीति मक्खायं । ते णं विमाणा सञ्चरयणामया अच्छा सण्हा लण्हा घट्टा मट्टा नीरया निम्मला निप्पंका निकंकडच्छाया सप्पभा सस्सरीया सउज्जोता पासाईया दरसणिज्जा अभिरूवा पडिरूवा । तेसि १ णं विमाणाणं बहुमज्जदेसभाए पंच वडेंसगा पण्णता, तं जहा-अंकवडेंसए १ फलिहवडेंसए २ रयणवडेंसए ३ जायरूववडेंसए ४ मज्जे यइत्थ अच्छुतवडेंसए १५ ५ । ते णं वडेंसया सञ्चरयणामया जाव (सु. २०६[१]) पडिरूवा । एथं २० णं आरण-इच्छुयाणं देवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पण्णता । तिसु वि लोगस्स असंखेज्जभागे । तत्थं णं बहवे आरण-इच्छुता देवा जाव (सु. १९६) विहरति ।

[२] अच्छुते यइत्थ देविंदे देवराया परिवसति जहा पाणए (सु. २०५ [२]) जाव विहरति । णवरं तिण्हं विमाणावाससताणं दसण्हं सामाणियसाहस्रीणं चत्तालीसाए आयरक्खदेवसाहस्रीणं आहेवचं कुच्चमाणे जाव (सु. १९६) २० विहरति ।

बत्तीस अढुवीसा बारस अढु चउरो सतसहस्रा ।

पण्णा चत्तालीसा छ च सहस्रा सहस्रारे ॥ १५४ ॥

आणय-पाणयकप्पे चत्तारि सयाऽरण-इच्छुए तिन्नि ।

सत्त विमाणसयाइं चउसु वि एएसु कप्पेसु ॥ १५५ ॥

सामाणियसंगहणीगाहा—

चउरासीइ १ असीई २ वावत्तरि ३ सत्तरी य ४ सट्टी य ५ ।

पणा ६ चत्तालीसा ७ तीसा ८ वीसा ९-१० दस सहस्रा ११-१२  
॥ १५६ ॥

एते चेव आयरक्खा चउगुणा ।

२०७. कहि णं भंते ! हेड्हिमगेवेजँगदेवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पणता ?

५ कहि णं भंते ! हेड्हिमगेवेजगा देवा परिवसंति ? गोयमा ! आरणच्चुताणं कण्याणं  
उप्पिं जाव (सु. २०६[१]) उड्हुं दूरं उप्पइत्ता एत्थं ण हेड्हिमगेवेजगाणं देवाणं  
तओ गेवेजगविमाणपत्थडा पणता पाईण-पडीणायया उदीण-दाहिणविच्छिणणा  
पडिपुण्णचंदसंठाणसंठिता अच्चिमाली-भासरासिवणामा सेसं जहा वंभलोगे  
जाव (सु. २०१[१]) पडिरुवा । तत्थं ण हिड्हिमगेवेजगाणं देवाणं एकारसुत्तरे  
१० विमाणावाससते हवंतीति मक्खातं । ते णं विमाणा सव्वरयणामया जाव  
(सु. २०६[१]) पडिरुवा । एत्थं ण हेड्हिमगेवेजगाणं देवाणं पज्जताऽपज्जताणं  
ठाणा पणता । तिसु वि लोगस्स असंखिज्जिभागे । तत्थं ण वहवे हेड्हिमगेवेजगा  
देवा परिवसंति सब्बे समिड्हिया सब्बे समज्जुतीया सब्बे समजसा सब्बे समवला  
सब्बे समाणुभावा महासोक्खा अणिंदा अप्पेस्ता अपुरोहिया अहमिंदा णामं ते  
१५ देवगणा पणता समणाउसो । ।

२०८. कहि णं भंते ! मज्जिमगाणं गेवेजँगदेवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा

पणता ? कहि णं भंते ! मज्जिमगेवेजगा देवा परिवसंति ? गोयमा ! हेड्हिमगेवे-  
जगाणं उप्पिं सपकिंख सपडिदिसि जाव (सु. २०६[१]) उप्पइत्ता एत्थं णं  
मज्जिमगेवेजगदेवाणं तओ गेविज्जगविमाणपत्थडा पणता । पाईण-पडीणायता  
२० जहा हेड्हिमगेवेजगाणं णवरं सत्तुतरे विमाणावाससते हवंतीति मक्खातं । ते णं  
विमाणा जाव (सु. २०६[१]) पडिरुवा । एत्थं णं मज्जिमगेवेजगाणं देवाणं  
जाव (सु. २०७) तिसु वि लोगस्स असंखेज्जतिभागे । तत्थं ण वहवे मज्जिम-  
गेवेजगा देवा परिवसंति जाव (सु. २०७) अहमिंदा नामं ते देवगणा पणता  
समणाउसो । ।

२५

२०९. कहि णं भंते ! उवरिमगेवेजगदेवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा  
पणता ? कहि णं भंते ! उवरिमगेवेजगा देवा परिवसंति ? गोयमा ! मज्जिम-  
गेवेजगदेवाणं उप्पिं जाव (सु. २०६[१]) उप्पइत्ता एत्थं णं उवरिमगेवेजगाणं

१. °ज्ञगाणं दे० प्र० सु० ॥ २. अपेसा इति मलयटीकायाम् ॥ ३. °ज्ञगाणं दे० प्र० सु० ॥

देवाणं तओ गेविज्ञविमाणपत्थडा पण्णत्ता पाई॑ण-पडीणायता सेसं जहा हेड्हिमगे-विज्ञगाणं (सु. २०७), नवरं एगे विमाणावाससते भवंतीति मक्खातं । सेसं तहेव भाणियब्बं (सु. २०७) जाव अहमिंदा णामं ते देवगणा पण्णत्ता समणाउसो ! ।

एक्कारसुत्तरं हेड्हिमेसु सत्तुत्तरं च मज्जिमए ।

सयमेगं उवरिमिए पंचेव अणुत्तरविमाणा ॥ १५७ ॥

२१०. कहि णं भंते ! अणुत्तरोववाइयाणं देवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! अणुत्तरोववाइया देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढीए बहुसमरमणिज्जाओ भूमिभागाओ उडुं चंदिम-सूरिय-गैह-नक्ख-त-तारारूपाणं बहूइं जोयणसयाइं बहूइं जोयणसहस्साइं बहूइं जोयणसतसहस्साइं बहुगीओ जोयणकोडीओ बहुगीओ जोयणकोडाकोडीओ उडुं दूरं उप्पइत्ता सोहगमीसाण-सणंकुमार-माहिंद-बंमलोय-लंतग-सुक्क-सहस्सार-आणय-पाणय-आरण-अच्चुयकप्पा तिण्णि य अद्वारसुत्तरे गेविज्ञविमाणावाससते वीतीवतित्ता तेण परं दूरं गता णीरया निम्मला वितिमिरा विसुद्धा पंचादिसिं पंच अणुत्तरा महतिमहालयाँ विमाणा पण्णत्ता । तं जहा-विजये १ वेजयंते २ जयंते ३ अपराजिते ४ सब्बद्वासिद्धे ५ । ते णं विमाणा सब्बरयणामया अच्छा सण्हा लण्हा घट्टा मट्टा नीरया निम्मला निप्पंका निक्कंकडच्छया सप्पभा सस्सिरीया सउज्जोया पासाईया दरसाणिज्जा अभिरूपा पडिरूपा, अत्थ णं अणुत्तरोववाइयाणं देवाणं पज्जताऽपज्जताणं ठाणा पण्णत्ता । तिसु वि लोगस्स असंखेज्जतिभागे । तत्थ णं बहवे अणुत्तरोववाइया देवा परिवसंति सब्बे सँमिड्डिया सब्बे समबला सब्बे समाणुभावा महासोक्खा अणिंदा अपेस्सा अपुरोहिता अहमिंदा णामं ते देवगणा पण्णत्ता समणाउसो ! ।

### [सुत्तं २११. सिद्धाण्डा॒इ]

२११. कहि णं भंते ! सिद्धाणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! सिद्धा परिवसंति ? गोयमा ! सब्बद्वासिद्धस्स महाविमाणस्स उवरिल्लाओ थू॒भियगगाओ दुवालस जोयणे उडुं अचाहाए एथ्य णं ईसीपै॒भारा णामं पुढी पण्णत्ता, पणतालीसं जोयणसतसहस्साणि आयाम-विक्खंभेणं एगा जोयणकोडी वायालीसं च सतसहस्साइं तीसं च सहस्साइं दोण्णि य अउणापण्णे जोयणसते किंचि विसेसाहिए परिक्खवेणं

१. °गहगण-न° प्र० पु२ सु० ॥ २. °या महाविमाणा ध० म० प्र० पु२ ॥ ३. समिद्धितीया ध० प्र० । समड्डितीया पु२ ॥ ४. थू॒भियाओ ध० ॥ ५. ईसिपभारा जे० ॥

पणता । ईसीपब्माराए णं पुढवीए वहुमज्जदेसभाए अट्जोयणिए खेते अट्जोयणाइं वाहलेणं पणते, तंतो अणंतरं च णं माताए माताए पएसपरिहाणीए परिहायमाणी परिहायमाणी सव्वेसु चरिमंतेसु मच्छयपत्तातो तणुयरी अंगुलस्स असंखेज्जतिभागं वाहलेणं पणता । ईसीपब्माराए णं पुढवीए दुवालस नामधिजा ५ पणता । तं जहा—ईसी ति वा १ ईसीपब्मारा इ वा २ तण् ति वा ३ तणुतण् ति वा ४ सिद्धी ति वा ५ सिद्धालए ति वा ६ मुत्ती इ वा ७ मुत्तालए ति वा ८ लोयगे इ वा ९ लोयगगथूभिया ति वा १० लोयगपडिवुज्ज्ञणा इ वा ११ सव्वपाण-भूत-जीव-सत्तसुहावहा इ वा १२ । ईसीपब्मारा णं पुढवी सेता संखदलविमलसोत्थिय-मुणाल-दगरय-तुसार-गोकर्खीर-हारवण्णा उत्ताणयछत्तसंठाण-२० संठिता सव्वज्जुणसुवण्णमती अच्छा सणहा लणहा घट्टा मट्टा नीरया निम्मला निपंक्का निकंकडच्छया सप्पभा ससिसरीया सउज्जोता पासातीता दरसणिजा अभिरूवा पडिरूवा । ईसीपब्माराए णं सीताए जोयणम्मि लोगंतो । तस्स णं जोयणस्स जे से उवरिल्ले गाउए तस्स णं गाउयस्स जे से उवरिल्ले छब्बागे एत्थ णं सिद्धा भगवंतो सादीया अपज्जवसिता अणेगजाति-जरा-मरण-जोणिसंसारकल-२५ कलीभाव-पुणव्वभवगँव्वभवासवसहीपवंचसमतिक्रंता सासयमणागतद्धं कालं चिङ्गुंति ।

तत्थ वि य ते अवेदा अवेदणा निम्ममा असंगा य ।

संसारविष्पमुक्का पदेसनिवत्तसंठाणा ॥ १५८ ॥

कहिं पडिहता सिद्धा ? कहिं सिद्धा पइद्धिता ? ।

कहिं वोंदिं चाइत्ता णं ? कहिं गंतूण सिज्जर्हि ? ॥ १५९ ॥

२० अलोए पडिहता सिद्धा, लोयगे य पइद्धिया ।

इहं वोंदिं चाइत्ता णं तत्थ गंतूण सिज्जर्हि ॥ १६० ॥

दीहं वा हुस्सं वा जं चरिमभवे हवेज संठाण ।

तत्तो तिभागहीणा सिद्धाणोगाहणा भणिया ॥ १६१ ॥

जं संठाण तु इहं भवं चयंतस्स चरिमसमयम्मि ।

२५ आसी य पदेसघणं तं संठाणं तहिं तस्स ॥ १६२ ॥

तिणि सया तेत्तीसा धणुत्तिभागो य होति बोधव्वो ।

एसा खलु सिद्धाणं उक्कोसोगाहणा भणिया ॥ १६३ ॥

१. तथाणंतरं ध० ॥ २. संखतल० ध० म० प्र० ॥ ३. °गव्वभवसही० एतदनुसारेण मल-यटीका ॥ ४. कत्थ गंतूण ध० म० प्र० पु२ ॥ ५. णाथव्वो ध० विना ॥

चत्तारि य रयणीओ रयणितिभागूणिया य बोद्धवा ।  
 एसा खलु सिद्धाण्डं मज्जिम ओगाहणा भणिया ॥ १६४ ॥

एगा य होइ रयणी अड्वेव य अंगुलाइं साहीया ।  
 एसा खलु सिद्धाण्डं जहण्ण ओगाहणा भणिता ॥ १६५ ॥

ओगाहणाए सिद्धा भवत्तिभागेण होंति परिहीणा ।  
 संठाणमणितथं [ग्रन्थाग्रम् १५००] जरा-मरणविष्पमुक्ताणं ॥ १६६ ॥

जत्थ य एगो सिद्धो तत्थ अणंता भवक्खयविमुक्ता ।  
 अण्णोण्णसमोगढा पुडा सब्बे वि लोयंते ॥ १६७ ॥

फुसइ अणंते सिद्धे सब्बपएसेहिं नियमसो सिद्धो ।  
 ते वि असंखेजगुणा देस-पदेसेहिं जे पुडा ॥ १६८ ॥

असरीरा जीवघणा उवउत्ता दंसणे य नाणे य ।  
 सागारमणागारं लक्खणमेयं तु सिद्धाण्डं ॥ १६९ ॥

केवलणाणुवउत्ता जाणंती सब्बभावगुण-भावे ।  
 पासंति सब्बतो खलु केवलदिट्ठीहङ्गंताहिं ॥ १७० ॥

न वि अत्थि माँणुसाणं तं सोक्खं न वि य सब्बदेवाणं ।  
 जं सिद्धाण्डं सोक्खं अव्वाबाहं उवगर्याणं ॥ १७१ ॥

सुरगणसुहं समत्तं सब्बद्धापिंडितं अणंतगुणं ।  
 ण वि पावे मुत्तिसुहं णंताहिं वि वग्गवग्गूहिं ॥ १७२ ॥

सिद्धस्स सुहो रासी सब्बद्धापिंडितो जइ हवेजा ।  
 सोङ्गंतवग्गभइतो सब्बागासे ण माएजा ॥ १७३ ॥

जह णाम कोइ मेच्छो णगरगुणे बहुविहे वियाणंतो ।  
 न चएइ परिकहेउं उवमाए तहिं असंतीए ॥ १७४ ॥

इय सिद्धाण्डं सोक्खं अणोवमं, णत्थि तस्स ओवम्मं ।  
 किंचि विसेसेणेतो सारिक्खमिणं सुणह वोच्छं ॥ १७५ ॥

जह सब्बकामगुणितं पुरिसो भोतूण भोयणं कोइ ।  
 तण्हा-छुहाविमुक्तो अच्छेज जहा अमियतितो ॥ १७६ ॥

इय सब्बकालतिता अंतुलं णेव्वाणमुवगया सिद्धा ।

१. केवलदिट्ठिहि णंताहिं पुर ॥ २. मणुस्साणं ध० ॥ ३. किंच म० ॥ ४. अउलं निव्वाणपुरगया ध० ॥

सासयमव्वावाहं चिङ्गुंति सुही सुहं पत्ता ॥ १७७ ॥  
 सिद्ध ति य बुद्ध ति य पारगत ति य परंपरगत ति ।  
 उम्मुक्कम्मकवया अजरा अमरा असंगा य ॥ १७८ ॥  
 णिञ्छन्नसव्वदुक्खा जाति-जरा-मरणवंधणविमुक्ता ।  
 ५ अव्वावाहं सोक्खं अणुहुंती सासयं सिद्धा ॥ १७९ ॥

॥ पणवणाए भगवईए विइयं ठाणपयं समतं ॥

॥ ग्रन्थाग्रम् १५२० ॥

### ३. तद्यं बहुवत्तव्यपयं

[सुत्तं २१२. दिसाइसत्तावीसइदारनामाइं]

२१२. दिसि १ गति २ इंदिय ३ काए ४ जोगे ५ वेदे ६ कसाय ७<sup>लेस्सा य ८।</sup>

सम्मत ९ णाण १० दंसण ११ संजय १२ उवओग १३<sup>आहारे १४ ॥ १८० ॥ ५</sup>

भासग १५ परित्त १६ पञ्चत १७ सुहुम १८ सण्णी १९<sup>भवउत्थिए २०-२१ चरिमे २२।</sup>

जीवे य २३ खेत्त २४ बंधे २५ पोगगल २६ महदंडए २७<sup>चेव ॥ १८१ ॥</sup>

[सुत्ताइं २१३-२२४. पठमं दिसिदारं]

१०

२१३. दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा जीवा पञ्चत्थिमेणं, पुरत्थिमेणं<sup>विसेसाधिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया।</sup>

२१४. [१] दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा पुढविकाइया दाहिणेणं, उत्तरेणं<sup>विसेसाहिया, पुरत्थिमेणं विसेसाहिया, पञ्चत्थिमेणं विसेसाहिया।</sup>

[२] दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा आउक्काइया पञ्चत्थिमेणं, पुरत्थिमेणं<sup>विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया।</sup>

[३] दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा तेउक्काइया दाहिणुत्तरेणं, पुरत्थिमेणं<sup>संखेजगुणा, पञ्चत्थिमेणं विसेसाहिया।</sup>

[४] दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा वाउकाइया पुरत्थिमेणं, पञ्चत्थिमेणं<sup>विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया।</sup>

[५] दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा वणस्सइकाइया पञ्चत्थिमेणं, पुरत्थिमेणं<sup>विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया।</sup>

२१५. [१] दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा वेइंदिया पञ्चत्थिमेणं,<sup>पुरत्थिमेणं विसेसाहिया, दक्खिखणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया।</sup>

[२] दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा तेइंदिया पञ्चत्थिमेणं, पुरत्थिमेणं<sup>विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया।</sup>

[३] दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा चउरिंदिया पच्चत्थिमेणं, पुरत्थिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ।

२१६. [१] दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा नेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा ।

५ [२] दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा रयणप्पभापुढविनेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा ।

[३] दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा सक्रप्पभापुढविनेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा ।

१० [४] दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा वालुयप्पभापुढविनेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा ।

[५] दिसाणुवातेणं सब्वत्थोवा पंकप्पभापुढविनेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा ।

[६] दिसाणुवातेणं सब्वत्थोवा धूमप्पभापुढविनेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा ।

१५ [७] दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा तमप्पभापुढविनेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा ।

[८] दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा अहेसत्तमापुढविनेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा ।

२० [१] दाहिणिलेहिंतो अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो छट्टीए तमाए पुढवीए नेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं असंखेजगुणा ।

[२] दाहिणिलेहिंतो तमापुढविणेरइएहिंतो पंचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं असंखेजगुणा ।

[३] दाहिणिलेहिंतो धूमप्पभापुढविनेरइएहिंतो चउत्थीए पंकप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं असंखेजगुणा ।

२५ [४] दाहिणिलेहिंतो पंकप्पभापुढविनेरइएहिंतो तडयाए वालुयप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं असंखिजगुणा ।

[५] दाहिणिलेहिंतो वालुयप्पभापुढविनेरइएहिंतो दुडयाए सक्रप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं असंखिजगुणा, दाहिणेणं असंखिजगुणा ।

[६] दाहिणिलेहिंतो सक्करप्पभापुढविनेरइएहिंतो इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेण असंखेजगुणा, दाहिणेण असंखेजगुणा ।

२१८. दिसाणुवातेण सब्वत्थोवा पंचेदियतिरिक्खजोणिया पच्चत्थिमेण, पुरत्थिमेण विसेसाहिया, दाहिणेण विसेसाहिया, उत्तरेण विसेसाहिया ।

२१९. दिसाणुवातेण सब्वत्थोवा मणुस्सा दाहिणउत्तरेण, पुरत्थिमेण ५ संखेजगुणा, पच्चत्थिमेण विसेसाहिया ।

२२०. दिसाणुवातेण सब्वत्थोवा भवणवासी देवा पुरत्थिम-पच्चत्थिमेण, उत्तरेण असंखेजगुणा, दाहिणेण असंखेजगुणा ।

२२१. दिसाणुवातेण सब्वत्थोवा वाणमंतरा देवा पुरत्थिमेण, पच्चत्थिमेण विसेसाहिया, उत्तरेण विसेसाहिया, दाहिणेण विसेसाहिया । १०

२२२. दिसाणुवातेण सब्वत्थोवा जोइसिया देवा पुरत्थिम-पच्चत्थिमेण, दाहिणेण विसेसाहिया, उत्तरेण विसेसाहिया ।

२२३. [१] दिसाणुवातेण सब्वत्थोवा देवा सोहम्मे कप्पे पुरत्थिम-पच्चत्थिमेण, उत्तरेण असंखेजगुणा, दाहिणेण विसेसाहिया ।

[२] दिसाणुवातेण सब्वत्थोवा देवा ईसाणे कप्पे पुरत्थिम-पच्चत्थिमेण, १५ उत्तरेण असंखेजगुणा, दाहिणेण विसेसाहिया ।

[३] दिसाणुवातेण सब्वत्थोवा देवा सणंकुमारे कप्पे पुरत्थिम-पच्चत्थिमेण, उत्तरेण असंखेजगुणा, दाहिणेण विसेसाहिया ।

[४] दिसाणुवातेण सब्वत्थोवा देवा माहिंदे कप्पे पुरत्थिम-पच्चत्थिमेण, २० उत्तरेण असंखेजगुणा, दाहिणेण विसेसाहिया ।

[५] दिसाणुवाएण सब्वत्थोवा देवा बंभलोए कप्पे पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेण, दाहिणेण असंखेजगुणा ।

[६] दिसाणुवातेण सब्वत्थोवा देवा लंतए कप्पे पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेण, दाहिणेण असंखेजगुणा ।

[७] दिसाणुवाएण सब्वत्थोवा देवा महासुक्के कप्पे पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेण, २५ दाहिणेण असंखेजगुणा ।

१-२. दाहिणेण असंखेजगुणा, उत्तरेण विसेसाहिया जे० ध० । नायं पाठः टीकाकृद्वयाख्या-युक्त्यनुमारेण सङ्गतः ॥

[८] दिसाणुवातेण सञ्चत्थोवा देवा सहस्सारे कण्ठे पुरत्थिम-पञ्चत्थिम-उत्तरेण, दाहिणेण असंखेजगुणा ।

[९] तेण परं वहुसमोववण्णगा समणाउसो ! ।

२२४. दिसाणुवातेण सञ्चत्थोवा सिद्धा दाहिणुत्तरेण, पुरत्थिमेण संखेज-  
५ गुणा, पञ्चत्थिमेण विसेसाहिया । दारं १ ॥

### [सुत्ताइं २२५-२२६. विद्यं गतिदारं]

२२५. एतेसि णं भंते ! नेरइयाणं तिरिक्खजोणियाणं मणुस्साणं देवाणं  
सिद्धाण य पंचगतिसमासेण कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा  
विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा मणुस्सा १, नेरइया असंखेजगुणा २,  
१० देवा असंखेजगुणा ३, सिद्धा अणंतगुणा ४, तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा ५ ।

२२६. एतेसि णं भंते ! नेरइयाणं तिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीणं  
मणुस्साणं मणुस्सीणं देवाणं देवीणं सिद्धाण य अद्वगतिसमासेण कतरे कतरेहिंतो  
अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवाओ मणुस्सीओ  
१, मणुस्सा असंखेजगुणा २, नेरइया असंखेजगुणा ३, तिरिक्खजोणिणीओ  
१५ असंखेजगुणाओ ४, देवा असंखेजगुणा ५, देवीओ संखेजगुणाओ ६, सिद्धा  
अणंतगुणा ७, तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा ८ । दारं २ ॥

### [सुत्ताइं २२७-२३१. तदेव इंदियदारं]

२२७. एतेसि णं भंते ! सङ्किंदियाणं एर्गिंदियाणं वेइंदियाणं तेइंदियाणं  
चउरिंदियाणं पंचेंदियाणं अणिंदियाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा  
२० तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा पंचेंदिया १, चउरिंदिया विसे-  
साहिया २, तेइंदिया विसेसाहिया ३, वेइंदिया विसेसाहिया ४, अणिंदिया  
अणंतगुणा ५, एर्गिंदिया अणंतगुणा ६, सङ्किंदिया विसेसाहिया ७ ।

२२८. एतेसि णं भंते ! सङ्किंदियाणं एर्गिंदियाणं वेइंदियाणं तेइंदियाणं  
चउरिंदियाणं पंचेंदियाणं अपज्ञतगाणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला  
२५ वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा पंचेंदिया अपज्ञतगा १, चउरिंदिया

१. °याण य अपज्ञताणं म० प्र० ॥

अपज्जतया विसेसाहिया २, तेइंदिया अपज्जतया विसेसाहिया ३, बेइंदिया अपज्जतया विसेसाहिया ४, एर्गिंदिया अपज्जतया अणंतगुणा ५, सइंदिया अपज्जतया विसेसाहिया ६ ।

२२९. एतेसि णं भंते ! सइंदियाणं एर्गिंदियाणं बेइंदियाणं तेइंदियाणं चउरिंदियाणं पंचेंदियाणं पज्जतयाणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाधिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा चउरिंदिया पज्जतगा १, पंचेंदिया पज्जतगा विसेसाहिया २, बेंदिया पज्जतगा विसेसाहिया ३, तेंदिया पज्जतगा विसेसाहिया ४, एर्गिंदिया पज्जतगा अणंतगुणा ५, सइंदिया पज्जतगा विसेसाहिया ६ ।

२३०. [१] एतेसि णं भंते ! सइंदियाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा सइंदिया अपज्जतगा, सइंदिया पज्जतगा संखेजगुणा ।

[२] एतेसि णं भंते ! एर्गिंदियाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा एर्गिंदिया अपज्जतगा, एर्गिंदिया पज्जतगा संखेजगुणा ।

[३] एतेसि णं भंते ! बेंदियाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा बेंदिया पज्जतगा, बेंदिया अपज्जतगा असंखेजगुणा ।

[४] एतेसि णं भंते ! तेइंदियाणं पज्जताऽपज्जतगाणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा तेंदिया पज्जतगा, तेंदिया अपज्जतगा असंखेजगुणा ।

[५] एतेसि णं भंते ! चउरिंदियाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा चउरिंदिया पज्जतगा, चउरिंदिया अपज्जतगा असंखेजगुणा ।

[६] एएसि णं भंते ! पंचेंदियाणं पज्जताऽपज्जताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा पंचेंदिया पज्जतगा, पंचेंदिया अपज्जतगा असंखेजगुणा ।

२३१. एएसि णं भंते ! सइंदियाणं एर्गिंदियाणं बेंदियाणं तेंदियाणं चउरिं-दियाणं पंचेंदियाणं पज्जताऽपज्जताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा

विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा चउरिंदिया पज्जत्तगा १, पंचेदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया २, वेंदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया ३, तेइंदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया ४, पंचेदिया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ५, चउरिंदिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया ६, तेइंदिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया ७, वेंदिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया ८, ९ एगोंदिया अपज्जत्तगा अणंतगुणा १०, सइंदिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया ११, सइंदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया १२, सइंदिया विसेसाहिया १३ । दारं ३ ॥

### [ सुत्ताहं २३२-२५१. चउत्थं कायदारं ]

२३२. एएसि णं भंते ! सकाइयाणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं  
 १० तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सतिकाइयाणं तसकाइयाणं अकाइयाण य कतरे  
 कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा  
 तसकाइया १, तेउकाइया असंखेज्जगुणा २, पुढविकाइया विसेसाहिया ३,  
 आउकाइया विसेसाहिया ४, वाउकाइया विसेसाहिया ५, अकाइया अणंतगुणा  
 ६, वणस्सइकाइया अणंतगुणा ७, सकाइया विसेसाहिया ८ ।

१५ २३३. एतेसि णं भंते ! सकाइयाणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं  
 तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सतिकाइयाणं तसकाइयाण य अपज्जत्तगाणं कतरे  
 कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा  
 तसकाइया अपज्जत्तगा १, तेउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा २, पुढविकाइया  
 २० अपज्जत्तगा विसेसाहिया ३, आउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया ४, वाउकाइया  
 अपज्जत्तगा विसेसाहिया ५, वणप्फइकाइया अपज्जत्तगा अणंतगुणा ६, सकाइया  
 अपज्जत्तगा विसेसाहिया ७ ।

२३४. एतेसि णं भंते ! सकाइयाणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं  
 तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सइकाइयाणं तसकाइयाण य पज्जत्याणं कतरे  
 कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा  
 २५ तसकाइया पज्जत्तगा १, तेउकाइया पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा २, पुढविकाइया  
 पज्जत्तगा विसेसाहिया ३, आउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया ४, वाउकाइया  
 पज्जत्तगा विसेसाहिया ५, वणप्फइकाइया पज्जत्तगा अणंतगुणा ६, सकाइया  
 पज्जत्तगा विसेसाहिया ७ ।

२३५. [१] एतेसि णं भंते ! सकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा सकाइया अपज्जतगा, सकाइया पज्जतगा संखेजगुणा ।

[२] एतेसि णं भंते ! पुढविकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा पुढविकाइया ५ अपज्जतगा, पुढविकाइया पज्जतगा संखेजगुणा ।

[३] एतेसि णं भंते ! आउकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा आउकाइया अपज्जतगा, आउकाइया पज्जतगा संखेजगुणा ।

[४] एतेसि णं भंते ! तेउकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो १० अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा तेउकाइया अपज्जतगा, तेउकाइया पज्जतगा संखेजगुणा ।

[५] एतेसि णं भंते ! वाउकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वाउकाइया १५ अपज्जतगा, वाउकाइया पज्जतगा संखेजगुणा ।

[६] एएसि णं भंते ! वणस्सइकाइयाणं पज्जताऽपज्जतगाणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वणप्फइकाइया २० अपज्जतगा, वणप्फइकाइया पज्जतगा संखेजगुणा ।

[७] एतेसि णं भंते ! तसकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा २५ तसकाइया अपज्जतगा, तसकाइया अपज्जतगा असंखेजगुणा ।

२३६. एतेसि णं भंते ! सकाइयाणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सइकाइयाणं तसकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा तसकाइया १, तसकाइया अपज्जतगा २, तेउकाइया अपज्जतगा असंखेजगुणा ३, पुढविकाइया अपज्जतगा विसेसाहिया ४, आउकाइया अपज्जतगा विसेसाहिया ५, वाउकाइया अपज्जतगा विसेसाहिया ६, तेउकाइया पज्जतगा संखेजगुणा ७, पुढविकाइया पज्जतगा विसेसाहिया ८, आउकाइया पज्जतगा विसेसाहिया ९, वाउकाइया पज्जतगा २५

विसेसाहिया १०, वणस्सइकाइया अपज्जतगा अणंतगुणा ११, संकाइया अपज्जतगा विसेसाहिया १२, वणप्रतिकाइया पज्जतगा संखेजगुणा १३, सकाइया पज्जतगा विसेसाहिया १४, सकाइया विसेसाधिया १५ ।

२३७. एतेसि णं भंते ! सुहुमाणं सुहुमपुढविकाइयाणं सुहुमआउकाइयाणं

६ सुहुमतेउक्काइयाणं सुहुमवाउकाइयाणं सुहुमवणप्फइकाइयाणं सुहुमणिओयाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा सुहुमतेउकाइया १, सुहुमपुढविकाइया विसेसाहिया २, सुहुमआउकाइया विसेसाहिया ३, सुहुमवाउकाइया विसेसाहिया ४, सुहुमनिगोदा असंखेजगुणा ५, सुहुमवणप्फइकाइया अणंतगुणा ६, सुहुमा विसेसाहिया ७ ।

१० २३८. एतेसि णं भंते ! सुहुमअपज्जतगाणं सुहुमपुढविकाइयापज्जत-  
याणं सुहुमआउकाइयापज्जतयाणं सुहुमतेउकाइयापज्जतयाणं सुहुमवाउकाइया-  
पज्जतयाणं सुहुमवणप्फइकाइयापज्जतयाणं सुहुमणिगोदापज्जतयाण य कतरे  
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा  
सुहुमतेउकाइया अपज्जतया १, सुहुमपुढविकाइया अपज्जतया विसेसाहिया २,  
१५ सुहुमआउकाइया अपज्जतया विसेसाहिया ३, सुहुमवाउकाइया अपज्जतया  
विसेसाहिया ४, सुहुमनिगोदा अपज्जतगा असंखेजगुणा ५, सुहुमवणप्फतिकाइया  
अपज्जतगा अणंतगुणा ६, सुहुमा अपज्जतगा विसेसाहिया ७ ।

२३९. एतेसि णं भंते ! सुहुमपज्जतगाणं सुहुमपुढविकाइयपज्जतगाणं

२० सुहुमआउकाइयपज्जतगाणं सुहुमतेउकाइयपज्जतगाणं सुहुमवाउकाइयपज्जतगाणं  
सुहुमवणप्फइकाइयपज्जतगाणं सुहुमनिगोदपज्जतगाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा  
बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा सुहुमतेउक्काइया  
पज्जतगा १, सुहुमपुढविकाइया पज्जतगा विसेसाहिया २, सुहुमआउकाइया  
पज्जतगा विसेसाहिया ३, सुहुमवाउकाइया पज्जतगा विसेसाहिया ४, सुहुमणिओया

१. अत्रात्पवहुत्वे सूत्रादर्शेषु पञ्चदशा पदानि वरीवृत्यन्ते, किञ्च श्रीमलयगिरिपादै स्वटीकायां  
द्वादशा पठन्त्वेव निर्दिष्टानि दद्यन्ते । तथाहि—“तत् पृथिव्यव्वायव पर्याताः क्लेषण विशेषाधिकाः  
८९११०। ततो वनस्पतयोऽपर्याता अनन्तगुणा. ११, पर्याताः संख्येयगुणाः १२।”  
इति अस्मिन् व्याख्याने ‘सकायिका. अपर्याता. १ सकायिका पर्याता २ सकायिका. ३’ इति  
पदव्ययविप्रयमत्पवहुत्वं नात्रार्थे दद्यते इति तद्विदो गीतार्था एवात्र प्रमाणम् । निखिलेष्वपि  
मूत्रादर्शेषु एतन् पदव्ययं समुपलभ्यत इत्यस्माभिरत्राल्पवहुत्वे आद्वतमस्ति ॥

पज्जतगा असंखेजगुणा ५, सुहुमवणप्फइकाइया पज्जतया अणंतगुणा ६, सुहुमा  
पज्जतगा विसेसाधिया ७ ।

२४०. [१] एतेसि णं भंते ! सुहुमाणं पज्जताऽपज्जतयाणं कतरे  
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा  
सुहुमा अपज्जतगा, सुहुमा पज्जतगा संखेजगुणा ।

[२] एतेसि णं भंते ! सुहुमपुढविकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे  
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा  
सुहुमपुढविकाइया अपज्जतगा, सुहुमपुढविकाइया पज्जतगा संखेजगुणा ।

[३] एतेसि णं भंते ! सुहुमआउकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरे-  
हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाधिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा  
सुहुमआउकाइया अपज्जतया, सुहुमआउकाइया पज्जतगा संखेजगुणा ।

[४] एतेसि णं भंते ! सुहुमतेउकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे  
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा  
सुहुमतेउकाइया अपज्जतया, सुहुमतेउकाइया पज्जतगा संखेजगुणा ।

[५] एएसि णं भंते ! सुहुमवाउकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे  
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा  
सुहुमवाउकाइया अपज्जतया, सुहुमवाउकाइया पज्जतगा संखेजगुणा ।

[६] एएसि णं भंते ! सुहुमवणप्फइकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे  
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा  
सुहुमवणप्फइकाइया अपज्जतगा, सुहुमवणप्फइकाइया पज्जतगा संखेजगुणा ।

[७] एएसि णं भंते ! सुहुमनिगोदाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे  
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा  
सुहुमनिगोदा अपज्जतगा, सुहुमनिगोदा पज्जतया संखेजगुणा ।

२४१. एतेसि णं भंते ! सुहुमाणं सुहुमपुढविकाइयाणं सुहुमआउकाइयाणं  
सुहुमतेउकाइयाणं सुहुमवाउकाइयाणं सुहुमवणस्सइकाइयाणं सुहुमनिगोदाणं य  
पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाधिया  
वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा सुहुमतेउकाइया अपज्जतगा १, सुहुमपुढविकाइया  
अपज्जतया विसेसाहिया २, सुहुमआउकाइया अपज्जतया विसेसाहिया ३,  
सुहुमवाउकाइया अपज्जतया विसेसाहिया ४, सुहुमतेउकाइया पज्जतगा

पज्जतगा असंखेजगुणा ५, सुहुमवणप्फइकाइया पज्जतया अणंतगुणा ६, सुहुमा  
पज्जतगा विसेसाधिया ७ ।

२४०. [१] एतेसि णं भंते ! सुहुमाणं पज्जताऽपज्जतयाणं कतरे  
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा  
सुहुमा अपज्जतगा, सुहुमा पज्जतगा संखेजगुणा । ५

[२] एतेसि णं भंते ! सुहुमपुढविकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे  
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा  
सुहुमपुढविकाइया अपज्जतगा, सुहुमपुढविकाइया पज्जतगा संखेजगुणा ।

[३] एतेसि णं भंते ! सुहुमआउकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरे-  
हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाधिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा  
सुहुमआउकाइया अपज्जतया, सुहुमआउकाइया पज्जतगा संखेजगुणा । १०

[४] एतेसि णं भंते ! सुहुमतेउकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे  
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा  
सुहुमतेउकाइया अपज्जतया, सुहुमतेउकाइया पज्जतगा संखेजगुणा ।

[५] एएसि णं भंते ! सुहुमवाउकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे  
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा  
सुहुमवाउकाइया अपज्जतया, सुहुमवाउकाइया पज्जतगा संखेजगुणा । १५

[६] एएसि णं भंते ! सुहुमवणप्फइकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे  
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा  
सुहुमवणप्फइकाइया अपज्जतगा, सुहुमवणप्फइकाइया पज्जतगा संखेजगुणा । २०

[७] एएसि णं भंते ! सुहुमनिगोदाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे  
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा  
सुहुमनिगोदा अपज्जतगा, सुहुमनिगोदा पज्जतया संखेजगुणा ।

२४१. एतेसि णं भंते ! सुहुमाणं सुहुमपुढविकाइयाणं सुहुमआउकाइयाणं  
सुहुमतेउकाइयाणं सुहुमवाउकाइयाणं सुहुमवणस्सइकाइयाणं सुहुमनिगोदाणं य  
पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाधिया  
वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा सुहुमतेउकाइया अपज्जतगा १, सुहुमपुढविकाइया  
अपज्जतया विसेसाहिया २, सुहुमआउकाइया अपज्जतया विसेसाहिया ३,  
सुहुमवाउकाइया अपज्जतया विसेसाहिया ४, सुहुमतेउकाइया पज्जतगा २५

संखेजगुणा ५, सुहुमपुढविकाइया पज्जतया विसेसाहिया ६, सुहुमआउकाइया पज्जतया विसेसाहिया ७, सुहुमवाउकाइया पज्जतया विसेसाहिया ८, सुहुमनिगोदा अपज्जतया असंखेजगुणा ९, सुहुमनिगोदा पज्जतया संखेजगुणा १०, सुहुमवणप्फइकाइया अपज्जतया अणंतगुणा ११, सुहुमा अपज्जतया विसेसाहिया १२, ५ सुहुमवणप्फइकाइया पज्जतया संखेजगुणा १३, सुहुमा पज्जतया विसेसाहिया १४, सुहुमा विसेसाहिया १५।

२४२. एतेसि णं भंते ! वादराणं वादरपुढविकाइयाणं वादरआउकाइयाणं वादरतेउकाइयाणं वादरवाउकाइयाणं वादरवणस्सइकाइयाणं पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइयाणं वादरनिगोदाणं वादरतसकाइयाणं य कतरे कतरेहिंतो २० अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा वादरतसकाइया १, वादरा तेउकाइया असंखेजगुणा २, पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइया असंखेजगुणा ३, वादरा निगोदा असंखेजगुणा ४, वादरा पुढविकाइया असंखेजगुणा ५, वादरा आउकाइया असंखेजगुणा ६, वादरा वाउकाइया असंखेजगुणा ७, वादरा वणप्फइकाइया अणंतगुणा ८, वादरा विसेसाहिया ९।

२४३. एतेसि णं भंते ! वादरपुढविकाइयअपज्जतगाणं वादरआउकाइयअपज्जतगाणं वादरतेउकाइयअपज्जतगाणं वादरवाउकाइयअपज्जतगाणं वादरवणप्फइकाइयअपज्जतयाणं पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइयअपज्जतगाणं वादरनिगोदापज्जतगाणं वादरतसकाइयापज्जताणं य कतरे कतरेहिंतो २० अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा वादरतसकाइया अपज्जतगा १, वादरतेउकाइया अपज्जतगा असंखेजगुणा २, पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइया अपज्जतया असंखेजगुणा ३, वादरनिगोदा अपज्जतगा असंखेजगुणा ४, वादरपुढविकाइया अपज्जतगा असंखेजगुणा ५, वादरआउकाइया अपज्जतगा असंखेजगुणा ६, वादरवाउकाइया अपज्जतगा असंखेजगुणा ७, वादरवणप्फइकाइया अपज्जतगा अणंतगुणा ८, वादरअपज्जतगा विसेसाहिया ९।

२४४. एतेसि णं भंते ! वादरपुढविकाइयपज्जतयाणं वादरआउकाइयपज्जतयाणं वादरतेउकाइयपज्जतयाणं वादरवाउकाइयपज्जतयाणं वादरवणप्फइकाइयपज्जतयाणं पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइयपज्जतयाणं वादरनिगोदपज्जतयाणं वादरतसकाइयपज्जतयाणं य कतरे कतरेहिंतो २५ अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा वादरतेउकाइया पज्जतया १,

बादरतसकाइया पज्जतया असंखेजगुणा २, पत्तेयसरीरबायरवणप्फइकाइया पज्जतगा असंखेजगुणा ३, बायरनिगोदा पज्जतगा असंखेजगुणा ४, बादरपुढविकाइया पज्जतगा असंखेजगुणा ५, बादरआउकाइया पज्जतगा असंखिजगुणा ६, बादरवाउकाइया पज्जतया असंखेजगुणा ७, बादरवणप्फइकाइया पज्जतया अणंतगुणा ८, बायरपज्जतया विसेसाहिया ९ ।

२४५. [१] एतेसि णं भंते ! बादराणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा बादरा पज्जतगा, बायरा अपज्जतगा असंखेजगुणा ।

[२] एतेसि णं भंते ! बादरपुढविकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा बादरपुढविकाइया पज्जतगा, बादरपुढविकाइया अपज्जतगा असंखेजगुणा ।

[३] एतेसि णं भंते ! बादरआउकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा बादरआउकाइया पज्जतगा, बादरआउकाइया अपज्जतगा असंखेजगुणा ।

[४] एतेसि णं भंते ! बादरतेउकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा बादरतेउकाइया पज्जतया, बादरतेउकाइया अपज्जतया असंखेजगुणा ।

[५] एतेसि णं भंते ! बादरवाउकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा बादरवाउकाइया पज्जतगा, बादरवाउकाइया अपज्जतगा असंखेजगुणा ।

[६] एतेसि णं भंते ! बादरवणप्फइकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा बादरवणप्फइकाइया पज्जतगा, बादरवणप्फइकाइया अपज्जतया असंखेजगुणा ।

[७] एतेसि णं भंते ! पत्तेयसरीरबादरवणप्फइकाइयाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा पत्तेयसरीरबादरवणप्फइकाइया पज्जतगा, पत्तेयसरीरबादरवणप्फइकाइया अपज्जतगा असंखेजगुणा ।

[८] एतेसि णं भंते ! बादरनिगोदाणं पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो

अप्पा वा वहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्योवा वादर-  
निगोदा पज्जत्तगा, वादरनिगोदा अपज्जत्तगा असंखेजगुणा ।

[१] एसि णं भंते ! वादरतसकाइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कतरे  
कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्योवा  
५ वादरतसकाइया पज्जत्तगा, वादरतसकाइया अपज्जत्तगा असंखेजगुणा ।

२४६. एसि णं भंते ! वादराणं वादरपुढविकाइयाणं वादरआउका-  
इयाणं वादरतेउकाइयाणं वादरवाउकाइयाणं वादरवणस्सइकाइयाणं पत्तेयसरीर-  
वादरवणप्फइकाइयाणं वादरनिगोदाणं वादरतसकाइयाण य पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कतरे  
कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्यो-  
१० वा वादरतेउकाइया पज्जत्या १, वादरतसकाइया पज्जत्या असंखेजगुणा २,  
वादरतसकाइया अपज्जत्तगा असंखेजगुणा ३, पत्तेयसरीरवादरवणस्सइकाइया  
पज्जत्तगा असंखेजगुणा ४, वादरनिगोदा पज्जत्तगा असंखेजगुणा ५, वादरपुढ-  
विकाइया पज्जत्तगा असंखेजगुणा ६, वादरआउकाइया पज्जत्तगा असंखेजगुणा ७,  
वादरवाउकाइया पज्जत्तगा असंखेजगुणा ८, वादरतेउकाइया अपज्जत्तगा  
१५ असंखेजगुणा ९, पत्तेयसरीरवादरवणस्सइकाइया अपज्जत्या असंखेजगुणा १०,  
वादरनिगोदा अपज्जत्या असंखेजगुणा ११, वादरपुढविकाइया अपज्जत्या  
असंखेजगुणा १२, वादरआउकाइया अपज्जत्या असंखेजगुणा १३, वादरवाउ-  
काइया अपज्जत्तगा असंखेजगुणा १४, वादरवणस्सइकाइया पज्जत्तगा अणांतगुणा  
१५, वादरपज्जत्तगा विसेसाहिया १६, वादरवणस्सइकाइया अपज्जत्तगा असंखे-  
२० जगुणा १७, वादरअपज्जत्तगा विसेसाहिया १८, वादरा विसेसाहिया १९ ।

२४७. एतेसि णं भंते ! सुहुमाणं सुहुमपुढविकाइयाणं सुहुमआउकाइयाणं  
सुहुभंतेउकाइयाणं सुहुमवाउकाइयाणं सुहुमवणप्फइकाइयाणं सुहुमनिगोदाणं  
वादराणं वादरपुढविकाइयाणं वादरआउकाइयाणं वादरतेउकाइयाणं वादरवाउका-  
इयाणं वादरवणप्फइकाइयाणं पत्तेयसरीरवायरवणप्फइकाइयाणं वादरणिगोदाणं  
२५ वादरतसकाइयाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुला वा विसेसाहिया  
वा ? गोयमा ! सव्वत्योवा वादरतसकाइया १, वादरतेउकाइया असंखेजगुणा २,  
पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइया असंखेजगुणा ३, वादरनिगोदा असंखेजगुणा ४,  
वादरपुढविकाइया असंखेजगुणा ५, वादरआउकाइया असंखेजगुणा ६,

१. वादरपत्तेयवणस्सइ० ले० घ० पु१ पु२ पु३ ॥

बादरवाउकाइया असंखेजगुणा ७, सुहुमतेउकाइया असंखेजगुणा ८, सुहुमपुढ-  
विकाइया विसेसाहिया ९, सुहुमआउकाइया विसेसाहिया १०, सुहुमवाउकाइया  
विसेसाहिया ११, सुहुमणिगोदा असंखेजगुणा १२, बादरवणस्सइकाइया  
अणंतगुणा १३, बादरा विसेसाहिया १४, सुहुमवणस्सइकाइया असंखेजगुणा १५,  
सुहुमा विसेसाहिया १६ ।

५

२४८. एतेसि णं भंते ! सुहुमअपज्जत्याणं सुहुमपुढविकाइयाणं  
अपज्जत्तगाणं सुहुमआउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं सुहुमतेउकाइयाणं अपज्जत्याणं  
सुहुमवाउकाइयाणं अपज्जत्याणं सुहुमवणप्फइकाइयाणं अपज्जत्तगाणं सुहुम-  
णिगोदापज्जत्याणं बादरापज्जत्याणं बादरपुढविकाइयापज्जत्याणं बादरआउ-  
काइयापज्जत्याणं बादरतेउकाइयापज्जत्याणं बादरवाउकाइयापज्जत्याणं बादर- १०  
वणप्फइकाइयापज्जत्याणं पत्तेयसरीरबादरवणप्फइकाइयापज्जत्याणं बादरणि-  
गोदापज्जत्याणं बादरतसकाइयापज्जत्याणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा  
तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा बादरतसकाइया अपज्जत्गा १,  
बादरतेउकाइया अपज्जत्गा असंखेजगुणा २, पत्तेयसरीरबादरवणप्फइकाइया  
अपज्जत्गा असंखेजगुणा ३, बादरणिगोदा अपज्जत्या असंखेजगुणा ४, १५  
बादरपुढविकाइया अपज्जत्गा असंखेजगुणा ५, बादरआउक्काइया अपज्जत्गा  
असंखेजगुणा ६, बादरवाउकाइया अपज्जत्गा असंखेज्जगुणा ७, सुहुमते-  
उकाइया अपज्जत्गा असंखेज्जगुणा ८, सुहुमपुढविकाइया अपज्जत्गा  
विसेसाहिया ९, सुहुमआउकाइया अपज्जत्गा विसेसाहिया १०, सुहुमवाउकाइया  
अपज्जत्गा विसेसाहिया ११, सुहुमणिगोदा अपज्जत्गा असंखेज्जगुणा १२, २०  
बादरवणप्फइकाइया अपज्जत्गा अणंतगुणा १३, बादरा अपज्जत्गा  
विसेसाहिया १४, सुहुमवणप्फइकाइया अपज्जत्गा असंखेज्जगुणा १५, सुहुमा  
अपज्जत्गा विसेसाहिया १६ ।

२४९. एतेसि णं भंते ! सुहुमपज्जत्याणं सुहुमपुढविकाइयपज्जत्याणं  
सुहुमआउकाइयपज्जत्याणं सुहुमतेउकाइयपज्जत्याणं सुहुमवाउकाइयपज्जत्याणं २५  
सुहुमवणप्फइकाइयपज्जत्याणं सुहुमनिगोयपज्जत्याणं बादरपज्जत्याणं बादर-  
पुढविकाइयपज्जत्याणं बादरआउकाइयपज्जत्याणं बादरतेउकाइयपज्जत्याणं बादर-  
वाउकाइयपज्जत्याणं बादरवणप्फइकाइयपज्जत्याणं पत्तेयसरीरबादरवणप्फइकाइय-  
पज्जत्याणं बादरनिगोदपज्जत्याणं बादरतसकाइयपज्जत्याणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा

वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वादरतेउकाइया पज्जत्तगा १, वादरतसकाइया पज्जत्तगा असंखेजगुणा २, पत्तेयसरीरवादरवणप्प-इकाइया पज्जत्तगा असंखेजगुणा ३, वादरनिगोदा पज्जत्तया असंखेजगुणा ४, वादर-पुढविकाइया पज्जत्तया असंखेजगुणा ५, वादरआउकाइया पज्जत्तया असंखेजगुणा ६, वादरवाउकाइया पज्जत्तया असंखेजगुणा ७, सुहुमतेउकाइया पज्जत्तया असंखे-जगुणा ८, सुहुमपुढविकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया ९, सुहुमआउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया १०, सुहुमवाउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया ११, सुहुमनिगोदा पज्जत्तया असंखेजगुणा १२, वादरवणप्पइकाइया पज्जत्तया अणंतगुणा १३, वादरा पज्जत्तया विसेसाहिया १४, सुहुमवणस्सइकाइया पज्जत्तगा असंखेजगुणा १५, १० सुहुमा पज्जत्तया विसेसाहिया १६।

२५०. [१] एएसि णं भंते ! सुहुमाणं वादराण य पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वादरा पज्जत्तगा १, वादरा अपज्जत्तगा असंखेजगुणा २, सुहुमा अपज्जत्तगा असंखेजगुणा ३, सुहुमा पज्जत्तगा संखेजगुणा ४।

[२] एएसि णं भंते ! सुहुमपुढविकाइयाणं वादरपुढविकाइयाण य पज्जत्ताऽपज्जत्ताण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वादरपुढविकाइया पज्जत्तगा १, वादरपुढविकाइया अपज्जत्तया असंखेजगुणा २, सुहुमपुढविकाइया अपज्जत्तया असंखेजगुणा ३, सुहुमपुढविकाइया पज्जत्तया संखेजगुणा ४।

२० [३] एएसि णं भंते ! सुहुमआउकाइयाणं वादरआउकाइयाण य पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वादरआउकाइया पज्जत्तया १, वादरआउकाइया अपज्जत्तया असंखेजगुणा २, सुहुमआउकाइया अपज्जत्तया असंखेजगुणा ३, सुहुमआउकाइया पज्जत्तया संखेजगुणा ४।

[४] एएसि णं भंते ! सुहुमतेउकाइयाणं वादरतेउकाइयाण य पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वादरतेउकाइया पज्जत्तगा १, वादरतेउकाइया अपज्जत्तगा असंखेजगुणा २, सुहुमतेउकाइया अपज्जत्तगा असंखेजगुणा ३, सुहुमतेउकाइया पज्जत्तगा संखेजगुणा ४।

[५] एएसि णं भंते ! सुहुमवाउकाइयाणं वादरवाउकाइयाण य पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा वादरवाउकाइया पज्जतया १, वादरवाउकाइया अपज्जतया असंखेजगुणा २, सुहुमवाउकाइया अपज्जतया असंखेजगुणा ३, सुहुमवाउकाइया पज्जतगा संखेजगुणा ४ ।

५

[६] एएसि णं भंते ! सुहुमवणस्सतिकाइयाणं वादरवणस्सतिकाइयाण य पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा वादरवणस्सइकाइया पज्जतया १, वादरवणस्सतिकाइया अपज्जतया असंखेजगुणा २, सुहुमवणस्सइकाइया अपज्जतगा असंखेजगुणा ३, सुहुमवणस्सइकाइया पज्जतया संखेजगुणा ४ ।

१०

[७] एतेसि णं भंते ! सुहुमनिगोदाणं वादरनिगोदाण य पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा वादरनिगोदा पज्जतगा १, वायरनिगोदा अपज्जतगा असंखेजगुणा २, सुहुमनिगोया अपज्जतया असंखेजगुणा ३, सुहुमनिगोदा पज्जतगा संखेजगुणा ४ ।

२५१. एएसि णं भंते ! सुहुमाणं सुहुमपुढविकाइयाणं सुहुमआउकाइयाणं सुहुमतेउकाइयाणं सुहुमवाउकाइयाणं सुहुमवणस्सइकाइयाणं सुहुमनिगोदाणं वादराणं वादरपुढविकाइयाणं वादरआउकाइयाणं वादरतेउकाइयाणं वादरवाउकाइयाणं वादरवणस्सतिकाइयाणं पत्तेयसरीरबादरवणस्सइकाइयाणं वादरनिगोदाणं वादरतसकाइयाण य पज्जताऽपज्जताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा वादरतेउकाइया पज्जतया १, वादरतसकाइया पज्जतगा असंखेजगुणा २, वादरतसकाइया अपज्जतया असंखेजगुणा ३, पत्तेयसरीरबादरवणप्फइकाइया पज्जतया असंखेजगुणा ४, वादरनिगोदा पज्जतया असंखेजगुणा ५, वादरपुढविकाइया पज्जतगा असंखेजगुणा ६, वादरआउकाइया पज्जतगा असंखेजगुणा ७, वादरवाउकाइया पज्जतया असंखेजगुणा ८, वादरतेउकाइया अपज्जतया असंखेजगुणा ९, पत्तेयसरीरबादरवणप्फइकाइया अपज्जतगा असंखेजगुणा १०, वायरणिगोया अपज्जतया असंखेजगुणा ११, वादरपुढविकाइया अपज्जतया असंखेजगुणा १२, वायरआउकाइया अपज्जतया असंखेजगुणा १३, वादरवाउकाइया अपज्जतया असंखेजगुणा १४, सुहुमतेउकाइया अपज्जतया असंखेजगुणा १५, सुहुमपुढविकाइया

१५

२०

२५

अपज्जत्तगा विसेसाहिया १६, सुहुमआउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया १७, सुहुमवाउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया १८, सुहुमतेउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा १९, सुहुमपुढविकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया २०, सुहुमआउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया २१, सुहुमवाउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया २२, सुहुम-  
 ५ निगोदा अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा २३, सुहुमनिगोदा पज्जत्तया संखेज्जगुणा २४, वादरवणप्फइकाइया पज्जत्तया अणंतगुणा २५, वादरपज्जत्तगा विसेसाहिया २६, वादरवणप्फइकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा २७, वादरअपज्जत्तया विसेसाहिया २८, वादरा विसेसाहिया २९, सुहुमवणप्फतिकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ३०, सुहुमा अपज्जत्तया विसेसाहिया ३१, सुहुमवणप्फतिकाइया पज्जत्तगा ३० संखेज्जगुणा ३२, सुहुमपज्जत्तया विसेसाहिया ३३, सुहुमा विसेसाहिया ३४। दारं ४॥

## [सुत्तं २५२. पंचमं जोगदारं]

२५२. एतेसि णं भंते ! जीवाणं सजोगीणं मणजोगीणं वइजोगीणं कायजोगीणं अजोगीण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्या वा विसेसाहिया २५ वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा जीवा मणजोगी १, वइजोगी असंखेज्जगुणा २, अजोगी अणंतगुणा ३, कायजोगी अणंतगुणा ४, सजोगी विसेसाहिया ५। दारं ५॥

## [सुत्तं २५३. छट्ठं वेयदारं]

२५३. एएसि णं भंते ! जीवाणं सवेदगाणं इत्थीवेदगाणं पुरिसवेदगाणं २० नपुंसकवेदगाणं अवेदगाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्या वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा जीवा पुरिसवेदगा १, इत्थीवेदगा संखेज्जगुणा २, अवेदगा अणंतगुणा ३, नपुंसगवेदगा अणंतगुणा ४, सवेयगा विसेसाहिया ५। दारं ६॥

## [सुत्तं २५४. सत्तमं कसायदारं]

२५४. एतेसि णं भंते ! जीवाणं सकसाईणं कोहकसाईणं माणकसाईणं मायकसाईणं लोभकसाईणं अकसाईण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्या वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा जीवा अकसायी १, माणकसायी

अणंतगुणा २, कोहकसायी विसेसाहिया ३, मायकसाई विसेसाहिया ४, लोहकसाई विसेसाहिया ५, सकसाई विसेसाहिया ६। दारं ७॥

[सुन्तं २५५. अदुमं लेस्सादारं]

२५५. एएसि णं भंते ! जीवाणं सलेस्साणं किण्हलेस्साणं नीललेस्साणं काउलेस्साणं तेउलेस्साणं पम्हलेस्साणं सुक्लेस्साणं अलेस्साणं य कतरे कतरेहिंतो ५ अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा सुक्लेस्सा १, पम्हलेस्सा संखेजगुणा २, तेउलेस्सा संखेजगुणा ३, अलेस्सा अणंतगुणा ४, काउलेस्सा अणंतगुणा ५, नीललेस्सा विसेसाहिया ६, किण्ह-लेस्सा विसेसाहिया ७, सलेस्सा विसेसाधिया ८। दारं ८॥

[सुन्तं २५६. नवमं सम्मतदारं]

२५६. एतेसि णं भंते ! जीवाणं सम्मादिद्वीणं मिच्छदिद्वीणं सम्मामिच्छा-दिद्वीणं च कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुयां वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा सम्मामिच्छदिद्वी १, सम्मादिद्वी अणंतगुणा २, मिच्छ-दिद्वी अणंतगुणा ३। दारं ९॥

[सुन्ताइं २५७-२५९. दसमं णाणदारं]

२५७. एतेसि णं भंते ! जीवाणं आभिणिबोहियणाणीणं सुतणाणीणं ओहिणाणीणं मणपज्जवणाणीणं केवलणाणीणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा मणपज्जवणाणी १, ओहिणाणी असंखेजगुणा २, आभिणिबोहियणाणी सुयणाणी दो वि तुल्ला विसेसाहिया ३, केवलणाणी अणंतगुणा ४।

२५८. एतेसि णं भंते ! जीवाणं मइअण्णाणीणं सुतअण्णाणीणं विहंगणाणीणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा विभंगणाणी १, मइअण्णाणी सुतअण्णाणी दो वि तुल्ला अणंतगुणा २।

२५९. एतेसि णं भंते ! जीवाणं आभिणिबोहियणाणीणं सुयणाणीणं २५ ओहिणाणीणं मणपज्जवणाणीणं केवलणाणीणं मतिअण्णाणीणं सुतअण्णाणीणं विभंग-नाणीणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा !

सव्वत्थोवा जीवा मणपज्जवणाणी १, ओहिणाणी असंखेजगुणा २, आभिण-  
वोहिणाणी सुतणाणी य दो वि तुळा विसेसाहिया ३, विहंगणाणी असंखेजगुणा  
४, केवलणाणी अणंतगुणा ५, मद्भाषणाणी सुतअण्णाणी य दो वि तुळा  
अणंतगुणा ६। दारं १० ॥

५

## [सुत्तं २६०. एक्कारसमं दंसणदारं]

२६०. एतेसि णं भंते ! जीवाणं चक्खुदंसणीणं अचक्खुदंसणीणं  
ओहिदंसणीणं केवलदंसणीण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुळा  
वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा ओहिदंसणी १, चक्खुदंसणी  
असंखेजगुणा २, केवलदंसणी अणंतगुणा ३, अचक्खुदंसणी अणंतगुणा ४ ।  
१० दारं ११ ॥

## [सुत्तं २६१. दुवालसमं संजयदारं]

२६१. एतेसि णं भंते ! जीवाणं संजयाणं असंजयाणं संजयासंजयाणं  
नोसंजयनोअसंजयनोसंजतासंजताण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुळा  
वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा संजता १, संजयासंजता  
१५ असंखेजगुणा २, नोसंजतनोअसंजतनोसंजतासंजता अणंतगुणा ३, असंजता  
अणंतगुणा ४। दारं १२ ॥

## [सुत्तं २६२. तेरसमं उवओगदारं]

२६२. एतेसि णं भंते ! जीवाणं सागारोवउत्ताणं अणागारोवउत्ताण  
य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुळा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा !  
२० सव्वत्थोवा जीवा अणागारोवउत्ता १, सागारोवउत्ता संखेजगुणा २। दारं १३ ॥

## [सुत्तं २६३. चोहसमं आहारदारं]

२६३. एतेसि णं भंते ! जीवाणं आहारगाणं अणाहारगाण य कतरे  
कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुळा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा  
जीवा अणाहारगा १, आहारगा असंखेजगुणा २। दारं १४ ॥

२५

## [सुत्तं २६४. पनरसमं भासगदारं]

२६४. एतेसि णं भंते ! जीवाणं भासगाणं अभासगाण य कतरे

कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा भासगा १, अभासगा अणंतगुणा २ । दारं १५ ॥

[ सुतं २६५. सोलसमं परित्तदारं ]

२६५. एतेसि णं भंते ! जीवाणं परित्ताणं अपरित्ताणं नोपरित्तनोअपरित्ताणय कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! ५ सब्वत्थोवा जीवा परित्ता १, नोपरित्तनोअपरित्ता अणंतगुणा २, अपरित्ता अणंतगुणा ३ । दारं १६ ॥

[ सुतं २६६. सत्तरसमं पञ्जतदारं ]

२६६. एएसि णं भंते ! जीवाणं पञ्जताणं अपञ्जताणं नोपञ्जतनोअपञ्जताणय कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! १० सब्वत्थोवा जीवा नोपञ्जतगनोअपञ्जतगा १, अपञ्जतगा अणंतगुणा २, पञ्जतगा संखेजगुणा ३ । दारं १७ ॥

[ सुतं २६७. अद्वारसमं सुहुमदारं ]

२६७. एएसि णं भंते ! जीवाणं सुहुमाणं बादराणं नोसुहुमनोबादराणय कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा णोसुहुमणोबादरा १, बादरा अणंतगुणा २, सुहुमा असंखेजजगुणा ३ । दारं १८ ॥

[ सुतं २६८. एगूणवीसइमं सण्णिदारं ]

२६८. एतेसि णं भंते ! जीवाणं सण्णीणं असण्णीणं नोसण्णीनोअसण्णीणय कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा सण्णी १, णोसण्णीणोअसण्णी अणंतगुणा २, असण्णी २० अणंतगुणा ३ । दारं १९ ॥

[ सुतं २६९. वीसइमं भवदारं ]

२६९. एतेसि णं भंते ! जीवाणं भवसिद्धियाणं अभवसिद्धियाणं णोभव-सिद्धियणोअभवसिद्धियाणय कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा अभवसिद्धिया १, णोभवसिद्धियणो- २५ अभवसिद्धिया अणंतगुणा २, भवसिद्धिया अणंतगुणा ३ । दारं २० ॥

[ सुत्ताइं २७०-२७३, एगवीसइमं अतिथिकायदारं ]

२७०. एतेसि णं भंते ! धम्मतिथिकाय-अधम्मतिथिकाय-आगासत्थिकाय-जीव-  
तिथिकाय-पोगलतिथिकाय-अद्वासमयाणं दब्बद्वयाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया  
वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! धम्मतिथिकाए अधम्मतिथिकाए आगासत्थिकाए  
५ य एए तिन्नि वि तुल्ला दब्बद्वयाए सव्वत्थोवा १, जीवतिथिकाए दब्बद्वयाए अणंतगुणे  
२, पोगलतिथिकाए दब्बद्वयाए अणंतगुणे ३, अद्वासमए दब्बद्वयाए अणंतगुणे ४ ।

२७१. एएसि णं भंते ! धम्मतिथिकाय-अधम्मतिथिकाय-आगासत्थिकाय-  
जीवतिथिकाय-पोगलतिथिकाय-अद्वासमयाणं पदेसद्वयाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा  
वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! धम्मतिथिकाए अधम्मतिथिकाए य  
१० एते णं दो वि तुल्ला पदेसद्वयाए सव्वत्थोवा १, जीवतिथिकाए पदेसद्वताए अणंत-  
गुणे २, पोगलतिथिकाए पदेसद्वयाए अणंतगुणे ३, अद्वासमए पदेसद्वयाए  
अणंतगुणे ४, आगासत्थिकाए पदेसद्वताए अणंतगुणे ५ ।

२७२. [१] एतस्स णं भंते ! धम्मतिथिकायस्स दब्बद्व॑-पदेसद्वताए कतरे  
कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे  
१५ एगे धम्मतिथिकाए दब्बद्वताए, से चेव पदेसद्वताए असंखेज्जगुणे ।

[२] एतस्स णं भंते ! अधम्मतिथिकायस्स दब्बद्व॑-पदेसद्वताए कतरे  
कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे  
एगे अधम्मतिथिकाए दब्बद्वताए, से चेव पदेसद्वताए असंखेज्जगुणे ।

२० [३] एतस्स णं भंते ! आगासत्थिकायस्स दब्बद्व॑-पदेसद्वताए कतरे  
कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे  
एगे आगासत्थिकाए दब्बद्वताए, से चेव पदेसद्वताए अणंतगुणे ।

[४] एतस्स णं भंते ! जीवतिथिकायस्स दब्बद्व॑-पदेसद्वताए कतरे  
कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे  
जीवतिथिकाए दब्बद्वयाए, से चेव पदेसद्वताए असंखेज्जगुणे ।

२५ [५] एतस्स णं भंते ! पोगलतिथिकायस्स दब्बद्व॑-पदेसद्वताए कतरे  
कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे  
पोगलतिथिकाए दब्बद्वयाए, से चेव पदेसद्वयाए असंखेज्जगुणे ।

१. °द्वयाए पप्स° जे० ॥

[६] अद्वासमए ण पुच्छज्जइ पदेसाभावा ।

२७३. एतेसि णं भंते ! धम्मतिथिकाय-अधम्मतिथिकाय-आगासत्थिकाय-जीवतिथिकाय-पोगलतिथिकाय-अद्वासमयाणं दब्बटु-पदेसदुताए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! धम्मतिथिकाए अधम्मतिथिकाए आगासत्थिकाए य एते णं तिण्णि वि तुल्ला दब्बटुयाए सब्बत्थोवा १, धम्मतिथिकाए अधम्मतिथिकाए य एते णं दोण्णि वि तुल्ला पदेसदुताए असंखेजगुणा २, जीवतिथिकाए दब्बटुयाए अणंतगुणे ३, से चेव पदेसदुताए असंखेजगुणे ४, पोगलतिथिकाए दब्बटुयाए अणंतगुणे ५, से चेव पदेसदुयाए असंखेजगुणे ६, अद्वासमए दंब्बटु-पदेसदुयाए अणंतगुणे ७, आगासत्थिकाए पएसदुयाए अणंतगुणे ८ । दारं २१ ॥

५

१०

[सुत्तं २७४. बावीसइमं चरिमदारं]

२७४. एतेसि णं भंते ! जीवाणं चरिमाणं अचरिमाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा जीवा अचरिमा १, चरिमा अणंतगुणा २ । दारं २२ ॥

१६

[सुत्तं २७५. तेवीसइमं जीवदारं]

२७५. एतेसि णं भंते ! जीवाणं पोगलाणं अद्वासमयाणं सब्बदब्बाणं सब्बपदेसाणं सब्बपज्जवाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा जीवा १, पोगला अणंतगुणा २, अद्वासमया अणंतगुणा ३, सब्बदब्बा विसेसाहिया ४, सब्बपदेसा अणंतगुणा ५, सब्बपज्जवा अणंतगुणा ६ । दारं २३ ॥

२०

[सुत्ताइं २७६-३२४. चउवीसइमं खेत्तदारं]

२७६. खेत्ताणुवाएणं सब्बत्थोवा जीवा उडूलोयतिरियलोए १, अहेलोय-तिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३, तेलोक्के असंखेजगुणा ४, उडूलोए असंखेजगुणा ५, अहेलोए विसेसाहिया ६ ।

२७७. खेत्ताणुवाएणं सब्बत्थोवा नेरइया तेलोक्के १, अहेलोकतिरियलोए २५ असंखेजगुणा २, अहेलोए असंखेजगुणा ३ ।

१. दब्बटु-अपदेस° जे० ॥

२७८. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा तिरिक्खजोणिया उडूलोयतिरियलोए १, अहेलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३, तेलोके असंखेजगुणा ४, उडूलोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाहिया ६।

२७९. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवाओ तिरिक्खजोणियीओ उडूलोए १, ५ उडूलोयतिरियलोए असंखेजगुणाओ २, तेलोके संखेजगुणाओ ३, अधेलोयतिरियलोए संखेजगुणाओ ४, अधेलोए संखेजगुणाओ ५, तिरियलोए संखेजगुणाओ ६।

२८०. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा मणुस्सा तेलोके १, उडूलोयतिरियलोए असंखेजगुणा २, अधेलोयतिरियलोए संखेजगुणा ३, उडूलोए संखेजगुणा ४, अधेलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए संखेजगुणा ६।

२८१. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवाओ मणुस्सीओ तेलोके १, उडूलोयतिरियलोए संखेजगुणाओ २, अधेलोयतिरियलोए संखेजगुणाओ ३, उडूलोए संखेजगुणाओ ४, अधेलोए संखेजगुणाओ ५, तिरियलोए संखेजगुणाओ ६।

२८२. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा देवा उडूलोए १, उडूलोयतिरियलोए असंखेजगुणा २, तेलोके संखेजगुणा ३, अधेलोयतिरियलोए संखेजगुणा ४, १५ अधेलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए संखेजगुणा ६।

२८३. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवाओ देवीओ उडूलोए १, उडूलोयतिरियलोए असंखेजगुणाओ २, तेलोके संखेजगुणाओ ३, अधेलोयतिरियलोए संखेजगुणाओ ४, अधेलोए संखेजगुणाओ ५ तिरियलोए संखेजगुणाओ ६।

२८४. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा भवणवासी देवा उडूलोए १, उडूलोयतिरियलोए असंखेजगुणा २, तेलोके संखेजगुणा ३, अधेलोयतिरियलोए असंखेजगुणा ४, तिरियलोए असंखेजगुणा ५, अधोलोए असंखेजगुणा ६।

२८५. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवाओ भवणवासिणीओ देवीओ उडूलोए १, उडूलोयतिरियलोए असंखेजगुणाओ २, तेलोके संखेजगुणाओ ३, अधोलोयतिरियलोए असंखेजगुणाओ ४, तिरियलोए असंखेजगुणाओ ५, अधोलोए असंखेजगुणाओ ६।

२८६. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा वाणमंतरा देवा उडूलोए १, उडूलोयतिरियलोए असंखेजगुणा २, तेलोके संखेजगुणा ३, अधोलोयतिरियलोए असंखेजगुणा ४, अहेलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए संखेजगुणा ६।

२८७. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवाओ वाणमंतरीओ देवीओ उडूलोए १, उडूलोयतिरियलोए असंखिजगुणाओ २, तेलोके संखिजगुणाओ ३, अधोलोय-तिरियलोए असंखिजगुणाओ ४, अधोलोए संखिजगुणाओ ५, तिरियलोए संखिजगुणाओ ६ ।

२८८. खित्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा जोइसिया देवा उडूलोए १, उडूलोय-तिरियलोए ५ असंखेजगुणा २, तेलोके संखेजगुणा ३, अधेलोयतिरियलोए असंखेजगुणा ४, अधेलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए असंखेजगुणा ६ ।

२८९. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवाओ जोइसिणीओ देवीओ उडूलोए १, उडूलोयतिरियलोए असंखेजगुणाओ २, तेलोके संखेजगुणाओ ३ अधेलोय-तिरियलोए असंखेजगुणाओ ४ अधेलोए संखेजगुणाओ ५, तिरियलोए १० असंखेजगुणाओ ६ ।

२९०. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा वेमाणिया देवा [ग्रन्थाग्रम् २०००] उडूलोयतिरियलोए १, तेलोके संखेजगुणा २, अधोलोयतिरियलोए संखेजगुणा ३, अधेलोए संखेजगुणा ४, तिरियलोए संखेजगुणा ५, उडूलोए असंखे-जगुणा ६ । १५

२९१. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवाओ वेमाणिणीओ देवीओ उडूलोय-तिरियलोए १, तेलोके संखेजगुणाओ २, अधेलोयतिरियलोए संखेजगुणाओ ३, अधेलोए संखिजगुणाओ ४, तिरियलोए संखेजगुणाओ ५, उडूलोए असंखेज-गुणाओ ६ ।

२९२. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा एगिंदिया जीवा उडूलोयतिरियलोए १, २० अधेलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३, तेलोके असं-खेजगुणा ४, उडूलोए असंखेजगुणा ५, अधोलोए विसेसाहिया ६ ।

२९३. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा एगिंदिया जीवा अपज्जतगा उडूलोय-तिरियलोए १, अधोलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३, तेलोके असंखेजगुणा ४, उडूलोए असंखेजगुणा ५, अधोलोए विसेसाहिया ६ । २५

२९४. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा एगिंदिया जीवा पज्जतगा उडूलोय-तिरियलोए १, अधोलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३, तेलोके असंखेजगुणा ४, उडूलोए असंखेजगुणा ५, अहोलोए विसेसाहिया ६ ।

२९५. खेताणुवाएणं सव्वत्थोवा वेइंदिया उडूलोए १, उडूलोयतिरियलोए  
असंखेजगुणा २, तेलोके असंखेजगुणा ३, अधेलोयतिरियलोए असंखेजगुणा  
४, अधेलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए संखेजगुणा ६।

२९६. खेताणुवाएणं सञ्चत्योवा वेइंदिया अपंजतया उडूलोए १,  
उडूलोयतिरियलोए असंखेजगुणा २, तेलोके असंखिजगुणा ३, अधेलोयतिरिय-  
लोए असंखिजगुणा ४, अधोलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए संखेजगुणा ६।

२९७. खेत्ताणुवातेण सब्वत्थोवा वेंदिया पजत्तया उडूलोए १, उडूलोय-  
तिरियलोए असंखेजगुणा २, तेलोके असंखेजगुणा ३, अधेलोयतिरियलोए  
असंखेजगुणा ४, अधेलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए संखेजगुणा ६ ।

१० २९८. खेत्ताणुवाएणं सब्बत्थोवा तेइंदिया उडूलोए १, उडूलोयतिरिय-  
लोए असंखेजगुणा २, तेलोके असंखेजगुणा ३, अधेलोयतिरियिलोए असंखेजगुणा  
४, अधेलोए संखेजगुणा ५, तिरियिलोए संखेजगुणा ६ ।

२९९. खेताणुवाएणं सब्बत्थोवा तेइंदिया अपज्जतगा उडुलोए १, उडुलोयतिरियलोए असंखेजगुणा २, तेलोके असंखेजगुणा ३, अधेलोयतिरियलोए ४, असंखेजगुणा ५, अधोलोए संखेजगुणा ६, तिरियलोए संखेजगुणा ७ ।

३००. खेताणुवाएणं सञ्चत्योवा तेइंदिया पज्जत्तगा उडुलोए १, उडुलोयतिरियिलोए असंखेजगुणा २, तेलोके असंखेजगुणा ३, अधेलोयतिरियिलोए असंखेजगुणा ४, अधेलोए संखेजगुणा ५, तिरियिलोए संखेजगुणा ६।

३०१. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा चउरिंदिया जीवा उडुलोए १, उडु-  
२० लोयतिरियलोए असंखेजगुणा २, तेलोक्के असंखेजगुणा ३, अधोलोयतिरियलोए  
असंखेजगुणा ४, अधोलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए संखेजगुणा ६।

३०२. खेताणुवाएणं सब्बत्योवा चउरिंदिया जीवा अपज्ञतगा उडुलोए  
१, उडुलोयतिरियिलोए असंखेजगुणा २, तेलोक्के असंखेजगुणा ३, अधोलोय-  
तिरियिलोए असंखेजगुणा ४, अधेलोए संखेजगुणा ५, तिरियिलोए संखेजगुणा ६।

२६      ३०३. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्योवा चउरिंदिया जीवा पञ्जतया उडुलोए  
१, उडुलोयतिरियलोए असंखेजगुणा २, तेलोके असंखेजगुणा ३, अहेलोय-  
तिरियलोए असंखेजगुणा ४, अहोलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए  
संखेजगुणा ६।

३०४. खेत्ताणुवातेणं सब्वत्थोवा पंचिंदिया तेलोक्ते १, उडूलोयतिरिय-  
लोए संखेजगुणा २, अधोलोयतिरियलोए संखेजगुणा ३, उडूलोए संखेजगुणा  
४, अधेलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए असंखेजगुणा ६ ।

३०५. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा पंचिंदिया अपज्ञतया तेलोक्ते १,  
उडूलोयतिरियलोए संखेजगुणा २, अधेलोयतिरियलोए संखेजगुणा ३, उडूलोए ५  
संखेजगुणा ४, अधेलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए असंखेजगुणा ६ ।

३०६. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा पंचिंदिया पज्ञतया उडूलोए १,  
उडूलोयतिरियलोए असंखेजगुणा २, तेलोक्ते संखेजगुणा ३, अधोलोयतिरियलोए  
संखेजगुणा ४, अधेलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए असंखेजगुणा ६ ।

३०७. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा पुढविकाइया उडूलोयतिरियलोए १, १०  
अधोलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३, तेलोक्ते असं-  
खेजगुणा ४, उडूलोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाहिया ६ ।

३०८. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा पुढविकाइया अपज्ञतया उडूलोय-  
तिरियलोए १, अधोलोयतिरियलोए विसेसाधिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा  
३, तेलोक्ते असंखेजगुणा ४, उडूलोए असंखेजगुणा ५, अहोलोए विसेसा- १५  
धिया ६ ।

३०९. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा पुढविकाइया पज्ञतया उडूलोय-  
तिरियलोए १, अधेलोयतिरियलोए विसेसाधिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३,  
तेलोक्ते असंखेजगुणा ४, उडूलोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाधिया ६ ।

३१०. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा आउकाइया उडूलोयतिरियलोए १, २०  
अधेलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३, तेलोक्ते असंखे-  
जगुणा ४, उडूलोए असंखेजगुणा ५, अहेलोए विसेसाहिया ६ ।

३११. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा आउकाइया अपज्ञतया उडूलोय-  
तिरियलोए १, अधेलोयतिरियलोए विसेसाधिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा  
३, तेलोक्ते असंखेजगुणा ४, उडूलोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाहिया ६ । २५

३१२. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा आउकाइया पज्ञतया उडूलोयतिरियलोए  
१, अधेलोयतिरियलोए विसेसाधिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३, तेलोक्ते  
असंखेजगुणा ४, उडूलोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाहिया ६ ।

३१३. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्येवा तेऽकाइया उडूलोयतिरियलोए १,  
अधेलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३, तेलोक्के असंखे-  
जगुणा ४, उडूलोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाहिया ६ ।

३१४. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा तेउकाइया अपज्जतया उडूलोय-  
५ तिरियलोए १, अधेलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३,  
तेलोके असंखेजगुणा ४, उडूलोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाधिया ६।

३१५. खेताणुवाएणं सव्वत्येवा तेउकाइया पञ्चतया उडूलोय-  
तिरियलोए १, अधेलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३,  
तेलेके असंखेजगुणा ४, उडूलोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाहिया ६।

३१६. खेताणुवाएणं सव्वत्येवा वाउकाइया उडूलोगतिरियिलोए १,  
अधेलोयतिरियिलोए विसेसाहिया २, तिरियिलोए असंखेजगुणा ३, तेलोके  
असंखेजगुणा ४, उडूलोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाहिया ६।

३१७. खेताणुवाएणं सन्वत्योवा वाउकाइया अपन्नतया उडूलोय-  
तिरियलोए १, अधेलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३,  
१५ तेलोक्रे असंखेजगुणा ४, उडूलोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाधिया ६।

३१८. खेताणुवाएणं सब्वत्योवा वाउकाइया पज्जतया उडूलोय-  
तिरियलोए १, अधेलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३,  
तेलोके असंखेजगुणा ४, उडूलोए असंखेजगुणा ५, अवेलोए विसेसाधिया ६।

३१९. खेताणुवाएणं सञ्चत्योदा वणस्सइकाइया उडूलोयतिरियलोए १,  
२० अधेलोयतिरियलोए विसेसाधिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३, तेलोके  
असंखेजगुणा ४, उडूलोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाधिया ६।

३२०. खेताणुवाएणं सब्वत्थोवा वणस्सइकाइया अपज्जत्या उडूलोय-  
तिरियलोए १, अधोलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३,  
तेलोके असंखेजगुणा ४, उडूलोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाहिया ६।

२५. ३२१. खेताणुवाएणं सब्वत्थोवा वणस्सइकाइया पञ्जतया उडुलोयतिरिय-  
लोए १, अधेलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३,  
तेलोकि असंखेजगुणा ४, उडुलोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाहिया ६।

३२२. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्योवा तसकाइया तेलोके १, उड्डलोयतिरिय-

लोए संखेजगुणा २, अहेलोयतिरियलोए संखेजगुणा ३, उडूलोए संखेजगुणा ४, अधेलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए असंखेजगुणा ६ ।

३२३. खेत्ताणुवाएँ सब्वत्थोवा तसकाइया अपज्ञतया तेलोके १, उडूलोयतिरियलोए संखेजगुणा २, अधेलोयतिरियलोए संखेजगुणा ३, उडूलोए संखेजगुणा ४, अधेलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए असंखेजगुणा ६ । ५

३२४. खेत्ताणुवाएँ सब्वत्थोवा तसकाइया पज्ञतया तेलोके १, उडूलोय-  
तिरियलोए असंखेजगुणा २, अधेलोयतिरियलोए संखेजगुणा ३, उडूलोए संखेज-  
गुणा ४, अधेलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए असंखेजगुणा ६ । दारं २४ ॥

### [सुत्तं ३२५. पंचवीसइमं वंधदारं]

३२५. एतेसि णं भंते ! जीवाणं आउयस्स कम्मस्स बंधगाणं अबंधगाणं १०  
पज्ञताणं अपज्ञताणं सुत्ताणं जागराणं समोहयाणं असमोहयाणं सातावेदगाणं  
असातावेदगाणं इंदियउवउत्ताणं नोइंदियउवउत्ताणं सागारोवउत्ताणं अणागारोव-  
उत्ताण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा !  
सब्वत्थोवा जीवा आउयस्स कम्मस्स बंधगा १, अपज्ञतया संखेजगुणा २, सुत्ता  
संखेजगुणा ३, समोहता संखेजगुणा ४, सातावेदगा संखेजगुणा ५, इंदिओव-  
उत्ता संखेजगुणा ६, अणागारोवउत्ता संखेजगुणा ७, सागारोवउत्ता संखेज-  
गुणा ८, नोइंदियउवउत्ता विसेसाहिया ९, अस्सातावेदगा विसेसाहिया १०,  
असमोहता विसेसाहिया ११, जागरा विसेसाहिया १२, पज्ञतया विसेसाहिया  
१३, आउयस्स कम्मस्स अबंधगा विसेसाहिया १४ । दारं २५ ॥

### [सुत्ताइं ३२६-३२३. छव्वीसइमं पोगलदारं]

३२६. खेत्ताणुवाएँ सब्वत्थोवा पोगला तेलोके १, उडूलोयतिरियलोए  
अणंतगुणा २, अधेलोयतिरियलोए विसेसाहिया ३, तिरियलोए असंखेजगुणा  
४, उडूलोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाहिया ६ ।

३२७. दिसाणुवाएँ सब्वत्थोवा पोगला उडूदिसाए १, अधेदिसाए  
विसेसाहिया २, उत्तरपुरत्थिमेण दाहिणपञ्चत्थिमेण य दो वि तुल्ला असंखेजगुणा  
३, दाहिणपुरत्थिमेण उत्तरपञ्चत्थिमेण य दो वि तुल्ला विसेसाधिया ४,  
पुरत्थिमेण असंखेजगुणा ५, पञ्चत्थिमेण विसेसाहिया ६, दाहिणेण विसेसाहिया  
७, उत्तरेण विसेसाहिया ८ । २५

३२८. खेताणुवाएणं सब्वत्थोवाइं दब्वाइं तेलोके १, उडूलोयतिरियलोए अणंतगुणाइं २, अधेलोयतिरियलोए विसेसाहियाइं ३, उडूलोए असंखेजगुणाइं ४, अधेलोए अणंतगुणाइं ५, तिरियलोए संखेजगुणाइं ६ ।

३२९. दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवाइं दब्वाइं अधेदिसाए १, उडूदिसाए ६, अणंतगुणाइं २, उत्तरपुरत्थिमेण दाहिणपञ्चत्थिमेण य दो वि तुल्लाइं असंखेजगुणाइं ३, दाहिणपुरत्थिमेण उत्तरपञ्चत्थिमेण य दो वि तुल्लाइं विसेसाहियाइं ४, पुरत्थिमेण असंखेजजगुणाइं ५, पञ्चत्थिमेण विसेसाहियाइं ६, दाहिणेण विसेसाहियाइं ७, उत्तरेण विसेसाहियाइं ८ ।

३३०. एतेसि णं भंते ! परमाणुपोगलाणं संखेजपदेसियाणं असंखेजपदेसियाणं अणंतपदेसियाण य खंधाणं दब्वद्वयाए पदेसद्वयाए दब्वद्वपदेसद्वताए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा अणंतपदेसिया खंधा दब्वद्वयाए १, परमाणुपोगला दब्वद्वताए अणंतगुणा २, संखेजपदेसिया खंधा दब्वद्वयाए संखेजगुणा ३, असंखेजपदेसिया खंधा दब्वद्वयाए असंखेजगुणा ४; पदेसद्वयाए – सब्वत्थोवा अणंतपदेसिया खंधा पदेसद्वयाए १, १५ परमाणुपोगला अपदेसद्वयाए अणंतगुणा २, संखेजपदेसिया खंधा पदेसद्वयाए संखेजगुणा ३, असंखेजपदेसिया खंधा पदेसद्वयाए असंखेजगुणा ४; दब्वद्वपदेसद्वयाए – सब्वत्थोवा अणंतपदेसिया खंधा दब्वद्वयाए १, ते चेव पदेसद्वयाए अणंतगुणा २, परमाणुपोगला दब्वद्वअपदेसद्वयाए अणंतगुणा ३, संखेजपदेसिया खंधा दब्वद्वयाए संखेजगुणा ४, ते चेव पदेसद्वयाए संखेजगुणा २० ५, असंखेजपदेसिया खंधा दब्वद्वयाए असंखेजगुणा ६, ते चेव पदेसद्वयाए असंखेजगुणा ७ ।

३३१. एतेसि णं भंते ! एगपदेसोगाढाणं संखेजपदेसोगाढाणं असंखेजपदेसोगाढाण य पोगलाणं दब्वद्वयाए पदेसद्वयाए दब्वद्वपदेसद्वताए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा एगपदेसोगाढा पोगला दब्वद्वयाए १, संखेजपदेसोगाढा पोगला दब्वद्वयाए संखेजगुणा २, असंखेजपदेसोगाढा पोगला दब्वद्वयाए असंखेजगुणा ३; पदेसद्वयाए – सब्वत्थोवा एगपदेसोगाढा पोगला पदेसद्वयाए १, संखेजपदेसोगाढा पोगला पदेसद्वयाए संखेजगुणा २, असंखेजपदेसोगाढा पोगला पदेसद्वयाए असंखेजगुणा ३; दब्वद्वपदेसद्वयाए – सब्वत्थोवा एगपदेसोगाढा पोगला दब्वद्व-

पएसद्वयाए १, संखेजपएसोगाढा पोगला दब्बद्वयाए संखेजगुणा २, ते चेव पएसद्वयाए संखेजगुणा ३, असंखेजपदेसोगाढा पोगला दब्बद्वयाए असंखेजगुणा ४, ते चेव पदेसद्वयाए असंखेजगुणा ५ ।

३३२. एतेसि णं भंते ! एगसमयठितीयाणं संखेजसमयठितीयाणं असंखेजसमयठितीयाण य पोगलाणं दब्बद्वयाए पदेसद्वयाए दब्बद्वपएसद्वयाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्योवा एगसमयठितीया पोगला दब्बद्वयाए १, संखेजसमयठितीया पोगला दब्बद्वयाए संखेजगुणा २, असंखेजसमयठितीया पोगला दब्बद्वयाए असंखेजगुणा ३; पदेसद्वयाए – सव्वत्योवा एगसमयठितीया पोगला अपदेसद्वयाए १, संखेजसमयठितीया पोगला पदेसद्वयाए संखेजगुणा २, असंखेजसमयठितीया पोगला पदेसद्वयाए असंखेजगुणा ३; दब्बद्वपदेसद्वयाए – सव्वत्योवा एगसमयठितीया पोगला दब्बद्वयाए अपदेसद्वयाए १, संखेजसमयठितीया पोगला दब्बद्वयाए संखेजगुणा २, ते चेव पदेसद्वयाए संखेजगुणा ३, असंखेजसमयठितीया पोगला दब्बद्वयाए असंखेजगुणा ४, ते चेव पदेसद्वयाए असंखेजगुणा ५ ।

३३३. एतेसि णं भंते ! एगगुणकालगाणं संखेजगुणकालगाणं असंखेजगुणकालगाणं अणंतगुणकालगाण य पोगलाणं दब्बद्वयाए पदेसद्वयाए दब्बद्वपदेसद्वयाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! जहा परमाणुपोगला (सु. ३३०) तहा भाणितव्वा । एवं संखेजगुणकालयाण वि । एवं सेसा वि वण्ण-गंध-रसा भाणितव्वा । फासाणं कन्खड-मउय-गरुय-लहुयाणं जधा एगपदेसोगाढाणं (सु. ३३१) भणितं तहा भाणितव्वं । अवसेसा फासा जधा वण्णा भणिता तधा भाणितव्वा । दारं २६ ॥

### [सुत्तं ३३४. सत्तावीसइमं महादंडयदारं ]

३३४. अह भंते ! सव्वजीवप्पवहुं महादंडयं वत्तइस्सामि–सव्वत्योवा गव्वभवकंतिया मणुस्सा १, मणुस्सीओ संखेजगुणाओ २, बादरतेउक्काइया पज्जत्या असंखेजगुणा ३, अणुत्तरोववाइया देवा असंखेजगुणा ४, उवरिमगेवेजगा देवा संखेजगुणा ५, मज्जिमगेवेजगा देवा संखेजगुणा ६, हेड्डिमगेवेजगा देवा संखेजगुणा ७, अच्चुते कप्पे देवा संखेजगुणा ८, आरणे कप्पे देवा

संखेजगुणा ९, पाणए कप्पे देवा संखेजगुणा १०, आणए कप्पे देवा संखेजगुणा ११, अधेसतमाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा १२, छट्टीए तमाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा १३, सहस्सारे कप्पे देवा असंखेजगुणा १४, महासुके कप्पे देवा असंखेजगुणा १५, पंचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा १६, लंतए कप्पे देवा असंखेजगुणा १७, चउत्थीए पंकप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा १८, बंभलोए कप्पे देवा असंखेजगुणा १९, तच्चाए वालुयप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा २०, माहिंदे कप्पे देवा असंखेजगुणा २१, सणं-कुमारे कप्पे देवा असंखेजगुणा २२, दोच्चाए सक्करप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा २३, सम्मुच्छिममणुस्सा असंखेजगुणा २४, ईसाणे कप्पे देवा २० असंखेजगुणा २५, ईसाणे कप्पे देवीओ संखेजगुणाओ २६, सोहम्मे कप्पे देवा संखेजगुणा २७, सोहम्मे कप्पे देवीओ संखेजगुणाओ २८, भवणवासी देवा असंखेजगुणा २९, भवणवासिणीओ देवीओ संखेजगुणाओ ३०, इमीसे रतणप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा ३१, खहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया पुरिसा असंखेजगुणा ३२, खहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिणीओ संखेजगुणाओ ३३, १५ यलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया पुरिसा संखेजगुणा ३४, यलयरपंचेंदियतिरिक्ख-जोणिणीओ संखेजगुणाओ ३५, जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया पुरिसा संखेजगुणा ३६, जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिणीओ संखेजगुणाओ ३७, वाणमंतरा देवा संखेजगुणा ३८, वाणमंतरीओ देवीओ संखेजगुणाओ ३९, जोइसिया देवा संखेजगुणा ४०, जोइसिणीओ देवीओ संखेजगुणाओ ४१, खहयरपंचेंदिय- २० तिरिक्खजोणिया णपुंसया संखेजगुणा ४२, यलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया णपुंसया संखेजगुणा ४३, जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया णपुंसया संखेजगुणा ४४, चउरिंदिया पज्जतया संखेजगुणा ४५, पंचेंदिया पज्जतया विसेसाहिया ४६, वेङ्गंदिया पज्जतया विसेसाहिया ४७, तेइंदिया पज्जतया विसेसाहिया ४८, पंचिंदिया अपज्जतया असंखेजगुणा ४९, चउरिंदिया अपज्जतया विसेसाहिया २५ ५०, तेइंदिया अपज्जतया विसेसाहिया ५१, वेङ्गंदिया अपज्जतया विसेसाहिया ५२, पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइया पज्जतया असंखेजगुणा ५३, वादरणिगोदा पज्जतगा असंखेजगुणा ५४, वादरपुढविकाइया पज्जतगा असंखेजगुणा ५५, वादरआउकाइया पज्जतया असंखेजगुणा ५६, वादरवाउकाइया पज्जतगा असंखेजगुणा ५७, वादरतेउकाइया अपज्जतगा असंखेजगुणा ५८, ३० पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइया अपज्जतगा असंखेजगुणा ५९, वादरणिगोदा

अपज्जत्या असंखेजगुणा ६०, वादरपुढविकाइया अपज्जत्तगा असंखेजगुणा ६१, वादरआउकाइया अपज्जत्तगा असंखेजगुणा ६२, वादरवाउकाइया अपज्जत्या असंखेजगुणा ६३, सुहुमतेउकाइया अपज्जत्या असंखेजगुणा ६४, सुहुमपुढविकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया ६५, सुहुमआउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया ६६, सुहुमवाउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया ६७, ५ सुहुमतउकाइया पज्जत्या संखेजगुणा ६८, सुहुमपुढविकाइया पज्जत्या विसेसाहिया ६९, सुहुमआउकाइया पज्जत्या विसेसाहिया ७०, सुहुमवाउकाइया पज्जत्या विसेसाहिया ७१, सुहुमणिगोदा अपज्जत्या असंखेजगुणा ७२, सुहुमणिगोदा पज्जत्या संखेजगुणा ७३, अभवसिद्धिया अणंतगुणा ७४, परिविडितसंमत्ता अणंतगुणा ७५, सिद्धा अणंतगुणा ७६, वादरवणस्सतिकाइया पज्जत्या अणंत- १० गुणा ७७, वादरपज्जत्या विसेसाहिया ७८, वादरवणस्सइकाइया अपज्जत्या असंखेजगुणा ७९, वादरअपज्जत्तगा विसेसाहिया ८०, वादरा विसेसाहिया ८१, सुहुमवणस्सतिकाइया अपज्जत्या असंखेजगुणा ८२, सुहुमा अपज्जत्या विसेसाहिया ८३, सुहुमवणस्सइकाइया पज्जत्या संखेजगुणा ८४, सुहुम- पज्जत्या विसेसाहिया ८५, सुहुमा विसेसाहिया ८६, भवसिद्धिया विसेसाहिया ८७, निगोदजीवा विसेसाहिया ८८, वणप्फतिजीवा विसेसाहिया ८९, एगिंदियौं विसेसाहिया ९०, तिरिक्खजोणिया विसेसाहिया ९१, मिञ्छदिट्टी विसेसाहिया ९२, अविरता विसेसाहिया ९३, सकसाईं विसेसाहिया ९४, छउमत्था विसेसाहिया ९५, सजोगी विसेसाहिया ९६, संसारत्था विसेसाहिया ९७, १५ सञ्चजीवा विसेसाहिया ९८ । दारं २७ ॥ २०

॥ पण्णवणाएः भगवईए तद्यं वहुवत्तव्यपर्यं समत्तं ॥

१. °सम्मट्टी अ° ध० प्र० पु२ ॥ २. °दियजीवा वि° ध० ॥

## ४. चतुर्थं ठिडपयं

[सुन्ताहं ३३५-३४२, नेरइयठिडपण्णवणा]

३३५. [१] नेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा !  
जहणेणं दस वाससहस्राइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ।

६ [२] अपज्जत्यनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा !  
जहणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्ययेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा !  
जहणेणं दस वाससहस्राइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं  
अंतोमुहुत्तूणाइं ।

१० ३३६. [१] रयणप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती  
पण्णता ? गोयमा ! जहणेणं दस वाससहस्राइं, उक्कोसेणं सागरोवमं ।

[२] अपज्जत्यरयणप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिर्द  
पण्णता ? गोयमा ! जहणेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१५ [३] पज्जत्यरयणप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती  
पण्णता ? गोयमा ! जहणेणं दस वाससहस्राइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं  
सागरोवमं अंतोमुहुत्तूणं ।

३३७. [१] सक्करप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती  
पण्णता ? गोयमा ! जहणेणं एगं सागरोवमं, उक्कोसेणं तिणिण सागरोवमाइं ।

२० [२] अपज्जत्यसक्करप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती  
पण्णता ? गोयमा ! जहणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्यसक्करप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती  
पण्णता ? गोयमा ! जहणेणं सागरोवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं तिणिण सागरो-  
वमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३३८. [१] वालुयप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती  
पण्णता ? गोयमा ! जहणेणं तिणिण सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइं ।

[२] अपज्जत्यवालुयप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती  
पण्णता ? गोयमा ! जहणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्यवालुयप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती

पण्ता ? गोयमा ! जहणेणं तिणि सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्षोसेणं सत्त सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३३९. [१] पंकप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्ता ? गोयमा ! जहणेणं सत्त सागरोवमाइं, उक्षोसेणं दस सागरोवमाइं ।

[२] अपञ्जत्यपंकप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती ५ पण्ता ? गोयमा ! जहणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्षोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पञ्जत्यपंकप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्ता ? गोयमा ! जहणेणं सत्त सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्षोसेणं दस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३४०. [१] धूमप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती १० पण्ता ? गोयमा ! जहणेणं दस सागरोवमाइं, उक्षोसेणं सत्तरस सागरोवमाइं ।

[२] अपञ्जत्यधूमप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्ता ? गोयमा ! जहणेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्षोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पञ्जत्यधूमप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती १५ पण्ता ? गोयमा ! जहणेणं दस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्षोसेणं सत्तरस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३४१. [१] तमप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्ता ? गोयमा ! जहणेणं सत्तरस सागरोवमाइं, उक्षोसेणं चावीसं सागरोवमाइं ।

[२] अपञ्जत्यतमप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती २० पण्ता ? गोयमा ! जहणेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्षोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पञ्जत्यतमप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्ता ? गोयमा ! जहणेणं सत्तरस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्षोसेणं चावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३४२. [१] अधेसत्तमपुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्ता ? गोयमा ! जहणेणं चावीसं सागरोवमाइं, उक्षोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं । २५

[२] अपञ्जत्यअधेसत्तमपुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्ता ? गोयमा ! जहणेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्षोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पञ्जत्यअधेसत्तमपुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती

पण्णता ? गोयमा ! जहणेण वावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुतूणाइं, उक्कोसेण  
तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुतूणाइं ।

[सुत्ताइं ३४३-३४४. देव-देवीठिइपण्णवणा]

३४३. [१] देवाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा !  
५ जहणेण दस वाससहस्राइं, उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाइं ।

[२] अपज्ञतयदेवाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा !  
जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] पज्ञतयदेवाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा !  
१० जहणेण दस वाससहस्राइं अंतोमुहुतूणाइं, उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाइं  
अंतोमुहुतूणाइं ।

३४४. [१] देवीणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा !  
जहणेण दस वाससहस्राइं, उक्कोसेण पणपणं पलिओवमाइं ।

[२] अपज्ञतगदेवीणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा !  
जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] पज्ञतयदेवीणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा !  
१५ जहणेण दस वाससहस्राइं अंतोमुहुतूणाइं, उक्कोसेण पणपणं पलिओवमाइं  
अंतोमुहुतूणाइं ।

[सुत्ताइं ३४५-३५३. भवणवासिठिइपण्णवणा]

३४५. [१] भवणवासीणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पण्णता ?  
२० गोयमा ! जहणेण दस वाससहस्राइं, उक्कोसेण सातिरेण सागरोवमं ।

[२] अपज्ञतयभवणवासीणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती  
पण्णता ? गोयमा ! जहणेण वि अंतोमुहुतं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] पज्ञतयभवणवासीणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पण्णता ?  
२५ गोयमा ! जहणेण दस वाससहस्राइं अंतोमुहुतूणाइं, उक्कोसेण सातिरेण  
सागरोवमं अंतोमुहुतूणं ।

३४६. [१] भवणवासिणीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती  
पण्णता ? गोयमा ! जहणेण दस वाससहस्राइं, उक्कोसेण अञ्जपंचमाइं पलिओ-  
वमाइं ।

[२] अपज्ञत्तियाणं भंते ! भवणवासिणीणं देवीणं केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्षोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्ञत्तियाणं भंते ! भवणवासिणीणं देवीणं केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्राइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्षोसेण अद्वपंचमाइं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं । ५

३४७. [१] असुरकुमाराणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्राइं, उक्षोसेण सातिरेगं सागरोवमं ।

[२] अपज्ञत्यअसुरकुमाराणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्षोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्ञत्यअसुरकुमाराणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्राइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्षोसेण सातिरेगं सागरोवमं अंतोमुहुत्तूणं । १०

३४८. [१] असुरकुमारीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्राइं, उक्षोसेण अद्वपंचमाइं पलिओवमाइं ।

[२] अपज्ञत्तियाणं असुरकुमारीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्षोसेण वि अंतोमुहुत्तं । १५

[३] पज्ञत्तियाणं असुरकुमारीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्राइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्षोसेण अद्वपंचमाइं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३४९. [१] णागकुमाराणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण दसवाससहस्राइं, उक्षोसेण दो पलिओवमाइं देसूणाइं । २०

[२] अपज्ञत्याणं भंते ! णागकुमाराणं देवाणं केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्षोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्ञत्याणं भंते ! णागकुमाराणं देवाणं केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्राइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्षोसेण दो पलिओवमाइं देसूणाइं अंतोमुहुत्तूणाइं । २५

३५०. [१] नागकुमारीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्राइं, उक्षोसेण देसूणं पलिओवमं ।

[२] अपज्जत्तियाणं णागकुमारीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तियाणं णागकुमारीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्राइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेण ५ देसूणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं ।

३५१. [१] सुवण्णकुमाराणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्राइं, उक्कोसेण दो पलिओवमाइं देसूणाइं ।

[२] अपज्जत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१० [३] पज्जत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्राइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेण दो पलिओवमाइं देसूणाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३५२. [१] सुवण्णकुमारीणं भंते ! देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्राइं, उक्कोसेण देसूणं पलिओवमं ।

[२] अपज्जत्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि १५ अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्राइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेण देसूणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं ।

३५३. एवं एएणं अभिलावेण ओहिय-अपज्जत्त-पज्जत्तसुत्तत्यं देवाण य देवीण य णेयव्वं जाव थणियकुमाराणं जहा णागकुमाराणं (सु. ३४९) ।

२० [सुत्ताइं ३५४-३६८. एगिंदियठिङ्पण्णवणा]

३५४. [१] पुढविकाइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वावीसं वाससहस्राइं ।

[२] अपज्जत्तयपुढविकाइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

२५ [३] पज्जत्तयपुढविकाइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वावीसं वाससहस्राइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३५५. [१] सुहुमपुढविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[२] अपज्जत्यसुहुमपुढविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] पज्जत्यसुहुमपुढविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

३५६. [१] वादरपुढविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, ५ उक्कोसेण वावीसं वाससहस्राइं ।

[२] अपज्जत्यवादरपुढविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] पज्जत्यवादरपुढविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, १० उक्कोसेण वावीसं वाससहस्राइं अंतोमुहुतूणाइं ।

३५७. [१] आउकाइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण सत्त वाससहस्राइं ।

[२] अपज्जत्यआउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] पज्जत्यआउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, १५ उक्कोसेण सत्त वाससहस्राइं अंतोमुहुतूणाइं ।

३५८. सुहुमआउकाइयाणं ओहियाणं अपज्जत्याणं पज्जत्याण य जहा सुहुमपुढविकाइयाणं (सु. ३५५) तहा भाणितव्यं ।

३५९. [१] वादरआउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतो- २० मुहुतं, उक्कोसेण सत्त वाससहस्राइं ।

[२] अपज्जत्यवादरआउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] पज्जत्याणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण सत्त वाससहस्राइं अंतोमुहुतूणाइं ।

३६०. [१] तेउकाइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णता ? २५ गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण तिण्णि रातिंदियाइं ।

[२] अपज्जत्याणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] पञ्जत्याणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण तिणिण  
रातिंदियाइं अंतोमुहुतूणाइं ।

३६१. सुहुमतेउकाइयाणं ओहियाणं अपञ्जत्याणं पञ्जत्याण य जहणेण  
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

५ ३६२. [१] वादरतेउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं,  
उक्कोसेण तिणिण रातिंदियाइं ।

[२] अपञ्जत्यवादरतेउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण  
वि अंतोमुहुतं ।

१० [३] पञ्जत्याणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण तिणिण  
रातिंदियाइं अंतोमुहुतूणाइं ।

३६३. [१] वाउकाइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णता ?  
गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण तिणिण वाससहस्साइं ।

[२] अपञ्जत्यवाउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि  
अंतोमुहुतं ।

१५ [३] पञ्जत्याणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण तिणिण  
वाससहस्साइं अंतोमुहुतूणाइं ।

३६४. [१] सुहुमवाउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि  
उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[२] अपञ्जत्यसुहुमवाउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि  
उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] पञ्जत्याणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

३६५. [१] वादरवाउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं,  
उक्कोसेण तिन्नि वाससहस्साइं ।

[२] अपञ्जत्यवादरवाउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण  
वि अंतोमुहुतं ।

[३] पञ्जत्यादरवाउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं,  
उक्कोसेण तिणिण वाससहस्साइं अंतोमुहुतूणाइं ।

३६६. [१] वणफडकाइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णता ?  
गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण दस वाससहस्साइं ।

[२] अपज्जत्वणप्फतिकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्वणप्फइकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण दस वाससहस्राइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३६७. सुहुमवणप्फइकाइयाणं ओहियाणं अपज्जत्ताणं पज्जत्ताण य ५ जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

३६८. [१] वादरवणप्फइकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण दस वाससहस्राइं ।

[२] अपज्जत्वादरवणप्फइकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्वादरवणप्फइकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण दस वाससहस्राइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

### [ सुत्तं ३६९. वेइंदियठिइपण्णवणा ]

३६९. [१] वेइंदियाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वारस संवच्छराइं ।

[२] अपज्जत्वेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्वेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वारस संवच्छराइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

### [ सुत्तं ३७०. तेइंदियठिइपण्णवणा ]

३७०. [१] तेइंदियाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण एगूणवण्णं रातिंदियाइं ।

[२] अपज्जत्वेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्वेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण एगूणवण्णं रातिंदियाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

[सुत्तं ३७१. चउरिंदियठिहपणवणा]

३७१. [१] चउरिंदियाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पणता ?  
गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण छम्मासा ।

[२] अपज्ञत्यचउरिंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण  
वि अंतोमुहुतं ।

[३] पञ्जत्यचउरिंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं,  
उक्कोसेण छम्मासा अंतोमुहुतूणा ।

[मुत्ताइं ३७२-३८९. पंचिंदियतिरिक्खजोणियठिहपणवणा]

३७२. [१] पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती  
पणता ? गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण तिणिष पलिओवमाइं ।

[२] अपज्ञत्यपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] पञ्जत्यगपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
अंतोमुहुतं, उक्कोसेण तिणिष पलिओवमाइं अंतोमुहुतूणाइं ।

३७३. [१] समुच्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा !  
जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोमेण पुच्छकोडी ।

[२] अपज्ञत्यममुच्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा !  
जहणेण वि उक्कोमेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] पञ्जत्यममुच्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा !  
जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोमेण पुच्छकोडी अंतोमुहुतूणा ।

३७४. [?] गन्मवक्कंतियपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा !  
जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोमेण तिणिष पलिओवमाइं ।

[२] अग्नितयगन्मवक्कंतियपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा !  
जहणेण वि उक्कोमेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] पञ्जत्यगन्मवक्कंतियपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा !  
जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोमेण तिणिष पलिओवमाइं अंतोमुहुतूणाइं ।

१. अन्तर्गतक्रमाध्याय १० ॥ २. अग्निं अंतोमुहुतं, आहो पु३ पु३ ॥

३७५. [१] जलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुञ्चकोडी ।

[२] अपज्ञत्यजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्ञत्यजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण ५ अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुञ्चकोडी अंतोमुहुत्तूणा ।

३७६. [१] सम्मुच्छिमजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुञ्चकोडी ।

[२] अपज्ञत्यसम्मुच्छिमजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । १० गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्ञत्यसम्मुच्छिमजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुञ्चकोडी अंतोमुहुत्तूणा ।

३७७. [१] गन्धवकंतियजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुञ्चकोडी ।

[२] अपज्ञत्यगन्धवकंतियजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । १५ गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्ञत्यगन्धवकंतियजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुञ्चकोडी अंतोमुहुत्तूणा ।

३७८. [१] चउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं । २०

[२] अपज्ञत्यचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्ञत्यचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३७९. [१] सम्मुच्छिमचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । २५ गोयमा ! जहणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं चउरासीइं वाससहस्राइं ।

[२] अपज्ञत्यसम्मुच्छिमचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पञ्जतगसमुच्छिमचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ।  
गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्षोसेण चउरासीइं वाससहस्राइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३८०. [१] गव्ववक्कंतियचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ।  
गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्षोसेण तिण्ण पलिओवमाइं ।

५ [२] अपञ्जतयगव्ववक्कंतियचउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पु-  
च्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्षोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पञ्जतयगव्ववक्कंतियचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ।  
गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्षोसेण तिण्ण पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३८१. [१] उरपरिसप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवतियं  
१० कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्षोसेण पुव्वकोडी ।

[२] अपञ्जतयउरपरिसप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा !  
जहणेण वि उक्षोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पञ्जतगउरपरिसप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा !  
जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्षोसेण पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा ।

३८२. [१] समुच्छिमसामणपुच्छा कायव्वा । १३ गोयमा ! जहन्नेण  
अंतोमुहुत्तं, उक्षोसेण तेवण्णं वाससहस्राइं । १४

[२] समुच्छिमअपञ्जतगउरपरिसप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पु-  
च्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्षोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पञ्जतगसमुच्छिमउरपरिसप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ।  
२० गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्षोसेण तेवण्णं वाससहस्राइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३८३. [१] गव्ववक्कंतियउरपरिसप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं  
पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्षोसेण पुव्वकोडी ।

[२] अपञ्जतगगव्ववक्कंतियउरपरिसप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं  
पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्षोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

२५ [३] पञ्जतगगव्ववक्कंतियउरपरिसप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पु-  
च्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्षोसेण पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा ।

१. °याणं पुच्छा । गोयमा ! १० ॥ २. १-१ एतच्छिहान्तर्गतः पाठः १० आदौ  
एव वर्तते ॥

३८४. [१] भुयपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्षोसेण पुञ्चकोडी ।

[२] अपञ्जत्यभुयपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्षोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] पञ्जत्यभुयपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! ५ जहणेण अंतोमुहुतं, उक्षोसेण पुञ्चकोडी अंतोमुहुतूणा ।

३८५. [१] समुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गायमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्षोसेण वायालीसं वाससहस्राइं ।

[२] अपञ्जत्यसमुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पु- १० च्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्षोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] पञ्जत्यसमुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्षोसेण वातालीसं वाससहस्राइं अंतोमुहुतूणाइं ।

३८६. [१] गव्मवकंतियभुयपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पु- च्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्षोसेण पुञ्चकोडी ।

[२] अपञ्जत्यगव्मवकंतियभुयपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पु- १५ च्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्षोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] पञ्जत्यगव्मवकंतियभुयपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पु- च्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्षोसेण पुञ्चकोडी अंतोमुहुतूणा ।

३८७. [१] खहयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्षोसेण पलिओवमस्स असंखे- २० जइभागो ।

[२] अपञ्जत्यखहयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्षोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] पञ्जत्यखहयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्षोसेण पलिओवमस्स असंखेजइभागो अंतोमुहुतूणो । २५

३८८. [१] समुच्छिमखहयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्षोसेण वावतरि वाससहस्राइं ।

१. जहणेण अंतोमुहुत्त, उक्षो<sup>०</sup> ध० ॥ २. °याणं पुच्छा । गोयमा ! ध० ॥

[२] अपञ्जत्यसम्मुच्छमखहयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्षोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] पञ्जत्यसम्मुच्छमखहयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्षोसेण चावत्तरिं वाससहस्राइं अंतोमुहुतूणाइं ।

५ ३८९. [१] गव्यवक्षंतियखहयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्षोसेण पलिओवमस्स असंखेज्ञतिभागो ।

[२] अपञ्जत्यगव्यवक्षंतियखहयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्षोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] पञ्जत्यगव्यवक्षंतियखहयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! १० जहणेण अंतोमुहुतं, उक्षोसेण पलिओवमस्स असंखेज्ञइभागो अंतोमुहुतूणो ।

[सुत्ताइं ३९०-३९२. मणुस्सठिइपणवणा]

३९०. [१] मणुस्साणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्षोसेण तिणिं पलिओवमाइं ।

[२] अपञ्जत्यगमणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्षोसेण वि १५ अंतोमुहुतं ।

[३] पञ्जत्यगमणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्षोसेण तिणिं पलिओवमाइं अंतोमुहुतूणाइं ।

३९१. सम्मुच्छमणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्षोसेण वि अंतोमुहुतं ।

२० ३९२. [१] गव्यवक्षंतियमणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्षोसेण तिणिं पलिओवमाइं ।

[२] अपञ्जत्यगव्यवक्षंतियमणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्षोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] पञ्जत्यगव्यवक्षंतियमणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण अंतोमुहुतं, २५ उक्षोसेण तिणिं पलिओवमाइं अंतोमुहुतूणाइं ।

[सुत्ताइं ३९३-३९४. वाणमंतराठिइपणवणा]

३९३. [१] वाणमंतराणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहन्नेण दस वाससहस्राइं, उक्षोसेण पलिओवमं ।

[२] अपञ्जत्यवाणमंतराणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पञ्जत्याणं वाणमंतराणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण दस वाससहस्राइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेण पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं ।

३९४. [१] वाणमंतरीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पण्णता ? ५ गोयमा ! जहणेण दस वाससहस्राइं, उक्कोसेण अद्वपलिओवमं ।

[२] अपञ्जत्याणं भंते ! वाणमंतरीणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पञ्जनियाणं भंते ! वाणमंतरीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण दस वाससहस्राइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेण अद्वपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं । १०

### [सुन्ताइं ३९५-४०६. जोइसियठिङ्गणवणा]

३९५. [१] जोइसियाणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहणेण पलिओवमटुभागो, उक्कोसेण पलिओवमं वाससतसहस्स-मव्भहियं ।

[२] अपञ्जत्यजोइसियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । १५

[३] पञ्जत्यजोइसियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण पलिओवमटुभागो अंतोमुहुत्तूणो, उक्कोसेण पलिओवमं वाससतसहस्समव्भहियं अंतोमुहुत्तूणं ।

३९६. [१] जोइसिणीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहणेण पलिओवमटुभागो, उक्कोसेण अद्वपलिओवमं पण्णासवास- २० सहस्समव्भहियं ।

[२] अपञ्जत्याणं जोइसिणीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पञ्जत्याणं जोइसिणीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण पलिओव-मटुभागो अंतोमुहुत्तूणो, उक्कोसेण अद्वपलिओवमं पण्णासाए वाससहस्रेहिं अव्भहियं अंतोमुहुत्तूणं । २५

३९७. [१] चंदविमाणे णं भंते ! देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण  
चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससतसहस्रमव्महियं ।

[२] चंदविमाणे णं भंते ! अपज्ञत्यदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण  
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

५ [३] चंदविमाणे णं पज्ञत्याणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण  
चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससतसहस्रमव्महियं  
अंतोमुहुत्तूणं ।

३९८. [१] चंदविमाणे णं भंते ! देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण  
चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं अद्वपलिओवमं पण्णासाए वाससहस्रेहिमव्महियं ।

१० [२] चंदविमाणे णं भंते ! अपज्ञत्यियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा !  
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] चंदविमाणे णं पज्ञत्यियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण  
चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं अद्वपलिओवमं पण्णासाए वाससहस्रेहिं  
अव्महियं अंतोमुहुत्तूणं ।

१५ ३९९. [१] सूरविमाणे णं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ?  
गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससहस्रमव्महियं ।

[२] सूरविमाणे अपज्ञत्देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण  
वि अंतोमुहुत्तं ।

२० [३] सूरविमाणे पज्ञत्देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं चउभाग-  
पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससहस्रमव्महियं अंतोमुहुत्तूणं ।

४००. [१] सूरविमाणे देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं चउभाग-  
पलिओवमं, उक्कोसेणं अद्वपलिओवमं पंचहिं वाससतेहिमव्महियं ।

[२] सूरविमाणे अपज्ञत्यियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि  
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

२५ [३] सूरविमाणे पज्ञत्यियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं चउभाग-  
पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं अद्वपलिओवमं पंचहिं वाससतेहिं अव्महियं  
अंतोमुहुत्तूणं ।

१. भंते ! केवह्यं कालं ठिनी पण्णत्ता ? गोयमा ! ध० ॥

४०१. [१] गहविमाणे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं चउभाग-  
पलिओवमं, उक्कोसेणं पलिओवमं ।

[२] गहविमाणे अपज्ञतदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण  
वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] गहविमाणे पज्ञतदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं चउभाग- ५  
पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं ।

४०२. [१] गहविमाणे देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं चउभाग-  
पलिओवमं, उक्कोसेणं अद्वपलिओवमं ।

[२] गहविमाणे अपज्ञत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि  
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । १०

[३] पज्ञत्तियाणं गहविमाणे देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं  
चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं अद्वपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं ।

४०३. [१] णक्खत्तविमाणे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं  
चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं अद्वपलिओवमं ।

[२] णक्खत्तविमाणे अपज्ञतदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि १५  
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] णक्खत्तविमाणे पज्ञतदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं चउभाग-  
पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं अद्वपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं ।

४०४. [१] नक्खत्तविमाणे देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं  
चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं सातिरेंगं चउभागपलिओवमं । २०

[२] णक्खत्तविमाणे अपज्ञत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] नक्खत्तविमाणे पज्ञत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं  
चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं सातिरेंगं चउभागपलिओवमं  
अंतोमुहुत्तूणं । २५

४०५. [१] ताराविमाणे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अद्वभाग-  
पलिओवमं, उक्कोसेणं चउभागपलिओवमं ।

[२] ताराविमाणे अपज्ञतदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि  
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] ताराविमाणे पञ्जतदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अटुभाग-  
पलिओवमं अंतोमुहुतूणं, उक्कोसेण चउभागपलिओवमं अंतोमुहुतूणं ।

४०६. [१] ताराविमाणे देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
अटुभागपलिओवमं, उक्कोसेण सातिरेगं अटुभागपलिओवमं ।

५ [२] ताराविमाणे अपञ्जतियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि  
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] ताराविमाणे पञ्जतियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
अटुभागपलिओवमं अंतोमुहुतूणं, उक्कोसेण सातिरेगं अटुभागपलिओवमं  
अंतोमुहुतूणं ।

१०

[सुत्ताइ ४०७-४३७. वेमाणियदेवठिडपणवणा]

४०७. [१] वेमाणियाणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ?  
गोयमा ! जहणेण पलिओवमं, उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाइं ।

[२] अपञ्जतयवेमाणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि  
अंतोमुहुत्तं ।

१५

[३] पञ्जतयाणं वेमाणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण पलिओवमं  
अंतोमुहुतूणं, उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुतूणाइं ।

४०८. [१] वेमाणिणीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ?  
गोयमा ! जहणेण पलिओवमं, उक्कोसेण पणपणं पलिओवमाइं ।

[२] अपञ्जतियाणं वेमाणिणीणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि  
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पञ्जतियाणं वेमाणिणीणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
पलिओवमं अंतोमुहुतूणं, उक्कोसेण पणपणं पलिओवमाइं अंतोमुहुतूणाइं ।

४०९. [१] सोहम्मे णं भंते ! कप्पे देवाणं केवतियं कालं ठिती  
पणत्ता ? गोयमा ! जहणेण पलिओवमं, उक्कोसेण दो सागरोवमाइं ।

२५ [२] सोहम्मे कप्पे अपञ्जतदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि  
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] सोहम्मे कप्पे पञ्जतयाणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
पलिओवमं अंतोमुहुतूणं, उक्कोसेण दो सागरोवमाइं अंतोमुहुतूणाइं ।

४१०. [१] सोहम्मे कप्पे देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं ।

[२] सोहम्मे कप्पे अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं [ग्रन्थाग्रम् २५००] ।

[३] सोहम्मे कप्पे पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं । ५

४११. [१] सोहम्मे कप्पे परिगगहियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं सत्त पलिओवमाइं ।

[२] सोहम्मे कप्पे परिगगहियाणं अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । १०

[३] सोहम्मे कप्पे परिगगहियाणं पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं सत्त पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४१२. [१] सोहम्मे कप्पे अपरिगगहियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं ।

[२] सोहम्मे कप्पे अपरिगगहियाणं अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । १५

[३] सोहम्मे कप्पे अपरिगगहियाणं पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४१३. [१] ईसाणे कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं सातिरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं सातिरेगाइं दो सागरोवमाइं । २०

[२] ईसाणे कप्पे अपज्जत्ताणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] ईसाणे कप्पे पज्जत्ताणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं सातिरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं सातिरेगाइं दो सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४१४. [१] ईसाणे कप्पे देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं सातिरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं पणपणं पलिओवमाइं । २५

[२] ईसाणे कप्पे देवीणं अपज्जत्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] ईसाणे कप्पे पञ्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सातिरेंगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पणपणं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४१५. [१] ईसाणे कप्पे परिगगहियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सातिरेंगं पलिओवमं, उक्कोसेणं णव पलिओवमाइं ।

[२] ईसाणे कप्पे परिगगहियाणं अपञ्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] ईसाणे कप्पे परिगगहियाणं पञ्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सातिरेंगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं नव पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४१६. [१] ईसाणे कप्पे अपरिगगहियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सातिरेंगं पलिओवमं, उक्कोसेणं पणपणं पलिओवमाइं ।

[२] ईसाणे कप्पे अपरिगगहियाणं अपञ्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] ईसाणे कप्पे अपरिगगहियाणं देवीणं पञ्जत्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सातिरेंगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पणपणं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४१७. [१] सणंकुमारे कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण दो सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइं ।

[२] सणंकुमारे कप्पे अपञ्जत्ताणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] सणंकुमारे कप्पे पञ्जत्ताणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण दो सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४१८. [१] माहिंदे कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सातिरेगाइं दो सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्त साहियाइं सागरोवमाइं ।

[२] माहिंदे अपञ्जत्ताणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] माहिंदे पञ्जत्ताणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सातिरेगाइं दो सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सातिरेगाइं सत्त सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४१९. [१] वंभलोए कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सत्त सागरोवमाइं, उक्कोसेण दस सागरोवमाइं ।

[२] वंभलोए अपज्जताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] वंभलोए पज्जताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सत्त सागरोवमाइं ५ अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेण दस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४२०. [१] लंतए कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण दस सागरोवमाइं, उक्कोसेण चउदस सागरोवमाइं ।

[२] लंतए अपज्जताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । १०

[३] लंतए पज्जताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण दस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेण चोदस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४२१. [१] महासुके देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण चोदस सागरोवमाइं, उक्कोसेण सत्तरस सागरोवमाइं ।

[२] महासुक अपज्जताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । १५

[३] महासुके पज्जताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण चोदस सागरोव-माइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेण सत्तरस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४२२. [१] सहस्सारे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सत्तरस सागरोवमाइं, उक्कोसेण अद्वारस सागरोवमाइं । २०

[२] सहस्सारे अपज्जताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] सहस्सारे पज्जताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सत्तरस सागरो-वमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेण अद्वारस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४२३. [१] आणए देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अद्वारस सागरोवमाइं, उक्कोसेण एकूणवीसं सागरोवमाइं । २५

[२] आणए अपज्जताणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] आणए पज्जताणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अद्वारस सागरोवमाइं अंतोमुहुतूणाइं, उक्कोसेणं एगूणवीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुतूणाइं ।

४२४. [१] पाणए कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एगूणवीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमाइं ।

५ [२] पाणए अपज्जताणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] पाणए पज्जताणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एगूणवीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुतूणाइं, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुतूणाइं ।

१० ४२५. [१] आरणे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं वीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं एक्कवीसं सागरोवमाइं ।

[२] आरणे अपज्जताणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] आरणे पज्जताणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं वीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुतूणाइं, उक्कोसेणं एक्कवीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुतूणाइं ।

१५ ४२६. [१] अच्चुए कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एक्कवीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं वावीसं सागरोवमाइं ।

[२] अच्चुए अपज्जताणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] अच्चुते पज्जताणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एक्कवीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुतूणाइं, उक्कोसेणं वावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुतूणाइं ।

४२७. [१] हेड्हिमहेड्हिमगेवेजदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं वावीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं तेवीसं सागरोवमाइं ।

[२] हेड्हिमहेड्हिमअपज्जतदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

२५ [३] हेड्हिमहेड्हिमपज्जतदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं वावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुतूणाइं, उक्कोसेणं तेवीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुतूणाइं ।

४२८. [१] हेड्हिममज्जिमगेवेजदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं तेवीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं चउवीसं सागरोवमाइं ।

[२] हेद्विममज्जिमअपज्जत्यदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्को-  
सेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] हेद्विममज्जिमगेवेज्जदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
तेवीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेण चउवीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४२९. [१] हेद्विमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण ५  
चउवीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेण पणुवीसं सागरोवमाइं ।

[२] हेद्विमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] हेद्विमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
चउवीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेण पणुवीसं सागरोवमाइं १०  
अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४३०. [१] मज्जिमहेद्विमगेवेज्जगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
पणुवीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेण छब्बीसं सागरोवमाइं ।

[२] मज्जिमहेद्विमगेवेज्जगदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । १५

[३] मज्जिमहेद्विमगेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छा । गोयमा !  
जहणेण पणुवीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेण छब्बीसं सागरोवमाइं  
अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४३१. [१] मज्जिममज्जिमगेवेज्जगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
छब्बीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेण सत्तावीसं सागरोवमाइं । २०

[२] मज्जिममज्जिमगेवेज्जगदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] मज्जिममज्जिमगेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
छब्बीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेण सत्तावीसं सागरोवमाइं  
अंतोमुहुत्तूणाइं । २५

४३२. [१] मज्जिमउवरिमगेवेज्जाणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
सत्तावीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेण अद्वावीसं सागरोवमाइं ।

[२] मज्जिमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] मज्जिमउवरिमगेवेजगदेवाणं पञ्जत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सत्तावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुतूणाइं, उक्कोसेण अडावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुतूणाइं ।

४३३. [१] उवरिमहेद्विमगेवेजगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण ५ अडावीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेण एगूणतीसं सागरोवमाइं ।

[२] उवरिमहेद्विमगेवेजगदेवाणं अपञ्जत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] उवरिमहेद्विमगेवेजगदेवाणं पञ्जत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अडावीसं सागरोवमाइं, अंतोमुहुतूणाइं, उक्कोसेण एगूणतीसं सागरोवमाइं १० अंतोमुहुतूणाइं ।

४३४. [१] उवरिममज्जिमगेवेजगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण एगूणतीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेण तीसं सागरोवमाइं ।

[२] उवरिममज्जिमगेवेजगदेवाणं अपञ्जत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

१५ [३] उवरिममज्जिमगेवेजगदेवाणं पञ्जत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण एगूणतीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुतूणाइं, उक्कोसेण तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुतूणाइं ।

४३५. [१] उवरिमउवरिमगेवेजगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण तीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेण एकतीसं सागरोवमाइं ।

२० [२] उवरिमउवरिमगेवेजगदेवाणं अपञ्जत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] उवरिमउवरिमगेवेजगदेवाणं पञ्जत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुतूणाइं, उक्कोसेण एकतीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुतूणाइं ।

२५ ४३६. [१] विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजिष्यु णं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहणेण एकतीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाइं ।

[२] विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवाणं अपञ्जत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[३] विजय-नेजयंत-जयंत-अपराजियदेवाणं पञ्जत्ताणं पुच्छा । गोयमा !  
जहण्णेणं एकतीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं  
अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४३७. [१] संब्बद्धसिद्धगदेवाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णता ?  
गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिती पण्णता । ५

[२] संब्बद्धसिद्धगदेवाणं अपञ्जत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि  
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] संब्बद्धसिद्धगदेवाणं पञ्जत्ताणं [भंते!] केवतियं कालं ठिती  
पण्णता ? गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं  
ठिती पण्णता । २०

॥ पण्णवणापः भगवईए चउत्थं ठिइपयं समत्तं ॥

## ५. पंचमं विसेसपर्यं

[ सुतं ४३८. पञ्चवभेयपञ्चवणं ]

४३८. कतिविहा णं भंते ! पञ्चवा पण्णता ? गोयमा ! दुविहा पञ्चवा पण्णता । तं जहा—जीवपञ्चवा य अजीवपञ्चवा य ।

[ सुतां ४३९-४९९. जीवपञ्चवा ]

४३९. जीवपञ्चवा णं भंते ! किं संखेज्ञा असंखेज्ञा अणंता ? गोयमा ! णो संखेज्ञा, नो असंखेज्ञा, अणंता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति जीवपञ्चवा नो संखेज्ञा नो असंखेज्ञा अणंता ? गोयमा ! असंखेज्ञा नेरइया, असंखेज्ञा असुरा, असंखेज्ञा णागा, असंखेज्ञा सुवण्णा, असंखेज्ञा विज्ञुकुमारा, असंखेज्ञा १० अग्निकुमारा, असंखेज्ञा दीवकुमारा, असंखेज्ञा उदहिकुमारा, असंखेज्ञा दिसाकुमारा, असंखेज्ञा वाउकुमारा, असंखेज्ञा थणियकुमारा, असंखेज्ञा पुढविकाइया, असंखेज्ञा आउकाइया, असंखेज्ञा तेउकाइया, असंखेज्ञा वाउ-  
काइया, अणंता वणप्फइकाइया, असंखेज्ञा वेइंदिया, असंखेज्ञा तेइंदिया, १५ असंखेज्ञा चउरिंदिया, असंखेज्ञा पंचिदियतिरिक्खजोणिया, असंखेज्ञा मणुस्सा, असंखेज्ञा वाणमंतरा, असंखेज्ञा जोइसिया, असंखेज्ञा वेमाणिया, अणंता सिद्धा, २० से एएणद्वेण गोयमा ! एवं बुच्चति ते णं णो संखेज्ञा, नो असंखेज्ञा, अणंता ।

[ सुतं ४४०. नेरइयाणं पञ्चवा ]

४४०. नेरइयाणं भंते ! केवतिया पञ्चवा पण्णता ? गोयमा ! अणंता पञ्चवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति नेरइयाणं अणंता पञ्चवा पण्णता ? गोयमा ! नेरइए नेरइयस्स दब्वद्वयाए तुल्ले, पदेसद्वताए तुल्ले; ओगाहणद्वताए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्महिए—जति हीणे असंखेज्ञति-भागहीणे वा संखेज्ञतिभागहीणे वा संखेज्ञगुणहीणे वा असंखेज्ञगुणहीणे वा, अह अब्महिए असंखेज्ञभागब्महिए वा संखेज्ञभागब्महिए वा संखेज्ञगुणमब्महिए वा असंखेज्ञगुणमब्महिए वा; ठिईए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्महिए—जइ हीणे २५ असंखेज्ञतिभागहीणे वा संखेज्ञतिभागहीणे वा संखेज्ञगुणहीणे वा असंखेज्ञगुणहीणे

वा, अह अब्महिए असंखेज्जइभागमब्महिए वा संखेज्जइभागमब्महिए वा संखे-  
ज्जइगुणब्महिए वा असंखेज्जइगुणब्महिए वा; कालवण्णपञ्जवेहिं सिय हीणे सिय  
तुले सिय मब्महिए—जदि हीणे अणंतभागहीणे वा असंखेज्जइभागहीणे वा  
संखेज्जइभागहीणे वा संखिज्जइगुणहीणे वा असंखिज्जइगुणहीणे वा अणंतगुणहीणे  
वा, अह अब्मतिए अणंतभागमब्मइए वा असंखेज्जतिभागमब्महिए वा ५  
संखेज्जतिभागमब्मइए वा संखेज्जगुणमब्महिए वा असंखेज्जगुणमब्महिए वा  
अणंतगुणमब्महिए वा; णीलवण्णपञ्जवेहिं लोहियवण्णपञ्जवेहिं हाँलिद्वण्णपञ्जवेहिं  
सुक्षिलवण्णपञ्जवेहिं य छड्डाणवडिए; सुविभगंधपञ्जवेहिं दुविभगंधपञ्जवेहिं य  
छड्डाणवडिए; तित्तरसपञ्जवेहिं कड्डुयरसपञ्जवेहिं कसायरसपञ्जवेहिं अंविलरसपञ्जवेहिं  
महुररसपञ्जवेहिं य छड्डाण वडिए; कक्खडफासपञ्जवेहिं मउयफासपञ्जवेहिं गरुय- १०  
फासपञ्जवेहिं लहुयफासपञ्जवेहिं सीयफासपञ्जवेहिं उसिणफासपञ्जवेहिं निद्वफास-  
पञ्जवेहिं लुक्खफासपञ्जवेहिं य छड्डाणवडिए; आभिणिचोहियणाणपञ्जवेहिं  
सुयणाणपञ्जवेहिं ओहिणाणपञ्जवेहिं मतिअण्णाणपञ्जवेहिं सुयअण्णाणपञ्जवेहिं  
विभंगणाणपञ्जवेहिं चक्खुदंसणपञ्जवेहिं अचक्खुदंसणपञ्जवेहिं ओहिदंसणपञ्जवेहिं  
य छड्डाणवडिते, से<sup>३</sup> एणटुणं गोयमा ! एवं बुच्चति नेरइयाणं नो संखेज्जा, नो १५  
असंखेज्जा, अणंता पञ्जवा पण्णता ।

### [ सुत्ताइं ४४१-४४२. भवणवासीणं पञ्जवा ]

४४१. असुरकुमाराणं भंते ! केवतिया पञ्जवा पण्णता ? गोयमा ! अणंता  
पञ्जवा पण्णता । से केणटुणं भंते ! एवं बुच्चइ असुरकुमाराणं अणंता पञ्जवा  
पण्णता ? गोयमा ! असुरकुमारे असुरकुमारस्स दब्बद्वयाए तुले, पदेसद्वयाए तुले,  
ओगाहणद्वयाए चउड्डाणवडिए, ठिरीए चउड्डाणवडिए, कालवण्णपञ्जवेहिं छड्डाणवडिए, २०  
एवं णीलवण्णपञ्जवेहिं लोहियवण्णपञ्जवेहिं हालिद्वण्णपञ्जवेहिं सुक्षिलवण्णपञ्जवेहिं,  
सुविभगंधपञ्जवेहिं दुविभगंधपञ्जवेहिं, तित्तरसपञ्जवेहिं कड्डुयरसपञ्जवेहिं कसायरस-  
पञ्जवेहिं अंविलरसपञ्जवेहिं महुररसपञ्जवेहिं, कक्खडफासपञ्जवेहिं मउयफासपञ्जवेहिं  
गरुयफासपञ्जवेहिं लहुयफासपञ्जवेहिं सीतफासपञ्जवेहिं उसिणफासपञ्जवेहिं २५  
निद्वफासपञ्जवेहिं लुक्खफासपञ्जवेहिं, आभिणिचोहियणाणपञ्जवेहिं सुतणाणपञ्जवेहिं  
ओहिणाणपञ्जवेहिं, मतिअण्णाणपञ्जवेहिं सुयअण्णाणपञ्जवेहिं विभंगणाणपञ्जवेहिं,

<sup>१</sup> पीयवण्ण<sup>०</sup> पु२ ॥ <sup>२</sup> सुक्षिलवण्ण<sup>०</sup> पु२ ॥ <sup>३</sup> से एणटुणं पु२ ॥

चक्रबुदंसणपज्जवेहि अचक्रबुदंसणपज्जवेहि ओहिदंसणपज्जवेहि य छट्टाणवडिते, से तेणद्वेण गोयमा ! एवं बुच्चति असुरकुमाराणं अणंता पज्जवा पण्णता ।

४४२. एवं जहा नेरइया जहा असुरकुमारा तहा नागकुमारा वि जाव थणियकुमारा ।

५

[सुत्ताइँ ४४३-४४७, एगिंदियाणं पज्जवा]

४४३. पुढविकाइयाणं भंते ! केवतिया पज्जवा पण्णता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णता ? गोयमा ! पुढविकाइए पुढविकाइयस्स दब्बद्वयाए तुल्ले, पदेसद्वयाए तुल्ले; ओगाहणद्वयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अंवभइए-जदि हीणे असंखेज्ज-  
१० तिभागहीणे वा संखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा असंखेज्जगुणहीणे वा, अह अवभहिए असंखेज्जतिभागअवभतिए वा संखेज्जतिभागअवभइए वा संखेज्जगुण-  
अवभहिए वा असंखेज्जगुणअवभहिए वा; ठितीए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अवभइए-  
१५ जति हीणे असंखेज्जभागहीणे वा संखेज्जभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा, अह अवभतिए असंखेज्जभागअवभतिए वा संखेज्जभागअवभतिए वा संखेज्जगुणअवभतिए  
वा; वणेहिं गंधेहिं रसेहिं फासेहिं, मतिअण्णाणपज्जवेहिं सुयअण्णाणपज्जवेहिं अचक्रबुदंसणपज्जवेहिं छट्टाणवडिते ।

४४४. आउकाइयाणं भंते ! केवतिया पज्जवा पण्णता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति आउकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णता ? गोयमा ! आउकाइए आउकाइयस्स दब्बद्वयाए तुल्ले, पदेसद्वयाए तुल्ले,  
२० ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिते, ठितीए तिट्टाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फास-मति-  
अण्णाण-सुतअण्णाण-अचक्रबुदंसणपज्जवेहि य छट्टाणवडिते ।

४४५. तेउक्काइयाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति तेउक्काइयाणं अणंता पज्जवा पण्णता ? गोयमा ! तेउक्काइए तेउक्काइयस्स दब्बद्वयाए तुल्ले, पदेसद्वयाए तुल्ले, ओगाहणद्वयाए  
२५ चउट्टाणवडिते, ठितीए तिट्टाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फास-मतिअण्णाण-सुय-  
अण्णाण-अचक्रबुदंसणपज्जवेहि य छट्टाणवडिते ।

४४६. वाउक्काइयाणं पुच्छा । गोयमा ! वाउक्काइयाणं अणंता पज्जवा

पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति वाउक्काइयाणं अणंता पज्जवा पण्णता ? गोयमा ! वाउक्काइयस्स दब्बद्वयाए तुल्ले, पदेसद्वयाए तुल्ले, ओगाहणद्वयाए चउड्डाणवडिते, ठितीए तिड्डाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फास-मतिअण्णाण-सुयअण्णाण-अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्टाणवडिते ।

४४७. वण्णफङ्काइयाणं भंते ! केवतिया पज्जवा पण्णता ? गोयमा ! ५ अणंता पज्जवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति वण्णफङ्काइयाणं अणंता पज्जवा पण्णता ? गोयमा ! वण्णफङ्काइए वण्णफङ्काइयस्स दब्बद्वयाए तुल्ले, पदेसद्वयाए तुल्ले, ओगाहणद्वयाए चउड्डाणवडिते, ठितीए तिड्डाणवडिए, वण्ण-गंध-रस-फास-मतिअण्णाण-सुयअण्णाण-अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्टाणवडिते, से तेणद्वेण गोयमा ! एवं बुच्चति वण्णस्सतिकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णता । १०

[सुत्ताइं ४४८-४५०. विगलिंदियाणं पज्जवा]

४४८. वेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पण्णता ? गोयमा ! वेइंदिए वेइंदियस्स दब्बद्वयाए तुल्ले, पदेसद्वयाए तुल्ले; ओगाहणद्वयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए—जति हीणे असंखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा असंखेज्जगुणहीणे वा, अह मब्भहिए असंखेज्जभागमब्भहिए वा संखेज्जभागमब्भइए वा संखेज्जगुणमब्भइए वा असंखेज्जगुणमब्भइए वा; ठितीए तिड्डाणवडिते; वण्ण-गंध-रस-फास-आभिणिवोहियणाण-सुतणाण-मतिअण्णाण-सुत-अण्णाण-अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्टाणवडिते ।

४४९. एवं तेइंदिया वि ।

२०

४५०. एवं चउरिंदिया वि । णवरं दो दंसणा—चक्खुदंसणं अचक्खु-दंसणं च ।

[सुत्तं ४५१. पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जवा]

४५१. पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जवा जहा नेरझ्याणं तहा भाणितव्वा ।

[सुत्तं ४५२. मणुस्साणं पज्जवा]

२५

४५२. मणुस्साणं भंते ! केवतिया पज्जवा पण्णता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति मणुस्साणं अणंता पज्जवा पण्णता ? गोयमा ! मणुस्से मणुस्सस्स दब्बद्वयाए तुल्ले, पएसद्वयाए तुल्ले, ओगाहणद्वयाए

चउद्गाणवडिते, ठितीए चउद्गाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फास-आभिणिवोहियणाण-  
सुतणाण-ओहिणाण-मणपज्जवणाणपज्जवेहि य छद्गाणवडिते, केवलणाणपज्जवेहिं तुल्ले,  
तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छद्गाणवडिते, केवलदंसणपज्जवेहिं तुल्ले ।

[ सुत्तं ४५३. वाणमंतराणं पञ्जवा ]

५ ४५३. वाणमंतरा ओगाहणद्वयाए ठितीए य चउद्गाणवडिया, वण्णादीहिं  
छद्गाणवडिता ।

[ सुत्तं ४५४. जोइसिय-वेमाणियाणं पञ्जवा ]

४५४. जोइसिय-वेमाणिया वि एवं चेव । णवरं ठितीए तिद्गाणवडिता ।

[ सुत्ताइँ ४५५-४६३. ओगाहणाइसु नेरइयाणं पञ्जवा ]

१० ४५५. [ १ ] जहणोगाहणगाणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पञ्जवा  
पण्णता ? गोयमा ! अणंता पञ्जवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं वुच्चति  
जहणोगाहणगाणं नेरइयाणं अणंता पञ्जवा पण्णता ? गोयमा ! जहणोगाहणए  
नरइए जहणोगाहणगस्स नेरइयस्स दब्बद्वयाए तुल्ले, पदेसद्वयाए तुल्ले, ओगाहणद्वयाए  
तुल्ले, ठितीए चउद्गाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं  
अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहि य छद्गाणवडिते ।

२० [ २ ] उक्कोसोगाहणयाणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पञ्जवा पण्णता ? गोयमा !  
अणंता पञ्जवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं वुच्चति उक्कोसोगाहणयाणं नेरइयाणं  
अणंता पञ्जवा पण्णता ? गोयमा ! उक्कोसोगाहणए णेरइए उक्कोसोगाहणगस्स  
नेरइयस्स दब्बद्वयाए तुल्ले, पदेसद्वयाए तुल्ले, ओगाहणद्वयाए तुल्ले; ठितीए सिय हीणे  
२० सिय तुल्ले सिय अवभंहिए—जति हीणे असंखेजभागहीणे वा संखेजभागहीणे वा,  
अह अवभंहिए असंखेजभागअवभइए वा संखेजभागअवभइए वा; वण्ण-गंध-रस-  
फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छद्गाणवडिते ।

२५ [ ३ ] अँजहणुक्कोसोगाहणगाणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पञ्जवा पण्ण-  
ता ? गोयमा ! अणंता पञ्जवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं वुच्चति अँजहणु-  
क्कोसोगाहणगाणं नेरइयाणं अणंता पञ्जवा पण्णता ? गोयमा ! अँजहणुक्कोसोगाहणए  
णेरइए अँजहणुक्कोसोगाहणगस्स णेरइयस्स दब्बद्वयाए तुल्ले, पदेसद्वयाए तुल्ले;

१. चोट्टाण° पु२ ॥ २-५. अँजहणुमणुक्को° म० पु२ मु०॥

ओगाहणद्वयाए सिय हीणे सिय तुले सिय अब्महिए—जति हीणे असंखेजभागहीणे वा संखेजभागहीणे वा संखेजगुणहीणे वा असंखेजगुणहीणे वा, अह अब्मतिए असंखेजतिभागअब्मतिए वा संखेजतिभागअब्मतिए वा संखेजगुणअब्मतिए वा असंखेजगुणअब्मतिए वा; ठितीए सिय हीणे सिय तुले सिय अब्मतिए—जति हीणे असंखेजतिभागहीणे वा संखेजतिभागहीणे वा संखेजगुणहीणे वा असंखेज-  
गुणहीणे वा, अह अब्मझए असंखेजतिभागअब्मझए वा संखेजतिभागअब्महिए वा संखेजगुणअब्मझए वा असंखेजगुणअब्महिए वा; वण्ण-गंध-रस-फासपज्वेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छड्डाणवडिते, 'से तेणद्वेण गोयमा ! एवं बुच्चति अजहणुक्कोसोगाहणगाणं नेरइयाणं अणंता पज्वा पण्णता ।

४५८. [१] जहण्णठितीयाणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्वा १  
पण्णता ? गोयमा ! अणंता पज्वा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चइ  
जहण्णद्वितीयाणं नेरइयाणं अणंता पज्वा पण्णता ? गोयमा ! जहण्णद्वितीए  
नेरइए जहण्णद्वितीयस्स नेरइयस्स दब्बद्वयाए तुले, पदेसद्वयाए तुले, ओगाहणद्वयाए  
चउड्डाणवडिते, ठितीए तुले, वण्ण-गंध-रस-फासपज्वेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं  
अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं य छड्डाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसद्वितीए वि ।

[३] अजहण्णुक्कोसद्वितीए वि एवं चेव । णवरं सद्वाणे चउड्डाणवडिते ।

४५९. [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्वा  
पण्णता ? गोयमा ! अणंता पज्वा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति जह-  
ण्णगुणकालयाणं नेरइयाणं अणंता पज्वा पण्णता ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए २०  
नेरइए जहण्णगुणकालगस्स नेरइयस्स दब्बद्वयाए तुले, पदेसद्वयाए तुले, ओगा-  
हणद्वयाए चउड्डाणवडिते, ठितीए चउड्डाणवडिते, कालवण्णपज्वेहिं तुले, अवसेसेहिं  
वण्ण-गंध-रस-फासपज्वेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहि-  
य छड्डाणवडिते, से तेणद्वेण गोयमा ! एवं बुच्चति जहण्णगुणकालयाणं नेरइयाणं  
अणंता पज्वा पण्णता ।

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । णवरं कालवण्णपज्वेहिं  
छड्डाणवडिते ।

४५८. एवं अवसेसा चत्तारि वण्णा दो गंधा पंच रसा अडु फासा भाणितव्वा ।

४५९. [१] जहणाभिणवोहियणाणीं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्वा पण्णता ? गोयमा ! जहणाभिणवोहियणाणीं ऐरइयाणं अणंता पज्वा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति जहणाभिणवोहियणाणीं नेरइयाणं अणंता पज्वा पण्णता ? गोयमा ! जहणाभिणवोहियणाणी ऐरइए जहणाभिणवोहियणाणिस्स नेरइयस्स दब्बद्वयाए तुले, पदेसद्वताए तुले, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणवडिते, ठितीए चउद्वाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छद्वाणवडिते, आभिणवोहियणाणपज्जवेहिं तुले, सुतणाण-ओविणाणपज्जवेहिं छद्वाणवडिते, तिहिं दंसणेहिं छद्वाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसाभिणवोहियणाणी वि ।

[३] अजहणमणुक्कोसाभिणवोहियणाणी वि एवं चेव । नवरं आभिणवोहियणाणपज्जवेहिं सद्वाणे छद्वाणवडिते ।

४६०. एवं सुतणाणी ओविणाणी वि । णवरं जस्स णाणा तस्स अण्णाणा णत्त्वा ।

४६१. जहा नाणा तहा अण्णाणा वि भाणितव्वा । नवरं जस्स अण्णाणा तस्स नाणा न भवन्ति ।

४६२. [१] जहणचकखुदंसणीं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्वा पण्णता ? गोयमा ! अणंता पज्वा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति जहणचकखुदंसणीं नेरइयाणं अणंता पज्वा पण्णता ? गोयमा ! जहणचकखुदंसणीं नेरइए जहणचकखुदंसणिस्स नेरइयस्स दब्बद्वयाए तुले, पदेसद्वयाए तुले, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणवडिते, ठितीए चउद्वाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं छद्वाणवडिते, चकखुदंसणपज्जवेहिं तुले, अचकखुदंसणपन्नवेहिं ओहिदंसणपज्जवेहि य छद्वाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसचकखुदंसणी वि ।

[३] अजहणमणुक्कोसचकखुदंसणी वि एवं चेव । नवरं सद्वाणे छद्वाणवडिते ।

४६३. एवं अचकखुदंसणी वि ओहिदंसणी वि ।

[सुत्ताइं ४६४-४६५. ओगाहणाए भवणवासीणं पञ्जवा ]

४६४. [१] जहणोगाहणगाणं भंते ! असुरकुमाराणं केवतिया पञ्जवा पण्णता ? गोयमा ! अणंता पञ्जवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति जहणोगाहणगाणं असुरकुमाराणं अणंता पञ्जवा पण्णता ? गोयमा ! जहणोगाहणए असुरकुमारे जहणोगाहणगस्स असुरकुमारस्स दब्बद्वयाए तुल्ले, पदेसद्वयाए तुल्ले, ५ ओगाहणद्वयाए तुल्ले, ठितीए चउद्वाणवडिते, वन्नादीहिं छद्वाणवडिते, आभिणि-वौहियणाण-सुतणाण-ओहिणाणपञ्जवेहि तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहि य छद्वाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसोगाहणए वि । एवं अजहन्मणुक्कोसोगाहणए वि । नवरं उक्कोसोगाहणए वि असुरकुमारे ठितीए चउद्वाणवडिते ।

१०

४६५. एवं जाव थणियकुमारा ।

[सुत्ताइं ४६६-४७२. ओगाहणाइसु एगिंदियाणं पञ्जवा ]

४६६. [१] जहणोगाहणगाणं भंते ! पुढविकाइयाणं केवतिया पञ्जवा पण्णता ? गोयमा ! अणंता पञ्जवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति जहणोगाहणगाणं पुढविकाइयाणं अणंता पञ्जवा पण्णता ? गोयमा ! जहणो- १५ गाहणए पुढविकाइए जहणोगाहणगस्स पुढविकाइयस्स दब्बद्वयाए तुल्ले, पदेसद्वयाए तुल्ले, ओगाहणद्वयाए तुल्ले, ठितीए तिद्वाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फास-पञ्जवेहिं दोहिं अण्णाणेहिं अचक्खुदंसणपञ्जवेहि य छद्वाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसोगाहणए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । नवरं सद्वाणे चउद्वाणवडिते ।

२०

४६७. [१] जहणद्वितीयाणं भंते ! पुढविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पञ्जवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति जहणद्वितीयाणं पुढविका-इयाणं अणंता पञ्जवा पण्णता ? गोयमा ! जहणठितीए पुढविकाइए जहण-ठितीयस्स पुढविकाइयस्स दब्बद्वयाए तुल्ले, पदेसद्वयाए तुल्ले, ओगाहणद्वताए चउद्वाणवडिते, ठितीए तुल्ले, वण्ण-गंध-रस-फासपञ्जवेहिं मतिअण्णाण-सुतअण्णाण-अचक्खुदंसणपञ्जवेहि य छद्वाणवडिते ।

२५

[२] एवं उक्कोसठितीए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्षोसठितीए वि एवं चेव। णवरं सद्गुणे तिद्वाणवडिते।

४६८. [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते! पुढविकाइयाणं पुच्छा। गोयमा! अणंता पज्वा पण्णत्ता। से केणद्वेण भंते! एवं बुच्चति जहण्णगुणकालयाणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्वा पण्णत्ता? गोयमा! जहण्णगुणकालए ५ पुढविकाइए जहण्णगुणकालगस्स पुढविकाइयस्स दब्बद्वयाए तुल्ले, पदेसद्वयाए तुल्ले, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणवडिते, ठितीए तिद्वाणवडिते, कालवण्णपज्वेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं वण्ण-नंध-रस-फासपज्वेहिं छद्वाणवडिते, दोहिं अण्णाणेहिं अचकखुदंसणपज्वेहि य छद्वाणवडिते।

[२] एवं उक्षोसगुणकालए वि।

२० [३] अजहण्णमणुक्षोसगुणकालए वि एवं चेव। णवरं सद्गुणे छद्वाणवडिते।

४६९. एवं पंच वण्णा दो गंधा पंच रसा अद्गु फासा भाणितव्वा।

४७०. [१] जहण्णमतिअण्णाणीणं भंते! पुढविकाइयाणं पुच्छा। गोयमा! अणंता पज्वा पण्णत्ता। से केणद्वेण भंते! एवं बुच्चति जहण्णमति- २५ अण्णाणीणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्वा पण्णत्ता? गोयमा! जहण्णमतिअण्णाणी पुढविकाइए जहण्णमतिअण्णाणिस्स पुढविकाइयस्स दब्बद्वयाए तुल्ले, पदेसद्वयाए तुल्ले, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणवडिते, ठितीए तिद्वाणवडिते, वण्ण-नंध-रस-फास-पज्वेहिं छद्वाणवडिते, मतिअण्णाणपज्वेहिं तुल्ले, सुयअण्णाणपज्वेहिं अचकखु-दंसणपज्वेहि य छद्वाणवडिते।

२० [२] एवं उक्षोसमतिअण्णाणी वि।

[३] अजहण्णमणुक्षोसमइअण्णाणी वि एवं चेव। नवरं सद्गुणे छद्वाणवडिते।

४७१. एवं सुयअण्णाणी वि। अचकखुदंसणी वि एवं चेव।

४७२. एवं जाव वणप्फङ्काइयाणं।

२५ [सुत्ताइं ४७३-४८०. ओगाहणाइसु विगलिंदियाणं पज्वा]

४७३. [१] जहणोगाहणगाणं भंते! वेइंदियाणं पुच्छा। गोयमा! अणंता पज्वा पण्णत्ता। से केणद्वेण भंते! एवं बुच्चति जहणोगाहणगाणं वेइंदियाणं अणंता पज्वा पण्णत्ता? गोयमा! जहणोगाहणए वेइंदिए जहणोगाहणगस्स

वेङ्दियस्स दब्बद्वयाए तुले, पदेसद्वयाए तुले, ओगाहणद्वयाए तुले, ठितीए तिद्वाणवडिते, वण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं दोहिं णाणेहिं दोहिं अण्णाणेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छद्वाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसोगाहणए वि । णवरं णाणा णत्थि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए जहा जहण्णोगाहणए । णवरं सद्वाणे ५ ओगाहणए चउद्वाणवडिते ।

४७८. [१] जहण्णठितीयाणं भंते ! वेङ्दियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्ति जहण्णठितीयाणं वेङ्दियाणं अणंता पज्जवा पण्णता ? गोयमा ! जहण्णठितीए वेङ्दिए जहण्णठितीयस्स वेङ्दियस्स दब्बद्वयाए तुले, पदेसद्वयाए तुले, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणवडिते, १० ठितीए तुले, वण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं दोहि अण्णाणेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छद्वाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसठितीए वि । णवरं दो णाणा अब्मइया ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए जहा उक्कोसठितीए । णवरं ठितीए तिद्वाणवडिते । १५

४७९. [१] जहण्णगुणकालयाणं वेङ्दियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्ति जहण्णगुणकालयाणं वेङ्दियाणं अणंता पज्जवा पण्णता ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए वेङ्दिए जहण्णगुणकालयस्स वेङ्दियस्स दब्बद्वयाए तुले, पदेसद्वयाए तुले, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणवडिते, २० ठितीए तिद्वाणवडिते, कालवण्णपज्जवेहिं तुले, अवसेसेहिं वण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं दोहिं णाणेहिं दोहिं अण्णाणेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छद्वाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । णवरं सद्वाणे छद्वाणवडिते ।

४८०. एवं पंच वण्णा दो गंधा पंच रसा अडु फासा भाणितव्वा । २५

४८१. [१] जहण्णभिणिवोहियणाणीणं भंते ! वेंदियाणं केवतिया पज्जवा पण्णता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं

बुच्चति ? गोयमा ! जहणाभिणिवोहियणाणी वेइंदिए जहणाभिणिवोहियणाणिस्स  
वेइंदियस्स दब्बड्याए तुल्ल, पएसड्याए तुल्ल, ओगाहणड्याए चउड्याणवडिते,  
ठितीए तिड्याणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छड्याणवडिते, आभिणिवोहियणाण-  
पज्जवेहिं तुल्ले, सुयणाणपज्जवेहिं छड्याणवडिते, अचक्खुदंसणपज्जवेहिं छड्याणवडिते ।

५ [२] एवं उक्कोसाभिणिवोहियणाणी वि ।

[३] अजहणमणुक्कोसाभिणिवोहियणाणी वि एवं चेव । णवरं सट्टाणे  
छड्याणवडिते ।

४७८. एवं सुतणाणी वि, सुतअण्णाणी वि, मतिअण्णाणी वि, अचक्खु-  
दंसणी वि । णवरं जत्थ णाणा तत्थ अण्णाणा णात्थि, जत्थ अण्णाणा तत्थ णाणा  
१० णात्थि । जत्थ दंसणं तत्थ णाणा वि अण्णाणा वि ।

४७९. एवं तेइंदियाण वि ।

४८०. चउरिंदियाण वि एवं चेव । णवरं चक्खुदंसणं अङ्गभतियं ।

[सुत्ताइं ४८१-४८८. ओगाहणाइसु पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पञ्जवा]

४८१. [१] जहणोगाहणगाणं भंते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं

१५ केवइया पञ्जवा पण्णता ? गोयमा ! अणंता पञ्जवा पण्णता । से केणद्वेण भंते !  
एवं बुच्चति जहणोगाहणगाणं पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं अणंता पञ्जवा पण्णता ?  
गोयमा ! जहणोगाहणए पंचेदियतिरिक्खजोणिए जहणोगाहणयस्स पंचेदिय-  
तिरिक्खजोणियस्स दब्बड्याए तुल्ले, पदेसड्याए तुल्ले, ओगाहणड्याए तुल्ले,  
ठितीए तिड्याणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं दोहिं णाणोहिं दोहिं अण्णाणेहिं  
२० दोहिं दंसणेहिं छड्याणवडिते ।

[२] उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । णवरं तिहिं णाणोहिं तिहिं अण्णाणेहिं  
तिहिं दंसणेहिं छड्याणवडिते ।

[३] जहा उक्कोसोगाहणए तहा अजहणमणुक्कोसोगाहणए वि । णवरं  
ओगाहणड्याए चउड्याणवडिए, ठिईए चउड्याणवडिए ।

२५ ४८२. [१] जहणठितीयाणं भंते ! पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं केवतिया  
पञ्जवा पण्णता ? गोयमा ! अणंता पञ्जवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं  
बुच्चति ? गोयमा ! जहणठितीए पंचेदियतिरिक्खजोणिए जहन्नठितीयस्स

पंचिदियतिरिक्खजोणियस्स दब्बद्वयाए तुले, पदेसद्वयाए तुले, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणवडिते, ठितीए तुले, वण्ण-गंध-रस-फासपञ्जवेहिं दोहिं अण्णाणेहिं दोहिं दंसणेहिं छद्वाणवडिते ।

[२] उक्कोसठितीए वि एवं चेव । नवरं दो नाणा दो अन्नाणा दो दंसणा ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउद्वाणवडिते, तिण्ण णाणा, तिण्ण अण्णाणा, तिण्ण दंसणा ।

४८३. [१] जहण्णगुणकालगाणं भंते ! पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पञ्जवा पण्णत्ता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए पंचेदियतिरिक्खजोणिए जहण्णगुणकालगस्स पंचेदियतिरिक्खजोणियस्स दब्बद्वयाए तुले, पदेसद्वयाए तुले, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणवडिते, ठितीए चउद्वाणवडिते, कालवण्णपञ्जवेहिं तुले, अवसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-फासपञ्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छद्वाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । णवरं सद्वाणे छद्वाण-वडिते ।

४८४. एवं पंच वण्णा दो गंधा पंच रसा अद्व फासा ।

४८५. [१] जहण्णाभिणिवोहियणाणीणं भंते ! पंचेदियतिरिक्ख-जोणियाणं केवतिया पञ्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पञ्जवा पण्णत्ता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! जहण्णाभिणिवोहियणाणी पंचेदियतिरिक्ख-जोणिए जहण्णाभिणिवोहियणाणिस्स पंचेदियतिरिक्खजोणियस्स दब्बद्वयाए तुले, पदेसद्वयाए तुले, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणवडिते, ठितीए चउद्वाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपञ्जवेहिं छद्वाणवडिते, आभिणिवोहियणाणपञ्जवेहिं तुले, सुयणाण-पञ्जवेहिं छद्वाणवडिते, चक्खुदंसणपञ्जवेहिं अचक्खुदंसणपञ्जवेहि य छद्वाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसाभिणिवोहियणाणी वि । णवरं ठितीए तिद्वाणवडिते, तिण्ण णाणा, तिण्ण दंसणा, सद्वाणे तुले, सेसेसु छद्वाणवडिते ।

[३] अजहण्णुक्कोसाभिणिवोहियणाणी जहा । उक्कोसाभिणिवोहियणाणी । णवरं ठितीए चउद्वाणवडिते, सद्वाणे छद्वाणवडिते ।

४८६. एवं सुतणाणी वि ।

४८७. [१] जहणोहिणाणीं भंते ! पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा ।

गोयमा ! अणंता पज्वा पण्णत्ता । से केणद्वेणं भंते ! एवं बुच्छति ? गोयमा !  
५ जहणोहिणाणीं पंचेदियतिरिक्खजोणिए जहणोहिणाणिस्स पंचेदियतिरिक्ख-  
जोणियस्स दब्बद्वयाते तुल्ले, पदेसद्वयाते तुल्ले, ओगाहणद्वयाते चउड्डाणवडिते, ठितीए  
तिड्डाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्ववेहिं आभिणिवोहियणाण-सुतणाणपज्ववेहि  
य छड्डाणवडिते, ओहिणाणपज्ववेहिं तुल्ले, अण्णाणा णत्थि, चकखुदंसणपज्ववेहिं  
अचकखुदंसणपज्ववेहि य छड्डाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसोहिणाणी वि ।

१० [३] अजहणुक्कोसोहिणाणी वि एवं चेव । नवरं सद्वाणे छड्डाणवडिते ।

४८८. जहा आभिणिवोहियणाणी तहा मइअण्णाणी सुयअण्णाणी य ।  
जहा ओहिणाणी तहा विभंगणाणी वि । चकखुदंसणी अचकखुदंसणी य जहा  
आभिणिवोहियणाणी । ओहिदंसणी जहा ओहिणाणी । जत्थ णाणा तत्थ  
अण्णाणा णत्थि, जत्थ अण्णाणा तत्थ णाणा णत्थि, जत्थ दंसणा तत्थ णाणा वि  
१५ अण्णाणा वि अत्थि ति भाणितव्वं ।

[सुत्तां ४८९-४९८, ओगाहणाइसु मणुस्साणं पज्वा ]

४८९. [१] जहणोगाहणगाणं भंते ! मणुस्साणं केवतिया पज्वा  
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्वा पण्णत्ता । से केणद्वेणं भंते ! एवं बुच्छइ  
जहणोगाहणगाणं मणुस्साणं अणंता पज्वा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहणोगाहणए  
२० मणूसे जहणोगाहणगस्स मणूसस्स दब्बद्वयाते तुल्ले, पदेसद्वयाए तुल्ले, ओगाहणद्व-  
याए तुल्ले, ठितीए तिड्डाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्ववेहिं तिहिं णाणेहिं दोहिं  
अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छड्डाणवडिते ।

[२] उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । नवरं ठितीए सिय हीणे सिय तुल्ले  
सिय अब्महिते-जति हीणे असंखेजतिभागहीणे, अह अैब्महिए असंखेजतिभाग-  
२५ मन्महिते; दो णाणा दो अण्णाणा दो दंसणा ।

[३] अजहणमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । णवरं ओगाहणद्वयाए  
चउड्डाणवडिते, ठितीए चउड्डाणवडिते, आइल्लेहिं चउहिं नाणेहिं छड्डाणवडिते,

१. °पञ्चवंहि ओहिदंसणपज्ववेहि य ढ° मु० ॥ २. अब्मतिए पु२ ॥

केवलणाणपज्जवेहिं तुले, तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिते,  
केवलदंसणपज्जवेहिं तुले ।

४९०. [१] जहण्णठितीयाणं भंते ! मणुस्साणं केवतिया पज्जवा  
पण्णता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति ?  
गोयमा ! जहण्णठितीए मणुस्से जहण्णठितीयस्स मणूस्सस्स दब्बट्टयाए तुले,  
पदेसट्टयाए तुले, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिते, ठितीए तुले, वण्ण-गंध-रस-फास-  
पज्जवेहिं दोहिं अण्णाणेहिं दोहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसठितीए वि । नवरं दो णाणा, दो अण्णाणा, दो दंसणा ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउट्टाणवडिते  
ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, आदिल्लेहिं चउनाणेहिं छट्टाणवडिते, केवलनाण-  
पज्जवेहिं तुले, तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिते, केवलदंसणपज्जवेहिं तुले ।

४९१. [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! मणुस्साणं केवतिया पज्जवा  
पण्णता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति ?  
गोयमा ! जहण्णगुणकालए मणूसे जहण्णगुणकालगस्स मणूस्सस्स दब्बट्टयाए तुले,  
पदेसट्टयाए तुले, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिते, ठितीए चउट्टाणवडिते,  
कालवण्णपज्जवेहिं तुले, अवसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छट्टाणवडिते, चउहिं  
णाणेहिं छट्टाणवडिते, केवलणाणपज्जवेहिं तुले, तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं  
छट्टाणवडिते, केवलदंसणपज्जवेहिं तुले ।

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिते ।

४९२. एवं पंच वण्णा दो गंधा पंच रसा अडु फासा भाणितव्या ।

४९३. [१] जहण्णाभिणिवोहियणाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवतिया  
पज्जवा पण्णता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं  
बुच्चति ? गोयमा ! जहण्णाभिणिवोहियणाणी मणूसे जहण्णाभिणिवोहियणाणिस्स  
मणूस्सस्स दब्बट्टयाए तुले, पदेसट्टयाए तुले, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिते,  
ठितीए चउट्टाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छट्टाणवडिते, आभिणिवोहिय-  
णाणपज्जवेहिं तुले, सुतणाणपज्जवेहिं तुले, दोहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिते ।

१. °कालमणूसे जहण्णगुणकालमणूस्सस्स जे० वी० प्र० ॥

[२] एवं उक्तोसाभिणिवोहियणाणी वि । नवरं आभिणिवोहियणाण-पञ्चेहिं तुले, ठितीए तिद्वाणवडिते, तिहिं णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छद्वाणवडिते ।

[३] अजहण्णमणुक्तोसाभिणिवोहियणाणी जहा उक्तोसाभिणिवोहियणाणी । णवरं ठितीए चउद्वाणवडिते, सद्वाणे छद्वाणवडिते ।

#### ४९४. एवं सुतणाणी वि ।

४९५. [१] जहणोहिणाणीं भंते ! मणुस्साणं केवतिया पञ्चवा पण्णता ? गोयमा ! अणंता पञ्चवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! जहणोहिणाणी मणुस्से जहणोहिणाणिस्स मणूस्सस्स दब्बद्वयाए तुले, पएसद्वयाए तुले, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणवडिते, ठिर्इए तिद्वाणवडिते, वण्ण-गंध-१० रस-फासपञ्चवेहिं दोहिं नाणेहिं छद्वाणवडिए, ओहिणाणपञ्चवेहिं तुले, मणपञ्चवण्णाणपञ्चवेहिं छद्वाणवडिए, तिहिं दंसणेहिं छद्वाणवडिए ।

[२] एवं उक्तोसोहिणाणी वि ।

[३] अजहण्णमणुक्तोसोहिणाणी वि एवं चेव । णवरं सद्वाणे छद्वाणवडिए ।

४९६. जहा ओहिणाणी तहा मणपञ्चवण्णाणी वि भाणितव्वे । नवरं ओगाहणद्वयाए तिद्वाणवडिए । जहा आभिणिवोहियणाणी तहा मतिअण्णाणी सुतअण्णाणी य भाणितव्वे । जहा ओहिणाणी तहा विभंगणाणी वि भाणियव्वे । चकखुदंसणी अचकखुदंसणी य जहा आभिणिवोहियणाणी । ओहिदंसणी जहा ओहिणाणी । जत्थ णाणा तत्थ अण्णाणा णत्थि, जत्थ अण्णाणा तत्थ णाणा णत्थि, जत्थ दंसणा तत्थ णाणा वि अण्णाणा वि ।

४९७. केवलणाणीं भंते ! मणुस्साणं केवतिया पञ्चवा पण्णता ? गोयमा ! अणंता पञ्चवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चइ केवलणाणीं मणुस्साणं अणंता पञ्चवा पण्णता ? गोयमा ! केवलनाणी मणूस्से केवलणाणिस्स मणूस्सस्स दब्बद्वयाए तुले, पेसद्वयाए तुले, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणवडिते, ठितीए तिद्वाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपञ्चवेहिं छद्वाणवडिते, केवलणाणपञ्चवेहिं २५ केवलदंसणपञ्चवेहि य तुले ।

४९८. एवं केवलदंसणी वि मणूस्से भाणियव्वे ।

१. °ए तिद्वाण° मु० ॥ २. णवरं ओगाहणद्वयाए चउद्वाणवडिए, सद्वाणे मु० ॥

[सुत्तं ४९९. ओगाहणाइसु वाणमंतराईं पञ्चवा]

४९९. [१] वाणमंतरा जहा असुरकुमारा ।

[२] एवं जोइसिया वेमाणिया । नवरं सद्गुणे ठितीए तिड्डाणवडिते भाणितब्बे । से तं जीवपञ्चवा ।

[सुत्ताइ ५००-५५८. अजीवपञ्चवा]

५००. अजीवपञ्चवा णं भंते ! कतिविहा पण्णता ? गोयमा ! दुविहा पण्णता । तं जहा-रूविअजीवपञ्चवा य अरूविअजीवपञ्चवा य ।

५०१. अरूविअजीवपञ्चवा णं भंते ! कतिविहा पण्णता ? गोयमा ! दसविहा पण्णता । तं जहा-धम्मत्थिकाए १ धम्मत्थिकायस्स देसे २ धम्मत्थिकायस्स पदेसा ३ अधम्मत्थिकाए ४ अधम्मत्थिकायस्स देसे ५ अधम्मत्थिकायस्स पदेसा ६ आगासत्थिकायस्स देसे ८ आगासत्थिकायस्स पदेसा ९ अद्वासमए १० । १०

५०२. रूविअजीवपञ्चवा णं भंते ! कतिविहा पण्णता ? गोयमा ! चउविहा पण्णता । तं जहा-खंधा १ खंधपदेसा २ खंधपदेसा ३ परमाणुपोगगले ४ ।

५०३. ते णं भंते ! किं संखेज्ञा असंखेज्ञा अणंता ? गोयमा ! नो संखेज्ञा, नो असंखेज्ञा, अणंता । से केण्ट्रेणं भंते ! एवं बुच्चति नो संखेज्ञा, नो असंखेज्ञा, अणंता ? गोयमा ! अणंता परमाणुपोगगला, अणंता दुपदेसिया खंधा जाव अणंता दसपदेसिया खंधा, अणंता संखेजपदेसिया खंधा, अणंता असंखेजपदेसिया खंधा, अणंता अणंतपदेसिया खंधा, से तेण्ट्रेणं गोयमा ! एवं बुच्चति-ते णं नो संखेज्ञा, नो असंखेज्ञा, अणंता । १५ २०

५०४. परमाणुपोगगलाणं भंते ! केवतिया पञ्चवा पण्णता ? गोयमा ! परमाणुपोगगलाणं अणंता पञ्चवा पण्णता । से केण्ट्रेणं भंते ! एवं बुच्चति परमाणुपोगगलाणं अणंता पञ्चवा पण्णता ? गोयमा ! परमाणुपोगगले परमाणुपोगगलस्स दब्बड्डयाते तुळे, पदेसद्बड्डयाते तुळे, ओगाहणड्डयाते तुळे; ठितीए सिय हीणे सिय तुळे सिय अब्महिते-जति हीणे असंखेजतिभागहीणे वा संखेजतिभागहीणे वा संखेजतिगुणहीणे वा असंखेजतिगुणहीणे वा, अह अब्मतिए असंखेजतिभाग-अब्महिए वा संखेजतिभागमब्महिए वा संखेजगुणअब्महिए वा असंखेजगुण-अब्महिते वा; कालवण्णपञ्चवेहिं सिय हीणे सिय तुळे सिय अब्महिए-जति हीणे अणंतभागहीणे वा असंखेजतिभागहीणे वा संखेजभागहीणे वा संखेजगुणहीणे वा २५

असंखेजगुणहीणे वा अणंतगुणहीणे वा, अह अब्महिए अणंतभागमव्भहिते वा असंखेजतिभागमव्भहिए वा संखेजतिभागमव्भहिते वा संखेजगुणमव्भहिए वा असंखेजगुणमव्भहिए वा अणंतगुणमव्भहिए वा; एवं अवसेसवण्ण-गंध-रस-फास-पजवेहिं छट्टाणवडिते, फासा णं सीय-उसिण-निद्ध-लुकखेहिं छट्टाणवडिते, से ५ तेणद्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चति परमाणुपोग्गलाणं अणंता पजवा पण्णता ।

५०५. दुपदेसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पण्णता । से केणद्वेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! दुपदेसिए दुपदेसियस्स दब्बद्वयाए तुले, पदेसद्वयाए तुले; ओगाहणद्वयाए सिय हीणे सिय तुले सिय अब्महिते-जति हीणे पदेसहीणे, अह अब्महिते पदेसमव्भहिते; ठितीए चउट्टाणवडिते, वण्णादीहिं १० उवारिल्लहिं चउहिं फासेहि य छट्टाणवडिते ।

५०६. एवं तिपएसिए वि । नवरं ओगाहणद्वयाए सिय हीणे सिय तुले सिय अब्महिते-जति हीणे पएसहीणे वा दुपएसहीणे वा, अह अब्महिते पएसमव्भहिते वा दुपएसमव्भहिते वा ।

५०७. एवं जाव दसपएसिए । नवरं ओगाहणाए पएसपरिकुडी कायव्वा १५ जाव दसपएसिएँ णवपएसहीणे ति ।

५०८. संखेजपदेसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणद्वेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! संखेजपएसिए खंधे संखेजपएसियस्स खंधस्स दब्बद्वयाए तुले; पदेसद्वयाए सिय हीणे सिय तुले सिय मव्भहिते-जति हीणे संखेजभागहीणे वा संखेजगुणहीणे वा, अह अब्मइए एवं चेव; ओगाहणद्वयाए वि दुट्टाणवडिते, ठितीए २० चउट्टाणवडिते, वण्णादि-उवारिल्लचउफासपजवेहि य छट्टाणवडिते ।

५०९. असंखेजपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणद्वेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! असंखेजपएसिए खंधे असंखेजपएसियस्स खंधस्स दब्बद्वयाए तुले, पएसद्वयाए चउट्टाणवडिते, ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिते, ठितीए चउट्टाणवडिते, वण्णादि-उवारिल्लचउफासेहि य छट्टाणवडिते ।

१. वा । नीलवण्णपजवेहि सिय हीणे सिय तुले सिय अब्मइए-जदि हीणे अणंतभागहीणे वा असंखेजभागहीणे वा संखेजभागहीणे वा संखेजगुणहीणे वा असंखेजगुणहीणे वा अणंतगुणहीणे वा, जहङ्गभइए अणंतभागमव्भइए वा असंखेजभागमव्भइए वा संखेजभागमव्भइए वा संखेजगुणमव्भइए वा असंखेजगुणमव्भइए वा अणंतगुणमव्भतिए वा, एवं अवसेस<sup>०</sup> ध०॥

२. <sup>०</sup>ए । नवरं णव<sup>०</sup> मु०॥

५१०. अणंतपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पञ्चवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! अणंतपएसिए खंवे अणंतपएसियस्स खंखस्स दब्बद्वयाए तुले, पएसद्वयाए छड्डाणवडिते, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणवडिते, ठितीए चउद्वाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपञ्चवेहिं छड्डाणवडिते ।

५११. एगपएसोगाढाणं पोगलाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पञ्चवा पण्णता । ५ से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! एगपएसोगाढ पोगले एगपएसोगाढस्स पोगलस्स दब्बद्वयाए तुले, पएसद्वयाए छड्डाणवडिते, ओगाहणद्वयाते तुले, ठितीए चउद्वाणवडिते, वण्णादि-उवरिल्लचउफासेहि य छड्डाणवडिते ।

५१२. एवं दुपएसोगाढे वि जाव दसपण्सोगाढे ।

५१३. संखेजपएसोगाढाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणद्वेणं १० भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! संखेजपएसोगाढे पोगले संखेजपएसोगाढस्स पोगलस्स दब्बद्वयाए तुले, पएसद्वयाए छड्डाणवडिते, ओगाहणद्वयाए दुड्डाणवडिते, ठितीए चउद्वाणवडिते, वण्णादि-उवरिल्लचउफासेहि य छड्डाणवडिते ।

५१४. असंखेजपएसोगाढाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पञ्चवा । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! असंखेजपएसोगाढे पोगले असंखेजपएसो- १५ गाढस्स पोगलस्स दब्बद्वयाए तुले, पंदेसद्वयाए छड्डाणवडिते, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणवडिते, ठितीए चउद्वाणवडिते, वण्णादि-अट्टफासेहिं छड्डाणवडिते ।

५१५. एगसमयठितीयाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पञ्चवा पण्णता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! एगसमयठितीए पोगले एगसमय- २० ठितीयस्स पोगलस्स दब्बद्वयाए तुले, पएसद्वयाए छड्डाणवडिते, ओगाहणद्वयाते चउद्वाणवडिते, ठितीए तुले, वण्णादि-अट्टफासेहिं छड्डाणवडिते ।

५१६. एवं जाव दससमयठिर्द्दै ।

५१७. संखेजसमयठितीयाणं एवं चेव । नवरं ठितीए दुड्डाणवडिते ।

५१८. असंखेजसमयठितीयाणं एवं चेव । नवरं ठिर्द्दै चउद्वाणवडिते ।

५१९. एगगुणकालगाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पञ्चवा । से केणद्वेणं २५ भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! एगगुणकालए पोगले [ग्रन्थाग्रम् ३०००] एगगुणकालगस्स पोगलस्स दब्बद्वयाए तुले, पएसद्वयाए छड्डाणवडिते, ओगाहण-द्वयाए चउद्वाणवडिते, ठितीए चउद्वाणवडिते, कालवण्णपञ्चवेहिं तुले, अवसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-फासपञ्चवेहिं छड्डाणवडिते, अट्टहिं फासेहिं छड्डाणवडिते ।

५२०. एवं जाव दसगुणकालए ।

५२१. संखेजगुणकालए वि एवं चेव । नवरं सङ्गाणे दुड्डाणवडिते ।

५२२. एवं असंखेजगुणकालए वि । णवरं सङ्गाणे चउड्डाणवडिते ।

५२३. एवं अण्टगुणकालए वि । नवरं सङ्गाणे छड्डाणवडिते ।

५२४. एवं जहा कालवण्णस्स वत्तव्यया भणिया तहा सेसाण वि वण्ण-गंध-रस-फासाण वत्तव्यया भाणितव्वा जाव अण्टगुणलुक्खे ।

५२५. [१] जहणोगाहणगाण भंते ! दुपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अण्टा । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! जहणोगाहणए दुपएसिए खंधे जहणोगाहणगस्स दुपएसियस्स खंधस्स दब्बद्याए तुल्ले, पएसद्याए तुल्ले, १० ओगाहणद्याए तुल्ले, ठितीए चउड्डाणवडिते, कालवण्णपञ्जवेहिं छड्डाणवडिते, सेसवण्ण-गंध-रसपञ्जवेहिं छड्डाणवडिते, सीय-उसिणै-णिद्ध-लुक्खफासपञ्जवेहिं छड्डाणवडिते, से तेणद्वेण गोतमा ! एवं बुच्चति जहणोगाहणगाणं दुपएसियाणं पोगलाणं अण्टा पञ्जवा पण्णता ।

[२] उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव ।

१६ [३] अजहणमणुक्कोसोगाहणओ नत्थि ।

५२६. [१] जहणोगाहणयाण भंते ! तिपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अण्टा पञ्जवा । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! जहा दुपएसिते जहणोगाहणते ।

[२] उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव ।

२० [३] एवं अजहणमणुक्कोसोगाहणए वि ।

५२७. [१] जहणोगाहणयाण भंते ! चउपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहा जहणोगाहणए दुपएसिते तहा जहणोगाहणए चउपएसिते ।

[२] एवं जहा उक्कोसोगाहणए दुपएसिए तहा उक्कोसोगाहणए चउप्प-एसिए वि ।

२५ [३] एवं अजहणमणुक्कोसोगाहणए वि चउप्पएसिते । णवरं ओगाहण-द्याते सिय हीणे सिय तुल्ले सिय मभइए-जति हीणे पएसहीणे, अहड्डभइते पएसभतिए ।

१. °रस-फासपञ्ज° पुर विना ॥ २. °ण-सिणिद्ध° खं० पुर विना ॥ ३. °लुक्खेहि छ° जे० ध० ॥

५२८. एवं जाव दसपणसिए णेयब्वं । णवरमजहणुक्कोसोगाहणए पदेस-परिद्वृती कातच्चा, जाव दसपणसियस्स सत्त पएसा परिवडुन्जंति ।

५२९. [१] जहणोगाहणगाणं भंते ! संखेज्जपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! जहणोगाहणगे संखेज्जपएसिए जहणोगाहणगस्स संखेज्जपएसियस्स दब्वद्वयाते तुले, पएसद्वयाते ढुड्डाणवडिते, ओगाहणद्वयाते तुले, ठितीए चउड्डाणवडिए, वण्णादि-चउफासपञ्जवेहि य छद्वाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसोगाहणए वि ।

[३] अजहणमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । णवरं सद्वाणे ढुड्डाणवडिते ।

५३०. [?] जहणोगाहणगाणं भंते ! असंखेज्जपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! जहणोगाहणए असंखेज्जपएसिए खंधे जहणोगाहणगस्स असंखेज्जपएसियस्स खंधस्स दब्वद्वयाए तुले, पएसद्वयाते चउड्डाणवडिते, ओगाहणद्वयाते तुले, ठितीए चउड्डाणवडिते, वण्णादि-उवरिल्लफासेहि य छद्वाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसोगाहणए वि ।

[३] अजहणमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । नवरं सद्वाणे चउड्डाण-वडिते ।

५३१. [१] जहणोगाहणगाणं भंते ! अणंतपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चइ ? गोयमा ! जहणोगाहणए अणंत-पएसिए खंधे जहणोगाहणगस्स अणंतपएसियस्स खंधस्स दब्वद्वयाए तुले, पदेसद्वयाए ढुड्डाणवडिते, ओगाहणद्वयाए तुले, ठितीए चउड्डाणवडिते, वण्णादि-उवरिल्लचउफासेहिं छद्वाणवडिए ।

[२] उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । नवरं ठितीए वि तुले ।

[३] अजहणमणुक्कोसोगाहणगाणं भंते ! अणंतपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणद्वेण ? गोयमा ! अजहणमणुक्कोसोगाहणए अणंतपएसिए खंधे अजहणमणुक्कोसोगाहणगस्स अणंतपदेसियस्स खंधस्स दब्वद्वयाए तुले, पदेसद्वयाए ढुड्डाणवडिते, ओगाहणद्वयाए चउड्डाणवडिए, ठितीए चउड्डाणवडिते, वण्णादि-अड्फासेहिं छद्वाणवडिते ।

५३२. [१] जहण्णठितीयाणं भंते ! परमाणुपोगगलाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणदेणं ? गोयमा ! जहण्णठितीए परमाणुपोगगले जहण्णठितीयस्स परमाणुपोगगलस्स दब्बड्याए तुले, पदेसड्याए तुले, ओगाहणड्याए तुले, ठितीए तुले, वणादि-दुफासेहि य छट्टाणवडिते ।

६ [२] एवं उक्कोसठितीए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउट्टाणवडिते ।

५३३. [१] जहण्णठितीयाणं दुपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणदेणं भंते ! ? गोयमा ! जहण्णठितीए दुपएसिते जहण्णठितीयस्स दब्बड्याए तुले, पदेसड्याए तुले; ओगाहणड्याए सिय हीणे सिय तुले सिय १० अन्महिए—जति हीणे पदेसहीणे, अह अन्मतिए पदेसन्मतिते; ठितीए तुले, वणादि-चउप्पासेहि य छट्टाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसठितीए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउट्टाणवडिते ।

५३४. एवं जाव दसपदेसिते । नवरं पदेसपरिखुड्डी कातव्वा । ओगाहण-१५ ड्याए तिसु वि गमएसु जाव दसपएसिए णव पएसा वड्डिजंति ।

५३५. [१] जहण्णडितीयाणं भंते ! संखेजपदेसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणदेणं ? गोयमा ! जहण्णडितीए संखेजपदेसिए खंधे जहण्णठितीयस्स संखेजपएसियस्स खंधस्स दब्बड्याए तुले, पदेसड्याए दुट्टाणवडिते, ओगाहणड्याए दुट्टाणवडिते, ठितीए तुले, वणादि-चउफासेहि य छट्टाणवडिते ।

२० [२] एवं उक्कोसठितीए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसडितीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउट्टाणवडिते ।

५३६. [१] जहण्णठितीयाणं असंखेजपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणदेणं ? गोयमा ! जहण्णठितीए असंखेजपएसिए जहण्णठितीयस्स असंखेजपदेसियस्स दब्बड्याए तुले, पदेसड्याते चउट्टाणवडिते, ओगाहणड्याते २५ चउट्टाणवडिते, ठितीए तुले, वणादि-उवरिल्लिचउप्पासेहि य छट्टाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसठिईए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउट्टाणवडिते ।

१०. °चडिए [ग्रन्थाशम् ३०००] । एवं ३° मु२ ॥

५३७. [१] जहण्णठितीयाणं अणंतपदेसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणद्वेण ? गोयमा ! जहण्णठितीए अणंतपएसिए जहण्णठितीयस्स अणंतपएसियस्स दब्बद्वयाए तुले, पदेसद्वयाए छद्वाणवडिते, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणवडिते, ठितीए तुले, वण्णादि-उद्वफासेहि य छद्वाणवडिते ।

[२] एवं उक्तोसठितीए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्तोसठितीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउद्वाणवडिते ।

५३८. [१] जहण्णगुणकालयाणं परमाणुपोगलाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणद्वेण ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए परमाणुपोगले जहण्णगुण-कालगस्स परमाणुपोगलस्स दब्बद्वयाए तुले, पदेसद्वयाए तुले, ओगाहणद्वयाए तुले, ठितीए चउद्वाणवडिते, कालवण्णपञ्जवेहि तुले, अवसेसा वण्णा णत्थि, १० गंथ-रस-फासपञ्जवेहि य छद्वाणवडिते ।

[२] एवं उक्तोसगुणकालए वि ।

[३] एवमजहण्णमणुक्तोसगुणकालए वि । णवरं सद्वाणे छद्वाणवडिते ।

५३९. [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! दुपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणद्वेण ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए दुपएसिए जहण्णगुणकालगस्स दुपएसियस्स दब्बद्वयाए तुले, पएसद्वयाए तुले; ओगाहणद्वयाए सिय हीणे सिय तुले सिय अव्रातिते-जति हीणे पदेसहीणे, अह अवभतिए पएसमव्यतिए; ठितीए चउद्वाणवडिते, कालवण्णपञ्जवेहि तुले, अवसेसवण्णादि-उवरिल्लिचउफासेहि य छद्वाणवडिते ।

[२] एवं उक्तोसगुणकालए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्तोसगुणकालए वि एवं चेव । नवरं सद्वाणे छद्वाणवडिते ।

५४०. एवं जाव दसपएसिते । णवरं पएसपरिवृद्धी, ओगाहणा तहेव ।

५४१. [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! संखेजपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणद्वेण ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए संखेजपएसिए २५ जहण्णगुणकालगस्स संखेजपएसियस्स दब्बद्वयाते तुले, पएसद्वयाते दुद्वाणवडिते, ओगाहणद्वयाए दुद्वाणवडिते, ठितीए चउद्वाणवडिते, कालवण्णपञ्जवेहि तुले, अवसेसेहि वण्णादि-उवरिल्लिचउफासेहि य छद्वाणवडिते ।

१. °स-दुक्षास° जे० मु० ॥ २. °पुसियाणं । णवरं ख० ॥ ३. णवरं दसपएस° मु१ पु२ पु३ प्र० ॥

[२] एवं उक्षोसगुणकालए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्षोसगुणकालए वि एवं चेव । नवरं सद्वाणे छद्वाणवडिते ।

५४२. [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! असंखेजपएसियाणं पुच्छा ।

५ गोयमा ! अणंता । से केणद्वेण ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए असंखेजपएसिए जहण्ण-  
गुणकालगस्स असंखेजपएसियस्स दब्बद्वयाए तुल्ले, पदेसद्वयाए चउद्वाणवडिते,  
ठितीए चउद्वाणवडिते, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणवडिए, कालवण्णपञ्जवेहिं तुल्ले,  
अवसेसेहिं वण्णादि-उवरिल्लचउफासेहि य छद्वाणवडिते ।

[२] एवं उक्षोसगुणकालए वि ।

१० [३] अजहण्णमणुक्षोसगुणकालए वि एवं चेव । णवरं सद्वाणे छद्वाणवडिते ।

५४३. [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! अणंतपएसियाणं पुच्छा । गोयमा !

अणंता । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए अणंतपएसिए  
जहण्णगुणकालयस्स अणंतपएसियस्स दब्बद्वयाए तुल्ले, पदेसद्वयाए छद्वाणवडिते,  
१५ ओगाहणद्वयाए चउद्वाणवडिते, ठितीए चउद्वाणवडिते, कालवण्णपञ्जवेहिं तुल्ले,  
अवसेसेहिं वण्णादि-अडुफासेहि य छद्वाणवडिते ।

[२] एवं उक्षोसगुणकालए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्षोसगुणकालए वि एवं चेव । नवरं सद्वाणे छद्वाणवडिते ।

५४४. एवं नील-लोहित-हालिद-सुक्षिल-सुविभगंध-दुविभगंध-तित्त-कहुय-

२० कसाय-अंविल-महुररसपञ्जवेहि य वत्तव्या भाणियव्वा । नवरं परमाणुपोगलस्स  
सुविभगंधस्स दुविभगंधो न भण्णति, दुविभगंधस्स सुविभगंधो न भण्णति,  
तित्तस्स अवसेसा ण भण्णति । एवं कहुयादीण वि । सेसं तं चेव ।

५४५. [१] जहण्णगुणकक्खडाणं अणंतपएसियाणं पुच्छा । गोयमा !

अणंता । से केणद्वेण ? गोयमा ! जहण्णगुणकक्खडे अणंतपएसिए जहण्णगुणंक-  
२५ क्खडस्स अणंतपदेसियस्स दब्बद्वयाए तुल्ले, पदेसद्वयाए छद्वाणवडिते, ओगा-  
हणद्वयाए चउद्वाणवडिते, ठितीए चउद्वाणवडिते, वण्ण-गंध-रसेहिं छद्वाणवडिते,  
कक्खडफासपञ्जवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं सत्तफासपञ्जवेहिं छद्वाणवडिते ।

[२] एवं उक्तोसगुणकवर्खडे वि ।

[३] अजहण्णमणुक्तोसगुणकवर्खडे वि एवं चेव । नवरं सद्गुणे छट्टाणवडिते ।

५४६. एवं मउय-गरुद्य-लहुए वि भाणितव्ये ।

५४७. [१] जहण्णगुणसीयाणं भंते ! परमाणुपोगगलाणं पुच्छा । ६  
गोयमा ! अणंता । से केणद्वेण ? गोयमा ! जहण्णगुणसीते परमाणुपोगले जहण्णगुणसीतस्स परमाणुपोगलस्स दब्वद्वयाए तुले, पदेसद्वयाए तुले, ओगाहणद्वयाए तुले, ठिंतीए चउट्टाणवडिते, वण्ण-गंध-रसेहिं छट्टाणवडिते, सीतफासपञ्चवेहि य तुले, उसिणकासो न भण्णति, णिद्व-लुक्खफासपञ्चवेहिं छट्टाणवडिते ।

[२] एवं उक्तोसगुणसीते वि ।

[३] अजहण्णमणुक्तोसगुणसीते वि एवं चेव । नवरं सद्गुणे छट्टाणवडिते ।

५४८. [१] जहण्णगुणसीयाणं दुपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणद्वेण ? गोयमा ! जहन्नगुणसीते दुपएसिए जहण्णगुणसीयस्स दुपएसियस्स दब्वद्वयाए तुले, पएसद्वयाए तुले; ओगाहणद्वयाए सिय हीणे सिय २५ तुले सिय अन्महिते—जइ हीणे पासहीणे, अह अन्महिए पासमन्मतिए; ठिर्द्व चउट्टाणवडिए, वण्ण-गंध-रसपञ्चवेहिं छट्टाणवडिए, सीतफासपञ्चवेहिं तुले, उसिण-निद्व-लुक्खफासपञ्चवेहिं छट्टाणवडिए ।

[२] एवं उक्तोसगुणसीए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्तोसगुणसीते वि एवं चेव । नवरं सद्गुणे छट्टाणवडिए । २०

५४९. एवं जाव दसपएसिए । नवरं ओगाहणद्वयाए पदेसपरिवड्डी कायव्या जाव दसपएसियस्स णव पएसा वडिजंति ।

५५०. [१] जहण्णगुणसीयाणं संखेजपएसियाणं भंते ! पुच्छा ।  
गोयमा ! अणंता । से केणद्वेण ? गोयमा ! जहण्णगुणसीते संखेजपएसिए २५ जहण्णगुणसीयस्स संखेजपएसियस्स दब्वद्वयाए तुले, पएसद्वयाए दुट्टाणवडिए, ओगाहणद्वयाए दुट्टाणवडिते, ठिंतीए चउट्टाणवडिते, वण्णाईहिं छट्टाणवडिए, सीतफासपञ्चवेहिं तुले, उसिण-निद्व-लुक्खवेहिं छट्टाणवडिए ।

१. सर्वेष्वप्यादर्शेषु दुपदेसिते इति पाठो वर्तते ॥ २. °रस-फासपञ्च° पुर विना ॥

[२] एवं उक्तोसगुणसीए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्तोसगुणसीए वि एवं चेव । नवरं सद्गुणे छट्ठाणवडिए ।

५५१. [१] जहण्णगुणसीताणं असंखेजपएसियाणं पुच्छा । गोयमा !

अणंता । से केणद्वेण ? गोयमा ! जहण्णगुणसीते असंखेजपएसियाण जहण्णगुण-  
५ सीयस्स असंखेजपएसियस्स दब्बद्वयाए तुल्ले, पदेसद्वयाए चउट्टाणवडिते,  
ओगाहणद्वयाए चउट्टाणवडिते, ठितीए चउट्टाणवडिते, वण्णादिपञ्चवेहिं छट्ठाण-  
वडिते, सीतफासपञ्चवेहिं तुल्ले, उसिण-निद्व-लुक्खफासपञ्चवेहिं छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्तोसगुणसीते वि ।

[३] अजहण्णमणुक्तोसगुणसीते वि एवं चेव । नवरं सद्गुणे  
१० छट्ठाणवडिते ।

५५२. [१] जहण्णगुणसीताणं अणंतपदेसियाणं पुच्छा । गोयमा !

अणंता । से केणद्वेण ? गोयमा ! जहण्णगुणसीते अणंतपदेसिए जहण्णगुण-  
१५ सीतस्स अणंतपएसियस्स दब्बद्वयाए तुल्ले, पदेसद्वयाए छट्ठाणवडिते, ओगाहणद्वयाए  
चउट्टाणवडिते, ठितीए चउट्टाणवडिते, वण्णादिपञ्चवेहिं छट्ठाणवडिते, सीतफास-  
२५ पञ्चवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं सत्तफासपञ्चवेहिं छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्तोसगुणसीते वि ।

[३] अजहण्णमणुक्तोसगुणसीते वि एवं चेव । नवरं सद्गुणे छट्ठाणवडिते ।

५५३. एवं उसिणे निद्वे लुक्खे जहा सीते । परमाणुपोग्गलस्स तहेव  
पडिवक्खो, सव्वेसिं न भण्णइ त्ति भाणितव्वं ।

२० ५५४. [१] जहण्णपदेसियाणं भंते ! खंधाणं पुच्छा । गोयमा !  
अणंता । से केणद्वेण ? गोयमा ! जहण्णपदेसिते खंधे जहण्णपएसियस्स खंधस्स  
दब्बद्वयाए तुल्ले, पदेसद्वयाए तुल्ले; ओगाहणद्वयाए सिय हीणे सिय तुल्ले  
२५ सिय मञ्चहिते-जति हीणे पदेसहीणे, अह अञ्चतिए पदेसमञ्चतिए; ठितीए  
चउट्टाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-उवरिलुचउफासपञ्चवेहिं छट्ठाणवडिते ।

२५ [२] उक्तोसपएसियाणं भंते ! खंधाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से  
केणद्वेण ? गोयमा ! उक्तोसपएसिए खंधे उक्तोसपएसियस्स खंधस्स दब्बद्वयाए

१. °तव्व । माघ्रतं सामान्यसूत्रमारन्यते—५५४. [१] जहण° इतिरूप पाठ० सर्वास्वपि  
सूत्रप्रतिषु वर्तते ॥

तुले, पदेसद्वयाए तुले, ओगाहणद्वयाए चउड्डाणवडिते, ठितीए चउड्डाणवडिते, वण्णादि-अटुफासपञ्जवेहि य छड्डाणवडिते ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसपदेसियाणं भंते ! खंधाणं केवतिया पञ्चवा पण्णता ? गोयमा ! अणंता । से केणद्वेण ? गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसपदेसिए ५ खंधे अजहण्णमणुक्कोसपदेसियस्स खंधस्स दब्बद्वयाए तुले, पदेसद्वयाए छड्डाणवडिते, ओगाहणद्वयाए चउड्डाणवडिते, ठितीए चउड्डाणवडिते, वण्णादि-अटुफासपञ्जवेहि य छड्डाणवडिते ।

५५५. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! पोगलाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणद्वेण ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए पोगले जहण्णोगाहणगस्स १० पोगलस्स दब्बद्वयाए तुले, पदेसद्वयाए छड्डाणवडिते, ओगाहणद्वयाए तुले, ठितीए १० चउड्डाणवडिते, वण्णादि-उवरिलुफासेहि य छड्डाणवडिते ।

[२] उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । नवरं ठितीए तुले ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसोगाहणगाणं भंते ! पोगलाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणद्वेण ? गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए पोगले अजहण्णमणुक्को- १५ सोगाहणगस्स पोगलस्स दब्बद्वयाए तुले, पदेसद्वयाए छड्डाणवडिते, ओगाहणद्वयाए चउड्डाणवडिते, ठितीए चउड्डाणवडिते, वण्णादि-अटुफासपञ्जवेहिं छड्डाणवडिते ।

५५६. [१] जहण्णठितीयाणं भंते ! पोगलाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणद्वेण ? गोयमा ! जहण्णठितीए पोगले जहण्णठितीयस्स पोगलस्स २० दब्बद्वयाए तुले, पदेसद्वयाए छड्डाणवडिते, ओगाहणद्वयाए चउड्डाणवडिते, ठितीए २० तुले, वण्णादि-अटुफासपञ्जवेहि य छड्डाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसठितीए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए एवं चेव । नवरं ठितीए वि चतुर्ड्डाणवडिते ।

५५७. [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! पोगलाणं केवतिया पञ्चवा पण्णता ? गोयमा ! अणंता । से केणद्वेण ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए पोगले जहण्णगुणकालयस्स पोगलस्स दब्बद्वयाए तुले, पदेसद्वयाए छड्डाणवडिते, २५ ओगाहणद्वयाए चउड्डाणवडिते, ठितीए चउड्डाणवडिते, कालवण्णपञ्जवेहिं तुले, अवसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-फासपञ्जवेहि य छड्डाणवडिते, से<sup>१</sup> एणद्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चति जहण्णगुणकालयाणं पोगलाणं अणंता पञ्चवा पण्णता ।

१. सेएणद्वेणं पु२ ॥

[२] एवं उक्तोसगुणकालए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्तोसगुणकालए वि एवं चेव । नवरं सद्गुणे छद्गुणवडिते ।

५५८. एवं जहा कालवण्णपञ्जवाणं वत्तव्यया भणिता तहा सेसाण वि  
वण्ण-नांध-रस-फौसपञ्जवाणं वत्तव्यया भाणितव्या, जाव अजहण्णमणुक्तोसलुक्खे  
५ सद्गुणे छद्गुणवडिते । से तं रूविअजीवपञ्जवा । से तं अजीवपञ्जवा ।

॥ पणवणाए भगवईए पंचमं विसेसपर्यं समत्तं ॥

## ६. छटुं वक्तिपयं

[५५९. अद्वारपरवर्णं]

५५९. वारस १ चउन्नीसाइं २ सअंतरं ३ एगसमय ४ कत्तो य ५।  
उब्बटण ६ परभवियाउयं ७ च अडेव आगरिसा ८॥ १८२॥

[सुन्नाइं ५६०-५६८. पठमं वारसदारं]

५

५६०. निरयगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णता ?  
गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता ।

५६१. तिरियगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं  
पण्णता ? गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता ।

५६२. मणुयगती णं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पण्णता ? १०  
गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता ।

५६३. देवगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णता ?  
गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता ।

५६४. सिद्धगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहितौ सिज्जणयाए  
पण्णता ? गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं छम्मासा । १५

५६५. निरयगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिता उब्बटणयाए  
पण्णता ? गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता ।

५६६. तिरियगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिता उब्बटणयाए  
पण्णता ? गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता ।

५६७. मणुयगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उब्बटणाए २०  
पण्णता ? गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता ।

५६८. देवगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उब्बटणाए पण्णता ?  
गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता । दारं १॥

१. वारस य चउन्नीसा सअं० जे० ध० ख० प्र० वी० हा० मु२८०॥ २. °ता उववाएणं  
पण्णता ? ख० ॥

[सुत्ताहं ५६९-६०८. विद्यं चउवीसाहंदारं]

५६९. रयणप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता ।

५७०. सक्करप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं ५ पण्णत्ता ? गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं सत्त रातिंदियाणि ।

५७१. वालुयप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अद्धमासं ।

५७२. पंक्कप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं मासं ।

१० ५७३. धूमप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिता उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं दो मासा ।

५७४. तमापुढविनेरइया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चत्तारि मासा ।

१५ ५७५. अधेसत्तमापुढविनेरइया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं छमासा ।

५७६. असुरकुमारा णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता ।

५७७. णागकुमारा णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता ।

२० ५७८. एवं सुवण्णकुमाराणं विज्जुकुमाराणं अग्निकुमाराणं दीवकुमाराणं उदहिकुमाराणं दिसाकुमाराणं वाउकुमाराणं थणियकुमाराण य पत्तेयं पत्तेयं जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता ।

५७९. पुढविकाइया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! अणुसमयमविरहियं उववाएणं पण्णत्ता ।

२५ ५८०. एवं आउकाइयाण वि तेउकाइयाण वि वाउकाइयाण वि वणप्पइकाइयाण वि अणुसमयं अविरहिया उववाएणं पण्णत्ता ।

५८१. वेइंदिया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं ।

५८२. एवं तेइंदिय-चैउरिंदिया ।

५८३. सम्मुच्छिमपचेंद्रियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ! गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्षोसेणं अंतोमुहुत्तं ।

५८४. गव्भवकंतियपचेंद्रियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्षोसेणं ५ वारस मुहुत्ता ।

५८५. सम्मुच्छिममणुस्सा णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्षोसेणं चउबीसं मुहुत्ता ।

५८६. गव्भवकंतियमणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्षोसेणं वारस मुहुत्ता । १०

५८७. वाणमंतराणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्षोसेणं चउबीसं मुहुत्ता ।

५८८. जोइसियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्षोसेणं चउबीसं मुहुत्ता ।

५८९. सोहम्मकप्पे देवा णं भते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं १५ पण्णत्ता ? गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्षोसेणं चउबीसं मुहुत्ता ।

५९०. ईसाणे कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्षोसेणं चउबीसं मुहुत्ता ।

५९१. सणंकुँमारदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्षोसेणं नव रातिंदियाइं वीसा य मुहुत्ता । २०

५९२. माहिंददेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्षोसेणं वारस राइंदियाइं दस मुहुत्ता ।

५९३. वंभलोए देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्षोसेणं अन्द्रतेवीसं रातिंदियाइं ।

५९४. लंतगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्षोसेणं २५ पूष्टालीसं रातिंदियाइं ।

१. चउरिंदिय-सम्मुच्छिमपचेंद्रियतिरिक्खजोणियाण य जहणेणं एगं ख० ध० म० ॥ २. ५८७ वंतराणं पुच्छा जे० ध० ख० प्र० ॥ ३. °कुमारे दे० पु२ ॥ ४. पण्यालीसं पु२ ॥

५९५. महासुकदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं असीति रातिंदियाइं ।

५९६. सहस्रारदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं रातिंदियसतं ।

५९७. आणयदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्ञा मासा ।

५९८. पाणयदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्ञा मासा ।

५९९. आरणदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं १० संखेज्ञा वासा ।

६००. अच्चुयदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्ञा वासा ।

६०१. हेडिमगेवेज्ञाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्ञाइं वाससताइं ।

६०२. मज्जिमगेवेज्ञाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्ञाइं वाससहस्राइं ।

६०३. उवरिमगेवेज्ञगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखिज्ञाइं वाससतसहस्राइं ।

६०४. विजय-वेजयंत-जयंताऽपराजियदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं २० एगं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्ञं कालं ।

६०५. सब्बट्टसिद्धगदेवा णं भंते ! केवतियं कालं विरहिता उववाएणं पन्नता ? गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स संखेज्ञाइभागं ।

६०६. सिद्धा णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया सिज्जणयाए पण्णता ? गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं छम्मासा ।

२५ ६०७. रयणप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उव्वट्टणाए पण्णता ? गोयमा ! जहणेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउञ्चीसं मुहुता ।

६०८. एवं सिद्धवज्ञा उव्वहृणा वि भाणितव्वा जाव अणुत्तरोववाइय  
ति । नवरं जोइसियन्वेमाणिएसु चयणं ति अहिलावो कायव्वो । दारं २ ॥

[ सुत्ताइ ६०९-६२५. तइयं सअंतरंदारं ]

६०९. नेरइया णं भंते ! किं संतरं उववज्ञंति ? निरंतरं उववज्ञांति ?  
गोयमा ! संतरं पि उववज्ञंति, निरंतरं पि उववज्ञंति ।

६१०. तिरिक्खजोणिया णं भंते ! किं संतरं उववज्ञंति ? निरंतरं  
उववज्ञंति ? गायमा ! संतरं पि उववज्ञंति, निरंतरं पि उववज्ञंति ।

६११. मणुस्सा णं भंते ! किं संतरं उववज्ञंति ? निरंतरं उववज्ञंति ?  
गोयमा ! संतरं पि उववज्ञंति, निरंतरं पि उववज्ञंति ।

६१२. देवा णं भंते ! किं संतरं उववज्ञंति ? निरंतरं उववज्ञंति ?  
गोयमा ! संतरं पि उववज्ञंति, निरंतरं पि उववज्ञंति ।

६१३. रयणप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! किं संतरं उववज्ञंति ? निरंतरं  
उववज्ञंति ? गोयमा ! संतरं पि उववज्ञंति, निरंतरं पि उववज्ञंति ।

६१४. एवं जाव अहेसत्तमाए संतरं पि उववज्ञंति, निरंतरं पि  
उववज्ञंति ।

६१५. असुरकुमारा णं भंते ! देवा किं संतरं उववज्ञंति ? निरंतरं  
उववज्ञंति ? गोयमा ! संतरं पि उववज्ञंति, निरंतरं पि उववज्ञंति ।

६१६. एवं जाव थणियकुमारा संतरं पि उववज्ञंति, निरंतरं पि  
उववज्ञंति ।

६१७. पुढविकाइया णं भंते ! किं संतरं उववज्ञंति ? निरंतरं उववज्ञंति ?  
गोयमा ! नो संतरं उववज्ञंति, निरंतरं उववज्ञंति ।

६१८. एवं जाव वणस्सइकाइया नो संतरं उववज्ञंति, निरंतरं उववज्ञंति ।

६१९. बेइंदिया णं भंते ! किं संतरं उववज्ञंति ? निरंतरं उववज्ञंति ?  
गोयमा ! संतरं पि उववज्ञंति, निरंतरं पि उववज्ञंति ।

६२०. एवं जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणिया ।

६२१. मणुस्सा णं भंते ! किं संतरं उववज्ञंति ? निरंतरं उववज्ञंति ?  
गोयमा ! संतरं पि उववज्ञंति, निरंतरं पि उववज्ञंति ।

६२२. एवं वाणमंतरा जोइसिया सोहम्म-ईसाण-सणंकुमार-माहिंद-  
वंभलोय-लंतग-महासुक्ख-सहस्रार-आण्य-पाण्य-आरण-ञ्चुय-हेद्विमगेवेजग-मज्जिम-  
गेवेजग-उवरिमगेवेजग-विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजित-सवद्विसिद्धदेवा य संतरं पि  
उववज्जंति निरंतरं पि उववज्जंति ।

५ ६२३. सिद्धा णं भंते ! किं संतरं सिज्जंति ? निरंतरं सिज्जंति ? गोयमा !  
संतरं पि सिज्जंति, निरंतरं पि सिज्जंति ।

६२४. नेरइया णं भंते ! किं संतरं उव्वद्वंति ? निरंतरं उव्वद्वंति ?  
गोयमा ! संतरं पि उव्वद्वंति, निरंतरं पि उव्वद्वंति ।

१० ६२५. एवं जहा उववाओ भणितो तहा उव्वद्वणा वि सिद्धवज्ञा  
भाणितव्वा जाव वेमाणिता । नवरं जोइसिय-वेमाणिएसु चयणं ति अभिलावो  
कातव्वो । दारं ३ ॥

[ सुत्ताइं ६२६-६३८, चउत्थं एगसमयदारं ]

६२६. नेरइया णं भंते ! एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? गोयमा !  
जहण्णेणं एगो वा दो वा तिण्ण वा, उक्कोसेणं संखेज्ञा वा असंखेज्ञा वा  
१५ उववज्जंति ।

६२७. एवं जाव अहेसत्तमाए ।

६२८. असुरकुमारा णं भंते ! एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ?  
गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्ण वा, उक्कोसेणं संखेज्ञा वा असंखेज्ञा वा ।

६२९. एवं णागकुमारा जाव थणियकुमारा वि भाणियव्वा ।

२० ६३०. पुढविकाइया णं भंते ! एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? गोयमा !  
अणुसमयं अविरहियं असंखेज्ञा उववज्जंति ।

६३१. एवं जाव वाउकाइया ।

६३२. वणप्फतिकाइया णं भंते ! एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ?  
गोयमा ! सद्ग्राणुववायं पङ्क्ष अणुसमयं अविरहिया अणंता उववज्जंति, परद्वाणु-  
२५ ववायं पङ्क्ष अणुसमयं अविरहिया असंखेज्ञा उववज्जंति ।

६३३. वेइंदिया णं भंते ! केवतिया एगसमएणं उववज्जंति ? गोयमा !  
जहण्णेणं एगो वा दो वा तिण्ण वा, उक्कोसेणं संखेज्ञा वा असंखेज्ञा वा ।

६३४. एवं तेऽन्दिया चउरिंदिया समुच्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणिया गव्यवक्षंतियपंचेदियतिरिक्खजोणिया समुच्छिममणूसा वाणमंतर-जोड़िसिय-सोहम्मी-साण-सणंकुमार-माहिंद-वंभलोय-लंतग-सुक्ष-सहस्सारकप्पदेवा, एते जहा नेरइया ।

६३५. गव्यवक्षंतियमणूस-आणय-पाणय-आरण-अचुय-गेवेज्जग-अणुत्तरो-ववाइया य एते जहणेण एको वा दो वा तिणि वा, उक्कोसेण संखेज्ञा ५ उववज्जंति ।

६३६. सिद्धा णं भंते ! एगस्समएणं केवतिया सिज्जंति ? गोयमा ! जहणेण एको वा दो वा तिणि वा, उक्कोसेण अद्वस्तं ।

६३७. नेरइया णं भंते ! एगस्समएणं केवतिया उव्वद्वंति ? गोयमा ! जहणेण एको वा दो वा तिणि वा, उक्कोसेण संखेज्ञा वा असंखेज्ञा वा उव्वद्वंति । १०

६३८. एवं जहा उववाओ भणितो तहा उव्वद्वणा वि सिद्धवज्ञा माणितव्वा जाव अणुत्तरोववाइया । णवरं जोड़िसिय-वेमाणियाणं चयणेण अभिलावो कातव्वो । दारं ४ ॥

### [सुत्ताइं ६३९-६६५. पंचमं कत्तोदारं]

६३९. [१] नेरइया णं भंते ! कतोहिंतो उववज्जंति ? किं नेरइएहिंतो उववज्जंति ? तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? मणुस्सेहिंतो उववज्जंति ? देवै-हिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! नेरइया नो नेरइएहिंतो उववज्जंति, तिरिक्ख-जोणिएहिंतो उववज्जंति, मणुस्सेहिंतो उववज्जंति, नो देवैहिंतो उववज्जंति । १५

[२] जदि तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं एगिंदियतिरिक्खजोणि-एहिंतो उववज्जंति ? वेऽन्दियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? तेऽन्दियतिरिक्ख-जोणिएहिंतो उववज्जंति ? चउरिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? पंचिंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! नो एगिंदिय० नो वेंदिय० नो तेऽन्दिय० नो चउरिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति । २०

[३] जति पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं जल्यरपंचिंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? थल्यरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? खहयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! जल्यरपंचेदियति-

१. °ग-महासुक० मु२॥ २. °वज्जंति, न असंखेज्ञा उववज्जंति मु०॥

स्विक्खजोणिएहिंतो वि उववज्ञंति, थलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो वि  
उववज्ञंति, खहयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववज्ञंति ।

[४] जइ जलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञंति किं समुच्छि-  
मजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञंति ? गव्भवकंतियजलयरपंचेदिय-  
तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! समुच्छिमजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणि-  
एहिंतो वि उववज्ञंति, गव्भवकंतियजलयरपंचेदिएहिंतो वि उववज्ञंति ।

[५] जति समुच्छिमजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञांति किं पञ्चतयसमुच्छिमजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञांति ? अपञ्चतयसमुच्छिमजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञांति ? गोयमा ! पञ्चतयसमुच्छिम-  
जलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञांति, नो अपञ्चतयसमुच्छिमजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञांति ।

[६] जति गव्वमवक्कंतियजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञंति किं पञ्चतगगव्वमवक्कंतियजलयरपंचेदिएहिंतो उववज्ञंति ? अपञ्चतयगव्वमवक्कंतियजलयर-पंचेदियेहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! पञ्चतयगव्वमवक्कंतियजलयरपंचेदियतिरिक्ख-जोणिएहिंतो उववज्ञंति, नो अपञ्चतगगव्वमवक्कंतियजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणि-एहिंतो उववज्ञंति ।

[७] जह थलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञंति किं चउप्पथ-  
थलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञंति ? परिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्ख-  
जोणिएहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! चउप्पथथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो  
वि उववज्ञंति, परिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववज्ञंति ।

[८] जदि, चउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति किं समुच्छिमेहिंतो उववजंति ? गव्भवक्षंतिएहिंतो उववजंति ? गोयमा ! समुच्छिमचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववजंति, गव्भवक्षंतिय- चउप्पर्णहिंतो वि उववजंति ।

२५ [९] जइ समुच्छिमचउप्पएहिंतो उववजंति किं पञ्जतगसमुच्छिमच-  
उप्पयथलयरपंचेदिएहिंतो उववजंति ? अपञ्जतगसमुच्छिमचउप्पयथलयरपंचेदिए-  
हिंतो उववजंति ? गोयमा ! पञ्जतएहिंतो उववजंति, नो अपञ्जतगसमुच्छिम-  
चउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति ।

[१०] जति गव्वमवकंतियचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणीएहिंतो  
 ३० उवनज्ञति कि संखेजवासाउगगव्वमवकंतियचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणीए-

हिंतो उववज्जंति ? असंखेजवासाउयगब्भवक्षंतियचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्ख-  
जोणिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! संखेजवासाउएहिंता उववज्जंति, नो  
असंखेजवासाउएहिंतो उववज्जंति ।

[११] जति संखेजवासाउयगब्भवक्षंतियचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्ख-  
जोणिएहिंतो उववज्जंति किं पञ्जत्तगसंखेजवासाउयगब्भवक्षंतियचउप्पयथलयरपंचे- ५  
दियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? अपञ्जत्तगसंखेजवासाउयगब्भवक्षंतियचउ-  
प्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! पञ्जत्तएहिंतो  
उववज्जंति, नो अपञ्जत्तयसंखेजवासाउएहिंतो उववज्जंति ।

[१२] जति परिसप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं  
उरपरिसप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? भुयपरिसप्पयथलयर- १०  
पंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्जंति ।

[१३] जदि उरपरिसप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति  
किं सम्मुच्छिमउरपरिसप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ?  
गब्भवक्षंतियउरपरिसप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा !  
सम्मुच्छिमेहिंतो वि उववज्जंति, गब्भवक्षंतिएहिंतो वि उववज्जंति । १५

[१४] जति सम्मुच्छिमउरपरिसप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो  
उववज्जंति किं पञ्जत्तगेहिंतो उववज्जंति ? अपञ्जत्तगेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा !  
पञ्जत्तगसम्मुच्छिमेहिंतो उववज्जंति, नो अपञ्जत्तगसम्मुच्छिमउरपरिसप्पयथलयरपंचे-  
दियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ।

[१५] जति गब्भवक्षंतियउरपरिसप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो २०  
उववज्जंति किं पञ्जत्तएहिंतो ? अपञ्जत्तएहिंतो ? गोयमा ! पञ्जत्तगगब्भवक्षंतिएहिंतो  
उववज्जंति, नो अपञ्जत्तगगब्भवक्षंतियउरपरिसप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो  
उववज्जंति ।

[१६] जति भुयपरिसप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति  
किं सम्मुच्छिमभुयपरिसप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? २५  
गब्भवक्षंतियभुयपरिसप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा !  
दोहिंतो वि उववज्जंति ।

[१७] जति सम्मुच्छिमभुयपरिसप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो  
उववज्जंति किं पञ्जत्तयसम्मुच्छिमभुयपरिसप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो

उववज्ञंति ? अपज्ञतयसमुच्छिमभुयपरिसप्थलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो

उववज्ञंति ? गोयमा ! पज्ञतएहिंतो उववज्ञंति, नो अपज्ञतएहिंतो उववज्ञंति ।

[१८] जति गव्मवक्तंतियभुयपरिसप्थलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो

उववज्ञंति किं पज्ञतएहिंतो उववज्ञंति ? अपज्ञतएहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा !

५ पज्ञतएहिंतो उववज्ञंति, नो अपज्ञतएहिंतो उववज्ञंति ।

[१९] जति खहयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञंति किं सम्मु-

च्छिमखहयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञंति ? गव्मवक्तंतियखहयरपंचे-

दियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्ञंति ।

[२०] जति सम्मुच्छिमखहयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञंति किं

१० पज्ञतएहिंतो उववज्ञंति ? अपज्ञतएहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! पज्ञतएहिंतो

उववज्ञंति, नो अपज्ञतएहिंतो उववज्ञंति ।

[२१] जति गव्मवक्तंतियखहयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञंति

किं संखिज्जवासाउएहिंतो उववज्ञंति ? असंखेज्जवासाउएहिंतो उववज्ञंति ?

गोयमा ! संखिज्जवासाउएहिंतो उववज्ञंति, नो असंखेज्जवासाउएहिंतो उववज्ञंति ।

१५ [२२] जति संखेज्जवासाउयगव्मवक्तंतियखहयरपंचेदियतिरिक्खजोणि-

एहिंतो उववज्ञंति किं पज्ञतएहिंतो उववज्ञंति ? अपज्ञतएहिंतो उववज्ञंति ?

गोयमा ! पज्ञतएहिंतो उववज्ञंति, नो अपज्ञतएहिंतो उववज्ञंति ।

[२३] जति मणुस्सेहिंतो उववज्ञंति किं सम्मुच्छिममणुस्सेहिंतो

उववज्ञंति ? गव्मवक्तंतियमणुस्सेहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! नो सम्मुच्छिम-

२० मणुस्सेहिंतो उववज्ञंति, गव्मवक्तंतियमणुस्सेहिंतो उववज्ञंति ।

[२४] जइ गव्मवक्तंतियमणुस्सेहिंतो उववज्ञंति किं कम्मभूमगगव्मवक्तं-

तियमणुस्सेहिंतो उववज्ञंति ? अकम्मभूमगगव्मवक्तंतियमणुस्सेहिंतो उववज्ञंति ?

अंतरदीवगगव्मवक्तंतियमणुस्सेहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! कम्मभूमगगव्मवक्तं-

तियमणुस्सेहिंतो उववज्ञंति, नो अकम्मभूमगगव्मवक्तंतियमणुस्सेहिंतो उववज्ञंति,

२५ नो अंतरदीवगगव्मवक्तंतियमणुस्सेहिंतो उववज्ञंति ।

[२५] जति कम्मभूमगगव्मवक्तंतियमणुस्सेहिंतो उववज्ञंति किं संखेज्ज-

वासाउएहिंतो उववज्ञंति ? असंखेज्जवासाउएहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! संखेज्ज-

वासाउयकम्मभूमगगव्मवक्तंतियमणूस्सेहिंतो उववज्ञंति, नो असंखेज्जवासाउयकम्म-

भूमगगव्मवक्तंतियमणूस्सेहिंतो उववज्ञंति ।

३० [२६] जति संखेज्जवासाउयकम्मभूमगगव्मवक्तंतियमणूस्सेहिंतो उववज्ञंति

किं पञ्जत्तगेहिंतो उववज्ञंति ? अपञ्जत्तगेहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! पञ्जत्तएहिंतो उववज्ञंति, नो अपञ्जत्तएहिंतो उववज्ञंति ।

६४०. एवं जहा ओहिया उववाइया तहा रथणप्पभापुढविनेरइया वि उववाएयब्बा ।

६४१. सक्करप्पभापुढविनेरइयाणं पुच्छा । गोयमा ! एते वि जहा ५ ओहिया तहेवोववाएयब्बा । नवरं समुच्चिमेहिंतो पडिसेहो कातब्बो ।

६४२. वालुयप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! कतोहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! जहा सक्करप्पभापुढविनेरइया । नवरं भुयपरिसप्पेहिंतो वि पडिसेहो कातब्बो ।

६४३. पंक्कप्पभापुढविनेरइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहा वालुयप्पभा-पुढविनेरइया । नवरं खहयरेहिंतो वि पडिसेहो कातब्बो । १०

६४४. धूमप्पभापुढविनेरइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहा पंक्कप्पभापुढवि-नेरइया । नवरं चउप्पएहिंतो वि पडिसेहो कातब्बो ।

६४५. [१] तमापुढविनेरइया णं भंते ! कतोहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! जहा धूमप्पभापुढविनेरइया ! नवरं थैलयरेहिंतो वि पडिसेहो कातब्बो ।

[२] इमेणं अभिलावेणं—जति पंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञंति १५ किं जलयरपंचेदिएहिंतो उववज्ञंति ? थलयरपंचेदिएहिंतो उववज्ञंति ? खहयर-पंचिदिएहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! जलयरपंचेदिएहिंतो उववज्ञंति, नो थलयरेहिंतो नो खहयरेहिंतो उववज्ञंति ।

[३] जति मणुस्सेहिंतो उववज्ञंति किं कम्मभूमएहिंतो अकम्मभूमएहिंतो २० अंतरदीवएहिंतो ? गोयमा ! कम्मभूमएहिंतो उववज्ञंति, नो अकम्मभूमएहिंतो उववज्ञंति, नो अंतरदीवएहिंतो ।

[४] जति कम्मभूमएहिंतो उववज्ञंति किं संखेजवासाउएहिंतो असंखेज-वासाउएहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! संखेजवासाउएहिंतो उववज्ञंति, नो असंखेजवासाउएहिंतो उववज्ञंति ।

[५] जति संखेजवासाउएहिंतो उववज्ञंति किं पञ्जत्तएहिंतो उववज्ञंति ? २५ अपञ्जत्तएहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! पञ्जत्तएहिंतो उववज्ञंति, नो अपञ्जत्तएहिंतो ।

[६] जति पञ्जत्तयसंखेजवासाउयकम्मभूमएहिंतो उववज्ञंति किं इत्थीहिंतो

१. “उरपरिसप्पेहिंतो” इति पु२प्रतौ टिप्पणी ॥

उववज्जंति ? पुरिसेहिंतो उववज्जंति ? नपुंसएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा !  
इत्थीहिंतो वि उववज्जंति, पुरिसेहिंतो वि उववज्जंति, नपुंसएहिंतो वि उववज्जंति ।

६४६. अधेसत्तमापुढविनेरइया णं भंते ! कतोहिंतो उववज्जंति ? गोयमा !  
एवं चेव । नवरं इत्थीहिंतो [वि] पडिसेधो कातव्यो ।

५ ६४७. अस्सण्णी खलु पढमं, दोचं च सिरीसिवा, तद्य पक्खी ।  
सीहा जंति चउत्थिय, उरगा पुण पंचमी पुढविं ॥ १८३ ॥  
छट्टि च इत्थियाओ, मच्छा मणुया य सत्तमिं पुढविं ।  
एसो परमुववाओ वोधव्यो नरयपुढवीणं ॥ १८४ ॥

६४८. असुरकुमारा णं भंते ! कतोहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! नो  
१० नेरइएहिंतो उववज्जंति, तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, मणुएहिंतो उववज्जंति,  
नो देवेहिंतो उववज्जंति । एवं जेहिंतो नेरइयाणं उववाओ तेहिंतो असुरकुमाराण  
वि भाणितव्यो । नवरं असंखेजवासाउय-अकम्मभूमग-अंतरदीवगमणुस्स-  
तिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववज्जंति । सेसं तं चेव ।

६४९. एवं जाव थणियकुमारा ।

१५ ६५०. [१] पुढविकाइया णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ? किं  
नेरइएहिंतो जाव देवेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! नो नेरइएहिंतो उववज्जंति,  
तिरिक्खजोणिएहिंतो मणुयजोणिएहिंतो देवेहिंतो वि उववज्जंति ।

२० [२] जति तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं एगिंदियतिरिक्खजोणिए-  
हिंतो उववज्जंति ? जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! एगिंदिय-  
तिरिक्खजोणिएहिंतो वि जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववज्जंति ।

[३] जति एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं पुढविकाइएहिंतो  
जाव वणप्फइकाइएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! पुढविकाइएहिंतो वि जाव वण-  
प्फइकाइएहिंतो वि उववज्जंति ।

२५ [४] जति पुढविकाइएहिंतो उववज्जंति किं सुहुमपुढविकाइएहिंतो  
उववज्जंति ? वादरपुढविकाइएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्जंति ।

[५] जति सुहुमपुढविकाइएहिंतो उववज्जंति किं पञ्चत्सुहुमपुढविकाइ-  
एहिंतो उववज्जंति ? अपञ्चत्सुहुमपुढविकाइएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! दोहिंतो  
वि उववज्जंति ।

१. पंचमिं म० ल० । पंचमं पुर ॥ २. °एहिंतो जाव देवे° पुर ॥

[६] जति वादरपुढविकाइएहिंतो उववज्ञंति किं पञ्चतएहिंतो अपञ्चत-  
एहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्ञंति ।

[७] एवं जाव वणप्पतिकाइया चउक्कण्णं भेदेण उववाएयच्चा ।

[८] जति वेइंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञंति किं पञ्चतयवेइंदिएहिंतो  
उववज्ञंति ? अपञ्चतयवेइंदिएहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्ञंति । ५

[९] एवं तेइंदिय-चउरिंदिएहिंतो वि उववज्ञंति ।

[१०] जति पंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञंति किं जलयरपंचेंदिये-  
हिंतो उववज्ञंति ? एवं जेहिंतो नेरइयाणं उववाओ भणितो तेहिंतो एतेसिं पि  
भाणितच्चो । नवरं पञ्चतग-अपञ्चतगेहिंतो वि उववज्ञंति, सेसं तं चेव ।

[११] जति मणुस्सोहिंतो उववज्ञंति किं सम्मुच्छममण्णसेहिंतो उववज्ञंति ?  
भवभवक्कंतियमण्णसेहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! दोहितो वि उववज्ञंति । १०

[१२] जति गव्वमवक्कंतियमण्णसेहिंतो उववज्ञंति किं कम्मभूमगगव्वमव-  
क्कंतियमण्णसेहिंतो उववज्ञंति ? अकम्मभूमगगव्वमवक्कंतियमण्णसेहिंतो उववज्ञंति ?  
सेसं जहा नेरइयाणं (सु. ६३९ [४-२६]) । नवरं अपञ्चतएहिंतो वि उववज्ञंति ।

[१३] जति देवेहिंतो उववज्ञंति किं भवणवासि-वाणमंतर-जोइसिय-  
वेमाणिएहिंतो ? गोयमा ! भवणवासिदेवेहिंतो वि उववज्ञंति जाव वेमाणिय-  
देवेहिंतो वि उववज्ञंति । १५

[१४] जति भवणवासिदेवेहिंतो उववज्ञंति किं असुरकुमारदेवेहिंतो जाव  
यणियकुमारदेवेहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! असुरकुमारदेवेहिंतो वि जाव  
यणियकुमारदेवेहिंतो वि उववज्ञंति । २०

[१५] जति वाणमंतरेहिंतो उववज्ञंति किं पिसाएहिंतो जाव गंधवेहिंतो  
उववज्ञंति ? गोयमा ! पिसाएहिंतो वि जाव गंधवेहिंतो वि उववज्ञंति ।

[१६] जइ जोइसियदेवेहिंतो उववज्ञंति किं चंदविमाणेहिंतो जाव  
ताराविमाणेहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! चंदविमाणजोइसियदेवेहिंतो वि जाव  
ताराविमाणजोइसियदेवेहिंतो वि उववज्ञंति । २५

[१७] जति वेमाणियदेवेहिंतो उववज्ञंति किं कप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो  
उववज्ञंति ? कप्पातीतगवेमाणियदेवेहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! कप्पोवगवेमाणि-  
यदेवेहिंतो उववज्ञंति, नो कप्पातीयवेमाणियदेवेहिंतो उववज्ञंति ।

[१८] जति कप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति किं सोहम्मेहिंतो जाव अच्चुएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! सोहम्मीसाणेहिंतो उववज्जंति, नो सणंकुमार जाव अच्चुएहिंतो उववज्जंति ।

६५१. एवं आउक्काइया वि ।

६५२. एवं तेउ-वाऊ वि । नवरं देववज्जेहिंतो उववज्जंति ।

६५३. वणस्सइकाइया जहा पुढविकाइया ।

६५४. वेइंदिय-तेइंदिय-चउरेंदिया एते जहा तेउ-वाऊ देववज्जेहिंतो भाणितव्वा ।

६५५. [१] पंचेंदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! कतोहिंतो उववज्जंति ?

१० किं नेरइएहिंतो उववज्जंति ? जाव देवेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! नेरइएहिंतो वि तिरिक्खजोणिएहिंतो वि मणूसेहिंतो वि देवेहिंतो वि उववज्जंति ।

[२] जति नेरइएहिंतो उववज्जंति किं र्यणप्पभापुढविनेरइएहिंतो उववज्जंति ? जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! र्यणप्पभापुढविनेरइएहिंतो वि जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो वि उववज्जंति ।

१५ [३] जति तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं एगिंदिएहिंतो उववज्जंति ? जाव पंचेंदिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! एगिंदिएहिंतो वि जाव पंचेंदिएहिंतो वि उववज्जंति ।

[४] जति एगिंदिएहिंतो उववज्जंति किं पुढविकाइएहिंतो उववज्जंति ? एवं जहा पुढविकाइयाणं उववाओ भणितो तहेव एएसिं पि भाणितव्वो । नवरं देवेहिंतो जाव सहस्सारकप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो वि उववज्जंति, नो आणयकप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो जाव अच्चुएहिंतो वि उववज्जंति ।

६५६. [१] मणुस्सा णं भंते ! कतोहिंतो उववज्जंति ? किं नेरइएहिंतो जाव देवेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! नेरइएहिंतो वि उववज्जंति जाव देवेहिंतो वि उववज्जंति ।

२५ [२] जति नेरइएहिंतो उववज्जंति किं र्यणप्पभापुढविनेरइएहिंतो जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! रत्णप्पभापुढविनेरइएहिंतो वि जाव तमापुढविनेरइएहिंतो वि उववज्जंति, नो अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो उववज्जंति ।

[३] जति तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञंति किं एगिंदियतिरिक्खजोणिए-  
हिंतो उववज्ञंति ? एवं जेहिंतो पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं उववाओ भणितो तेहिंतो  
मणुस्साण वि णिरवसेसो भाणितव्वो । नवरं अधेसत्तमापुढविनेरइय-तेउ-वाउका-  
इएहिंतो ण उववज्ञंति । सच्चदेवेहिंतो वि उववज्ञावेयव्वा जाव कप्पातीतगवेमा-  
णिय-सच्चडुसिद्धदेवेहिंतो वि उववज्ञावेयव्वा ।

५

६५७. वाणमंतरदेवा णं भंते ! कओहिंतो उववज्ञंति ? किं नेरइएहिंतो  
जाव देवेहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! जेहिंतो असुरकुमारा ।

६५८. जोइसियदेवा णं भंते ! कतोहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! एवं चेव ।  
नवरं समुच्छिमअसंखेजवासाउयखहयरै-अंतरदीवमणुस्सवज्ञेहिंतो उववज्ञावेयव्वा ।

६५९. एवं चेव वेमाणिया वि सोहमीसाणगा भाणितव्वा ।

१०

६६०. एवं सणंकुमारगा वि । णवरं असंखेजवासाउयअकम्मभूमगवज्ञे-  
हिंतो उववज्ञंति ।

६६१. एवं जाव सहस्सारकप्पोवगवेमाणियदेवा भाणितव्वा ।

६६२. [१] आणयदेवा णं भंते ! कतोहिंतो उववज्ञंति ? किं नेरइएहिंतो  
जाव देवेहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! नो नेरइएहिंतो उववज्ञंति, नो तिरिक्खजो-  
णिएहिंतो उववज्ञंति, मणुस्सेहिंतो उववज्ञंति, नो देवेहिंतो ।

१५

[२] जति मणुस्सेहिंतो उववज्ञंति किं समुच्छिममणुस्सेहिंतो गव्भवकं-  
तियमणुस्सेहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! गव्भवकंतियमणुस्सेहिंतो उववज्ञंति, नो  
समुच्छिममणुस्सेहिंतो ।

[३] जति गव्भवकंतियमणुस्सेहिंतो उववज्ञंति किं कम्मभूमगेहिंतो  
उववज्ञंति ? अकम्मभूमगेहिंतो उववज्ञंति ? अंतरदीवगेहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा !  
कम्मभूमगगव्भवकंतियमणुस्सेहिंतो उववज्ञंति, नो अकम्मभूमगेहिंतो उववज्ञंति,  
नो अंतरदीवगेहिंतो ।

२०

[४] जइ कम्मभूमगगव्भवकंतियमणुस्सेहिंतो उववज्ञंति किं संखेजवासा-  
उयेहिंतो उववज्ञंति ? असंखेजवासाउएहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! संखेजवासा-  
उएहिंतो, नो असंखेजवासाउएहिंतो उववज्ञंति ।

२५

१. °रा तेहिंतो वाणमंतरा उववज्ञावेयव्वा प्र० मु० ॥ २. °वज्ञंति ? किं नेरइएहिंतो ?  
किं तिरिक्खजोणिएहिंतो ? किं मणुस्सेहिंतो ? किं देवेहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! मु२स० ॥

३. °रंचेदियतिरिक्खजोणिवज्ञेहिंतो अंतरदीव° पु२सं० ॥ ४. एवं वेमा° खं० म० पु२॥

[५] जति संखेजवासाउयकम्भूमगग्वभवकंतियमणुसेहिंतो उववज्ञंति किं पज्जतएहिंतो अपज्जतएहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! पज्जतगसंखेजवासाउयकम्भूमगग्वभवकंतियमणूसेहिंतो उववज्ञंति, णो अपज्जतएहिंतो ।

[६] जति पज्जतगसंखेजवासाउयकम्भूमगग्वभवकंतियमणूसेहिंतो ५ उववज्ञंति किं सम्मदिद्विपज्जतगसंखेजवासाउयकम्भूमगेहिंतो उववज्ञंति ? मिच्छदिद्विपज्जतगसंखेजवासाउयेहिंतो उववज्ञंति ? सम्मामिच्छदिद्विपज्जतगसंखेजवासाउयकम्भूमगग्वभवकंतियमणुसेहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! सम्मदिद्विपज्जतगसंखेजवासाउयेहिंतो वि उववज्ञंति, मिच्छदिद्विपज्जतगेहिंतो वि उववज्ञंति, णो सम्मामिच्छदिद्विपज्जतगेहिंतो उववज्ञंति ।

[७] जति सम्मदिद्विपज्जतगसंखेजवासाउयकम्भूमगर्ग्वभवकंतियमणु-१० सेहिंतो उववज्ञंति किं संजतसम्मदिद्वीहिंतो ? असंजतसम्मदिद्विपज्जतएहिंतो ? संजयासंजयसम्मदिद्विपज्जतगसंखेजेहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! तीहिंतो वि उववज्ञंति ।

६६३. एवं जाव अन्नुओ कप्पो ।

६६४. एवं गेवेजगदेवा वि । णवरं असंजत-संजतासंजतेहिंतो वि एते पडिसेहेयव्या ।

६६५. [१] एवं जहेव गेवेजगदेवा तहेव अणुत्तरोववाइया वि । णवरं इमं णाणतं-संजया चेव ।

[२] जति संजतसम्मदिद्विपज्जतसंखेजवासाउयकम्भूमगग्वभवकंतियम-२० णुसेहिंतो उववज्ञंति किं पमत्तसंजतसम्मदिद्विपज्जतएहिंतो अपमत्तसंजतेहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! अपमत्तसंजएहिंतो उववज्ञंति, णो पमत्तसंजएहिंतो उववज्ञंति ।

[३] जति अपमत्तसंजएहिंतो उववज्ञंति किं इड्डिपत्तअपमत्तसंजतेहिंतो उववज्ञंति ? अणिड्डिपत्तअपमत्तसंजतेहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! दोहिंतो वि २५ उववज्ञंति । दारं ५ ॥

[सुत्ताइ ६६६ - ६७६. छट्टं उच्चदृष्णादारं ]

६६६. [१] नेरइया णं भते ! अणंतरं उच्चदृष्टा कहिं गच्छंति ? कहिं उववज्ञंति ? किं नेरइएसु उववज्ञंति ? तिरिक्खजोणिएसु उववज्ञंति ?

मणुस्सेसु उववज्जंति ? देवेसु उववज्जंति ? गोयमा ! णो नेरइएसु उववज्जंति, तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति, मणुस्सेसु उववज्जंति, नो देवेसु उववज्जंति ।

[२] जति तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति किं एगिंदिय जाव पंचेंदिय-  
तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति ? गोयमा ! नो एगिंदिएसु जाव नो चउरिंदिएसु  
उववज्जंति, पंचिंदिएसु उववज्जंति । ५

[३] एवं जेहिंतो उववाओ भणितो तेसु उव्वद्धुणा वि भाणितव्वा ।  
णवरं सम्मुच्छिमेसु ण उववज्जंति ।

६६७. एवं सब्बपुढ्वीसुं भाणितव्वं । नवरं अहेसत्तमाओ मणुस्सेसु ण  
उववज्जंति ।

६६८. [१] असुरकुमारा णं भंते ! अणंतरं उव्वद्धिता कहिं गच्छंति ? १०  
कहिं उववज्जंति ? किं नेरइएसु उववज्जंति ? जाव देवेसु उववज्जंति ? गोयमा !  
णो नेरइएसु उववज्जंति, तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति, मणुस्सेसु उववज्जंति, नो  
देवेसु उववज्जंति ।

[२] जइ तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति किं एगिंदिएसु जाव पंचेंदिय-  
तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति ? गोयमा ! एगिंदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति, नो  
चेइंदिएसु [ग्रन्थाघ्रम् ३५००] जाव नो चउरिंदिएसु उववज्जंति, पंचेंदियतिरि-  
क्खजोणिएसु उववज्जंति । १५

[३] जति एगिंदिएसु उववज्जंति किं पुढविकाइयएगिंदिएसु जाव  
वणस्सइकाइयएगिंदिएसु उववज्जंति ? गोयमा ! पुढविकाइयएगिंदिएसु वि  
आउकाइयएगिंदिएसु वि उववज्जंति, नो तेउकाइएसु नो वाउकाइएसु उववज्जंति,  
वणस्सइकाइएसु उववज्जंति । २०

[४] जति पुढविकाइएसु उववज्जंति किं सुहुमपुढविकाइएसु उववज्जंति ?  
वादरपुढविकाइएसु उववज्जंति ? गोयमा ! वादरपुढविकाइएसु उववज्जंति, नो  
सुहुमपुढविकाइएसु ।

[५] जइ वादरपुढविकाइएसु उववज्जंति किं पज्जतगबादरपुढविकाइएसु  
उववज्जंति ? अपज्जतयबायरपुढविकाइएसु उववज्जंति ? गोयमा ! पज्जतएसु  
उववज्जंति, नो अपज्जतएसु । २५

[६] एवं आउ-वणस्सतीसु वि भाणितव्वं ।

१. °सु वि भाणितव्वं खं० । °सु णेतव्वं पु१ पु३ ॥

[७] पंचेदियतिरिक्खजोणिय-मणूसेसु य जहा नेरइयाणं उव्वट्टणा समुच्छिमवज्ञा तहा भाणितव्वा ।

[८] एवं जाव थणियकुमारा ।

६६९. [१] पुढविकाइया पं भंते ! अणंतरं उव्वट्टिता कहिं गच्छंति ? ५ कहिं उववज्ञंति ? किं नेरइएसु जाव देवेसु ? गोयमा ! नो नेरइएसु उववज्ञंति तिरिक्खजोणिय-मणूसेसु उववज्ञंति, नो देवेसु ।

[२] एवं जहा एतेसिं चेव उववाओ तहा उव्वट्टणा वि भाणितव्वा ।

६७०. एवं आउ-वणस्सइ-वेइंदिय-तेइंदिय-चउरेंदिया वि ।

६७१. एवं तेऊ वाऊ वि । णवरं मणुस्सवज्जेसु उववज्ञंति ।

१० ६७२. [१] पंचेदियतिरिक्खजोणिया पं भंते ! अणंतरं उव्वट्टिता कहिं गच्छंति कहिं उववज्ञंति ? किं नेरइएसु जाव देवेसु ? गोयमा ! नेरइएसु उववज्ञंति जाव देवेसु उववज्ञंति ।

१५ [२] जदि णेरइएसु उववज्ञंति किं रयणप्पभापुढविनेरइएसु उववज्ञंति जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएसु उववज्ञंति ? गोयमा ! रयणप्पभापुढविनेरइएसु वि उववज्ञंति जाव अधेसत्तमापुढविनेरइएसु वि उववज्ञंति ।

[३] जइ तिरिक्खजोणिएसु उववज्ञंति किं एगिंदिएसु जाव पंचिंदिएसु ? गोयमा ! एगिंदिएसु वि उववज्ञंति जाव पंचेंदिएसु वि उववज्ञंति ।

[४] एवं जहा एतेसिं चेव उववाओ उव्वट्टणा वि तहेव भाणितव्वा । नवरं असंखेजवासाउएसु वि एते उववज्ञंति ।

२० [५] जति मणुस्सेसु उववज्ञंति किं समुच्छिममणुस्सेसु उववज्ञंति गव्भवकंतियमणूसेसु उववज्ञंति ? गोयमा ! दोसु वि उववज्ञंति ।

[६] एवं जहा उववाओ तहेव उव्वट्टणा वि भाणितव्वा । नवरं अकम्म-भूमग-अंतररादीवग-असंखेजवासाउएसु वि एते उववज्ञंति त्ति भाणितव्वं ।

२५ [७] जति देवेसु उववज्ञंति किं भवणैवतीसु उववज्ञंति ? जाव किं वेमाणिएसु उववज्ञंति ? गोयमा ! सव्वेसु चेव उववज्ञंति ।

[८] जति भवणवतीसु उववज्ञंति किं असुरकुमारेसु उववज्ञंति ? जाव थणियकुमारेसु उववज्ञंति ? गोयमा ! सव्वेसु चेव उववज्ञंति ।

१. °सु उववज्ञनि । पूर्वं खं० ॥ २. °णा वि देववज्ञा भाणि° खं० पु२ ॥ ३. °णवासीसु खं० ॥

[९] एवं वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएसु<sup>१</sup> निरंतरं उववज्जंति जाव सहस्सारो कप्पो ति ।

६७३. [१] मणुस्सा णं भंते ! अणंतरं उव्वद्वित्ता कहिं गच्छंति ? कहिं उववज्जंति ? किं नेरइएसु उववज्जंति जाव देवेसु उववज्जंति ? गोयमा ! नेरइएसु वि उववज्जंति जाव देवेसु वि उववज्जंति । ५

[२] एवं निरंतरं सब्बेसु ठाणेसु पुच्छा । गोयमा ! सब्बेसु ठाणेसु उववज्जंति, ण कहिंचि पडिसेहो कायव्वो जाव सब्बद्वगसिञ्चदेवेसु वि उववज्जंति, अत्थेगतिया सिज्जंति चुञ्जंति मुच्चंति परिणिव्वायंति सब्बदुक्खाणं अंतं करेंति ।

६७४. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया सोहमीसाणा य जहा असुरकुमारा । नवरं जोइसियाणं वेमाणियाण य चयंतीति अभिलावो कातव्वो । १०

६७५. सणंकुमारदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहा असुरकुमारा । नवरं एगिंदिएसु ण उववज्जंति । एवं जाव सहस्सारगदेवा ।

६७६. आणयै जाव अणुत्तरोववाइया देवा एवं चेव । णवरं णो तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति, मणूसेसु पञ्चतगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्व-वकंतियमणूसेसु उववज्जंति । दारं ६ ॥ १५

### [सुत्ताइँ ६७७-६८३. सत्तमं परभवियाउयंदारं ]

६७७. नेरइया णं भंते ! कतिभागावसेसाउया परभवियाउयं पैकरिंति ? गोयमा ! णियमा छम्मासावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति ।

६७८. एवं असुरकुमारा वि जाव थणियकुमारा ।

६७९. पुढविकाइया णं भंते ! कतिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति ? गोयमा ! पुढविकाइया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा – सोवक्कमाउया य निस्वक्कमाउया य । तत्थ णं जे ते निस्वक्कमाउया ते णियमा तिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति । तत्थ णं जे ते सोवक्कमाउया ते सिय तिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति, सिय तिभागतिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति, सिय तिभाग-तिभागतिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति । २०

<sup>१</sup> °सु वि नि° खं०॥ २ आणय-पाणय जाव खं०॥ ३ वंधंति इति मलयगिरिटीकाङ्गासारी पाठः, नोपलब्धोऽसावादर्शेषु ॥ २५

६८०. आउन्तेउ-वाउ-वणप्फइकाइयाणं वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियाण  
वि एवं चेव ।

६८१. पंचेंदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! कतिभागावसेसाउया परभविया-  
उयं पकरेंति ? गोयमा ! पंचेंदियतिरिक्खजोणिया दुविहा पन्नत्ता । तं जहा - संखेज-  
वासाउया य असंखेजवासाउया य । तथ्य णं जे ते असंखेजवासाउया ते नियमा  
छमासावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति । तथ्य णं जे ते संखेजवासाउया ते  
दुविहा पण्णत्ता । तं जहा - सोवक्कमाउया य निरुवक्कमाउया य । तथ्य णं जे ते  
निरुवक्कमाउया ते णियमा तिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति । तथ्य णं  
जे ते सोवक्कमाउया ते णं सिय तिभागे परभवियाउयं पकरेंति, सिय तिभागतिभागे  
यं परभवियाउयं पकरेंति, सिय तिभागतिभागतिभागावसेसाउया परभवियाउयं  
पकरेंति ।

६८२. एवं मणूसा वि ।

६८३. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा नेरइया । दारं ७ ॥

[सुत्ताई ६८४-६९२. अड्डुमं आगरिसदारं ]

६८४. कतिविवेणं भंते ! आउयवंधे पण्णत्ते ? गोयमा ! छव्विधे  
आउयवंधे पण्णत्ते । तं जहा-जातिणामणिहत्ताउए १ गइनामनिहत्ताउए २ ठिती-  
नामनिहत्ताउए ३ ओगाहणाणामणिहत्ताउए ४ पदेसणामणिहत्ताउए ५ अणुभा-  
वणामणिहत्ताउए ६ ।

६८५. नेरइयाणं भंते ! कतिविवेआउयवंधे पण्णत्ते ? गोयमा ! छव्विहे  
आउयवंधे पण्णत्ते । तं जहा-जातिनामनिहत्ताउए १ गतिणामनिहत्ताउए २  
ठितीणामणिहत्ताउए ३ ओगाहणानामनिहत्ताउए ४ पदेसणामनिहत्ताउए  
५ अणुभावणामनिहत्ताउए ६ ।

६८६. एवं जाव वेमाणियाणं ।

६८७. जीवा णं भंते ! जातिणामणिहत्ताउयं कतिहिं आगरिसेहिं पकरेंति ?  
गोयमा ! जहणेणं एक्केण वा दोहिं वा तीहिं वा, उक्कोसेणं अड्डहिं ।

६८८. नेरइया णं भंते ! जाइनामनिहत्ताउयं कतिहिं आगरिसेहिं पकरेंति ?  
गोयमा ! जहणेणं एक्केण वा दोहिं वा तीहिं वा, उक्कोसेणं अड्डहिं ।

६८९. एवं जाव वेमाणिया ।

६९०. एवं गतिणामणिहत्ताउए वि ठितीणामनिहत्ताउए वि ओगाहणा-  
णामनिहत्ताउए वि पदेसणामनिहत्ताउए वि अणुभावणामनिहत्ताउए वि ।

६९१. एतेसि णं भंते ! जीवाणं जातिनामनिहत्ताउयं जहण्णेण एकेण  
वा दोहिं वा तीहिं वा उक्षोसेणं अद्वहिं आगरिसेहिं पकरेमाणाणं कतरे कतरेहिंतो  
अप्पा वा वहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थेवा जीवा ५  
जातिणामणिहत्ताउयं अद्वहिं आगरिसेहिं पकरेमाणा, सत्तहिं आगरिसेहिं पकरेमाणा  
संखेजगुणा, छहिं आगरिसेहिं पकरेमाणा संखेजगुणा, एवं पंचहिं संखेजगुणा,  
चउहिं संखेजगुणा, तिहिं संखेजगुणा, दोहिं संखेजगुणा, एरोणं आगरिसेणं  
पगरेमाणा संखेजगुणा ।

६९२. एवं एतेणं अभिलवेणं जाव अणुभावनिहत्ताउयं । एवं एते १०  
छ प्पि य अप्पावहुदंडगा जीवादीया भाणियव्वा । दारं ८ ॥

॥ पष्णवणाए भगवईए छटुं वकंतिपयं समत्तं ॥

## ७. सत्तमं उस्सासपयं

[सुत्तं ६९३. नेरङ्गयाणं उस्सासविरहकालो ]

६९३. नेरङ्गया णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा ? गोयमा ! सततं संतयामेव आणमंति वा पाणमंति ५ वा ऊससंति वा नीससंति वा ।

[सुत्ताइं ६९४-६९६. भवणवासीणं उस्सासविरहकालो ]

६९४. असुरकुमारा णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेण सत्तण्हं थोवाणं, उक्कोसेणं सातिरेगस्स पक्खवस्स वा आणमंति वा जाव नीससंति वा ।

१० ६९५. णागकुमारा णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेण सत्तण्हं थोवाणं, उक्कोसेणं मुहुत्पुहुतस्स ।

६९६. एवं जाव यणियकुमाराणं ।

[६९७-६९८. एग्निदियाईणं उस्सासविरहकालो ]

१५ ६९७. पुढविकाङ्गया णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! वेमायाए आणमंति वा जाव नीससंति वा ।

६९८. एवं जाव मणूसा ।

[सुत्तं ६९९. वाणमंतराणं उस्सासविरहकालो ]

६९९. वाणमंतरा जहा णागकुमारा ।

२० [सुत्तं ७००. जोइसियाणं उस्सासविरहकालो ]

७००. जोइसिया णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेण मुहुत्पुहुतस्स, उक्कोसेण वि मुहुत्पुहुतस्स जाव नीससंति वा ।

[सुत्ताइं ७०१-७२४. वेमाणियाणं उस्सासविरहकालो ]

२५ ७०१. वेमाणिया णं भंते ! केवडकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति

वा ? गोयमा ! जहणेण मुहुत्पुहुत्स्स, उक्कोसेण तेत्तीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७०२. सोहम्मगदेवा णं भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहणेण मुहुत्पुहुत्स्स, उक्कोसेण दोणहं पक्खाणं जाव नीससंति वा । ५

७०३. ईसाणगदेवा णं भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहणेण सातिरेगस्स मुहुत्पुहुत्स्स, उक्कोसेण सातिरेगाणं दोणहं पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७०४. सणंकुमारदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहणेण दोणहं पक्खाणं जाव णीससंति वा, उक्कोसेण १० सत्तणहं पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७०५. माहिंदगदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहणेण सातिरेगाणं दोणहं पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेण सातिरेगाणं सत्तणहं पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७०६. वंभलोगदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा जाव १५ नीससंति वा ? गोयमा ! जहणेण सत्तणहं पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेण दसणहं पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७०७. लंतगदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहणेण दसणहं पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेण २० चोदसणहं पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७०८. महासुक्कदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहणेण चोदसणहं पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेण २५ सत्तरसणहं पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७०९. सहस्सारगदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहणेण सत्तरसणहं पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेण ३० अट्टारसणहं पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७१०. आणयदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा !

जहणेणं अद्वारसणं पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं एक्कूणवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७११. पाण्यदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहणेणं एगूणवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं वीसाए पक्खाणं ५ जाव नीससंति वा ।

७१२. आरणदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहणेणं वीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं एगवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७१३. अच्चुयदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? १० गोयमा ! जहणेणं एकवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं वौवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७१४. हेडिमहिडिमगेविजगदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहन्नेणं वावीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं तेवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७१५. हेडिममज्जिमगेवेजगदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहणेणं तेवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं चउवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७१६. हेडिमउवरिमगेवेजगा णं देवा णं भंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहणेणं चउवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, २० उक्कोसेणं पणुवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७१७. मज्जिमहेडिमगेवेजगा णं भंते ! देवा णं केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहणेणं पणुवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं छव्वीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७१८. मज्जिममज्जिमगेवेजगदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहणेणं छव्वीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, २५ उक्कोसेणं सत्तावीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७१९. मज्जिमउवरिमगेवेजगा णं भंते ! देवा णं केवतिकालस्स जाव

१. पुण्य० म० मु२॥ २. वीसपक्खाणं ख०॥ ३. वावीसं प० ख०॥

नीससंति वा ? गोयमा ! जहणेण सत्तावीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा,  
उक्कोसेण अद्वावीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७२०. उवरिमहेद्विमगेवेज्जगा णं भंते ! देवा णं केवतिकालस्स जाव  
नीससंति वा ? गोयमा ! जहणेण अद्वावीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा,  
उक्कोसेण एगूणतीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा । ५

७२१. उवरिममज्जिमगेवेज्जगा णं भंते ! देवा णं केवतिकालस्स जाव  
नीससंति वा ? गोयमा ! जहणेण एगूणतीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा,  
उक्कोसेण तीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७२२. उवरिमउवरिमगेवेज्जगा णं भंते ! देवा णं केवतिकालस्स जाव  
नीससंति वा ? गोयमा ! जहणेण तीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, १०  
उक्कोसेण एक्तीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७२३. विजय-न्वेजयंत-जयंताऽपराजितविमाणेसु णं भंते ! देवा  
केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहणेण एक्तीसाए पक्खाणं जाव  
नीससंति वा, उक्कोसेण तेत्तीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७२४. सञ्चद्विसिद्धगदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? १५  
गोयमा ! अजहणमणुक्कोसेण तेत्तीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

॥ पणवणाए भगवईए सत्तमं उस्सासपयं समत्तं ॥

## ८. अटुमं सण्णापर्यं

[सुत्तं ७२५. सण्णाभेयपर्वतं]

७२५. कति णं भंते ! सण्णाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! दस सण्णाओ पण्णत्ताओ । तं जहा—आहारसण्णा १ भयसण्णा २ मेहुणसण्णा ३ परिग्रहसण्णा ५ कोहसण्णा ५ माणसण्णा ६ मायासण्णा ७ लोभसण्णा ८ लोगसण्णा ९ ओघसण्णा १० ।

[सुत्ताइं ७२६—७२९. नेरइयाईं सण्णाओ ]

७२६. नेरइयाणं भंते ! कति सण्णाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! दस सण्णाओ पण्णत्ताओ । तं जहा—आहारसण्णा १ भयसण्णा २ मेहुणसण्णा ३ परिग्रहसण्णा ४ कोहसण्णा ५ माणसण्णा ६ मायासण्णा ७ लोभसण्णा ८ लोगसण्णा ९ ओघसण्णा १० ।

७२७. असुरकुमाराणं भंते ! कति सण्णाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! दस सण्णाओ पण्णत्ताओ । तं जहा—आहारसण्णा जाव ओघसण्णा ।

७२८. एवं जाव थणियकुमाराणं ।

७२९. एवं पुढविकाइयाणं वेमाणियावसाणाणं षेयन्वं ।

[सुत्ताइं ७३०—७३१. नेरइयाणं सण्णावियारो ]

७३०. नेरइया णं भंते ! किं आहारसण्णोवउत्ता भयसण्णोवउत्ता मेहुणसण्णोवउत्ता परिग्रहसण्णोवउत्ता ? गोयमा ! ओसैण्णकारणं पङ्क्ख भयसण्णोवउत्ता, संतङ्गभावं पङ्क्ख आहारसण्णोवउत्ता वि जाव परिग्रहसण्णोवउत्ता वि ।

७३१. एतेसि णं भंते ! नेरइयाणं आहारसण्णोवउत्ताणं भयसण्णोवउत्ताणं मेहुणसण्णोवउत्ताणं परिग्रहसण्णोवउत्ताण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्या वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्योवा नेरइया मेहुणसण्णोवउत्ता, आहारसण्णोवउत्ता संखेजगुणा, परिग्रहसण्णोवउत्ता संखेजगुणा, भयसण्णोवउत्ता संखेजगुणा ।

## [ सुत्ताईं ७३२-७३३. तिरिक्खजोणियाणं सण्णावियारो ]

७३२. तिरिक्खजोणियाणं भंते ! किं आहारसण्णोवउत्ता जाव परिग्रह-  
सण्णोवउत्ता ? गोयमा ! ओसैण्णकारणं पडुच्च आहारसण्णोवउत्ता, संतङ्गभावं  
पडुच्च आहारसण्णोवउत्ता वि जाव परिग्रहसण्णोवउत्ता वि ।

७३३. एतेसि णं भंते ! तिरिक्खजोणियाणं आहारसण्णोवउत्ताणं जाव  
परिग्रहसण्णोवउत्ताण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुला वा विसेसाहिया  
वा ? गोयमा ! सञ्चत्थोवा तिरिक्खजोणिया परिग्रहसण्णोवउत्ता, मेहुणसण्णो-  
वउत्ता संखेजगुणा, भयसण्णोवउत्ता संखेजगुणा, आहारसण्णोवउत्ता संखेजगुणा ।

## [ सुत्ताईं ७३४-७३५. मणुस्साणं सण्णावियारो ]

७३४. मणुस्सा णं भंते ! किं आहारसण्णोवउत्ता जाव परिग्रहसण्णोव-  
उत्ता ? गोयमा ! ओसैण्णकारणं पडुच्च मेहुणसण्णोवउत्ता, संततिभावं पडुच्च  
आहारसण्णोवउत्ता वि जाव परिग्रहसण्णोवउत्ता वि ।

७३५. एतेसि णं भंते ! मणुस्साणं आहारसण्णोवउत्ताणं जाव परिग्रह-  
सण्णोवउत्ताण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ?  
गोयमा ! सञ्चत्थोवा मणूस्सा भयसण्णोवउत्ता, आहारसण्णोवउत्ता संखेजगुणा,  
परिग्रहसण्णोवउत्ता संखेजगुणा, मेहुणसण्णोवउत्ता संखेजगुणा ।

## [ सुत्ताईं ७३६-७३७. देवाणं सण्णावियारो ]

७३६. देवाणं भंते ! किं आहारसण्णोवउत्ता जाव परिग्रहसण्णोवउत्ता ?  
गोयमा ! उस्सण्णकारणं पडुच्च परिग्रहसण्णोवउत्ता, संततिभावं पडुच्च आहार-  
सण्णोवउत्ता वि जाव परिग्रहसण्णोवउत्ता वि ।

७३७. एतेसि णं भंते ! देवाणं आहारसण्णोवउत्ताणं जाव परिग्रहस-  
ण्णोवउत्ताण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ?  
गोयमा ! सञ्चत्थोवा देवा आहारसण्णोवउत्ता, भयसण्णोवउत्ता संखेजगुणा,  
मेहुणसण्णोवउत्ता संखेजगुणा, परिग्रहसण्णोवउत्ता संखेजगुणा ।

॥ पण्णवणाष भगवर्द्धए अद्वमं सण्णापयं समत्तं ॥

## ९. णवमं जोणीपयं

[सुन्ताइं ७३८-७५३. नेरइयाइसु सीयाइजोणीओ ]

७३८. कतिविहा णं भंते ! जोणी पण्णता ? गोयमा ! तिविहा जोणी पण्णता ? तं जहा—सीता जोणी १ उसिणा जोणी २ सीतोसिणा जोणी ३ ।

६ ७३९. नेरइयाणं भंते ! किं सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! सीता वि जोणी, उसिणा वि जोणी, नो सीतोसिणा जोणी ।

७४०. असुरकुमाराणं भंते ! किं सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! नो सीता, नो उसिणा, सीतोसिणा जोणी ।

७४१. एवं जाव थणियकुमाराणं ।

१० ७४२. पुढविकाइयाणं भंते ! किं सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! सीता वि जोणी, उसिणा वि जोणी, सीतोसिणा वि जोणी ।

७४३. एवं आउ-वाउ-वणस्सति-वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियाँण वि पत्तेयं भाणियच्चं ।

७४४. तेउक्काइयाणं नो सीता, उसिणा, नो सीतोसिणा ।

१५ ७४५. पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! किं सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! सीता वि जोणी, उसिणा वि जोणी, सीतोसिणा वि जोणी ।

७४६. समुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणियाँणं एवं चेव ।

२० ७४७. गव्भवक्कंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! किं सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! नो सीता जोणी, नो उसिणा जोणी, सीतोसिणा जोणी ।

७४८. मणुस्साणं भंते ! किं सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! सीता वि जोणी, उसिणा वि जोणी, सीतोसिणा वि जोणी ।

७४९. समुच्छिममणुस्साणं भंते ! किं सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! तिविहा वि जोणी ।

२५ ७५०. गव्भवक्कंतियमणुस्साणं भंते ! किं सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! नो सीता जोणी, नो उसिणा जोणी, सीतोसिणा जोणी ।

---

१ °याणं पि प° म° ॥ २ °याण वि एवं जे० ॥

७५१. वाणमंतरदेवाणं भंते ! किं सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! नो सीता, नो उसिणा जोणी, सीतोसिणा जोणी ।

७५२. जोइसिय-त्रेमाणियाण वि एवं चेव ।

७५३. एतेसि णं भंते ! जीवाणं सीतजोणियाणं उसिणजोणियाणं सीतोसिणजोणियाणं अजोणियाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला ५ वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा जीवा सीतोसिणजोणिया, उसिण-जोणिया असंखेजगुणा, अजोणिया अणंतगुणा, सीतजोणिया अणंतगुणा । १ ॥

[सुत्ताइं ७५४-७६३. नेरइयाइसु सचित्ताइजोणीओ]

७५४. कतिविहा णं भंते ! जोणी पण्णत्ता ? गोयमा ! तेविहा जोणी पण्णत्ता । तं जहा-सचित्ता १ अचित्ता २ मीसिया ३ । १०

७५५. नेरइयाणं भंते ! किं सचित्ता जोणी अचित्ता जोणी मीसिया जोणी ? गोयमा ! नो सचित्ता जोणी, अचित्ता जोणी, णो मीसिया जोणी ।

७५६. असुरकुमाराणं भंते ! कि सचित्ता जोणी अचित्ता जोणी मीसिया जोणी ? गोयमा ! नो सचित्ता जोणी, अचित्ता जोणी, नो मीसिया जोणी ।

७५७. एवं जाव थणियकुमाराणं । १५

७५८. पुढविकाइयाणं भंते ! किं सचित्ता जोणी अचित्ता जोणी मीसिया जोणी ? गोयमा ! सचित्ता वि जोणी, अचित्ता वि जोणी, मीसिया वि जोणी ।

७५९. एवं जाव चउरिंदियाणं ।

७६०. समुच्छिमपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं समुच्छिममणुस्साण य एवं चेव । २०

७६१. गव्यवकंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं गव्यवकंतियमणुस्साण य नो सचित्ता, नो अचित्ता, मीसिया जोणी ।

७६२. वाणमंतर-जोइसिय-त्रेमाणियाणं जहा असुरकुमाराणं ।

७६३. एतेसि णं भंते ! जीवाणं सचित्तजोणीणं अचित्तजोणीणं मीसजो-णीणं अजोणीण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा जीवा मीसजोणिया, अचित्तजोणिया असंखेजगुणा, अजोणिया अणंतगुणा, सचित्तजोणिया अणंतगुणा । २ ॥ २५

[सुत्ताइं ७६४-७७२. नेरइयाइसु संबुडाइजोणीओ]

७६४. कतिविहा णं भंते ! जोणी पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा जोणी

पणता । तं जहा—संबुडा जोणी १ वियडा जोणी २ संबुडवियडा जोणी ३ ।

७६५. नेरइयाणं भंते ! किं संबुडा जोणी वियडा जोणी संबुडवियडा जोणी ? गोयमा ! संबुडा जोणी, नो वियडा जोणी, नो संबुडवियडा जोणी ।

७६६. एवं जाव वणस्सइकाइयाणं ।

५ ७६७. वेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! नो संबुडा जोणी, वियडा जोणी, णो संबुडवियडा जोणी ।

७६८. एवं जाव चउरिंदियाणं ।

७६९. समुच्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं समुच्छिमणुस्साण य एवं चेव ।

१० ७७०. गव्भवक्षंतियपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं गव्भवक्षंतियमणुस्साण य नो संबुडा जोणी, नो वियडा जोणी, संबुडवियडा जोणी ।

७७१. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा नेरइयाणं ।

७७२. एतेसि णं भंते ! जीवाणं संबुडजोणियाणं वियडजोणियाणं संबुडवियडजोणियाणं अजोणियाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा १५ विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्योवा जीवा संबुडवियडजोणिया, वियडजोणिया असंखेजगुणा, अजोणिया अणंतगुणा, संबुडजोणिया अणंतगुणा । ३ ॥

[सुन्तं ७७३. मणुस्सेसु तिविहा जोणी]

७७३. [१] कतिविहा णं भंते ! जोणी पणता ? गोयमा ! तिविहा जोणी पणता । तं जहा—कुमुण्णया १ संखावत्ता २ वंसीपत्ता ३ ।

२० [२] कुमुण्णया णं जोणी उत्तमपुरिसमाज्ञणं । कुमुण्णयाए णं जोणीए उत्तमपुरिसा गव्भे वक्कमंति । तं जहा—अरहंता चक्रवट्टी बलदेवा वासुदेवा ।

[३] संखावत्ता णं जोणी इत्थिरयणस्स । संखावत्ताए णं जोणीए वहवे जीवा य पोगला य वक्कमंति विउक्कमंति चयंति उवचयंति, नो चेव णं निष्फज्जंति ।

२५ [४] वंसीपत्ता णं जोणी पिहुजणस्स । वंसीपत्ताए णं जोणीए पिहुज्जेणे गव्भे वक्कमंति । ४ ॥

॥ पणवणाए भगवईए णवमं जोणीपयं समन्तं ॥

<sup>१</sup> °जणो गव्भे वक्कमंति जे०॥

## १० दसमं चरिमपयं

[सुन्नाइं ७७४-७७६. लोगालोगाणं चरिमाचरिमविभागो]

७७४. कति णं भंते ! पुढवीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! अहु पुढवीओ पण्णत्ताओ ! तं जहा-रयणप्पभा १ सक्करप्पभा २ वालुयप्पभा ३ पंकप्पभा ४ धूमप्पभा ५ तमप्पभा ६ तमतमप्पभा ७ ईसीपव्वभारा ८ ।

५

७७५. इमा णं भंते ! रयणप्पभा पुढवी किं चरिमा अचरिमा चरिमाइं अचरिमाइं चरिमंतपदेसा अचरिमंतपदेसा ? गोयमा ! इमा णं रंतणप्पभा पुढवी नो चरिमा नो अचरिमा नो चरिमाइं नो अचरिमाइं नो चरिमंतपदेसा नो अचरिमंतपदेसा, णियमा अचरिमं च चरिमाणि य चरिमंतपदेसा य अचरिमंतपएसा य ।

७७६. एवं जाव अहेसत्तमा पुढवी । सोहम्मादी जाव अणुत्तरविमाणा १० एवं चेव । ईसीपव्वभारा वि एवं चेव । लेगे वि एवं चेव । एवं अलेगे वि ।

[सुन्नाइं ७७७-७८०. चरिमाचरिमपयाणं अप्पवहुत्तं ]

७७७. इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए अचरिमस्स य चरिमाण य चरिमंतपएसाण य अचरिमंतपएसाण य दब्बड्डयाए पेसड्डयाए दब्बड्डपेसड्डयाए १५ कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुळा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवे इमीसे रतणप्पभाए पुढवीए दब्बड्डयाए एगे अचरिमे, चरिमाइं असंखेजगुणाइं, अचरिमं च चरिमाणि य दो वि विसेसाहियाइं । पेसड्डयाए सब्बत्थोवा इमीसे २० रयणप्पभाए पुढवीए चरिमंतपदेसा, अचरिमंतपएसा असंखेजगुणा, चरिमंतपएसा य अचरिमंतपएसा य दो वि विसेसाहिया । दब्बड्डपेसड्डयाए सब्बत्थोवा इमीसे रतणप्पभाए पुढवीए दब्बड्डयाए एगे अचरिमे, चरिमाइं असंखेजगुणाइं, अचरिमं २५ च चरिमाणि य दो वि विसेसाहियाइं, चरिमंतपएसा असंखेजगुणा, अचरिमंतपएसा असंखेजगुणा, चरिमंतपएसा य अचरिमंतपएसा य दो वि विसेसाहिया ।

७७८. एवं जाव अहेसत्तमा । सोहम्मस्स जाव लोगस्स य एवं चेव ।

७७९. अलोगस्स णं भंते ! अचरिमस्स य चरिमाण य चरिमंतपएसाण य अचरिमंतपएसाण य दब्बड्डयाए पेसड्डयाए दब्बड्डपेसड्डयाए कतरे कतरेहिंतो २५

अप्पा वा वहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवे अलोगस्स दब्बद्याए एगे अचरिमे, चरिमाइं असंखेजगुणाइं, अचरिमं च चरिमाणि य दो वि विसेसाहियाइं । पदेसद्याए सब्बत्थोवा अलोगस्स चरिमंतपदेसा, अचरिमंतपदेसा अणंतगुणा, चरिमंतपदेसा य अचरिमंतपदेसा य दो वि विसेसाहिया ।

५ दब्बद्यपदेसद्याए सब्बत्थोवे अलोगस्स दब्बद्याए एगे अचरिमे, चरिमाइं असंखेजगुणाइं, अचरिमं च चरिमाणि य दो वि विसेसाहियाइं, चरिमंतपदेसा असंखेजगुणा, अचरिमंतपदेसा अणंतगुणा, चरिमंतपएसा य अचरिमंतपएसा य दो वि विसेसाहिया ।

७८०. लोगालोगस्स णं भंते ! अचरिमस्स य चरिमाण य चरिमंतपए-  
 १० साण य अचरिमंतपएसाण य दब्बद्याए पदेसद्याए दब्बद्यपदेसद्याए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवे लोगालोगस्स दब्बद्याए एगमेगे अचरिमे, लोगस्स चरिमाइं असंखेजगुणाइं, अलोगस्स चरिमाइं विसेसाधियाइं, लोगस्स य अलोगस्स य अचरिमं च चरिमाणि य दो वि विसेसाधियाइं । पदेसद्याए सब्बत्थोवा लोगस्स चरिमंतपदेसा, अलोगस्स चरिमंतपदेसा विसेसाहिया, लोगस्स अचरिमंतपदेसा असंखेजगुणा, अलोगस्स अचरिमंतपदेसा अणंतगुणा, लोगस्स य अलोगस्स य चरिमंतपदेसा य अचरिमंतपदेसा य दो वि विसेसाहिया । दब्बद्यपदेसद्याए सब्बत्थोवे लोगालोगस्स दब्बद्याए एगमेगे अचरिमे, लोगस्स चरिमाइं असंखेजगुणाइं, अलोगस्स चरिमाइं विसेसाहियाइं, लोगस्स य अलोगस्स य अचरिमं च चरिमाणि य दो वि विसेसाहियाइं, लोगस्स चरिमंतपएसा असंखेजगुणा, अलोगस्स अचरिमंतपएसा असंखेजगुणा, अलोगस्स अचरिमंतपएसा अणंतगुणा, लोगस्स य अलोगस्स य चरिमंतपएसा य अचरिमंतपएसा य दो वि विसेसाहिया, सब्बदब्बा विसेसाहिया, सब्बपएसा अणंतगुणा, सब्बपज्जवा अणंतगुणा ।

[ सुचाइं ७८१-७९०. परमाणुपोग्गलाईं चरिमाचरिमाहविभागो ]

२५ ७८१. परमाणुपोग्गले णं भंते ! किं चरिमे१ अचरिमे२ अवत्तब्बए३ ? चरिमाइं४ अचरिमाइं५ अवत्तब्बयाइं६ ? उदाहु चरिमे य अचरिमे य ७ उदाहु चरिमे य अचरिमाइं८ उदाहु चरिमाइं९ अचरिमे य १० उदाहु चरिमाइं११ अचरिमाइं१२ उदाहु चरिमे य अवत्तब्बए१३ उदाहु चरिमे य अवत्तब्बयाइं१४ उदाहु चरिमाइं१५ अवत्तब्बए१६ य

१३ उदाहु चरिमाइं च अवत्तव्याइं च १४ ? वीया चउभंगी, उदाहु अचरिमे य अवत्तव्यए य १५ उदाहु अचरिमे य अवत्तव्याइं च १६ उदाहु अ-  
चरिमाइं च अवत्तव्यए य १७ उदाहु अचरिमाइं च अवत्तव्याइं च १८ ?  
तइया चउभंगी, उदाहु चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्यए य १९ उदाहु चरिमे य  
अचरिमे य अवत्तव्याइं च २० उदाहु चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्यए य २१  
उदाहु चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्याइं च २२ उदाहु चरिमाइं च  
अचरिमे य अवत्तव्यए य २३ उदाहु चरिमाइं च अचरिमे य अवत्तव्याइं च  
२४ उदाहु चरिमाइं च अचरिमाइं च अवत्तव्यए य २५ उदाहु चरिमाइं च  
अचरिमाइं च अवत्तव्याइं च २६ ? एवं एते छव्वीसं भंगा, गोयमा ! परमा-  
णुपोगले नो चरिमे १ नो अचरिमे २ नियमा अवत्तव्यए [०] ३, सेसा २३ १०  
भंगा पडिसेहेयव्वा ।

७८२. दुपएसिए णं भंते ! खंधे पुच्छा । गोयमा ! दुपएसिए खंधे सिय  
चरिमे [०] १ नो अचरिमे २ सिय अवत्तव्यए [०] ३, सेसा २३ भंगा  
पडिसेहेयव्वा ।

७८३. तिपएसिए णं भंते ! खंधे पुच्छा । गोयमा ! तिपएसिए खंधे १५  
सिय चरिमे [००] १ नो अचरिमे २ सिय अवत्तव्यए [०] ३ नो चरिमाइं ४  
णो अचरिमाइं ५ नो अवत्तव्याइं ६, नो चरिमे य अचरिमे य ७ नो चरिमे य  
अचरिमाइं ८ सिय चरिमाइं च अचरिमे य [०००] ९ नो चरिमाइं च अचरि-  
माइं च १०, सिय चरिमे य अवत्तव्यए य [०००] ११, सेसा १५ भंगा  
पडिसेहेयव्वा । २०

७८४. चउपएसिए णं भंते ! खंधे पुच्छा । गोयमा ! चउपएसिए णं  
खंधे सिय चरिमे [०००] १ नो अचरिमे २ सिय अवत्तव्यए [००] ३ नो  
चरिमाइं ४ नो अचरिमाइं ५ नो अवत्तव्याइं ६, नो चरिमे य अचरिमे  
य ७ नो चरिमे य अचरिमाइं च ८ सिय चरिमाइं च अचरिमे य [००००] ९  
सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च [००००] १०, सिय चरिमे य अवत्तव्यए २५  
य [००००] ११ सिय चरिमे य अवत्तव्याइं च [००००] १२ नो चरिमाइं च  
अवत्तव्यए य १३ नो चरिमाइं च अवत्तव्याइं च १४, नो अचरिमे य  
अवत्तव्यए य १५ नो अचरिमे य अवत्तव्याइं च १६ नो अचरिमाइं च  
अवत्तव्यए य १७ नो अचरिमाइं च अवत्तव्याइं च १८, नो चरिमे य

अचरिमे य अवत्तव्वए य १९ नो चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च २०  
नो चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वए य २१ नो चरिमे य अचरिमाइं च  
अवत्तव्वयाइं च २२ सिय चरिमाइं च अचरिमे य अवत्तव्वए य २३, सेसा ३ भंगा पडिसेहेयव्वा ।

७८५. पंचपएसिए णं भंते ! खंधे पुच्छा । गोयमा ! पंचपएसिए णं खंधे सिय  
चरिमे १ नो अचरिमे २ सिय अवत्तव्वए ३ णो चरिमाइं ४ नो  
अचरिमाइं ५ नो अवत्तव्वयाइं ६, सिय चरिमे य अचरिमे य ७ नो  
चरिमे य अचरिमाइं च ८ सिय चरिमाइं च अचरिमे य ९ सिय  
चरिमाइं च अचरिमाइं च १०, सिय चरिमे य अवत्तव्वए य  
११, सिय चरिमे य अवत्तव्वयाइं च १२ सिय चरिमाइं  
च अवत्तव्वए य १३ नो चरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च १४, णो अचरिमे य  
अवत्तव्वए य १५ नो अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च १६ नो अचरिमाइं च अवत्तव्वए  
य १७ नो अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च १८, नो चरिमे य अचरिमे य  
अवत्तव्वए य १९ नो चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च २० नो चरिमे य  
अचरिमाइं च अवत्तव्वए य २१ नो चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च  
२२ सिय चरिमाइं च अचरिमे य अवत्तव्वए य २३ सिय चरिमाइं  
च अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च २४ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च  
अवत्तव्वए य २५ नो चरिमाइं च अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च २६ ।

७८६. छपएसिए णं भंते ! खंधे पुच्छा । गोयमा ! छपएसिए णं खंधे  
२० सिय चरिमे १ नो अचरिमे २ सिय अवत्तव्वए ३ नो चरिमाइं  
४ नो अचरिमाइं ५ नो अवत्तव्वयाइं ६, सिय चरिमे य अचरिमे य ७  
मिय चरिमे य अचरिमाइं च ८ सिय चरिमाइं च अचरिमे य ९  
९ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च १०, सिय चरिमे य अवत्तव्वए य  
११ मिय चरिमे य अवत्तव्वयाइं च १२ सिय चरिमाइं च

अवत्तव्वए य १३ सिय चरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च १४,  
 नो अचरिमे य अवत्तव्वए य १५ नो अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च  
 १६ नो अचरिमाइं च अवत्तव्वए य १७ नो अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं  
 च १८, सिय चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वए य १९ नो चरिमे य  
 अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च २० नो चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वए य २१  
 नो चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च २२ सिय चरिमाइं च अचरिमे  
 य अवत्तव्वए य २३ सिय चरिमाइं च अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च  
 २४ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च अवत्तव्वए य २५ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च २६ ।

७८७. सत्तपदेसिए ण भंते ! खंधे पुच्छा । गोयमा ! सत्तपदेसिए ण १०  
 खंधे सिय चरिमे १ नो अचरिमे २ सिय अवत्तव्वए ३ नो  
 चरिमाइं ४ नो अचरिमाइं ५ नो अवत्तव्वयाइं ६, सिय चरिमे य अचरिमे य  
 ७ सिय चरिमे य अचरिमाइं च ८ सिय चरिमाइं च  
 अचरिमे य ९ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च १०, सिय चरिमे य  
 अवत्तव्वए य ११ सिय चरिमे य अवत्तव्वयाइं च १२ सिय १५  
 चरिमाइं च अवत्तव्वए य १३ सिय चरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च  
 १४, नो अचरिमे य अवत्तव्वए य १५ नो अचरिमे य अवत्तव्वयाइं  
 च १६ नो अचरिमाइं च अवत्तव्वए य १७ नो अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च  
 १८, सिय चरिमे अचरिमे य अवत्तव्वए य १९ सिय चरिमे य  
 अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च २० सिय चरिमे य अचरिमाइं च २०

अवत्तव्वए य ॥२१॥ नो चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च २२  
 सिय चरिमाइं च अचरिमे य अवत्तव्वए य ॥२३॥ २३ सिय चरिमाइं च  
 अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च ॥२४॥ २४ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च  
 अवत्तव्वए य ॥२५॥ २५ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च  
 २६।

७८८. अडुपदेसिए पं भंते ! खंधे पुच्छा । गोयमा ! अडुपदेसिए खंधे  
 सिय चरिमे ॥१॥ १ णो अचरिम २ सिय अवत्तव्वए ॥२॥ ३ नो चरिमाइं  
 ४ नो अचरिमाइं ५ नो अवत्तव्वयाइं ६, सिय चरिमे य अचरिमे य  
 ७ सिय चरिमे य अचरिमाइं च ॥८॥ ८ सिय चरिमाइं च अचरिमे य  
 ९ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च ॥१०॥ १०, सिय चरिमे य  
 अवत्तव्वए य ॥११॥ ११ सिय चरिमे य अवत्तव्वयाइं च ॥१२॥ १२ सिय  
 चरिमाइं च अवत्तव्वए य ॥१३॥ १३ सिय चरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च  
 १४, नो अचरिमे य अवत्तव्वए य १५ नो अचरिमे य अवत्तव्वयाइं  
 च १६ नो अचरिमाइं च अवत्तव्वए य १७ नो अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च  
 १८, सिय चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वए य ॥१९॥ १९ सिय चरिमे य अचरिमे य  
 अवत्तव्वयाइं च ॥२०॥ २० सिय चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वए य  
 ॥२१॥ २१ सिय चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च ॥२२॥ २२ सिय चरिमाइं च अचरिमे य अवत्तव्वए य ॥२३॥ २३ सिय चरिमाइं च अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च ॥२४॥ २४ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च अवत्तव्वए

य ॥२५॥ २५ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च अवत्तव्याइं च  
॥२६॥ २६ ।

१. चरम-अचरम-अवक्तव्यपदाना एकवचन-बहुवचनाभ्यां असंयोगि-द्विकसंयोगि-  
त्रिकसंयोगिनः पञ्चविंशतिर्भज्ञकाः ।

असंयोगिनः पञ्च भज्ञकाः—

५

एकवचनेन त्रयो भज्ञाः

बहुवचनेन त्रयो भज्ञाः

१ चरमः

४ चरमौ

२ अचरमः

५ अचरमौ

३ अवक्तव्यः

६ अवक्तव्यौ

द्विकसंयोगिनत्तिसृभिश्चतुर्भज्ञीभिर्द्वादश भज्ञकाः—

१०

प्रथमा चतुर्भज्ञी द्वितीया चतुर्भज्ञी तृतीया चतुर्भज्ञी

७ चरमश्च अचरमश्च ११ चरमश्च अवक्तव्यश्च १५ अचरमश्च अवक्तव्यश्च

८ चरमश्च अचरमौ च १२ चरमश्च अवक्तव्यौ च १६ अचरमश्च अवक्तव्यौ च

९ चरमौ च अचरमश्च १३ चरमौ च अवक्तव्यश्च १७ अचरमौ च अवक्तव्यश्च

१० चरमौ च अचरमौ च १४ चरमौ च अवक्तव्यौ च १८ अचरमौ च अवक्तव्यौ च १५

त्रिकसंयोगिनोऽस्यां भज्ञकाः—

१९ चरमश्च अचरमश्च अवक्तव्यश्च २३ चरमौ च अचरमश्च अवक्तव्यश्च

२० चरमश्च अचरमश्च अवक्तव्यौ च २४ चरमौ च अचरमश्च अवक्तव्यौ च

२१ चरमश्च अचरमौ च अवक्तव्यश्च २५ चरमौ च अचरमौ च अवक्तव्यश्च

२२ चरमश्च अचरमौ च अवक्तव्यौ च २६ चरमौ च अचरमौ च अवक्तव्यौ च २०

१. परमाणुपुद्गले केवल तृतीयः ‘अवक्तव्यः’ इत्याद्यस्तृतीय एव भज्ञको  
घटते । अन्ये पञ्चविंशतिर्भज्ञा न घटन्ते ।

२. द्विप्रादेशिके स्कन्धे १ चरमः इति ३ अवक्तव्यः इति च द्वौ भज्ञौ घटेते ।

१ चरमः ॥००॥ ३ अवक्तव्यः ॥००॥ शेषाद्यतुविंशतिर्भज्ञा न घटन्ते ।

३. त्रिप्रादेशिके स्कन्धे चरमादयश्चत्वारो भज्ञाः सम्भवन्ति । १ चरमः ॥००॥ २५

३ अवक्तव्यः ॥००॥ ९ चरमौ च अचरमश्च ॥०००॥ ११ चरमश्च अवक्तव्यश्च

॥००॥ ३ शेषा द्वाविंशतिर्भज्ञा अत्र स्कन्धे नोपवन्ते ।

४. चतुष्प्रादेशिके स्कन्धे चरमादयः सत्त्वैव भज्ञाः समुत्पद्यन्ते । १ चरमश्च  
॥०००॥ ३ अवक्तव्यश्च ॥००॥ ९ चरमौ च अचरमश्च ॥००००॥ १० चरमौ च

अचरमौ च |००००| । ११ चरमश्व अवक्तव्यश्व |००००|०| । १२ चरमश्व अवक्तव्यौ च  
|००|०|०| । २३ चरमौ च अचरमश्व अवक्तव्यश्व |००००|०| । शेषा एकोनविंशतिर्भज्ञा अत्र  
स्कन्धे नोपपद्यन्ते ।

५. पञ्चप्रादेशिके स्कन्धे चरमादय एकादश भज्ञा उपपद्यन्ते । १ चरमः  
|००|०| । ३ अवक्तव्यः |००|०| । ७ चरमश्व अचरमश्व |००|०|०| । ९ चरमौ च अचरमश्व  
|००|०|०| । १० चरमौ च अचरमौ च |००००|०| । ११ चरमश्व अवक्तव्यश्व  
|००|०|०| । १२ चरमश्व अवक्तव्यौ च |००|०|०| । १३ चरमौ च अवक्तव्यश्व  
|००|०|०| । २३ चरमौ च अचरमश्व अवक्तव्यश्व |००|०|०| । २४ चरमौ च  
अचरमश्व अवक्तव्यौ च |००००|०| । २५ चरमौ च अचरमौ च अवक्तव्यश्व |००००|०| ।  
१० शेषा पञ्चदश भज्ञा नात्र घटन्ते ।

६. षट्प्रादेशिके स्कन्धे चरमादयः पञ्चदश भज्ञा उपपद्यन्ते । १ चरमः  
|००|०| । ३ अवक्तव्यः |००|०| । ७ चरमश्व अचरमश्व |००|०|०| । ८ चरमश्व अचरमौ च  
|००|०|०| । ९ चरमौ च अचरमश्व |००००|०| । १० चरमौ च अचरमौ च |००|०|०| ।  
११ चरमश्व अवक्तव्यश्व |००|०|०| । १२ चरमश्व अवक्तव्यौ च |००|०|०| । १३ चरमौ च  
अवक्तव्यश्व |००|०|०| । १४ चरमौ च अवक्तव्यौ च |००|०|०| । १९ चरमश्व अचरमश्व  
अवक्तव्यश्व |००|०|०| । २३ चरमौ च अचरमश्व अवक्तव्यश्व |००|०|०| । २४ चरमौ च  
अचरमश्व अवक्तव्यौ च |००००|०| । २५ चरमौ च अचरमौ च अवक्तव्यश्व  
|००|०|०| । २६ चरमौ च अचरमौ च अवक्तव्यौ च |००००|०| । शेषा एकादश  
भज्ञा निषिद्धा ज्ञातव्याः ।

२० ७. सप्तप्रादेशिके स्कन्धे सप्तदश भज्ञा घटन्ते । १ चरमः |००|०|०| । ३ अवक्तव्यः  
|००|०|०| । ७ चरमश्व अचरमश्व |००|०|०| । ८ चरमश्व अचरमौ च |००|०|०| ।

९ चरमौ च अचरमथ् । १० चरमौ च अचरमौ च । ११ चरमथ्  
अवक्तव्यथ् । १२ चरमथ् अवक्तव्यौ च । १३ चरमौ च अवक्तव्यथ्  
। १४ चरमौ च अवक्तव्यौ च । १९ चरमथ् अचरमथ्  
अवक्तव्यथ् । २० चरमथ् अचरमथ् अवक्तव्यौ च । २१ चरमथ्  
अचरमौ च अवक्तव्यथ् । २३ चरमौ च अचरमथ् अवक्तव्यथ् । २४  
चरमौ च अचरमथ् अवक्तव्यौ च । २५ चरमौ च अचरमौ च  
अवक्तव्यथ् । २६ चरमौ च अचरमौ च अवक्तव्यौ च । शेषा  
नव भज्ञा नात्र घटन्ते ।

C. अष्टपादेशिके स्वन्वेऽष्टादश भज्ञका घटन्ते । १ चरमः । ३  
अवक्तव्यः । ७ चरमथ् अचरमथ् । ८ चरमथ् अचरमौ च । १०  
। ९ चरमौ च अचरमथ् । १० चरमौ च अचरमौ च  
। ११ चरमथ् अवक्तव्यथ् । १२ चरमथ् अवक्तव्यौ च ।  
१३ चरमौ च अवक्तव्यथ् । १४ चरमौ च अवक्तव्यौ च । १९  
चरमथ् अचरमथ् अवक्तव्यथ् । २० चरमथ् अचरमथ् अवक्तव्यौ च  
। २१ चरमथ् अचरमौ च अवक्तव्यथ् । २२ चरमथ् अचरमौ । १५  
च अवक्तव्यौ च । २३ चरमौ च अचरमथ् अवक्तव्यथ् । २४  
चरमौ च अचरमथ् अवक्तव्यौ च । २५ चरमौ च अचरमौ च अवक्तव्यथ्  
। २६ चरमौ च अचरमौ च अवक्तव्यौ च । अत्र  
२, ४, ५, ६, १५, १६, १७, १८ इत्येतेऽष्टौ भज्ञाः प्रतिषिध्यन्त इति ।

७८९. संखेजपएसिए असंखेजपएसिए अणंतपएसिए खंधे जहेव अट्ट्य-  
देसिए तहेव पत्तेयं भाणितव्यं ।

७९०. परमाणुमि य ततिओ पढमो ततिओ य होति दुपदेसे ।

पढमो ततिओ नवमो एकारसमो य तिपदेसे ॥ १८५ ॥

५ पढमो ततिओ नवमो दसमो एक्कारसो य वारसमो ।

भंगा चउप्पदेसे तेवीसइमो य बोद्धब्बो ॥ १८६ ॥

पढमो ततिओ सत्तम नव दस एकार वार तेरसमो ।

तेवीस चउब्बीसो पणुवीसइमो य पंचमए ॥ १८७ ॥

वि चउत्थ पंच छडुं पणरस सोलं च सत्तरडडारं ।

१० वीसेक्कवीस वावीसगं च वज्जेज छडुमि ॥ १८८ ॥

वि चउत्थ पंच छडुं पैण्णर सोलं च सत्तरडडारं ।

वावीसइमविहृणा सत्तपदेसमि खंधन्मि ॥ १८९ ॥

वि चउत्थ पंच छडुं पैण्णर सोलं च सत्तरडडारं ।

एते वज्जिय भंगा सेसा सेसेसु खंधेसु ॥ १९० ॥

१५ [सुत्ताहं ७९१-८०६, संठाणविवक्षाए चरिमाइविभागाइ]

७९१. कति णं भंते ! संठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! पंच संठाणा पण्णत्ता । तं जहा-परिमिंडले १ वडे २ तंसे ३ चउरंसे ४ आयते ५ ।

७९२. परिमिंडला णं भंते ! संठाणा किं संखेज्जा असंखेज्जा अणंता ? गोयमा ! णो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता । एवं जाव आयता ।

२० ७९३. परिमिंडले णं भंते ! संठाणे किं संखेजपएसिए असंखेजपएसिए अणंतपएसिए ? गोयमा ! सिय संखेजपएसिए सिय असंखेजपदेसिए सिय अणंतपदेसिए । एवं जाव आयते ।

२५ ७९४. परिमिंडले णं भंते ! संठाणे संखेजपदेसिए किं संखेजपदेसोगाढे असंखेजपएसोगाढे अणंतपएसोगाढे ? गोयमा ! संखेजपएसोगाढे, नो असंखेज-पएसोगाढे नो अणंतपएसोगाढे । एवं जाव आयते ।

७९५. परिमिंडले णं भंते ! संठाणे असंखेजपदेसिए किं संखेजपदेसोगाढे

१. एकार वारसमओ य । भंगा व० ॥ २-३. पणरस सोलं पु२ पु३ ॥

असंखेजपदेसोगाहे अणंतपएसोगाहे ? गोयमा ! सिय संखेजपएसोगाहे सिय असंखेजपदेसोगाहे, जो अणंतपदेसोगाहे । एवं जाव आयते ।

७९६. परिमंडले ण भंते ! संठाणे अणंतपएसिए किं संखेजपएसोगाहे असंखेजपएसोगाहे अणंतपएसोगाहे ? गोयमा ! सिय संखेजपएसोगाहे सिय असंखेजपएसोगाहे, नो अणंतपएसोगाहे । एवं जाव आयते । ५

७९७. परिमंडले ण भंते ! संठाणे संखेजपदेसिए संखेजपएसोगाहे किं चरिमे अचरिमे चरिमाइं अचरिमाइं चरिमंतपदेसा अचरिमंतपदेसा ? गोयमा ! परिमंडले ण संठाणे संखेजपदेसिए संखेजपदेसोगाहे ना चरिमे नो अचरिमे नो चरिमाइं नो अचरिमाइं नो चरिमंतपदेसा नो अचरिमंतपएसा, नियमा अचरिमं च चरिमाणि य चरिमंतपदेसा य अचरिमंतपदेसा य । एवं जाव आयते । १०

७९८. परिमंडले ण भंते ! संठाणे असंखेजपएसिए संखेजपदेसोगाहे किं चरिमे० पुच्छा । गोयमा ! असंखेजपएसिए संखेजपएसोगाहे जहा संखेजपएसिए (सु. ७९७) । एवं जाव आयते ।

७९९. परिमंडले ण भंते ! संठाणे असंखेजपदेसिते असंखेजपएसोगाहे किं चरिमे० पुच्छा । गोयमा ! असंखेजपदेसिए असंखेजपदेसोगाहे नो चरिमे जहा संखेजपदेसोगाहे (सु. ७९८) । एवं जाव आयते । १५

८००. परिमंडले ण भंते ! संठाणे अणंतपएसिए संखेजपएसोगाहे किं चरिमे० पुच्छा । गोयमा ! तहेव (सु. ७९७) जाव आयते ।

८०१. अणंतपदेसिए असंखेजपदेसोगाहे जहा संखेजपदेसोगाहे (सु. ८००) । एवं जाव आयते । २०

८०२. परिमंडलस्स ण भंते ! संठाणस्स संखेजपएसियस्स संखेजपए-  
सोगाहस्स अचरिमस्स य चरिमाणि य चरिमंतपदेसाणि य अचरिमंतपदेसाणि य  
दब्बडुयाए पदेसडुयाए दब्बडुपदेसडुयाए कतरे कतरेहिंतो अंप्या वा ४ ? गोयमा !  
सब्बत्थोवे परिमंडलस्स संठाणस्स संखेजपदेसियस्स संखेजपदेसोगाहस्स दब्बडुयाए  
एगे अचरिमे १ चरिमाइं संखेजगुणाइं २ अचरिमं च चरिमाणि य दो वि  
विसेसाहियाइं ३ । पदेसडुयाए सब्बत्थोवा परिमंडलस्स संठाणस्स संखेजपदे- २५

१. ‘अप्या वा ४’ इत्यनेन ‘अप्या वा वहुया वा तुळा वा विसेसाहिया वा’ इत्यवबोद्दव्यम्, एवमन्यत्रापि ॥

सियस्स संखेजपदेसोगाढस्स चरिमंतपदेसा १ अचरिमंतपदेसा संखेजगुणा २ चरिमंतपदेसा य अचरिमंतपदेसा य दो वि विसेसाहिया ३ । दब्बडुपदेसद्याए सब्बत्थोवे परिमंडलस्स संठाणस्स संखेजपदेसियस्स संखेजपदेसोगाढस्स दब्बडुयाए एगे अचरिमे १ चरिमाइं संखेजगुणाइं २ अचरिमं च चरिमाणि य दो वि ५ विसेसाहियाइं ३ चरिमंतपदेसा संखेजगुणा ४ अचरिमंतपएसा संखेजगुणा ५ चरिमंतपदेसा य अचरिमंतपदेसा य दो वि विसेसाहिया ६ । एवं वट्टन्तंस-चउरंस-आयएसु वि जोएअब्बं ।

८०३. परिमंडलस्स णं भंते ! संठाणस्स असंखेजपएसियस्स संखेजपए-  
सोगाढस्स अचरिमस्स य चरिमाण य चरिमंतपएसाण य अचरिमंतपएसाण य  
१० दब्बडुयाए पएसद्याए दब्बडुपएसद्याए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा !  
सब्बत्थोवे परिमंडलस्स संठाणस्स असंखेजपएसियस्स संखेजपएसोगाढस्स दब्बडुयाए  
एगे अचरिमे १ चरिमाइं संखेजगुणाइं २ अचरिमं च चरिमाणि य दो वि  
विसेसाहियाइं ३ । पदेसद्याए सब्बत्थोवा परिमंडलस्स संठाणस्स असंखेज-  
पएसियस्स संखेजपएसोगाढस्स चरिमंतपएसा १ अचरिमंतपएसा संखेजगुणा २  
१५ चरिमंतपएसा य अचरिमंतपएसा य दो वि विसेसाहिया ३ । दब्बडुपएसद्याए  
सब्बत्थोवे परिमंडलस्स संठाणस्स असंखेजपएसियस्स संखेजपएसोगाढस्स दब्बडु-  
याए एगे अचरिमे १ चरिमाइं संखेजगुणाइं २ अचरिमं च चरिमाणि य दो वि  
विसेसाहियाइं ३ चरिमंतपएसा संखेजगुणा ४ अचरिमंतपएसा संखेजगुणा ५  
चरिमंतपएसा य अचरिमंतपएसा य दो वि विसेसाहिया ६ । एवं जाव आयते ।

२० ८०४. परिमंडलस्स णं भंते ! संठाणस्स असंखेजपदेसियस्स असंखेज-  
पएसोगाढस्स अचरिमस्स य चरिमाण य चरिमंतपएसाण य अचरिमंतपएसाण य  
दब्बडुयाए पएसद्याए दब्बडुपएसद्याए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा !  
जहा रयणप्पभाए अप्पाबहुयं (सु. ७७७) तहेव णिरवसेसं भाणियब्बं । एवं  
जाव आयते ।

२५ ८०५. परिमंडलस्स णं भंते ! संठाणस्स अणंतपएसियस्स संखेजपए-  
सोगाढस्स अचरिमस्स य ४ दब्बडुयाए ३ कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ?

१. 'अचरिमस्स य ४' इत्यनेन 'अचरिमस्स य चरिमाण य चरिमंतपएसाण य अचरिमंतपए-  
साण य' इत्यववोद्धव्यम् ॥ २. 'दब्बडुयाए ३' इत्यनेन 'दब्बडुयाए पएसद्याए दब्बडुपएस-  
द्याए' इत्यववोद्धव्यम् ॥

गोयमा ! जहा संखेजपएसियस्स संखेजपएसोगाढ़स्स (सु. ८०२)। णवरं संकैमे अणंतगुणा । एवं जाव आयते ।

८०६. परिमंडलस्स णं भंते ! संठाणस्स अणंतपएसियस्स असंखेजपए-  
सोगाढ़स्स अचरिमस्स य ४ जहा रथणप्पभाए (सु. ७७७)। णवरं संकैमे अणंतगुणा । एवं जाव आयते ।

६

[सुत्ताइं ८०७-८०९. गतिचरिमाचरिमाइं]

८०७. जीवे णं भंते ! गतिचरिमेण किं चरिमे अचरिमे ? गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

८०८. [१] णेरतिए णं भंते ! गतिचरिमेण किं चरिमे अचरिमे ? गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

१०

[२] एवं णिरंतरं जाव वेमाणिए ।

८०९. [१] णेरतिया णं भंते ! गतिचरिमेण किं चरिमा अचरिमा ? गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

[२] एवं णिरंतरं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं ८१०-८११. ठितिचरिमाचरिमाइं]

१५

८१०. [१] णेरझए णं भंते ! ठितीचरिमेण किं चरिमे अचरिमे ? गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं णिरंतरं जाव वेमाणिए ।

८११. [१] णेरतिया णं भंते ! ठितीचरिमेण किं चरिमा अचरिमा ? गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

२०

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं ८१२-८१३. भवचरिमाचरिमाइं]

८१२. [१] णेरझए णं भंते ! भवचरिमेण किं चरिमे अचरिमे ? गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ।

२५



[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ।

८२१. [१] णेरइया णं भंते ! भावचरिमेण किं चरिमा अचरिमा ?  
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं ८२२-८२३. वण्णचरिमाचरिमाइं]

८२२. [१] णेरइए णं भंते ! वण्णचरिमेण किं चरिमे अचरिमे ?  
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ।

८२३. [१] णेरइया णं भंते ! वण्णचरिमेण किं चरिमा अचरिमा ?  
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं ८२४-८२५. गंधचरिमाचरिमाइं]

८२४. [१] णेरइए णं भंते ! गंधचरिमेण किं चरिमे अचरिमे ?  
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ।

८२५. [१] णेरइया णं भंते ! गंधचरिमेण किं चरिमा अचरिमा ?  
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं ८२६-८२७. रसचरिमाचरिमाइं]

८२६. [१] णेरइए णं भंते ! रसचरिमेण किं चरिमे अचरिमे ?  
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ।

८२७. [१] नेरइया णं भंते ! रसचरिमेण किं चरिमा अचरिमा ?  
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया ।

[भुजाई ८८-८९. कासचरिमाचरिमाई]

८८. [१] जेझड़ाए णं भंते ! फासचरिमेण कि चरिमे अचरिमे ?  
गंदमा ! निय चरिमे निय नचरिमे ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ।

८९. [२] जेझड़ाया णं गंते ! फासचरिमेण कि चरिमा अचरिमा ?  
गंदमा ! निया नि नचरिमा वि ।

[३] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । संगहणिगाहा—

गति द्युति गंव य भासा आणापाणुचरिमे य वोधव्ये ।

नादार नामचरिमे वण्ण रसे गंध फासे य ॥ १९१ ॥

४ पृष्ठावलाए भगवर्द्देश इतमं चरितपर्यं समत्तं ॥

## २२. एकारसमं भासापयं

[सुन्नाइं ८३०-८३१. ओहारिणीभासापर्लवणं]

८३०. से णूणं भंते ! मण्णामीति ओहारिणी भासा ? चिंतेमीति ओहारिणी भासा ? अह मण्णामीति ओहारिणी भासा ? अह चिंतेमीति ओहारिणी भासा ? तह मण्णामीति ओहारिणी भासा ? तह चिंतेमीति ओहारिणी भासा ? हंता गोयमा ! मण्णामीति ओहारिणी भासा, चिंतेमीति ओहारिणी भासा, अह मण्णामीति ओहारिणी भासा, अह चिंतेमीति ओहारिणी भासा, तह मण्णामीति ओहारिणी भासा, तह चिंतेमीति ओहारिणी भासा ।

८३१. ओहारिणी णं भंते ! भासा किं सज्जा मोसा सज्जामोसा असज्जामोसा ? गोयमा ! सिय सज्जा, सिय मोसा, सिय सज्जामोसा, सिय असज्जामोसा । से केणद्वेणं १० भंते ! एवं वुच्ति ओहारिणी णं भासा सिय सज्जा सिय मोसा सिय सज्जामोसा सिय असज्जामोसा ? गोयमा ! आराहणी सज्जा १ विराहणी मोसा २ आराहणविराहणी सज्जामोसा ३ जा णेव आराहणी णेव विराहणी णेव आराहणविराहणी असज्जामोसा णाम सा चउत्थी भासा ४ से एतेणद्वेणं गोयमा ! एवं वुच्छइ- १५ ओहारिणी णं भासा सिय सज्जा सिय मोसा सिय सज्जामोसा सिय असज्जामोसा ।

[सुन्नाइं ८३२-८३८. पण्णवणीभासापर्लवणं]

८३२. अह भंते ! गाओ मिया पसू पक्खी पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! गाओ मिआ पसू पक्खी पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

८३३. अह भंते ! जा य इत्थिवयू जा य पुमवयू जा य णपुंसगवयू २० पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! जा य इत्थिवयू जा य पुमवयू जा य णपुंसगवयू पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

८३४. अह भंते ! जा य इत्थिआणमणी जा य पुमआणमणी जा य णपुंसगआणमणी पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! जा य इत्थिआणमणी जा य पुमआणमणी जा य णपुंसगआणमणी पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

८३५. अह भंते ! जा य इत्थीपणवणी जा य पुमपणवणी जा य णपुंसगपणवणी पणवणी ण एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! जा य इत्थीपणवणी जा य पुमपणवणी जा य णपुंसगपणवणी पणवणी ण एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

५ ८३६. अह भंते ! जा जायीति इत्थिवयू जाईइ पुमवयू जातीति णपुंसगवयू पणवणी ण एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! जातीति इत्थिवयू जातीति पुमवयू जातीति णपुंसगवयू पणवणी ण एसा भासा, न एसा भासा मोसा ।

१० ८३७. अह भंते ! जाईति इत्थिआणमणी जाईति पुमआणमणी जाईति णपुंसगाणमणी पणवणी ण एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! जातीति इत्थिआणमणी जातीति पुमआणमणी जातीति णपुंसगाणमणी पणवणी ण एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

१५ ८३८. अह भंते ! जातीति इत्थिपणवणी जातीति पुमपणवणी जातीति णपुंसगपणवणी पणवणी ण एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! जातीति इत्थिपणवणी जातीति पुमपणवणी जातीति णपुंसगपणवणी पणवणी ण एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

[ सुत्ताइ ८३९-८४८, मंदकुमाराहभासासन्नापर्लवणं ]

८३९. अह भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणइ बुयमाणे अहमेसे बुयामि अहमेसे बुयामीति ? गोयमा ! णो इणडे समडे, णङ्णन्त्य सण्णिणो ।

८४०. अह भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणति आहारमाहारे-माणे अहमेसे आहारमाहारेमि अहमेसे आहारमाहारेमि ति ? गोयमा ! णो इणडे समडे, णङ्णन्त्य सण्णिणो ।

८४१. अह भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणति अयं मे अम्मा-पियरो २ ? गोयमा ! णो इणडे समडे, णङ्णन्त्य सण्णिणो ।

१. बुतमाणे जे० ॥ २. अहमेसादु यामि अहमेस बुयामी० म० प्र० पु१ पु३ । अहमेस बुआमि नहमेसा बुयामि पु२स० ॥ ३. बुयामीति ? गो० पु१ पु३ मु० ॥ ४. °हारेमि ति ? गो० पु१ पु२ पु३ मु० ॥

८४२. अह भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणति अयं मे अतिराउले अयं मे अतिराउले त्ति ? गोयमा ! णो इणडे समडे, णऽण्णत्थ सण्णिणो ।

८४३. अह भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणति अयं मे भट्टिदारए अयं मे भट्टिदारए त्ति ? गोयमा ! णो इणडे समडे, णऽण्णत्थ सण्णिणो । ५

८४४. अह भंते ! उडे गोणे खरे घोडए अए एलए जाणति बुयमाणे अहमेसे बुयामि अहमेसे बुयामि ? गोयमा ! णो इणडे समडे, णऽण्णत्थ सण्णिणो ।

८४५. अह भंते ! उडे जाव एलए जाणति आहरेमाणे अहमेसे आहरेमि अहमेसे आहरेमि त्ति ? गोयैमा ! णो इणडे समडे, णऽण्णत्थ सण्णिणो ।

८४६. अह भंते ! उडे गोणे खरे घोडए अए एलए जाणति अयं मे अम्मा-पियरो २ त्ति ? गोयमा ! णो इणडे समडे, णऽण्णत्थ सण्णिणो । १०

८४७. अह भंते ! उडे जाव एलए जाणति अयं मे अतिराउले २ ? गोयमा ! जाव णऽण्णत्थ सण्णिणो ।

८४८. अह भंते ! उडे जाव एलए जाणति अयं मे भट्टिदारए २ ? गोयमा ! जाव णऽण्णत्थ सण्णिणो । १५

### [सुन्ताहं ८४९-८५७. एगवयणाइभासापरुवणं]

८४९. अह भंते ! मणुस्से महिसे आसे हत्थी सीहे वँघ्ये वगे दीविए अच्छे तरच्छे परस्सरे सियाले विराले सुणए कोलसुण्ए कोक्कंतिए ससए चित्तए चिल्लुए जे यावऽणे तहप्पगारा सब्बा सा एगवयू ? हंता गोयमा ! मणुस्से जाव चिल्लुए जे यावऽणे तहप्पगारा सब्बा सा एगवयू । २०

८५०. अह भंते ! मणुस्सा जाव चिल्लुगा जे यावऽणे तहप्पगारा सब्बा सा बहुवयू ? हंता गोयमा ! मणुस्सा जाव चिल्लुगा सब्बा सा बहुवयू ।

८५१. अह भंते ! मणुस्सी महिसी वलवा हत्थिणिया सीही वग्धी वँगी दीविया अच्छी तरच्छी परस्सरी सियाली विराली सुणिया कोलसुणिया कोक्कंतिया

१. बुयामि ? गो<sup>०</sup> पु१ पु२ पु३ सु० ॥ २. जाणति आहारं आ<sup>०</sup> सु० ॥ ३. गो० ! जाव णऽण्णत्थ जे० पु१ पु३ ॥ ४. वग्धे गवे वगे म० । वग्धे विगे दी<sup>०</sup> पु१ पु२ पु३ ॥ ५. °णए ससए कोक्कंतिए चित्तए पु२स०, एतत्पाठानुसारेण मलयृत्ति. ॥ ६. विगी पु२ ॥ ७. °स्सरी रासभी सि० म० पु२ ॥

ससिया चित्तिया चिल्लियाँ जा यावडणा तहप्पगारा सब्बा सा इत्थिवयू ? हंता गोयमा ! मणुस्सी जाव चिल्लियाँ जा यावडणा तहप्पगारा सब्बा सा इत्थिवयू।

८५२. अह भंते मणुस्से ! जाव चिल्ललए जे यावडन्ने तहप्पगारा सब्बा सा पुमवयू ? हंता गोयमा ! मणुस्से मैंहिसे आसे हत्थी सीहे वग्धे वंगे ५ दीविए अच्छे तरच्छे परस्सरे सियाले विराले सुणए कोलसुणए कोकंतिए ससए चित्तए चिल्ललए जे यावडणे तहप्पगारा सब्बा सा पुमवयू।

८५३. अह भंते ! कंसं कंसोयं परिमिंडलं सेलं थूभं जालं थालं तारं रुवं अच्छि पव्वं कुंडं पउमं दुङ्घं दैहियं णवणीयं आसाणं सयणं भवणं विमाणं छत्तं १० चामरं भिंगारं अंगणं निरंगणं आभरणं रयणं जे यावडणे तहप्पगारा सब्बं तं णपुंसगवयू ? हंता गोयमा ! कंसं जाव रयणं जे यावडणे तहप्पगारा सब्बं तं १५ णपुंसगवयू।

८५४. अह भंते ! पुढवीति इत्थीवयू आउ त्ति पुमवयू धंणे त्ति णपुंसगवयू पणवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! पुढवि १५ त्ति इत्थिवयू, आउ त्ति पुमवयू, धंणे त्ति णपुंसगवयू, पणवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

८५५. अह भंते ! पुढवीति इत्थीआणमणी आउ त्ति पुमआणमणी धणे त्ति नपुंसगाणमणी पणवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! पुढवीति इत्थिआणमणी, आउ त्ति पुमआणमणी, धणे त्ति णपुंसग- २० आणमणी, पणवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

८५६. अह भंते ! पुढवीति इत्थिपणवणी आउ त्ति पुमपणवणी धणे त्ति णपुंसगपणवणी आराहणी णं एसा [ग्रन्थायम् ४०००] भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! पुढवीति इत्थिपणवणी आउ त्ति पुमपणवणी धणे त्ति णपुंसगपणवणी आराहणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा<sup>११</sup> ।

१. °या जे यावड्ने तह° पु२ पु३ मु० ॥ २. °या जे यावडणे तह° पु२ पु३ मु० ॥  
३. मणुस्सो जाव चिल्ललओ जे० व०॥ ४. मणुस्सो महिसो आसो हत्थी सीहो वग्धो वगो दीविओ अच्छो तरच्छो परस्सरो सियालो विरालो सुणओ कोलसुणओ कोकंतिओ ससतो चित्तओ चिल्लगो जे या० जे० व०॥ ५. महिसे जाव चिल्ल° मु०॥ ६. विगे पु२॥ ७. दहि० पु१ पु२ पु३ मु०॥ ८. पुढवि त्ति ह० पु२ मु०॥ ९-१०. धणे त्ति जे० व० । धणे त्ति पु२ पु३ ॥ ११. °सा [ग्र ४०००] । इच्चेव पु१ पु२ पु३ ॥

८५७. इचेवं भंते ! इत्थिवयणं वा पुमवयणं वा णपुंसगवयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! इत्थिवयणं वा पुमवयणं वा णपुंसगवयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

[सुन्ताइँ ८५८-८५९. भासासर्वं]

५

८५८. भासा णं भंते ! किमादीया किंपहवा किंसंठिया किंपज्जवसिया ? गोयमा ! भासा णं जीवादीया सरीरपैहवा वज्जसंठिया लोगंतपज्जवसिया पण्णता ।

८५९. भासा कओ य पैहवति ? कतिहिं च समएहिं भासती भासं ? ।

भासा कतिष्पगारा ? कति वा भासा अणुमयाओ ? ॥ १९२ ॥

सरीरपैहवा भासा, दोहि य समएहिं भासती भासं । १०

भासा चउष्पगारा, दोणिं य भासा अणुमयाओ ॥ १९३ ॥

[सुन्ताइँ ८६०-८६६. पज्जत्तियाइभासामेयपर्लवणं]

८६०. कतिविहा णं भंते ! भासा पण्णता ? गोयमा ! दुविहा भासा पण्णता । तं जहा-पज्जत्तिया य अपज्जत्तिया य ।

८६१. पज्जत्तिया णं भंते ! भासा कतिविहा पण्णता ? गोयमा ! दुविहा १५ पण्णता । तं जहा-सञ्चा य मोसा य ।

८६२. सञ्चा णं भते ! भासा पज्जत्तिया कतिविहा पण्णता ? गोयमा ! दसविहा पण्णता । तं जहा-जणवयसञ्चा १ सॅम्मतसञ्चा २ ठवणासञ्चा ३ णामसञ्चा ४ रूवसञ्चा ५ पडुञ्चसञ्चा ६ ववहारसञ्चा ७ भावसञ्चा ८ जोगसञ्चा ९ ओवम्मसञ्चा १० । २०

जणवय १ सॅम्मत २ ठवणा ३ णामे ४ रूवे ५ पडुञ्चसञ्चे ६ य ।

ववहार ७ भाव ८ जोगे ९ दसमे ओवम्मसञ्चे १० य ॥ १९४ ॥

८६३. मोसा णं भंते ! भासा पज्जत्तिया कतिविहा पण्णता ? गोयमा ! दसविहा पण्णता । तं जहा-कोहणिस्सिया १ माणणिस्सिया २ मायाणिस्सिया ३

१. किंपवहा पु२ मु० ॥ २. °पवहा म० ॥ ३. पवहति ध० ॥ ४. °प्पवहा ध० ॥

५. सम्मुद्रिसञ्चा जे० प्र० ॥ ६. सम्मुद्रि २ ठ° जे० प्र० । सम्मुति २ ठ° पु२ पु३ ।

सम्मति २ ठ° पु२सं० ॥

लोभणिस्सिया ४ पेज्जणिस्सिया ५ दोसणिस्सिया ६ हासणिस्सिया ७ भयणि-  
स्सिया ८ अक्खाइयाणिस्सिया ९ उवघायणिस्सिया १० ।

कोहे १ माणे २ माया ३ लोभे ४ पेजे ५ तहेव दोसे ६ य ।

हास ७ भए ८ अक्खाइय ९ उवघाइयणिस्सिया १० दसमा ॥१९५॥

५ ८६४. अपज्जत्तिया णं भंते ! भासा कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा !  
दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—सच्चामोसा य असच्चामोसा य ।

८६५. सच्चामोसा णं भंते ! भासा अपज्जत्तिया कतिविहा पण्णत्ता ?  
गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता । तं जहा—उप्पणामिस्सिया<sup>१</sup> विगयमिस्सिया २  
उप्पणविगयमिस्सिया ३ जीवमिस्सिया ४ अजीवमिस्सिया ५ जीवाजीवमिस्सिया ६  
१० अणंतमिस्सिया ७ परित्तमिस्सिया ८ अद्वामिस्सिया ९ अद्वद्वामिस्सिया १० ।

८६६. असच्चामोसा णं भंते ! भासा अपज्जत्तिया कतिविहा पण्णत्ता ?  
गोयमा ! दुवालसविहा पण्णत्ता । तं जहा—

आमंतणि १ याड्डणमणी २ जायणि ३ तह पुच्छणी ४ य पण्णवणी ५ ।  
पच्चक्खाणी भासा ६ भासा इच्छाणुलोमा ७ य ॥ १९६ ॥

१५ ८६७. अणभिगगहिया भासा ८ भासा य अभिगगहमि वोधव्वा ९ ।

संसयकरणी भासा १० वोयड ११ अव्वोयडा १२ चेव ॥ १९७ ॥

### [ सुत्ताहं ८६७-८६९. भासगाभासगपरूपण ]

८६७. जीवा णं भंते ! किं भासगा अभासगा ? गोयमा ! जीवा भासगा  
वि अभासगा वि । से केणदेणं भंते ! एवं बुच्चति जीवा भासगा वि अभासगा वि ?  
२० गोयमा ! जीवा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—संसारसमावणगा य असंसारसमावणगा  
य । तथ्य णं जे ते असंसारसमावणगा ते णं सिद्धा, सिद्धा णं अभासगा । तथ्य णं  
जे ते संसारसमावणगा ते णं दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—सेलेसिपडिवणगा य असेले-  
सिपडिवणगा य । तथ्य णं जे ते सेलेसिपडिवणगा ते णं अभासगा । तथ्य णं  
जे ते असेलेसिपडिवणगा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—एगिंदिया य अणेगिंदिया  
२५ य । तथ्य णं जे ते एगिंदिया ते णं अभासगा । तथ्य णं जे ते अणेगिंदिया ते  
दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—पज्जत्तगा य अपज्जत्तया य । तथ्य णं जे ते अपज्जत्तगा

१. °मिस्सिया स्थाने दशस्वपि स्थानेषु २० पु१ पु३ प्रतिषु °णिस्सिया इति पाठो वर्तते ॥

ते णं अभासगा । तत्थ णं जे ते पञ्जत्तगा ते णं भासगा । से एतेणद्वेणं गोयमा !  
एवं दुच्चति जीवा भासगा वि अभासगा वि ।

८६८. नेरइया णं भंते ! किं भासगा अभासगा ? गोयमा ! नेरइया  
भासगा वि अभासगा वि । से केणद्वेणं भंते ! एवं दुच्चति नेरइया भासगा वि  
अभासगा वि ? गोयमा ! ऐरइया दुविहा पण्णता, तं जहा—पञ्जत्तगा य अपञ्जत्तगा ५  
य, तत्थ णं जे ते अपञ्जत्तगा ते णं अभासगा, तत्थ णं जे ते पञ्जत्तगा ते णं  
भासगा, से एएणद्वेणं गोयमा ! एवं दुच्चइ ऐरइया भासगा वि अभासगा वि ।

८६९. एवं एर्गिदियवज्ञाणं णिरंतरं भाणियव्वं ।

[सुन्ताइ ८७०—८७६. सच्चाइभासज्ञायपर्लवणं ]

८७०. कृति णं भंते ! भासज्ञाता पण्णता ? गोयमा ! चत्तारि १०  
भासज्ञाता पण्णता । तं जहा—सच्चमेगं भासज्ञातं १ वितियं मोसं २ ततियं  
सच्चामोसं ३ चउत्थं असच्चामोसं ४ ।

८७१. जीवा णं भंते ! किं सच्चं भासं भासंति ? मोसं भासं भासंति ?  
सच्चामोसं भासं भासंति ? असच्चामोसं भासं भासंति ? गोयमा ! जीवा सच्चं पि  
भासं भासंति, मोसं पि भासं भासंति, सच्चामोसं पि भासं भासंति, असच्चामोसं १५  
पि भासं भासंति ।

८७२. ऐरइया णं भंते ! किं सच्चं भासं भासंति जाव किं असच्चामोसं  
भासं भासंति ? गोयमा ! ऐरइया णं सच्चं पि भासं भासंति जाव असच्चामोसं पि  
भासं भासंति ।

८७३. एवं असुरकुमारा जाव थणियकुमारा ।

२०

८७४. वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिया य णो सच्चं णो मोसं णो सच्चामोसं  
भासं भासंति, असच्चामोसं भासं भासंति ।

८७५. पंचेंदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! किं सच्चं भासं भासंति ? जाव  
(सु. ८७१) किं असच्चामोसं भासं भासंति ? गोयमा ! पंचेंदियतिरिक्खजोणिया  
णो सच्चं भासं भासंति, णो मोसं भासं भासंति, णो सच्चामोसं भासं भासंति, एगं  
असच्चामोसं भासं भासंति, णऽण्णत्थ सिक्खापुब्वगं उत्तरगुणलङ्घिं वा पञ्च सच्चं २५

पि भासं भासंति, मोसं पि भासं भासंति, सच्चामेसं पि भासं भासंति, असच्चामोसं पि भासं भासंति ।

८७६. मणुस्सा जाव वेमाणिया एए जहा जीवा (सु. ८७१) तहा भाणियब्बा ।

५ [ सुत्ताइ ८७७-८९५. भासादव्वगहणाद्यपरुवणं ]

८७७. [१] जीवे पं भंते ! जाइं दव्वाइं भासत्ताए गेणहति ताइं किं ठियाइं गेणहति ? अठियाइं गेणहति ? गोयमा ! ठियाइं गेणहति, णो अठियाइं गेणहति ।

[२] जाइं भंते ! ठियाइं गेणहति ताइं किं दव्वओ गेणहति ? खेतओ गेणहति ? कालओ गेणहति ? भावओ गेणहति ? गोयमा ! दव्वओ वि गेणहति, १० खेतओ वि गेणहति, कालओ वि गेणहति, भावओ वि गेणहति ।

[३] जाइं दव्वओ गेणहति ताइं किं एगपएसियाइं गिणहति दुपएसियाइं गेणहति जाव अणंतपएसियाइं गेणहति ? गोयमा ! णो एगपएसियाइं गेणहति जाव णो असंखेजपएसियाइं गेणहति, अणंतपएसियाइं गेणहति ।

[४] जाइं खेतओ गेणहति ताइं किं एगपएसोगाढाइं गेणहति १५ दुपएसोगाढाइं गेणहति जाव असंखेजपएसोगाढाइं गेणहति ? गोयमा ! णो एगपएसोगाढाइं गेणहति जाव णो संखेजपएसोगाढाइं गेणहति, असंखेजपएसोगा-ढाइं गेणहति ।

[५] जाइं कालओ गेणहति ताइं किं एगसमयडितीयाइं गेणहति दुसमय-ठितीयाइं गेणहति जाव असंखेजसमयठितीयाइं गेणहति ? गोयमा ! एगसमय-२० ठितीयाइं पि गेणहति, दुसमयठितीयाइं पि गेणहति, जाव असंखेजसमयठितीयाइं पि गेणहति ।

[६] जाइं भावओ गेणहति ताइं किं वण्णमंताइं गेणहति गंधमंताइं गेणहति रसमंताइं गेणहति फासमंताइं गेणहति ? गोयमा ! वण्णमंताइं पि गेणहति जाव फासमंताइं पि गेणहति ।

२५ [७] जाइं भावओ वण्णमंताइं गेणहति ताइं किं एगवण्णाइं गेणहति जाव पंचवण्णाइं गेणहति ? गोयमा ! गहणदव्वाइं पडुच्च एगवण्णाइं पि गेणहति जाव पंचवण्णाइं पि गेणहति, सञ्चगहणं पडुच्च णियमा पंचवण्णाइं गेणहति, तं जहा—कालाइं नीलाइं लोहियाइं हालिदाइं सुकिलाइं ।

[८] जाइं वण्णओ कालाइं गेणहति ताइं कि एगगुणकालाइं गेणहति

जाव अणंतगुणकालाइं गेण्हति ? गोयमा ! एगगुणकालाइं पि गेण्हति जाव अणंतगुणकालाइं पि गेण्हति । एवं जाव सुक्लिलाइं पि ।

[९] जाइं भावओ गंधमंताइं गेण्हति ताइं किं एगंधाइं गेण्हति दुगंधाइं गेण्हति ? गोयमा ! गहणदव्वाइं पडुच्च एगंधाइं पि गेण्हति दुगंधाइं पि गेण्हति, सव्वगगहणं पडुच्च नियमा दुगंधाइं गेण्हति ।

[१०] जाइं गंधओ सुबिगंधाइं गेण्हति ताइं किं एगगुणसुबिगंधाइं गेण्हति जाव अणंतगुणसुबिगंधाइं गेण्हति ? गोयमा ! एगगुणसुबिगंधाइं पि गेण्हति जाव अणंतगुणसुबिगंधाइं पि गेण्हति । एवं दुबिगंधाइं पि गेण्हति ।

[११] जाइं भावतो रसमंताइं गेण्हति ताइं किं एगरसाइं गेण्हति ? जाव किं पंचरसाइं गेण्हति ? गोयमा ! गहणदव्वाइं पडुच्च एगरसाइं पि गेण्हति जाव पंचरसाइं पि गेण्हति, सव्वगगहणं पडुच्च णियमा पंचरसाइं गेण्हति ।

[१२] जाइं रसतो तित्तरसाइं गेण्हति ताइं किं एगगुणतित्तरसाइं गेण्हति जाव अणंतगुणतित्तरसाइं गेण्हति ? गोयमा ! एगगुणतित्तरसाइं पि गेण्हति जाव अणंतगुणतित्तरसाइं पि गेण्हति । एवं जाव मैहुरो रसो ।

[१३] जाइं भावतो फासमंताइं गेण्हति ताइं किं एगफासाइं गेण्हति, जाव अटुफासाइं गेण्हति ? गोयमा ! गहणदव्वाइं पडुच्च णो एगफासाइं गिण्हति, दुफासाइं गिण्हति जाव चउफासाइं पि गेण्हति, णो पंचफासाइं गेण्हति जाव णो अटुफासाइं पि गेण्हति । सव्वगगहणं पडुच्च णियमा चउफासाइं गेण्हति । तं जहा-सीयफासाइं गेण्हति, उसिणफासाइं गेण्हति, णिद्धफासाइं गेण्हति, लुक्ख-फासाइं गेण्हति ।

[१४] जाइं फासओ सीयाइं गेण्हति ताइं किं एगगुणसीयाइं गेण्हति जाव अणंतगुणसीयाइं गेण्हति ? गोयमा ! एगगुणसीयाइं पि गेण्हति जाव अणंत-गुणसीयाइं पि गेण्हति । एवं उसिण-णिद्ध-लुक्खाइं जाव अणंतगुणाइं पि गिण्हति ।

[१५] जाइं भंते ! जाव अणंतगुणलुक्खाइं गेण्हति ताइं किं पुडाइं गेण्हति अपुडाइं गेण्हति ? गोयमा ! पुडाइं गेण्हति, णो अपुडाइं गेण्हति ।

[१६] जाइं भंते ! पुडाइं गेण्हति ताइं किं ओगाढाइं गेण्हति अणोगाढाइं गिण्हति ? गोयमा ! ओगाढाइं गेण्हति, णो अणोगाढाइं गेण्हति ।

[१७] जाइं भंते ! ओगाढाइं गेणहति ताइं किं अणंतरोगाढाइं गेणहति, परंपरोगाढाइं गेणहति ? गोयमा ! अणंतरोगाढाइं गेणहति, णो परंपरोगाढाइं गेणहति ।

[१८] जाइं भंते ! अणंतरोगाढाइं गेणहति ताइं कि अणूइं गेणहति ? वादगाइं गेणहति ? गोयमा ! अणूइं पि गेणहड वादराइं पि गेणहति ।

[१९] जाइं भंते ! अणूइं पि गेणहति वायराइं पि गेणहति ताइं कि उडुं गेणहति ? अहे गेणहति ? तिरियं गेणहति ? गोयमा ! उडुं पि गिणहति, अहे वि गिणहति, तिरियं पि गेणहति ।

[२०] जाइं भंते ! उडुं पि गेणहति अहे वि गेणहति तिरियं पि गेणहति ताइं कि आदिं गेणहति ? मज्जे गेणहति ? पञ्चवसाणे गेणहति ? गोयमा ! आइं पि गेणहति, मज्जे वि गेणहति, पञ्चवसाणे वि गेणहति ।

[२१] जाइं भंते ! आइं पि गेणहति मज्जे वि गेणहति पञ्चवसाणे वि गेणहनि ताइं कि सविसए गेणहति ? अविसए गेणहति ? गोयमा ! सविसए गेणहति, णो अविसए गेणहति ।

[२२] जाइं भंते ! सविसए गेणहति ताइं कि आणुपुच्चि गेणहति ? अणाणुपुच्चि गेणहनि ? गोयमा ! आणुपुच्चि गेणहति, णो अणाणुपुच्चि गेणहति ।

[२३] जाइं भंते ! आणुपुच्चि गेणहति ताइं कि तिदिसिं गेणहति जाव अटिमि गेणहति ? गोयमा ! णियमा छद्दिसिं गेणहति ।

पुढेगाड अणंतर अणू य तह वायरे य उडुमहे ।

आदि विस्याऽऽणुपुच्चि णियमा तह छद्दिसिं चेव ॥ १९८ ॥

८७८. जीवे यं भंते ! जाइं दब्बाइं भासत्ताए गेणहति ताइं कि संतरं गेणहनि ? निरंतरं गेणहति ? गोयमा ! संतरं पि गेणहति निरंतरं पि गेणहति । संतरं निहवणेण जहणेण एर्ण समयं, उक्केसेण असंखेजसमए अंतरं कहु गेणहति । निरंतरं गिहवणेण जहणेण दो समग्र, उक्केसेण असंखेजसमए अणुसमयं असिरियं निरंतरं गेणहति ।

८७९. जीवे यं भंते ! जाइं दब्बाइं भासत्ताए गहियाइं णिसिरति ताइं कि भनं णिमिगनि ? णिनंग णिमिगनि ? गोयमा ! संतरं णिसिरति, णो णिरंतरं णिमिगनि । मंतरं णिमिग्यायं एर्ण समणं गेणहड एर्ण समणं णिसिरति, एव एव शश शश शश शश एर्ण गहण-णिमिगणोवाणं जहणेण दुसमझयं उर्मेन स्वर्ण-स्वर्ण शतोभृतियं गहण-णिमिगणोवायं(णिसिरण) करेनि ।

## [सुत्ताइं ८८०-८८७, भासादव्यभेयणपर्वत्यं]

८८०. जीवे णं भंते ! जाइं दव्याइं भासत्ताए गहियाइं णिसिरति ताइं किं भिण्णाइं णिसिरति ? अभिण्णाइं णिसिरति ? गोयमा ! भिण्णाइं पि णिसिरति, अभिन्नाइं पि णिसिरति । जाइं भिण्णाइं णिसिरति ताइं अणंतगुणपरिवड्हीएं परिवड्हमाणाइं परिवड्हमाणाइं लोयंतं फुसंति । जाइं अभिण्णाइं णिसिरति ताइं असंखेज्ञाओ औगाहणवगणाओ गंता भेयमावज्ञाति, संखेज्ञाइं जोयणाइं गंता विद्वंसमागच्छति ।

८८१. तेसि॑ णं भंते ! दव्याणं कतिविहे भेए पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे भेये पण्णते । तं जहा-खंडाभेए १ पतराभेए २ चुण्णियाभेए ३ अणुतडियाभेए ४ उँक्करियाभेए ५ ।

८८२. से किं तं खंडाभेए ? २ जण्णं अयखंडाण वा तउखंडाण वा तंवखंडाण वा सीसगखंडाण वा रथयखंडाण वा जायरूबखंडाण वा खंडण भेदे भवति । से तं खंडाभेदे । १०

८८३. से किं तं पयराभेदे ? २ जण्णं वंसाण वा वेत्ताण वा णलाण वा कंदलिथंभाण वा अव्भपडलाण वा पयरएण भेदे भवति । से तं पयराभेदे ।

८८४. से किं तं चुण्णियाभेए ? २ जण्णं तिलचुण्णाण वा मुग्ग-चुण्णाण वा मासचुण्णाण वा पिप्पलिचुण्णाण वा मिरियचुण्णाण वा सिंगवेर-चुण्णाण वा चुण्णियाए भेदे भवति । से तं चुण्णियाभेदे । १५

८८५. से किं तं अणुतडियाभेदे ? २ जण्णं अगडाण वा तैलागाण वा दहाण वा णटीण वा वाकीण वा पुक्खरिणीण वा दीहियाण वा गुंजालियाण वा सराण वा सरपंतियाण वा सरसरपंतियाण वा अणुतडियाए भेदे भवति । से तं अणुतडियाभेदे । २०

८८६. से किं तं उँक्करियाभेदे ? २ जण्णं मूसगाण वा र्मगूसाण वा तिलसिंगाण वा मुग्गसिंगाण वा माससिंगाण वा एरंडबीयाण वा फुडिता उँक्करियाए भेदे भवति । से तं उँक्करियाभेए ।

१. °ए णं परि० म० पु१ पु३ ॥ २. एतेसि णं प्र० पु२ ॥ ३. उक्करिया० जे० ध० म० ॥  
४. कदलीथंभाण म० पु१ पु२ पु३ ॥ ५. तडागाण म० ॥ ६. १०-११. उक्करि० पु२ म०  
विना ॥ ७. मूसंगाण प्र० । मूसाण म० । मूसयाण पु२ ॥ ८. मंड्वसाण म० प्र० पु१ पु२ स०  
पु३ ॥ ९. फुडिया पु२ । फुडिता म० ॥

८८७. एसि णं भंते ! दब्बाणं खंडभेणं पयराभेणं चुणियाभेणं  
अणुतडियाभेदेण उक्करियाभेदेण य भिजमाणाणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ?  
गोयमा ! सब्बत्थोवाइं दब्बाइं उक्करियाभेणं भिजमाणाइं, अणुतडियाभेदेण  
भिजमाणाइं अणंतगुणाइं, चुणियाभेणं भिजमाणाइं अणंतगुणाइं, पयराभेणं  
५ भिजमाणाइं अणंतगुणाइं, खंडभेणं भिजमाणाइं अणंतगुणाइं ।

८८८. [१] ऐरइए णं भंते ! जाइं दब्बाइं भासत्ताए गेण्हति ताइं  
किं ठियाइं गेण्हति ? अठियाइं गेण्हति ? गोयमा ! एवं चेव जहा जीवे वत्तव्या  
भणिया (सु. ८७७) तहा ऐरइ३यस्सावि जाव अप्पावहुयं ।

[२] एवं एगिंदियवज्जो दंडओ जाव वेमाणिया ।

१० ८८९. जीवा णं भंते ! जाइं दब्बाइं भासत्ताए गेण्हंति ताइं किं ठियाइं  
गेण्हंति ? अठियाइं गेण्हंति ? गोयमा ! एवं चेव पुहुत्तेण वि ऐयव्वं जाव  
वेमाणिया ।

१५ ८९०. जीवे णं भंते ! जाइं दब्बाइं सच्चभासत्ताए गेण्हति ताइं किं ठियाइं  
गेण्हति ? अठियाइं गेण्हति ? गोयमा ! जहा ओहियदंडओ (सु. ८७७) तहा  
२० एसो वि । नवरं विगलेंदिया ण पुच्छिज्जंति । एवं मोसभासाए वि सच्चामोस-  
भासाए वि ।

८९१. असच्चामोसभासाए वि एवं चेव । नवरं असच्चामोसभासाए  
विगलिंदिया वि पुच्छिज्जंति इमेणं अभिलावेण-विगलिंदिए णं भंते ! जाइं दब्बाइं  
असच्चामोसभासत्ताए गेण्हति ताइं किं ठियाइं गेण्हति ? अठियाइं गेण्हति ?  
२५ गोयमा ! जहा ओहियदंडओ (सु. ८७७) । एवं एते एगत्तपुहुत्तेण दस दंडगा  
भाणियव्वा ।

८९२. जीवे णं भंते ! जाइं दब्बाइं सच्चभासत्ताए गेण्हति ताइं किं  
सच्चभासत्ताए णिसिरति ? मोसभासत्ताए णिसिरति ? सच्चामोसभासत्ताए णिसिरति ?  
असच्चामोसभासत्ताए णिसिरति ? गोयमा ! सच्चभासत्ताए णिसिरति, णो मोसभासत्ताए  
२५ णिसिरति, णो सच्चामोसभासत्ताए णिसिरति, णो असच्चामोसभासत्ताए णिसिरति ।  
एवं एगिंदिय-विगलिंदियवज्जो दंडओ जाव वेमाणिए । एवं पुहुत्तेण वि ।

८९३. जीवे णं भंते ! जाइं दब्बाइं मोसभासत्ताए गेण्हति ताइं किं

१-२. उक्करिया<sup>१</sup> पु२ मु० विना ॥ ३. <sup>२</sup>यस्स वि पु१ पु२ पु३ मु० ॥

सच्चभासत्ताए णिसिरति ? मोसभासत्ताए णिसिरति ? सच्चमोसभासत्ताए णिसिरति ? असच्चमोसभासत्ताए णिसिरति ? गोयमा ! णो सच्चभासत्ताए णिसिरति, मोस-भासत्ताए णिसिरति, णो सच्चमोसभासत्ताए णिसिरति, णो असच्चमोसभासत्ताए णिसिरति ।

८९४. एवं सच्चमोसभासत्ताए वि ।

८९५. असच्चमोसभासत्ताए वि एवं चेव । णवरं असच्चमोसभासत्ताए विगलिंदिया तहेव पुच्छिज्ञाति । जाए चेव गेण्हति ताए चेव णिसिरति । एवं एते एगत्त-पुहत्तिया अडु दंडगा भाणियव्वा ।

[मुक्ताइँ ८९६-९००, सोलसविहवयणपर्स्वणाइ]

८९६. कतिविहे ण भंते ! वयणे पण्णते ? गोयमा ! सोलसविहे वयणे १० पण्णते । तं जहा—एगवयणे १ दुवयणे २ वहुवयणे ३ इत्थिवयणे ४ पुमवयणे ५ णपुंसगवयणे ६ अज्जत्थवयणे ७ उवणीयवयणे ८ अवणीयवयणे ९ उवणी-यावणीयवयणे १० अवणीयउवणीयवयणे ११ तीतवयणे १२ पहुप्पन्नवयणे १३ अणागयवयणे १४ पञ्चक्षवयणे १५ परोक्खवयणे १६ ।

८९७. इच्चेयं भंते ! एगवयणं वा जाव परोक्खवयणं वा वयमाणे १५ पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! इच्चेयं एगवयणं वा जाव परोक्खवयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

८९८. केति ण भंते ! भासज्जाया पण्णता ? गोयमा ! चत्तारि २० भासज्जाया पण्णता । तं जहा—सच्चमेगं भासज्जायं ? वितियं मोसं भासज्जायं २ ततियं सच्चमोसं भासज्जायं ३ चउत्थं असच्चमोसं भासज्जायं ४ ।

८९९. इच्चेयाइँ भंते ! चत्तारि भासज्जायाइँ भासमाणे किं आराहए विराहए ? गोयमा ! इच्चेयाइँ चत्तारि भासज्जायाइँ आउतं भासमाणे आराहए, णो विराहए । तेण परं अस्संजयाऽविरयाऽपडिहयाऽपञ्चक्षवायपावकम्मे सच्चं वा भासं भैसंतो मोसं वा सच्चमोसं वा असच्चमोसं वा भासं भासमाणे णो आराहए, २५ विराहए ।

१. ८७०तमसूत्रसमानमेतत् सूतं सम्बन्धयोजनार्थमुपन्थस्तमित्यतो न पुनरुक्तदोषावहम्, सर्वेष्वपि सूत्रादर्शेष्वप्लभ्यते चापि ॥

२. भासंतो इति पाठः पु२प्रतौ शोधकप्रक्रिया उपलभ्यते ॥

९००. एतेसि णं भंते ! जीवाणं सच्चभासगाणं मोसभासगाणं सच्चामोसभासगाणं असच्चामोसभासगाणं अभासगाणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सच्चत्थोवा जीवा सच्चभासगा, सच्चामोसभासगा असंखेजगुणा, मोसभासगा असंखेजगुणा, असच्चामोसभासगा असंखेजगुणा, अभासगा अणंतगुणा ।



## १२. वारसमं सरीरपयं

[सुन्तं ९०१. सरीरभेयपरूपणा]

९०१. कति णं भंते ! सरीरा पण्णता ? गोयमा ! पंच सरीरा पण्णता ।  
तं जहा—ओरालिए १ वेउव्विए २ आहारए ३ तेयए ४ कम्मए ५ ।

[सुन्ताइँ ९०२—९०९. चउवीसदंडएसु सरीरपरूपणा]

५

९०२. णेरइयाणं भंते ! कति सरीरया पण्णता ? गोयमा ! तओ  
सरीरया पण्णता । तं जहा—वेउव्विए तेयए कम्मए ।

९०३. एवं असुरकुमाराण वि जाव थणियकुमाराणं ।

९०४. पुढविक्काइयाणं भंते ! कति सरीरया पण्णता ? गोयमा ! तओ  
सरीरया पण्णता । तं जहा—ओरालिए तेयए कम्मए ।

१०

९०५. एवं वाउक्काइयवज्जं जाव चउरिंदियाणं ।

९०६. वाउक्काइयाणं भंते ! कति सरीरया पण्णता ? गोयमा ! चत्तारि  
सरीरया पण्णता । तं जहा—ओरालिए वेउव्विए तेयए कम्मए ।

९०७. एवं पंचिंदियतिरिक्खजोणियाण वि ।

९०८. मणूसाणं भंते ! कति सरीरया पण्णता ? गोयमा ! पंच सरीरया  
पण्णता । तं जहा—ओरालिए वेउव्विए आहारए तेयए कम्मए ।

१५

९०९. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणियाणं जहा णारगाणं [सु. ९०२] ।

[सुन्तं ९१०. ओहेण बद्ध-मुक्कसरीरपरूपणा]

९१०. [१] केवतिया णं भंते ! ओरालियसरीरया पण्णता ? गोयमा !  
दुविहा पण्णता । तं जहा—बद्धेल्लया य मुक्केल्लया य । तत्थ णं जे ते बद्धेल्लगा  
ते णं असंखेजगा, असंखेजाहिं उस्सपिणि-ओसपिणीहिं अवहीरंति कालओ,  
खेतओ असंखेजा लोगा । तत्थ णं जे ते मुक्केल्लया ते णं अणंता, अणंताहिं  
उस्सपिणि-ओसपिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेतओ अणंता लोगा, दब्बओ  
अभेवसिद्धिएहिंतो अणंतगुणा सिद्धाणं अणंतभागो ।

२०

[२] केवतिया णं भंते ! वेउच्चियसरीरया पणता ? गोयमा ! दुविहा पणता । तं जहा—बद्धेल्लया य मुक्केल्लया य । तत्थ णं जे ते बद्धेल्लगा ते णं असंखेजा, असंखेजाहिं उस्सपिणि-ओसपिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेतओ ५ असंखेजाओ सेढीओ पयरस्स असंखेजतिभागो । तत्थ णं जे ते मुक्केल्लगा ते णं अणंता, अणंताहिं उस्सपिणि-ओसपिणीहिं अवहीरंति कालओ, जहा ओरालियस्स मुक्केल्लया तहेव वेउच्चियस्स वि भाणियव्वा ।

[३] केवतिया णं भंते ! आहारगसरीरया पणता ? गोयमा ! दुविहा पणता । तं जहा—बद्धेल्लगा य मुक्केल्लगा य । तत्थ णं जे ते बद्धेल्लगा ते णं सिय अत्थि सिय णत्थि । जति अत्थि जहणेणं एक्को वा दो वा तिष्णि वा, १० उक्कोसेणं सहस्सपुहुत्तं । तत्थ णं जे ते मुक्केल्लया ते णं अणंता जहा ओरालियस्स मुक्केल्लया तंहा भाणियव्वा ।

[४] केवइया णं भंते ! तेयगसरीरया पणता ? गोयमा ! दुविहा पणता । तं जहा—बद्धेल्लगा य मुक्केल्लगा य । तत्थ णं जे ते बद्धेल्लगा ते णं अणंता, अणंताहिं उस्सपिणि-ओसपिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेतओ अणंता १५ लोगा, दब्बओ सिद्धेहिंतो अणंतगुणा सञ्चजीवाणंतभागुणा । तत्थ णं जे ते मुक्केल्लया ते णं अणंता, अणंताहिं उस्सपिणि-ओसपिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेतओ अणंता लोगा, दब्बओ सञ्चजीवेहिंतो अणंतगुणा, जीववगगस्स अणंतभागो ।

[५] एवं कम्मगसरीरा वि भाणियव्वा ।

[सुतं ९११. णेरइयाणं बद्ध-मुक्कसरीरपरूपणा]

२० ९११. [१] णेरइयाणं भंते ! केवइया ओरालियसरीरा पणता ? गोयमा ! दुविहा पणता । तं जहा—बद्धेल्लगा य मुक्केल्लगा य । तत्थ णं जे ते बद्धेल्लगा ते णं णत्थि । तत्थ णं जे ते मुक्केल्लगा ते णं अणंता जहा ओरालियमुक्केल्लगा (सु. ९१० [१]) तंहा भाणियव्वा ।

[२] णेरइयाणं भंते ! केवइया वेउच्चियसरीरा पणता ? गोयमा ! २५ दुविहा पणता । तं जहा—बद्धेल्लगा य मुक्केल्लगा य । तत्थ णं जे ते बद्धेल्लया ते णं असंखेजा, असंखेजाहिं उस्सपिणि-ओसपिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेतओ असंखेजाओ सेढीओ पतरस्स असंखेजतिभागो, तासि णं सेढीणं विकखं-

भसूई अंगुलपदमवगगमूलं बीयैवगगमूलपडुप्पणं, अहवणं अंगुलबित्यवगगमूल-वणप्पमाणमेत्ताओ सेढीओ । तथ्य णं जे ते मुक्तेल्लगा ते णं जहा ओरालियस्स मुक्तेल्लगा (सु. ९१० [१]) तहा भाणियव्वा ।

[३] णेरइयाणं भंते ! केवतिया आहारगसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-बद्धेल्लगा य मुक्तेल्लगा य । एवं जहा ओरालिया ५ बद्धेल्लगा य मुक्तेल्लगा य भणिया (सु. ९१० [१]) तहेव आहारगा वि भाणियव्वा ।

[४] तेया-कम्मगाइं जहा एतेसिं चेव वेउव्वियाईं ।

[सुचाईं ९१२-९१३. भवणवासीणं वद्ध-मुक्तसरीरपरूपवणा]

९१२. [१] असुरकुमाराणं भंते ! केवतिया ओरालियसरीरा पण्णत्ता ? १० गोयमा ! जहा णेरइयाणं ओरालिया भणिया (सु. ९११ [१]) तहेव एतेसिं पि भाणियव्वा ।

[२] असुरकुमाराणं भंते ! केवतिया वेउव्वियसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-बद्धेल्लगा य मुक्तेल्लगा य । तथ्य णं जे ते बद्धेल्लगा ते णं असंखेज्जा, असंखेज्जाहिं उस्सप्पिणि-ओस्सप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ १५ असंखेज्जाओ सेढीओ पतरस्स असंखेज्जतिभागो, तासि णं सेढीणं विक्खंभसूई अंगुलपदमवगगमूलस्स संखेज्जतिभागो । तथ्य णं जे ते मुक्तेल्लया ते णं जहा ओरालियस्स मुक्तेल्लगा तहा भाणियव्वा (सु. ९१० [१]) ।

[३] आहारयसरीरा जहा ईतेसि णं चेव ओरालिया तहेव दुविहा भाणियव्वा ।

२०

[४] तेया-कम्मसरीरा दुविहा वि जहा ईतेसि णं चेव वेउव्विया ।

९१३. एवं जाव थणियकुमारा ।

[सुचाईं ९१४-९१७. एगिंदियाणं वद्ध-मुक्तसरीरपरूपवणा]

९१४. [१] पुढविकाइयाणं भंते ! केवतिया ओरालियसरीरगा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-बद्धेल्लया य मुक्तेल्लया य । तथ्य णं जे ते २५

१. वित्यव० पु२ ॥ २. आहारगसरीरा वि पु२स० ॥ ३. °यातिं दावियाईं । ९१२. [१] अ० म०॥

४. ओरालियसरीरा भ० पु२ ॥ ५-६. एतेसिं चेव म० प्र० पु२ ॥

वद्देलगा ते णं असंखेज्जा, असंखेज्जाहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालतो, खेतओ असंखेज्जा लोगा। तत्थ णं जे ते मुकेलगा ते णं अणंता, अणंताहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेतओ अणंता लोगा, अभवसिद्धिएहिंतो अणंतगुणा, सिद्धाणं अणंतभागो।

६ [२] पुढविकाइयाणं भंते ! केवतिया वेउव्वियसरीरया पणत्ता ? गोयमा ! दुविहा पणत्ता। तं जहा—वद्देलगा य मुकेलगा य। तत्थ णं जे ते वद्देलगा ते णं णत्थ। तत्थ णं जे ते मुकेलगा ते णं जहा एतेसिं चेव ओरालिया भणिया तहेव भाणियव्वा।

[३] एवं आहारगसरीरा वि।

१० [४] तेया-कम्मगा जहा एतेसिं चेव ओरालिया।

९१५. एवं आउक्काइया तेउक्काइया वि।

९१६. [१] वाउक्काइयाणं भंते ! केवतिया ओरालियसरीरा पणत्ता ? गोयमा ! दुविहा पणत्ता। तं जहा—वद्देलगा य मुकेलगा य। दुविहा वि जहा पुढविकाइयाणं ओरालिया (सु. ९१४ [१])।

१५ [२] वेउव्वियाणं पुच्छा। गोयमा ! दुविहा पणत्ता। तं जहा—वद्देलगा य मुकेलगा य। तत्थ णं जे ते वद्देलगा ते णं असंखेज्जा, समए समए अवहीरमाणा अवहीरमाणा पलिओवमस्स असंखेज्जतिभागमेत्तेणं कालेणं अवहीरंति णो चेव णं अवहिया सिया। मुकेलया जहा पुढविक्काइयाणं (सु. ९१४ [२])।

[३] आहारय-तेया-कम्मा जहा पुढविकाइयाणं (सु. ९१४ [३-४])

२० तहा भाणियव्वा।

९१७. वणप्फइक्काइयाणं जहा पुढविकाइयाणं। णवरं तेया-कम्मगा जहा ओहिया तेया-कम्मगा (सु. ९१० [४-५])।

[सुत्तां ९१८-९१९. विगलिंदियाणं वद्ध-मुक्कसरीरपरूपणा]

९१८. [१] वेइंदियाणं भंते ! केवतिया ओरालियसरीरा पणत्ता ?

२५ गोयमा ! दुविहा पणत्ता। तं जहा—वद्देलगा य मुकेलगा य। तत्थ णं जे ते वद्देलगा ते णं असंखेज्जा, असंखेज्जाहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेतओ असंखेज्जाओ सेढीओ पयरस्स असंखेज्जतिभागो, तासि णं सेढीणं विक्खं-भसूई असंखेज्जाओ जोयणकोडकोडीओ असंखेज्जाइं सेढिवग्गमूलाइं। वेइंदियाणं

ओरालियसरीरोहिं बद्धेल्लगोहिं पयरं अवहीरति असंखेज्ञाहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं कालओ, खेत्तओ अंगुलपयरस्स आवलियाए य असंखेज्ञतिभागपलिभागेण । तथ्यं जे ते मुक्तेलगा ते जहा ओहिया ओरालिया मुक्तेलया (सु. ९१० [१]) ।

[२] वेउव्विया आहारगा य बद्धेलगा णत्थि, मुक्तेलगा जहा ओहिया ओरालिया मुक्तेलया (सु. ९१० [१]) ।

[३] तेया-कम्मगा जहा एतेसिं चेव ओहिया ओरालिया ।

९१९. एवं जाव चउरिंदिया ।

[सुत्तं ९२०. पंचिंदियतिरिक्खाणं बद्ध-मुक्तसरीरपरूपवणा]

९२०. पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं एवं चेव । नवरं वेउव्वियसरीरएसु इमो विसेसो-पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवतिया वेउव्वियसरीरया पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-बद्धेलगा य मुक्तेलगा य । तथ्यं जे ते बद्धेलगा ते णं असंखेज्ञा जहा असुरकुमाराणं (सु. ९१२ [२]) । णवरं तासि णं सेढीणं विक्खंभसूई अंगुलपद्मवग्गमूलस्स असंखेज्ञतिभागो । मुक्तेलगा तहेव ।

[सुत्तं ९२१. मणुस्साणं बद्ध-मुक्तसरीरपरूपवणा]

९२१. [१] मणुस्साणं भंते ! केवतिया ओरालियसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-बद्धेलगा य मुक्तेलगा य । तथ्यं जे ते बद्धेलगा ते णं सिय संखेज्ञा सिय असंखेज्ञा, जहण्णपए संखेज्ञा संखेज्ञाओ कोडा-कोडीओ तिजमलपयस्स उवरिं चउजमलपयस्स हेढँौ, अहवणं छट्ठो वग्गो पंचमवग्गपडुप्पणो, अहवणं छण्णउईछेयणगदाई रासी; उक्कोसपदे असंखेज्ञा, असंखेज्ञाहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ रूवपक्षिखत्तेहिं मणुस्सेहिं सेढी अवहीरति, तीसे सेढीई काल-खेत्तेहिं अवहारो मणिज्जइ-असंखेज्ञाहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं कालओ, खेत्तओ अंगुलपद्मवग्गमूलं ततियवग्गमूलपडुप्पणं । तथ्यं जे ते मुक्तेलगा ते जहा ओरालिया ओहिया मुक्तेलगा (सु. ९१० [१]) ।

[२] वेउव्वियाणं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं

१-२. ओरालियमु<sup>०</sup> म० प्र० पु२ ॥ ३. हिड्डं पु२ ॥ ४. °ए आकासखेत्तेहिं पु२ बिना । नवर सेढीए स्थाने पुरप्रतौ सेढीहिं इत्युपलभ्यते ॥

जहा-बद्धेलगा य मुकेलगा य । तथ्य णं जे ते बद्धेलगा ते णं संखेजा, समए समए अवहीरमाणा अवहीरमाणा संखेजेणं कालेणं अवहीरंति णो चेव णं अवहिया सिया । तथ्य णं जे ते मुकेलगा ते णं जहा ओरालिया ओहिया (सु. ९१० [१]) ।

५ [३] आहारगसरीरा जहा ओहिया (सु. ९१० [३]) ।

[४] तेया-कम्मया जहा एतेसि चेव ओरालिया ।

[सुत्तं ९२२. वाणमंतराणं बद्ध-मुक्सरीरपरूपणा]

९२२. वाणमंतराणं जहा णेरइयाणं ओरालिया आहारगा य । वेउच्चिय-  
सरीरगा जहा णेरइयाणं, णवरं तासि णं सेढीणं विक्खंभसूईं संखेजजोयणसय-  
१० वगगपलिभागो पयरस्स । मुकेलया जहा ओहियां ओरालिया (सु. ९१० [१]) ।  
तेया-कम्मया जहा एएसि चेव वेउच्चिया ।

[सुत्तं ९२३. जोइसियाणं बद्ध-मुक्सरीरपरूपणा]

९२३. जोतिसियाणं एवं चेव । णवरं तासि णं सेढीणं विक्खंभसूईं वे-  
ठप्पणंगुलसयवगगपलिभागो पयरस्स ।

१५

[सुत्तं ९२४. वेमाणियाणं बद्ध-मुक्सरीरपरूपणा]

९२४. वेमाणियाणं एवं चेव । णवरं तासि णं सेढीणं विक्खंभसूईं अंगुल-  
वितियवगगमूलं ततियवगगमूलपडुप्पणं, अहवणं अंगुलततियवगगमूलवणपमाण-  
मेत्ताओ सेढीओ । सेसं तं चेव ।

॥ पणवणाए भगवईए वारसमं सरीरपयं समत्तं ॥

१. “या । आहारगसरीरा जहा असुरकुमाराणं । तेया० मुद्रिते, अयं पाठभेदः केवलं पुरप्रतौ लेपकलिखित आसीत् किन्तु शोधकेन परावृत्य आहारगसरीरा जहा नेरइयाणं इति कृत्वा पुन एतदुपरि “जहा असुरकुमाराणं” इति टिप्पणी लिखिता वर्तते ॥

## १३. तेरसमं परिणामपर्यं

[सुत्तं ९२५. परिणामभेयपर्स्त्रवणा]

९२५. कतिविहे णं भंते ! परिणामे पण्णते ? गोयमा ! दुविहे परिणामे पण्णते । तं जहा—जीवपरिणामे य अजीवपरिणामे य ।

[सुत्ताइं ९२६—९४६. जीवपरिणामपर्स्त्रवणा]

९२६. जीवपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! दसविहे पण्णते । तं जहा—गतिपरिणामे १ इंदियपरिणामे २ कसायपरिणामे ३ लेसापरिणामे ४ जोगपरिणामे ५ उवओगपरिणामे ६ णाणपरिणामे ७ दंसणपरिणामे ८ चरित्तपरिणामे ९ वेदपरिणामे १० ।

९२७. गतिपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! चैउविहे १० पण्णते । तं जहा—णिरथगतिपरिणामे १ तिरियगतिपरिणामे २ मणुयगतिपरिणामे ३ देवगतिपरिणामे ४ ।

९२८. इंदियपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णते । तं जहा—सोइंदियपरिणामे १ चक्रिंखदियपरिणामे २ घाणिंदियपरिणामे ३ जिबिंभदियपरिणामे ४ फासिंदियपरिणामे ५ ।

९२९. कसायपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! चउविहे पण्णते । तं जहा—कोहकसायपरिणामे १ माणकसायपरिणामे २ मायाकसायपरिणामे ३ लोभकसायपरिणामे ४ ।

९३०. लेस्सापरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! छविहे पण्णते । तं जहा—कण्ठलेस्सापरिणामे १ णीललेस्सापरिणामे २ काउलेस्सापरिणामे ३ तेडलेस्सापरिणामे ४ पम्हलेस्सापरिणामे ५ सुक्कलेस्सापरिणामे ६ ।

९३१. जोगपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! तिविहे पण्णते । तं जहा—मणजोगपरिणामे १ वैंजोगपरिणामे २ कायजोगपरिणामे ३ ।

९३२. उवओगपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! दुविहे पण्णते । तं जहा—सागारोवओगपरिणामे य अणागारोवओगपरिणामे य ।

१. चदुविधे ध० ॥ २. वयजोग<sup>०</sup> पु२ ॥

९३३. णाणपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णते । तं जहा—आभिणिवोहियनाणपरिणामे १ सुयणाणपरिणामे २ ओहिणाणपरिणामे ३ मणपञ्चवणाणपरिणामे ४ केवलणाणपरिणामे ५ ।

९३४. अण्णाणपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! ५ तिविहे पण्णते । तं जहा—मतिअण्णाणपरिणामे १ सुयअण्णाणपरिणामे २ विभंगणाणपरिणामे ३ ।

९३५. दंसणपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! तिविहे पण्णते । तं जहा—सम्मदंसणपरिणामे १ मिञ्छादंसणपरिणामे २ सम्मामिञ्छादं-सणपरिणामे ३ ।

९३६. चरित्तपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णते । तं जहा—सामाइयचरित्तपरिणामे १ छेदोवड्डावणियचरित्तपरिणामे २ परिहारविसुद्धियचरित्तपरिणामे ३ सुहुमसंपरायचरित्तपरिणामे ४ अहक्खायचरित्त-परिणामे ५ ।

९३७. वेयपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! १५ तिविहे पण्णते । तं जहा—इत्थिवेयपरिणामे १ पुरिसवेयपरिणामे २ णपुंसगवेय-परिणामे ३ ।

### [ सुत्तं ९३८. नेरइयाणं परिणामा ]

९३८. णेरइया गतिपरिणामेण णिरयगतिया, इंदियपरिणामेण पंचिदिया, कसायपरिणामेण कोहकसाई वि जाव लोभकसाई वि, लेसापरिणामेण कण्हलेस्सा २० वि णीललेस्सा वि काउलेस्सा वि, जोगपरिणामेण मणजोगी वि वैङ्जोगी वि कायजोगी वि, उवओगपरिणामेण सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि, णाणपरिणामेण आभिणिवोहियणाणी वि सुयणाणी वि ओहिणाणी वि, अण्णाण-परिणामेण मतिअण्णाणी वि सुयअण्णाणी वि विभंगणाणी वि, दंसणपरिणामेण सम्मदिझी वि मिञ्छदिझी वि सम्मामिञ्छदिझी वि, चरित्तपरिणामेण णो चरित्ती २५ णो चरित्ताचरित्ती अचरित्ती, वेदपरिणामेण णो इत्थिवेयगा णो पुरिसवेयगा णपुंसगवेयगा ।

१. वतजोगी २० जे० ॥ २. ०णामेण च्छन्नुदंसणी वि छ्छक्षन्नुदंसणी वि ओहिदंसणी वि, दिझिपरिणामेण सम्मदिझी पु२ ॥

## [सुत्तं ९३९. भवणवासीणं परिणामा]

९३९. [१] असुरकुमारा वि एवं चेव । नवरं देवगतिया, कण्हलेसा वि जाव तेउलेसा वि, वेदपरिणामेण इत्थिवेयगा वि पुरिसवेयगा वि णो णपुंसग-वेयगा । सेसं तं चेव ।

[२] एवं जाव थणियकुमारा ।

५

## [सुत्तं ९४०. एगिंदियाणं परिणामा]

९४०. [१] पुढविकाइया गतिपरिणामेण तिरियगतिया, इंदियपरिणामेण एगिंदिया, सेसं जहा णेरइयाणं (सु. ९३८) । णवरं लेस्सापरिणामेण तेउलेस्सा वि, जोगपरिणामेण कायजोगी, णाणपरिणामो णत्थि, अण्णाणपरिणामेण मति-अण्णाणी वि सुयअण्णाणी वि, दंसणपरिणामेण मिच्छदिङ्गी । सेसं तं चेव ।

१०

[२] एवं आउ-वणप्फङ्काइया वि ।

[३] तेऊ वाऊ एवं चेव । णवरं लेस्सापरिणामेण जहा णेरइया (सु. ९३८) ।

## [सुत्तं ९४१. विगलिंदियाणं परिणामा]

९४१. [१] वेइंदिया गतिपरिणामेण तिरियगतिया, इंदियपरिणामेण वेइंदिया, सेसं जहा णेरइयाणं (सु. ९३८) । णवरं जोगपरिणामेण वइयोगी वि काययोगी वि, णाणपरिणामेण आभिणिबोहियणाणी वि सुयणाणी वि, अण्णाण-परिणार्मणं मतिअण्णाणी वि सुयअण्णाणी वि णो विभंगणाणी, दंसणपरिणामेण सम्मादिङ्गी वि मिच्छदिङ्गी वि णो सम्मामिच्छदिङ्गी । सेसं तं चेव ।

१५.

[२] एवं जाव चउरिंदिया । णवरं इंदियपरिहुङ्गी कायव्वा ।

२०

## [सुत्तं ९४२. पंचिंदियतिरियाणं परिणामा]

९४२. पंचेंदियतिरिक्खजोणिया गतिपरिणामेण तिरियगतीया । सेसं जहा णेरइयाणं (सु. ९३८) । णवरं लेस्सापरिणामेण जाव सुक्लेस्सा वि, चरित्त-परिणामेण णो चरिती अचरिती वि चरित्ताचरिती वि, वेदपरिणामेण इत्थिवेयगा वि पुरिसवेयगा वि णपुंसगवेयगा वि ।

२५

## [ सुत्तं ९४३. मणुस्सार्णं परिणामा ]

९४३. मणुस्सा गतिपरिणामेण मणुयगतिया, इंद्रियपरिणामेण पंचेदिया अणिदिया वि, कसायपरिणामेण कोहकसाई वि जाव अकसाई वि, लेस्सापरिणामेण कण्हलेस्सा वि जाव अलेस्सा वि, जोगपरिणामेण मणजोगी वि जाव अजोगी वि, ६ उवओगपरिणामेण जहा णेरइया (सु. ९३८), णाणपरिणामेण आभिणिवोहियणाणी वि जाव केवलणाणी वि, अण्णाणपरिणामेण तिणिं वि अण्णाणा, दंसणपरिणामेण तिन्नि वि दंसणा, चरित्तपरिणामेण चरित्ती वि अचरित्ती वि चरित्ताचरित्ती वि, वेदपरिणामेण इत्थिवेयगा वि पुरिसवेयगा वि नपुंसगवेयगा वि अवेयगा वि ।

## [ सुत्ताहं ९४४-९४६. वाणमंतराईणं परिणामा ]

१० ९४४. वाणमंतरा गतिपरिणामेण देवगइया जहा असुरकुमारा (सु. ९३९ [१]) ।

९४५. एवं जेतिसिया वि । णवरं लेस्सापरिणामेण तेउलेस्सा ।

९४६. वेमाणिया वि एवं चेव । णवरं लेस्सापरिणामेण तेउलेस्सा वि पम्हलेस्सा वि सुकलेस्सा वि । से तं जीवपरिणामे ।

## [ सुत्ताहं ९४७-९५७. अजीवपरिणामा ]

९४७. अजीवपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! दसविहे पण्णते । तं जहा-वंधणपरिणामे १ गतिपरिणामे २ संठाणपरिणामे ३ भेदपरिणामे ४ वण्णपरिणामे ५ गंधपरिणामे ६ रसपरिणामे ७ फासपरिणामे ८ अगस्त्यलहुयपरिणामे ९ सहपरिणामे १० ।

२० ९४८. वंधणपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते गोयमा ! दुविहे पण्णते । तं जहा-निद्ववंधणपरिणामे य लुक्खवंधणपरिणामे य ।

समणिद्वयाए वंधो ण होति, समलुक्खयाए वि ण होति ।

वेमायणिद्व-लुक्खवत्तणेण वंधो उ खंधाणं ॥ १९९ ॥

णिद्वस्स णिद्वेण दुयाहिएण लुक्खस्स लुक्खेण दुयाहिएण ।

२५ णिद्वस्स लुक्खेण उवेइ वंधो जहणवज्ञो विसमो समो वा ॥ २०० ॥

१. <sup>०</sup>स्मापरिणामिया । ९४३. वेमा<sup>०</sup> जे० ध० ॥

९४९. गतिपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! दुविहे पण्णते । तं जहा—फुसमाणगतिपरिणामे य अफुसमाणगतिपरिणामे य, अहवा दीहगइपरिणामे य हस्सगइपरिणामे य ।

९५०. संठाणपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णते । तं जहा—परिमंडलसंठाणपरिणामे जाव आययसंठाणपरिणामे । ५

९५१. भेयपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णते । तं जहा—खंडभेदपरिणामे जाव उँक्करियाभेदपरिणामे ।

९५२. वण्णपरिणामे णं भंते ! कितिविहे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णते । तं जहा—कालवण्णपरिणामे जाव सुक्किलवण्णपरिणामे ।

९५३. गंधपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! दुविहे पण्णते । तं जहा—सुब्बिंगंधपरिणामे य दुब्बिंगंधपरिणामे य । १०

९५४. रसपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णते । तं जहा—तित्तरसपरिणामे जाव महुररसपरिणामे ।

९५५. फासपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! अद्विहे पण्णते । तं जहा—कक्खडफासपरिणामे य जाव लुक्खफासपरिणामे य । १५

९५६. अगरुयलहुयपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! एगागारे पण्णते ।

९५७. सद्वपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! दुविहे पण्णते । तं जहा—सुब्बिंसद्वपरिणामे य दुब्बिंसद्वपरिणामे य । से तं अजीवपरिणामे ।

॥ पण्णवणाष भगवईए तेरसमं परिणामपयं समत्तं ॥

## १४. चोहसमं कसायपर्यं

[सुत्तं ९५८. कसायभेयपरूपणा]

९५८. कति णं भंते ! कसाया पण्णता ? गोयमा ! चत्तारि कसाया पण्णता । तं जहा—कोहकसाए १ माणकसाए २ मायाकसाए ३ लोहकसाए ४ ।

६ [सुत्तं ९५९. चउवीसदंडएसु कसायपरूपणा]

९५९. ऐरइयाणं भंते ! कति कसाया पण्णता ? गोयमा ! चत्तारि कसाया पण्णता । तं जहा—कोहकसाए जाव लोभकसाए । एवं जाव वेमाणियाणं ।

[सुत्तं ९६०. कसायपइङ्गापरूपणा]

९६०. [१] कतिपतिड्हिए णं भंते ! कोहे पण्णते ? गोयमा !  
१० चउपतिड्हिए कोहे पण्णते । तं जहा—आँयपतिड्हिए १ परपतिड्हिए २ तदुभयपतिड्हिए ३ अप्पतिड्हिए ४ ।

[२] एवं ऐरइयादीणं जाव वेमाणियाणं दंडओ ।

[३] एवं माणेणं दंडओ, मायाए दंडओ, लोभेणं दंडओ ।

[सुत्तं ९६१. कसायउप्पत्तिपरूपणा]

१५ ९६१. [१] कतिहि णं भंते ! ठाणेहिं कोहुप्ती भवति ? गोयमा !  
चउहिं ठाणेहिं कोहुप्ती भवति । तं जहा—खेतं पडुच्च १ वत्थुं पडुच्च २ सरीरं  
पडुच्च ३ उवहिं पडुच्च ४ ।

[२] एवं ऐरइयादीणं जाव वेमाणियाणं ।

[३] एवं माणेण वि मायाए वि लोभेण वि । एवं एते वि चत्तारि दंडगा ।

२० [सुत्ताइँ ९६२-९६३. कसायपभेयपरूपणा]

९६२. [१] कतिविहे णं भंते ! कोहे पण्णते ? गोयमा ! चउविहे  
कोहे पण्णते । तं जहा—अणंताणुवंवी कोहे १ अप्पच्चक्खाणे कोहे २ पच्चक्खा-  
णावरणे कोहे ३ संजलणे कोहे ४ ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

[३] एवं माणेणं मायाए लोभेणं । एए वि चत्तारि दंडया ।

९६३. [१] कतिविहे णं भंते ! कोहे पण्णते ? गोयमा ! चउव्विहे कोहे पण्णते । तं जहा—आभोगणिव्वत्तिए अणाभोगणिव्वत्तिए उवसंते अणुवसंते ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

[३] एवं माणेण वि मायाए वि लोभेण वि चत्तारि दंडया ।

[सुत्ताइँ ९६४—९७१. कसाएहिं कम्मच्योवच्यादिपरूवणा ]

९६४. [१] जीवा णं भंते ! कतिहिं ठाणेहिं अटु कम्मपगडीओ चिणिंसु ? गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं अटु कम्मपगडीओ चिणिंसु । तं जहा—कोहेणं १ माणेणं २ मायाए ३ लोभेणं ४ ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

९६५. [१] जीवा णं भंते ! कतिहिं ठाणेहिं अटु कम्मपगडीओ चिणिंति ? गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं । तं जहा—कोहेणं १ माणेणं २ मायाए ३ लोभेणं ४ ।

[२] एवं णेरइया जाव वेमाणिया ।

९६६. [१] जीवा णं भंते । कइहिं ठाणेहिं अटु कम्मपगडीओ चिणिस्संति ? गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं अटु कम्मपगडीओ चिणिस्संति । तं जहा—कोहेणं १ माणेणं २ मायाए ३ लोभेणं ४ ।

[२] एवं णेरइया जाव वेमाणिया ।

९६७. [१] जीवा णं भंते ! कइहिं ठाणेहिं अटु कम्मपगडीओ उवचिणिंसु ? गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं अटु कम्मपगडीओ उवचिणिंसु । तं जहा—कोहेणं १ माणेणं २ मायाए ३ लोभेणं ४ ।

[२] एवं णेरइया जाव वेमाणिया ।

९६८. [१] जीवा णं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं उवचिणिंति कोहेणं १ जाव लोभेणं ४ ।

[२] एवं णेरतिया जाव वेमाणिया ।

१६९. एवं उवचिणिस्संति ।

१७०. जीवा णं भंते ! कइहिं ठाणेहिं अडु कम्मपगडीओ वंधिसु ?  
गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं । तं जंहा—कोहेणं १ जाव लोभेणं ४ ।

१७१. एवं ऐरइया जाव वेमाणिया वंधेसु वंधंति वंधिस्संति, उदीरेसु  
५ उदीरंति उदीरिस्संति, वेइंसु वेएंति वेइंस्संति, निजरेसु निजरिति णिजरिस्संति ।  
एवं एते जीवाईया वेमाणियपजवसाणा अड्डारस दंडगा जाव वेमाणिया णिजरिसु  
णिजरंति णिजरिस्संति ।

आयपइड्डिय खेत्तं पडुच्चङ्णंताणुवंधि आभोगे ।

चिण उवचिण वंध उईर वेय तह निजरा चेव ॥ २०१ ॥

## १५. पनरसमं इंदियपयं

पठमो उद्देसो

[ सुत्तं ९७२. पठमुद्देसस्स अत्थाहिगारा ]

९७२. संठाणं १ बाहलं २ पोहतं ३ कतिपएस ४ ओगाढे ५ ।  
 अप्पावहु ६ पुङ्क ७ पविडु ८ विसय ९ अणगार १० आहारे ११ ५  
 ॥ २०२ ॥

अद्याय १२ असी १३ य मंणी १४ उडुपाणे १५ तेल १६  
 फाणिय १७ वसा १८ य ।  
 कंबल १९ थूणा २० थिगल २१ दीवोदहि २२ लोगडलोगे  
 २३-२४ य ॥ २०३ ॥ १०

१ मणी दुङ्क पाणे तेल म० प्र० पु१ पु२ पु३ मु० । प्रत्यन्तरेषु दृश्यमानोऽयं पाठमेदो लिपिविकार-जनितः सम्भाव्यते, छन्दोभज्ञोऽप्यत्र सज्जायते । प्राचीनासु सूत्रप्रतिषु प्राचीनासु सर्वास्वपि हरिभद्रवृत्तिप्रतिषु च गाथापाठे उडुपाणे इत्येव पाठ उपलभ्यते । मलयगिरिवृत्तौ यद्यपि मुद्रितादर्शै (पत्र २९३-१) “ततो मणिविषयं ततो दुर्घोपलक्षितं ततः पानकविषयं ततस्तैलविषयं” इति वृत्तिपाठे मुद्रितो दृश्यते, किञ्चास्मदवलोकितेषु सर्वेष्वपि तालपत्रीयादिवृत्यादर्शेषु “ततो मणिविषयं ततस्तैलविषयं” इत्येव पाठो वर्तत इत्यतोऽत्र प्राचीनकालादेव उडुपाणे इत्यर्थाधिकारव्याख्यासूचको दुङ्क पाणे इत्यर्थाधिकारव्याख्यासूचको वा ग्रन्थो गलितोऽस्ति । किञ्चात्र उडुपाणे इति पाठो योग्यः? दुङ्क पाणे इति वा पाठो योग्यः? इति विचार्यते—तत्र तावद् मलयगिरिवृत्तौ मुद्रितः “ततो दुर्घोपलक्षितं ततः पानकविषयं” इति पाठस्तु केनापि विदुषा स्थानपूर्त्यर्थं प्रक्षिप्तोऽयोग्य एव, श्रीमद्भिर्मलयगिरिसूरिपादैः स्वयमेवाग्रे (पत्र ३०५-२) “एवमसि-मण्यादिविषयाण्यपि षट् सूत्राणि भावनीयानि” इति निर्देशनात्, मुद्रितवृत्तिपाठ-प्रामाण्यस्वीकरणे असि १ मणि २ दुर्घ ३ पान ४ तैल ५ फाणित ६ वसा ७ इत्येवं सप्तसूत्रसख्याभावाच्च । अत एव येन केनापि गीतार्थेन प्रक्षिप्तोऽयं पाठो भवतु तथाप्यप्रमाण-भूतोऽयं वृत्तिगतो मुद्रित । पाठ इत्यस्माभि पूर्वापर ग्रन्थसन्दर्भमनुसन्धायात्र उडुपाणे इत्येव पाठ आदतोऽस्ति । मलयगिरिवृत्तौ चेद् गलितपाठानुसन्धानं कर्तव्यं तर्हि “ततो मणिविषयं [ ततु उदपानविषय ] ततस्तैलविषयं” इतिरूपेणैव विधातव्यम् । यद्यप्यत्र श्रीमलयगिरिपादवृत्तिवचनादेव उडुपाणे इति पाठः प्रामाण्यकोटिमधिरूढ एव वर्तते तथापि उडुपाणपाठप्रामाण्यसविशेषनिर्णयार्थं निशीथसूत्रत्रयोदशोदेशकगतं सूत्रकदम्बकमप्यत्र सोपयोगमिति तदत्र प्राचीनतमप्रत्यन्तरा-धारेणोद्धियते—“जे भिक्खु अद्याए० असीए० मणिम्मि० उडुपाणे० तेले० फाणिए० वसाए० अप्पाणं देहति ।” अत्र सूत्रकदम्बके श्रीमलयगिरिसिर्निर्दिष्टानि असि-मणि-उडुपाण-तेल फाणियं वसारूपाणि पट् सूत्राण्येव वर्तन्त इति प्रज्ञापनासूत्रस्य प्राचीनासु प्रतिषूपलभ्यमानं “अद्याय असी य मणी उडुपाणे तेल फाणिय वसा य ।” इतिरूपः सूत्रपाठ एव वरीयानिति । अपि च

## [ सुन्त ९७३. इंदियभेयपस्वणा ]

९७३. कति णं भंते ! इंदिया पणता ? गोयमा ! पंच इंदिया पणता । तं जहा—सोइंदिए १ चकिंखदिए २ घाणिंदिए ३ जिविंभदिए ४ फासिंदिए ५ ।

६

## [ सुन्त ९७४. १ संठाणदारं ]

९७४. [१] सोइंदिए णं भंते ! किंसंठिते पणते ? गोयमा ! कलंबुया-पुफ्संठाणसंठिए पणते ।

[२] चकिंखदिए णं भंते ! किंसंठिए पणते ? गोयमा ! मसूरचंदंसंठाण-संठिए पन्नते ।

१० [३] घाणिंदिए णं पुच्छा । गोयमा ! अइमुत्तगचंदंसंठाणसंठिए पणते ।

[४] जिविंभदिए णं पुच्छा । गोयमा ! खुरप्पसंठाणसंठिए पणते ।

[५] फासिंदिए णं पुच्छा । गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए पणते ।

श्रीजीवविजयगणि-श्रीधनविमलगणिभ्या स्वस्वविरचितप्रज्ञापनासूत्रगूर्जरभाषास्तवकान्तः दुद्धपाणे इति पाठ आद्योऽस्ति । तत्रापि श्रीजीवविजयगणिना दुद्ध पाण इति द्वारद्वय मत्वाऽत्राधिकारे पञ्चविंशतिर्द्वाराणि विहितानि सन्ति, तदनुसारेण च व्याख्यातमस्ति, तथाप्रेऽपि एवं असिं मणिं दुद्धं पाणं तेलं फाणियं वसं इति ९९९ [२]-सूत्रव्याख्याने पट्सूत्रप्रतिवन्ध एव स्वीकृतो नास्तीति न तन्मतेन सूत्राधिक्यदोष इति । श्रीधनविमलगणिभिस्तु दुद्ध पाणे इति द्वारयुगलं निर्दिश्यापि अग्रे एवं एतेण अभिलाचेण असिं मणि दुद्धं पाणं तेलं फाणियं वसं इति ९९९ [२] सूत्रस्तवके “इम एणे आलावे छ सूत्र कहवा—दीतखज्ज दीतमणि मधु पाणी तेल सयिलगु[ल]रस र(व)सादि” इति स्वव्याख्यानवाधको वृत्तिकृतिर्दृष्टि पट्सूत्रोद्देश. कथं व्यधायिद्देशि त एव जानन्ति । अपि च श्रीमद्भुष्यमिक्तुभि सम्पादिते सुतागमद्वितीयभागान्तर्मुद्रिते प्रज्ञापनासूत्रेऽत्र स्थाने (पृ. ४११) “अहा य असी य मणी दुद्ध पाणिय तेल फाणिय तहा य ।” इतिरूपं गायापाठो मुद्रितोऽस्ति, नायं पाठः कथिविदपि समुचितोऽस्ति । यद्यप्यत्र तैः श्रीमल्यगिरिपादनिर्दिष्ट—“एवमसि-मप्यादि-विपयाण्यपि पट्सूत्राणि भावनीयानि—” इति वृत्तिपाठं प्रेक्ष्य पट्सूत्रसंख्यासमीकरणार्थं अर्थात् पट्सूत्रविधानार्थं वसा य इति पाठस्थाने तहा य इति विहितमाभाति तथापि तैर्नैतदुचितं विहित-मास्ति, यतस्तैः “एवं एतेण अभिलाचेण असिं मणि दुद्धं पाणिय तेल फाणियं वसं” इति सतसूत्रभवनदोपभयात् सूत्रपाठगतं वसं इति पदं निष्कासितमस्ति (द्वयता सुतागमद्वितीयभाग पृष्ठ ८१७) इत्येतावदेव तावश्चास्ति किन्तु निशीयसूत्रत्रयोदशोदेशकान्तरपि सर्वस्वपि सूत्रप्रतिष्ठूप-लभ्यमानं वसासूत्रमपि तैर्निष्कासितमस्ति (द्वयता सुतागमद्वितीयभाग पृष्ठ ८१६) । अत्र च चेत् तैरुपलव्धपाठानुसारेण दुद्धपाण इति एकपदं व्यधास्यत् तदा यथाकथिविदपि समीचीनम-भविष्यत्, किन्तु प्रज्ञापनासूत्रगत निशीयसूत्रगतवसासूत्रपदनिष्कासनं त्वतीव बाधकमिति ।

[सुत्तं ९७५, २ वाहल्लदारं]

९७५. [१] सोइंदिए णं भंते ! केवतियं वाहलेणं पण्णते ? गोयमा !  
अंगुलस्स असंखेज्जतिभाँगं वाहलेणं पण्णते ।

[२] एवं जाव फासिंदिए ।

[सुत्तं ९७६, ३ पोहत्तदारं]

५

९७६. [१] सोइंदिए णं भंते ! केवतियं पोहत्तेणं पण्णते ? गोयमा !  
अंगुलस्स असंखेज्जतिभाँगं पोहत्तेणं पण्णते ।

[२] एवं चक्रिखंदिए वि घाणिंदिए वि ।

[३] जिबिंदिए णं पुच्छा । गोयमा ! अंगुलमुहत्तं पोहत्तेणं पण्णते ।

[४] फासिंदिए णं पुच्छा । गोयमा ! सरीरपमाणमेते पोहत्तेणं १०  
पण्णते ।

[सुत्तं ९७७, ४ कतिपएसदारं]

९७७ [१] सोइंदिए णं भंते ! कतिपएसिए पण्णते ? गोयमा !  
अणंतपएसिए पण्णते ।

[२] एवं जाव फासिंदिए ।

१५

[सुत्तं ९७८, ५ ओगाढदारं]

९७८. [१] सोइंदिए णं भंते ! कतिपएसोगाडे पण्णते ? गोयमा !  
असंखेज्जपएसोगाडे पण्णते ।

[२] एवं जाव फासिंदिए ।

[सुत्ताइ ९७९-९८२, ६ अप्पावहुदारं]

२०

९७९. एएसि णं भंते ! सोइंदिय-चक्रिखदिय-घाणिंदिय-जिबिंदिय-  
फासिंदियाणं ओगाहणहुयाए पएसहुयाए ओगाहणपएसहुयाए कतरे कतरेहिंतो  
अप्पा वा बहुया वा तुल्या वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवे चक्रिखदिए  
ओगाहणहुयाए, सोइंदिए ओगाहणहुयाए संखेजगुणे, घाणिंदिए ओगाहणहुयाए

संखेजगुणे, जिविंभिदिए ओगाहणडयाए असंखेजगुणे, फासिंदिए ओगाहणडयाए संखेजगुणे; पदेसडयाए—सब्बत्थोवे चकिंखदिए पदेसडयाए, सोइंदिए पदेसडयाए संखेजगुणे, घाणिंदिए पएसडयाए संखेजगुणे, जिविंभिदिए पएसडयाए असंखेजगुणे, फासिंदिए पएसडयाए संखेजगुणे; ओगाहणैपएसडयाए—सब्बत्थोवे चकिंखदिए ५ ओगाहणडयाए, सोइंदिए ओगाहणडयाए संखेजगुणे, घाणिंदिए ओगाहणडयाए संखेजगुणे, जिविंभिदिए ओगाहणडयाए असंखेजगुणे, फासिंदिए ओगाहणडयाए संखेजगुणे, फासिंदियस्स ओगाहणडयाएहिंतो चकिंखदिए पएसडयाए अणंतगुणे, सोइंदिए पएसडयाए संखेजगुणे, घाणिंदिए पएसडयाए संखेजगुणे, जिविंभिदिए पएसडयाए असंखेजगुणे, फासिंदिए पएसडयाए संखेजगुणे ।

१० [१] सोइंदियस्स णं भंते ! केवतिया कक्खडगरुयगुणा पण्णता ? गोयमा ! अणंता कक्खडगरुयगुणा पण्णता ।

[२] एवं जाव फासिंदियस्स ।

११. [१] सोइंदियस्स णं भंते ! केवतिया मउयलहुयगुणा पण्णता ? गोयमा ! अणंता मउयलहुयगुणा पण्णता ।

[२] एवं जाव फासिंदियस्स ।

१२. एतेसि णं भंते ! सोइंदिय-चकिंखदिय-घाणिंदिय-जिविंभिदिय-फासिंदियाणं कक्खडगरुयगुणाणं मउयलहुयगुणाणं कक्खडगरुयगुण-मउयलहुयगुणाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्बत्थोवा चकिंखदियस्स कक्खडगरुयगुणा, सोइंदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, २० घाणिंदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, जिविंभिदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, फासेंदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा; मउयलहुयगुणाण—सब्बत्थोवा फासिंदियस्स मउयलहुयगुणा, जिविंभिदियस्स मउयलहुयगुणा अणंतगुणा, घाणिंदियस्स मउयलहुयगुणा अणंतगुणा, सोइंदियस्स मउयलहुयगुणा अणंतगुणा, चकिंखदियस्स मउयलहुयगुणा अणंतगुणा; कक्खडगरुयगुणाणं २५ मउयलहुयगुणाण य—सब्बत्थोवा चकिंखदियस्स कक्खडगरुयगुणा, सोइंदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, घाणिंदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, जिविंभिदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, फासिंदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, फासिंदियस्स कक्खडगरुयगुणेहिंतो तस्स चेव मउयलहुयगुणा

१. °याए अणंतगुणे जे० । °याए असंखेजगुणे म० प्र० ॥ २. °णटयाए पएस° जे० ॥

अणंतगुणा, जिविंदियस्स मउयलहुयगुणा अणंतगुणा, वाणिंदियस्स मउ-  
यलहुयगुणा अणंतगुणा, सोइंदियस्स मउयलहुयगुणा अणंतगुणा, चविंखदियस्स  
मउयलहुयगुणा अणंतगुणा ।

[सुत्ताइ ९८३—९८९. चउवीसदंडएसु संठाणाइदारछक्के]

९८३. [१] णेरइयाणं भंते ! कइ इंदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! ५  
पंचेदिया पण्णत्ता । तं जहा—सोइंदिए जाव फासिंदिए ।

[२] णेरइयाणं भंते ! सोइंदिए किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा !  
कलंबुयासंठाणसंठिए पण्णत्ते । एवं जहेव ओहियाणं वत्तव्या भणिया  
(सु. ९७४ तः ९८२) तहेव णेरइयाणं पि जाव अप्पाबहुयाणि दोणिण वि ।  
णवरं णेरइयाणं भंते ! फासिंदिए किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । १०  
तं जहा—भवधारणिज्जे य उत्तरवेउव्विए य, तथ्य णं जे से भवधारणिज्जे  
से णं हुंडसंठाणसंठिए पण्णत्ते, तथ्य णं जे से उत्तरवेउव्विए से वि तहेव ।  
सेसं तं चेव ।

९८४. असुरकुमाराणं भंते ! कति इंदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! पंचेदिया  
पण्णत्ता । एवं जहा ओहियाणं (सु. ९७३ तः ९८२) जाव अप्पाबहुयाणि १५  
दोणिण वि । णवरं फासौदिए दुविहे पण्णत्ते । तं जहा—भवधारणिज्जे य उत्तर-  
वेउव्विए य । तथ्य णं जे से भवधारणिज्जे से णं समचउरंसंठाणसंठिए पण्णत्ते,  
तथ्य णं जे से उत्तरवेउव्विए से णं णाणासंठाणसंठिए पण्णत्ते । सेसं तं चेव । एवं  
जाव थणियकुमाराणं ।

९८५. [१] पुढविकाइयाणं भंते ! कति इंदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! २०  
एगे फासिंदिए पण्णत्ते ।

[२] पुढविकाइयाणं भंते ! फासिंदिए किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा !  
मसूरचंदंसंठिए पण्णत्ते ।

[३] पुढविकाइयाणं भंते ! फासिंदिए केवतियं बाह्लेणं पण्णत्ते ?  
गोयमा ! अंगुलस्स असंखेज्जभागं बाह्लेणं पण्णत्ते । २५

[४] पुढविकाइयाणं भंते ! फासिंदिए केवतियं पोहतेणं पण्णत्ते ?  
गोयमा ! सरीरपमाणमेते पोहतेणं पण्णत्ते ।

१. °यापुष्कसंठाण° ध०॥ २. किंसंठाणसंठिए म० प्र० पु२॥ ३. °चंदसंठाणसंठिए म०प्र० पु२॥

[५] पुढविकाइयाणं भंते ! फासिंदिए कतिपएसिए पणत्ते ? गोयमा !  
अणंतपएसिए पणत्ते ।

[६] पुढविकाइयाणं भंते ! फासिंदिए कतिपएसोगाढे पणत्ते ? गोयमा !  
असंखेजपएसोगाढे पणत्ते ।

५ [७] एतेसि णं भंते ! पुढविकाइयाणं फासिंदियस्स ओगाहैण-पएसडु-  
याए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा !  
सब्बत्थेवे पुढविकाइयाणं फासिंदिए ओगाहणहुयाए, से चेव पएसडुयाए  
अणंतगुणे ।

१० [८] पुढविकाइयाणं भंते ! फासिंदियस्स केवतिया कक्खडगरुयगुणा  
पणत्ता ? गोयमा ! अणंता । एवं मउयलहुयगुणा वि ।

[९] एतेसि णं भंते ! पुढविकाइयाणं फासेंदियस्स कक्खडगरुयगुण-  
मउयलहुयगुणाणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया  
वा ? गोयमा ! सब्बत्थेवा पुढविकाइयाणं फासेंदियस्स कक्खडगरुयगुणा, तस्स  
चेव मउयलहुयगुणा अणंतगुणा ।

१५ ९८६. एवं आउक्काइयाण वि जाव वणफइकाइयाणं । णवरं संठाणे  
इमो विसेसो दैङ्क्वो—आउक्काइयाणं थिवुगविंदुसंठाणसंठिए पणत्ते, तेउक्काइया-  
णं सूरीकलवसंठाणसंठिए पणत्ते, वाउक्काइयाणं पडागासंठाणसंठिए पणत्ते,  
वणफइकाइयाणं णाणासंठाणसंठिए पणत्ते ।

२० ९८७. [१] वेइंदियाणं भंते ! कति इंदिया पणत्ता ? गोयमा ! दो  
इंदिया पणत्ता । तं जहा—जिविंभदिए य फासिंदिए य । दोष्हं पि इंदियाणं  
संठाणं वाहलं पोहतं पदेसा ओगाहणा य जहा ओहियाणं भणिया (सु. ९७४—  
९७८) तहा भाणियव्वा । णवरं फासेंदिए हुंडसंठाणसंठिए पणत्ते ति इमो  
विसेसो ।

२५ [२] एतेसि णं भंते ! वेइंदियाणं जिविंभदिय-फासेंदियाणं ओगाहणहुयाए  
पएसडुयाए ओगाहणैपएसडुयाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा !  
सब्बत्थेवे वेइंदियाणं जिविंभदिए ओगाहणहुयाए, फासेंदिए ओगाहणहुयाए संखे-  
जगुणे; पएसडुयाए—सब्बत्थेवे वेइंदियाणं जिविंभदिए पएसडुयाए, फासेंदिए

१. °हणहुयाए पएसडुयाए ओगाहणपएसडुयाए कतरे मुद्रिते ॥ २. °गुणाणं मउयलहुयगुणाण  
कतरे मुद्रिते । ३. वच्चव्वो प्र० ॥ ४—५. °ए संठाणेण पणत्ते ध० ॥ ६. °णटुपपएस° जे० ध० ॥

पएसद्याए संखेजगुणे; ओगाहणपएसद्याए—सव्वत्थोवे बेइंदियस्स जिबिंदिए ओगाहणद्याए, फासिंदिए ओगाहणद्याए संखेजगुणे, फासेंदियस्स ओगाहणद्याएहिंतो जिबिंदिए पएसद्याए अणंतगुणे, फासिंदिए पएसद्याए संखेजगुणे ।

[३] बेइंदियाणं भंते ! जिबिंदियस्स केवइया कक्खडगरुयगुणा पण्णता ? गोयमा ! अणंता । एवं फासेंदियस्स वि । एवं मउयलहुयगुणा वि । ५

[४] एतेसि णं भंते ! बेइंदियाणं जिबिंदिय-फासेंदियाणं कक्खड-गरुयगुणाणं मउयलहुयगुणाणं कक्खडगरुयगुण-मउयलहुयगुणाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा बेइंदियाणं जिबिंदियस्स कक्खडगरुयगुणा, फासेंदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, फासेंदियस्स कक्खडगरुयगुणेहिंतो तस्स चेव मउयलहुयगुणा अणंतगुणा, जिबिंदियस्स मउयलहुयगुणा अणंतगुणा । १०

[५] एवं जाव चउरिंदिय ति । णवरं इंदियपरिबुडी कायब्बा । तेइंदियाणं घाणेंदिए थोवे, चउरिंदियाणं चक्किंखदिए थोवे । सेसं तं चेव ।

९८८. पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं मणूसाण य जहा णेरइयाणं (सु. ९८३) । णवरं फासिंदिए छविहसंठाणसंठिए पण्णते । तं जहा—समचउरंसे १ १५ णगोहपरिमिंडले २ साती ३ खुजे ४ वामणे ५ हुंडे ६ ।

९८९. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा असुरकुमाराणं (सु. ९८४) ।

### [सुत्तं ९९०. ७ पुद्गदारं ]

९९०. [१] पुद्गाइं भंते ! सद्वाइं सुणेइ ? अपुद्गाइं सद्वाइं सुणेइ ? २० गोयमा ! पुद्गाइं सद्वाइं सुणेइ, नो अपुद्गाइं सद्वाइं सुणेइ ।

[२] पुद्गाइं भंते ! रूवाइं पासति ? अपुद्गाइं रूवाइं पासइ ? गोयमा ! णो पुद्गाइं रूवाइं पासइ, अपुद्गाइं रूवाइं पासति ।

[३] पुद्गाइं भंते ! गंधाइं अग्धाति ? अपुद्गाइं गंधाइं अग्धाति ? गोयमा ! पुद्गाइं गंधाइं अग्धाइ, णो अपुद्गाइं गंधाइं अग्धाति । २५

[४] एवं रँसाणवि फासाणवि । णवरं रसाइं अस्साएइ फासाइं पडिसंवेदेति ति अभिलावो कायब्बो ।

१. रसाणि + अवि = रसाणवि, फासाणि + अवि = फासाणवि ॥

## [ सुत्तं १९१. ८ पविद्वारं ]

१९१. [१] पविद्वाइं भंते ! सदाइं सुणेइ ? अपविद्वाइं सदाइं सुणेइ ? गोयमा ! पविद्वाइं सदाइं सुणेति, णो अपविद्वाइं सदाइं सुणेति ।

[२] एवं जहा पुडाणि तहा पविद्वाणि वि ।

६

## [ सुत्तं १९२. ९ विसयदारं ]

१९२. [१] सोइंदियस्स णं भंते ! केवतिए विसए पण्णते ? गोयमा ! जहणेणं अंगुलस्स असंखेज्जतिभाँगाओ, उक्कोसेणं वारसहिं जोयणेहिंतो अच्छिणे पोगले पुडे पविद्वाइं सदाइं सुणेति ।

[२] चकिंखदियस्स णं भंते ! केवतिए विसए पण्णते ? गोयमा !  
१० जहणेणं अंगुलस्स संखेज्जतिभाँगाओ, उक्कोसेणं सातिरेगाओ जोयणसयसहस्साओ अच्छिणे पोगले अपुडे अपविद्वाइं रूवाइं पासति ।

[३] वार्णिदियस्स पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अंगुलस्स असंखेज्जति-भाँगातो, उक्कोसेणं णवहिं जोयणेहिंतो अच्छिणे पोगले पुडे पविद्वाइं गंवाइं अग्घाति ।

[४] एवं जिब्मिदियस्स वि फासिंदियस्स वि ।

१६

## [ सुत्ताइं १९३-१९४, १० अणगारदारं ]

१९३. अणगारस्स णं भंते ! भाविअप्पणो मारणंतियसमुग्घाएणं समो-हयस्स जे चरिमा णिज्जरापोगला सुहुमा णं ते पोगला पण्णता समणाउसो ! ? सञ्चलोगं पि य णं ते ओगाहित्ता णं चिङ्गति ? हंता गोयमा ! अणगारस्स णं भाविअप्पणो मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स जे चरिमा णिज्जरापोगला सुहुमा णं ते पोगला पण्णता समणाउसो ! सञ्चलोगं पि य णं ते ओगाहित्ता णं चिङ्गति ।

१९४. छउमत्थे णं भंते ! मण्णसे तेसिं णिज्जरापोगलालैणं किं आणतं वा णाणतं वा ओमतं वा तुच्छतं वा गरुयतं वा लहुयतं वा जाणइ पासइ ? गोयमा ! णो इण्डे समडे । से केण्डेणं भंते ! एवं बुच्चति छउमत्थे णं मण्णसे तेसिं णिज्जरापोगलालैणं णो किंचि आणतं वा णाणतं वा ओमतं वा तुच्छतं वा गरुयतं वा लहुयतं वा जाणति पासति ? गोयमा ! देवे वि य णं अत्थेगइए जे णं तेसिं

१, ३-४. °भागो, उ° व० म० प्र० पु२॥ २. असंखेज्जति° ध० म० प्र०, असाधुरयं पाठः ॥  
५. °लाणं किंचि आणतं म० ॥

णिजरापोग्गलाणं णो किंचि आणतं वा णाणतं वा ओमतं वा तुच्छतं वा गरुयतं वा लहुयतं वा जाणति पासति, सेतेणद्वेण गोयमा ! एवं बुच्चति-छउमत्थे ३ मणूसे तेसिं णिजरापोग्गलाणं णो किंचि आणतं वा णाणतं वा ओमतं वा तुच्छतं वा गरुयतं वा लहुयतं वा जाणइ पासति, सुहुमा ४ णं ते पोग्गला पण्णता समणाउसो !, सब्बलोगं पि य ५ णं ते ओगाहिताँ चिङ्गति ।

[सुन्ताइं ९९५-९९८. चउबीसदंडएसु ११ आहारदारं ]

९९५. [१] णेरइया ६ णं भंते ! ते णिजरापोग्गले किं जाणति पासंति आहारेति ? उदाहु ७ ण याणंति ८ ण पासंति ९ ण आहारेति ? गोयमा ! णेरइया १० णं ते णिजरापोग्गले ११ ण जाणंति १२ ण पासंति, आहारेति ।

[२] एवं जाव पंचेदियतिरिक्खजोणियाँ ।

९९६. मणूसा १३ णं भंते ! ते णिजरापोग्गले किं जाणंति पासंति आहारेति ? उदाहु १४ ण जाणंति १५ ण पासंति १६ ण आहारेति ? गोयमा ! अथेगइया १७ जाणंति पासंति आहारेति, अथेगइया १८ ण जाणंति १९ ण पासंति आहारेति । से केणद्वेण २० भंते ! एवं बुच्चति अथेगइया २१ जाणंति पासंति आहारेति ? अथेगइया २२ ण याणंति २३ ण पासंति आहारेति ? गोयमा ! मणूसा दुविहा २४ पण्णता । तं जहा-सणिभूया २५ य असणिभूया य । तथ २६ णं जे ते असणिभूया २७ ते २८ ण जाणंति २९ ण पासंति आहारेति । तथ ३० णं जे ते सणिभूया ३१ ते दुविहा ३२ पण्णता, तं जहा-उवउत्ता ३३ य अणुवउत्ता ३४ य । तथ ३५ णं जे ते अणुवउत्ता ३६ ते ३७ ण याणंति ३८ ण पासंति आहारेति, तथ ३९ णं जे ते उवउत्ता ४० ते ४१ ण जाणंति पासेंति आहारेति, ४२ से एणद्वेण ४३ गोयमा ! एवं बुच्चति-अथेगइया ४४ ण याणंति ४५ ण पासंति आहारेति अथेगइया ४६ जाणंति पासंति आहारेति ।

९९७. वाणमंतर-जोइसिया जहा णेरइया (सु. ९९५ [१]) ।

९९८. वेमाणिया ४७ णं भंते ! ते णिजरापोग्गले किं जाणंति पासंति आहारेति ? गोयमा ! जहा मणूसा (सु. ९९६) । णवरं वेमाणिया दुविहा [ग्रन्थाग्रम् ४५००] ४८ पण्णता । तं जहा-माइमिच्छद्विउववण्णगा ४९ य अमाइ-सम्मद्विउववण्णगा ५० य । तथ ५१ णं जे ते माइमिच्छद्विउववन्नगा ५२ ते ५३ ण याणंति ५४ ण न पासंति आहारिति । तथ ५५ णं जे ते अमाइसम्मद्विउववन्नगा ५६ ते दुविहा ५७ पन्नता,

१. पासति, एवं सुहुमा म० प्र० पु२ ॥ २. °त्ता ४ णं चिङ्गति म० जे० पु२ ॥ ३. °जोणिया ५ णं ५ म० पु२ मु० ॥ ४. सेएणद्वेण ६ णं ध० म० ॥ ५. °गतिया ७ याणंति पासंति आहारेति अथेगतिया ८ न जाणंति न पासंति आहारंति पु२ ॥ ६. °मंतरा म० प्र० ॥

तं जहा—अणंतरोववन्नगा य परंपरोववन्नगा य । तथ्य णं जे ते अणंतरोववण्णगा ते णं ण याणंति ण पासंति आहोरेंति । तथ्य णं जे ते परंपरोववण्णगा ते दुविहा पण्णता, तं जहा—पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य । तथ्य णं जे ते अपज्जत्तगा ते णं ण याणंति ण पासंति आहोरेंति । तथ्य णं जे ते पज्जत्तगा ते दुविहा पण्णता, तं ५ जहा—उवउत्ता य अणुवउत्ता य । तथ्य णं जे ते अणुवउत्ता ते णं ण याणंति ण पासंति आहोरेंति, तथ्य णं जे ते उवउत्ता ते णं जाणंति पासंति आहोरेंति । सेएण्डेणं गोयमा ! एवं वुच्चति—अत्थेगइया ण जाणंति जाव अत्थेगइया० आहोरेंति ।

### [सुत्तं १९९. १२-१८ अद्यायाइदारसत्तगं]

१९९. [१] अद्याए णं भंते ! पेहमाणे मण्से किं अद्यायं १० पेहेति ? अत्ताणं पेहेति ? पलिभागं पेहेति ? गोयमा ! नो अँद्यायं पेहेति णो

१. से एतेण० पु२ ॥ २. अत्रास्माभिः गोयमा ! नो अद्यायं पेहेति इति सूत्रपाठः सर्वास्वपि प्राचीनार्वाचीनासु सूत्रप्रतिषु उपलभ्यत इति स एव मूले आद्योऽस्ति । किञ्च—श्रीमलयगिरिपादैः स्ववृत्तौ गोयमा ! अद्यायं पेहेति इति नोपदविरहित एव पाठे व्याख्यातोऽस्ति, ततश्च तथाव्याख्यादर्शनात् सम्भाव्यते तत्पार्वतीनीषु प्रतिषु एताहगेव पाठो भावी, अत एव तद्वयाख्यानवशवर्तिभिः श्रीसागरानन्दसूरिपादैः स्वसम्पादने गोयमा ! अद्यायं पेहेति इत्येवंरूप नोपदविरहित एव सूत्रपाठः स्वीकृतोऽस्ति, तदनुकारिणा श्रीपुष्पमिक्षुमुनिवरेणापि नोपदविरहित एव पाठ आद्योऽस्ति । किञ्च प्राचीनार्वाचीनासु प्रज्ञापनासूत्रप्रतिषु धनपतवावूमुद्रितावृत्तौ अभिधानराजेन्द्रे एतत्पाठोद्भृतौ च गोयमा ! नो अद्यायं पेहेति इत्येवं नोपदसहित एव पाठो दृश्यते । श्रीमद्विर्मलयगिरिचरणैस्तावदेव व्याख्यातमस्ति—“भगवानाह—आदर्शं तावत् प्रेक्षत एव, तस्य स्फुटरूपस्य यथावस्थिततया तेनोपलम्भात्” (पत्र ३०५-१) इति । यद्यप्यत्र श्रीमलयगिरिभिस्पलव्यपाठानुसारेण नोपदविरहितमूत्रव्याख्यानं विहितमस्ति तथापि यदा प्राचीनासु प्राचीनतरासु सूत्रप्रतिषु नोपदविरहितः सूत्रपाठ एव न दृश्यते तदा एतद् विचाराहैं भवति, यत्—यः आदर्श—आदर्शमध्ये पश्यति तस्य आदर्शदर्शनक्रिया सह सम्बन्ध एव तावन्नास्ति, यत आदर्शदर्शनक्रिया किल दर्शकस्य आदर्शग्रहणे आदर्शान्तर्दर्शनात् प्रागेव जाताऽस्ति, तत आदर्शान्तर्दर्शनकाले आदर्शदर्शनक्रिया नौचितीमञ्चतीति विचार्यमाणे गोयमा ! नो अद्यायं पेहेति इत्युपलभ्यमान एव सूत्रपाठः सावीयस्तर इत्यस्माकमाभाति । अपि च प्रज्ञापनासूत्रगूर्जरभाषास्तवकर्तृभ्या श्रीजीवविजयगणि-श्रीधनविमलगणि-भ्यामपि गोयमा ! नो अद्यायं पेहेति इति पाठानुसारैव व्याख्यातमस्ति, तत्रापि श्रीजीवविजयगणिना त्वतिस्पृष्टतयाऽर्थव्याख्यानं विहितमस्ति । तथाहि—“हे गौतम ! आरीसा प्रते न देषे, जे भणी जेहवुं माहे रूप देषे तेहवें रूपे आरीसो नथी ते माटे । पोतानुं सरीर पण न देषे, जे भणी पोतानुं सरीर पोता पासें छे ते आरीसा माहे किंहाथी हुइं ? ते माटे । प्रतिभाग ते पोताना शरीरानुं प्रतिविव देषे छे ।” श्रीधनविमलगणिविरचितस्तवकार्थस्त्वत्यम्—“गो० । आरीसानइ नवी देषतो । सरीरने नवी देषतो । पलिभाग देहति पश्यति एतले प्रतिविव देषे छे ” । यद्यप्यत्र नोशब्दपाठास्तित्व नास्तित्वनिर्णयेऽनेकानि प्रमाणान्युद्भृतानि सन्ति तथाप्यत्रार्थे वहशुतनिर्णय एव प्रमाणमिति ॥ ३. अद्याति वे० व० । अद्याहृं वे० पु३ ॥

अत्ताणं पेहेति, पलिभागं पेहेति ।

[२] एवं एतेण अभिलावेण असिं मर्णि उडुपाणं तेलं फाणियं वसं ।

### [सुत्तं १०००. १९ कंबलदारं]

१०००. कंबलसाँडए णं भंते ! आवेदियपरिवेदिए समाणे जावतियं ओवासंतरं फुसित्ता णं चिडुति विरल्लिए वि य णं समाणे तावतियं चेव ओवासंतरं ६ फुसित्ता णं चिडुति ? हंता ! गोयमा ! कंबलसाँडए णं आवेदियपरिवेदिए समाणे जावतियं तं चेव ।

### [सुत्तं १००१. २० थूणादारं]

१००१. थूणा णं भंते ! उडुं ऊसिया समाणी जावतियं खेतं ओगाहित्ता णं चिडुति तिरियं पि य णं आयया समाणी तावतियं चेव खेतं १० औंगाहित्ता णं चिडुति ? हंता गोयमा ! थूणा णं उडुं ऊसिया तं चेव जाव चिडुति ।

### [सुत्तं १००२. २१ थिगलदारं]

१००२. आगासथिगले णं भंते ! किणा फुडे ? कइहिं वा काएहिं १५ फुडे ? किं धम्मत्थिकाएणं फुडे ? किं धम्मत्थिकायस्स देसेणं फुडे ? धम्मत्थि- कायस्स पदेसेहिं फुडे ? एवं अधम्मत्थिकाएणं आगासथिकाएणं ? एणं भेदेणं जाव किं पुढविकाइएणं फुडे जाव तसकाएणं फुडे ? अद्वासमएणं फुडे ? गोयमा ! धम्मत्थिकाएणं फुडे, णो धम्मत्थिकायस्स देसेणं फुडे, धम्मत्थिकायस्स पदेसेहिं २० फुडे । एवं अधम्मत्थिकाएण वि । णो आगासथिकाएणं फुडे, आगासथिकायस्स देसेणं फुडे, आगासथिकायस्स पदेसेहिं फुडे जाव वणफङ्काइएणं फुडे । तसकाएणं सिय फुडे, सिय णो फुडे । अद्वासमएणं देसे फुडे, देसे णो फुडे ।

### [सुत्तं १००३. २२ दीवोदहिदारं]

१००३. [१] जंबुद्धीवे णं भंते ! दीवे किणा फुडे ? कतिहिं वा काएहिं

१. मणिं दुद्धं पाणं तेलं म० प्र० पु१ पु२ पु३ स० । म० प्रतौ दुद्धं पाणं पाठोपरि “उडुपाणि इति पाठः” इति टिप्पणी लिखिता वर्तते । एतत्पाठनिर्णयविषये २३७ पृष्ठस्य टिप्पणी द्रष्टव्या ॥ २-३. °साडे णं पु२ विना ॥

फुडे ? किं धम्मत्थिकाएणं जाव आगासत्थिकाएणं फुडे ? गोयमा ! णो धम्मत्थिकाएणं फुडे धम्मत्थिकायस्स देसेणं फुडे धम्मत्थिकायस्स पएसेहिं फुडे, एवं अधम्मत्थिकायस्स वि आगासत्थिकायस्स वि, पुढविकाइएणं फुडे जाव वणप्पक्ष-काइएणं फुडे, तसकाएणं सिय फुडे सिय णो फुडे, अद्वासमएणं फुडे ।

५ [२] एवं लवणसमुदे धायइसंडे दीवे कालोए समुदे अन्वितरपुक्खरद्दे । वाहिरपुक्खरद्दे एवं चेव, णवरं अद्वासमएणं णो फुडे । एवं जाव सयं-भुरमणे समुदे । एसा परिवाडी इमाहिं गाहाहिं अणुगंतव्वा । तं जहा—

जंबुद्वीवे लवणे धायइ कालोय पुक्खरे वरुणे ।

खीर घत खोत नंदि य अरुणवरे कुँडले रुयए ॥ २०४ ॥

१० आभरण-वत्थ-गंधे उप्पल-तिलए यै पुढवि-णिहि-र्यणे ।

वासहर-दह-नदीओ विजया वक्खार-कपिंदा ॥ २०५ ॥

कुरु-मंदर-आवासा कूडा णक्खत्त-चंद-सूरा य ।

देवे णागे जक्खे भूए य सयंभुरमणे य ॥ २०६ ॥

एवं जहा वाहिरपुक्खरद्दे भणितं तहा जाव सयंभुरमणे समुदे जाव अद्वासमएणं  
२५ णो फुडे ।

### [सुत्तं १००४. २३ लोगदारं]

१००४. लोगे णं भंते ! किणा फुडे ? कतिहिं वा काएहिं ? जहा आगासथिगले (सु. १००२) ।

### [सुत्तं १००५. २४ अलोगदारं]

२० १००५. अलोए णं भंते ! किणा फुडे ? कतिहिं वा काएहिं पुच्छा । गोयमा ! णो धम्मत्थिकाएणं फुडे जाव णो आगासत्थिकाएणं फुडे, आगासत्थिकायस्स देसेणं फुडे आगासत्थिकायस्स पदेसेहिं फुडे, णो पुढविकाइएणं फुडे जाव णो अद्वासमएणं फुडे, एगे अजीवदव्वदेसे अगुरुलहुए अणंतेहिं अगुरुलहुयगुणेहिं संजुते सव्वायासे अणंतभागूणे ।

२५ ॥ इंदियपयस्स पढमो ‘उद्देसो समन्तो ॥

#

१. आभरण-वत्थ-गुप्पल-तिलए पउम-पुढवि-णिहि-र्यणे । इतिरूपः पाठो मलयगिरि-टीकामम्भतः ॥ २. य पउम-णिहि० जे० स० पु२ ॥ ३. ०मदिर० जे० प्र० ॥ ४. उद्देसगो म० प्र० ॥

## बीओ उद्देसो

[सुत्तं १००६. बीउद्देसस्स अत्थाहिगारा]

१००६. इंदियउवचय १ णिव्वत्तणा य २ समया भवे असंखेजा ३ ।  
 लद्दी ४ उवओगद्दा ५ अप्पाबहुए विसेसहिया ६ ॥ २०७ ॥  
 ओगाहणा ७ अवाए ८ ईहा ९ तह वंजणोगगहे चेव १० । ५  
 दर्विंदिय ११ भाविंदिय १२ तीया बद्दा पुरेक्खडिया ॥ २०८ ॥

[सुत्ताइ १००७-८. १ इंदिओवचयदारं]

१००७. कतिविहे णं भंते ! इंदिओवचए पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे  
 इंदिओवचए पण्णते । तं जहा—सोइंदिओवचए चकिंखदिओवचए धाणिंदिओ-  
 वचए जिबिंदिओवचए फासिंदिओवचए । १०

१००८. [१] णेरझ्याणं भंते ! कतिविहे इंदिओवचए पण्णते ?  
 गोयमा ! पंचविहे इंदिओवचए पण्णते । तं जहा—सोइंदिओवचए जाव फासिं-  
 दिओवचए ।

[२] एवं जाव वेमाणियाणं । जस्स जइ इंदिया तस्स तइविहो चेव  
 इंदिओवचयो भाणियब्बो । १ ॥ १५

[सुत्तं १००९. २ इंदियनिव्वत्तणादारं]

१००९. [१] कतिविहा णं भंते ! इंदियनिव्वत्तणा पण्णता ? गोयमा !  
 पंचविहा इंदियनिव्वत्तणा पण्णता । तं जहा—सोइंदियनिव्वत्तणा जाव फासिंदिय-  
 निव्वत्तणा ।

[२] एवं नेरझ्याणं जाव वेमाणियाणं । नवरं जस्स जर्तिंदिया अ॑थि । २ ॥ २०

[सुत्तं १०१०. ३ इंदियनिव्वत्तणासमयदारं]

१०१०. [१] सोइंदियणिव्वत्तणा णं भंते ! कतिसमझ्या पन्नता ?  
 गोयमा ! असंखिजसमझ्या अंतोमुहुत्तिया पन्नता । एवं जाव फासिंदियनिव्वत्तणा ।

[२] एवं नेरझ्याणं जाव वेमाणियाणं । ३ ॥

## [ सुत्तं १०११. ४ इंदियलङ्घिदारं ]

१०११. [१] कतिविहा णं भंते ! इंदियलङ्घी पणता ? गोयमा !  
पंचविहा इंदियलङ्घी पणता । तं जहा-सोइंदियलङ्घी जाव फासिंदियलङ्घी ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । नवरं जस्स जति इंदिया अत्थि  
६ तस्स तावतिया लङ्घी भाणियच्चा । ४ ॥

## [ सुत्तं १०१२. ५ इंदियउवओगद्वादारं ]

१०१२. [१] कतिविहा णं भंते ! इंदियउवओगद्वा पणता ?  
गोयमा ! पंचविहा इंदियउवओगद्वा पणता । तं जहा-सोइंदियउवओगद्वा  
जाव फासिंदियउवओगद्वा ।

१० [२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । णवरं जस्स जति इंदिया  
अत्थि । ५ ॥

## [ सुत्तं १०१३. ६ इंदियउवओगप्पावहुयदारं ]

१०१३. एतेसि णं भंते ! सोइंदिय-चक्रिंखदिय-वाणिंदिय-जिन्मिंदिय-  
फासिंदियाणं जहण्णियाए उवओगद्वाए उक्कोसियाए उवओगद्वाए जहण्णुक्कोसियाए  
१५ उवओगद्वाए कतरे कतरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्बत्थोवा चक्रिंखदियस्स  
जहण्णिया उवओगद्वा, सोइंदियस्स जहण्णिया उवओगद्वा विसेसाहिया, वाणिं-  
दियस्स जहण्णिया उवओगद्वा विसेसाहिया, जिन्मिंदियस्स जहण्णिया उवओगद्व  
२० विसेसाहिया, फासेंदियस्स जहण्णिया उवओगद्वा विसेसाहिया । उक्कोसियाए  
उवओगद्वाए सब्बत्थोवा चक्रिंखदियस्स उक्कोसिया उवओगद्वा, सोइंदियस्स  
२५ उक्कोसिया उवओगद्वा विसेसाहिया, वाणिंदियस्स उक्कोसिया उवओगद्वा  
विसेसाहिया, जिन्मिंदियस्स उक्कोसिया उवओगद्वा विसेसाहिया, फासेंदियस्स  
उक्कोसिया उवओगद्वा विसेसाहिया । जहण्णुक्कोसियाए उवओगद्वाए सब्बत्थोवा  
चक्रिंखदियस्स जहण्णिया उवओगद्वा, सोइंदियस्स जहण्णिया उवओगद्वा  
३० विसेसाहिया, वाणिंदियस्स जहण्णिया उवओगद्वा विसेसाहिया, जिन्मिंदियस्स  
जहण्णिया उवओगद्वा विसेसाहिया, फासेंदियस्स जहण्णिया उवओगद्वा विसेसा-  
हिया, फासेंदियस्स जहण्णियाहितो उवओगद्वाहितो चक्रिंखदियस्स उक्कोसिया  
३५ उवओगद्वा विसेसाहिया, सोइंदियस्स उक्कोसिया उवओगद्वा विसेसाहिया,

धाणिंदियस्स उक्कोसिया उवओगद्वा विसेसाहिया, जिब्मिदियस्स उक्कोसिया उवओगद्वा विसेसाहिया, फासेंदियस्स उक्कोसिया उवओगद्वा विसेसाहिया । ६ ॥

[सुत्तं १०१४. ७ इंद्रियओगाहणादारं]

१०१४. [१] कतिविहा णं भंते ! इंद्रियओगाहणा पण्णता ? गोयमा ! पंचविहा इंद्रियओगाहणा पण्णता । तं जहा—सोइंद्रियओगाहणा जाव ५ फासेंदियओगाहणा ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । णवरं जस्स जइ इंद्रिया अत्थि । ७ ॥

[सुत्तं १०१५. ८ इंद्रियावायदारं]

१०१५. [१] कतिविहे णं भंते ! इंद्रियअवाए पण्णते ? गोयमा ! १० पंचविहे इंद्रियअवाये पण्णते । तं जहा—सोइंद्रियअवाए जाव फासेंदियअवाए ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । नवरं जस्स जत्तिया इंद्रिया अत्थि । ८ ॥

[सुत्तं १०१६. ९ ईहादारं]

१०१६. [१] कतिविहा णं भंते ! ईहा पण्णता ? गोयमा ! पंचविहा १५ ईहा पण्णता । तं जहा—सोइंद्रियईहा जाव फासेंदियईहा ।

[२] एवं जाव वेमाणियाणं । णवरं जस्स जति इंद्रिया । ९ ॥

[सुत्ताइं १०१७-२३. १० उग्गहदारं]

१०१७. कतिविहे णं भंते ! उग्गहे पण्णते ? गोयमा ! दुविहे उग्गहे पण्णते । तं जहा—अथोग्गहे य वंजणोग्गहे य । २०

१०१८. वंजणोग्गहे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! चउव्विहे पण्णते । तं जहा—सोइंद्रियवंजणोग्गहे धाणिंदियवंजणोग्गहे जिब्मिदियवंजणोग्गहे फासिंदियवंजणोग्गहे ।

१०१९. अथोग्गहे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! छव्विहे अथोग्गहे पण्णते । तं जहा—सोइंद्रियअथोग्गहे चकिंखदियअथोग्गहे धाणिं-२५ दियअथोग्गहे जिब्मिदियअथोग्गहे फासिंदियअथोग्गहे णोइंदियअथोग्गहे ।

१०२०. [१] णेरइयाणं भंते ! कतिविहे उग्गहे पण्णत्ते ? गोयमा !  
दुविहे उग्गहे पण्णत्ते । तं जहा-अत्थोग्गहे य वंजणोग्गहे य ।

[२] एवं असुरकुमाराणं जाव थणियकुमाराणं ।

१०२१. [१] पुढविकाइयाणं भंते ! कतिविहे उग्गहे पण्णत्ते ?  
गोयमा ! दुविहे उग्गहे पण्णत्ते । तं जहा-अत्थोग्गहे य वंजणोग्गहे य ।

[२] पुढविकाइयाणं भंते ! वंजणोग्गहे कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा !  
एगे फासिंदियवंजणोग्गहे पण्णत्ते ।

[३] पुढविकाइयाणं भंते ! कतिविहे अत्थोग्गहे पण्णत्ते ? गोयमा !  
एगे फासिंदियअत्थोग्गहे पण्णत्ते ।

१० [४] एवं जाव वणप्फङ्काइयाणं ।

१०२२. [१] एवं वेइंदियाण वि । णवरं वेइंदियाणं वंजणोग्गहे दुविहे  
पण्णत्ते, अत्थोग्गहे दुविहे पण्णत्ते ।

[२] एवं तेइंदिय-चउरिंदियाण वि । णवरं इंदियपरिचुड्डी कायव्वा ।  
चउरिंदियाणं वंजणोग्गहे तिविहे पण्णत्ते, अत्थोग्गहे चउव्विहे पण्णत्ते ।

१५ १०२३. सेसाणं जहा णेरइयाणं (सु. १०२० [१]) जाव वेमा-  
णियाणं । १० ॥

[सुत्तं १०२४, पयारंतरेण इंदियभेया]

१०२४. कतिविहा णं भंते ! इंदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा  
पण्णत्ता । तं जहा-दव्विदिया य भाविंदिया य ।

२० [सुत्ताइं १०२५-५५, ११ दव्विदियदारं]

१०२५. कति णं भंते ! दव्विदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! अहु दव्विदिया  
पण्णत्ता । तं जहा-दो सोया २ दो णेत्ता ४ दो वाणा ६ जीहा ७  
फासे ८ ।

१०२६. [१] णेरइयाणं भंते ! कति दव्विदिया पण्णत्ता ? गोयमा !  
अहु, एते चेव ।

[२] एवं असुरकुमाराणं जाव थणियकुमाराण वि ।

१०२७. [१] पुढविकाइयाणं भंते ! कति दर्विंदिया पण्णता ? गोयमा !  
एगे फासेंदिए पण्णते ।

[२] एवं जाव वणप्फतिकाइयाणं ।

१०२८. [१] बेइंदियाणं भंते ! कति दर्विंदिया पण्णता ? गोयमा !  
दो दर्विंदिया पण्णता । तं जहा—फासिंदिए य जिर्बिंदिए य । ५

[२] तेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! चत्तारि दर्विंदिया पण्णता । तं  
जहा—दो वाणा २ जीहा ३ फासे ४ ।

[३] चउरिंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! छ दर्विंदिया पण्णता । तं जहा—  
दो णेता २ दो वाणा ४ जीहा ५ फासे ६ ।

१०२९. सेसाणं जहा णेरइयाणं (सु. १०२६ [१]) जाव वेमाणियाणं । १०

१०३०. एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स केवतिया दर्विंदिया अतीया ?  
गोयमा ! अणंता । केवतिया बङ्घेल्लया ? गोयमा ! अटु । केवतिया पुरेक्खडा ?  
गोयमा ! अटु वा सोल्स वा सत्तरस वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा ।

१०३१. [१] एगमेगस्स णं भंते ! असुरकुमारस्स केवतिया दर्विंदिया  
अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवतिया बङ्घेल्लगा ? गोयमा ! अटु । केवतिया १५  
पुरेक्खडा ? गोयमा ! अटु वा णव वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा ।

[२] एवं जाव थणियकुमाराणं ताव भाणियब्बं ।

१०३२. [१] एवं पुढविक्काइय-आउक्काइय-वणप्फङ्काइयस्स वि ।  
णवरं केवतिया बङ्घेल्लग ? ति पुच्छाए उत्तरं एँके फासिंदिए पण्णते ।

[२] एवं तेउक्काइय-वाउक्काइयस्स वि । णवरं पुरेक्खडा णव वा दस वा । २०

१०३३. [१] एवं बेइंदियाण वि । णवरं बङ्घेल्लगपुच्छाए दोणिण ।

[२] एवं तेइंदियस्स वि । णवरं बङ्घेल्लगा चत्तारि ।

[३] एवं चउरिंदियस्स वि । नवरं बङ्घेल्लगा छ ।

१०३४. पंचेंदियतिरिक्खजोणिय-मणूस-वाणमंतर-जोइसिय-सोहम्मीसाण-  
गेदेवस्स जहा असुरकुमारस्स (सु. १०३१) । नवरं मणूसस्स पुरेक्खडा कस्सइ  
अतिथि कस्सइ णथिथि, जस्सउत्थि अटु वा नव वा संखेजा वा असंखेजा  
वा अणंता वा । २५

१. एँके फासिंदियं दर्विंदिए । एवं म० ॥ २. फासिंदियदर्विंदिए पण्णते । एवं पु२ ॥

१०३५. सणंकुमार-माहिंद-बंभ-लंतग-सुक्ष-सहस्सार-आणय-पाणय-आरण-अच्चय-गेवेजगदेवस्स य जहा नेरइयस्स (सु. १०३०) ।

१०३६. एगमेगस्स णं भंते ! विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवस्स केवतिया दव्विदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेलगा ? गोयमा ! अडु । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अडु वा सोलस वा चउवीसा वा संखेज्जा वा ।

१०३७. सब्बद्धुसिद्धगदेवस्स अतीता अणंता, बद्धेलगा अडु, पुरेक्खडा अडु ।

१०३८. [१] णेरइयाणं भंते ! केवतिया दव्विदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेलगा ? गोयमा ! असंखेज्जा । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अणंता ।

[२] एवं जाव गेवेजगदेवाणं । णवरं मणूसाणं बद्धेलगा सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा ।

१०३९. विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! अतीता अणंता, बद्धेलगा असंखेज्जा, पुरेक्खडा असंखेज्जा ।

१०४०. सब्बद्धुसिद्धगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! अईया अणंता, बद्धेलगा संखेज्जा, पुरेक्खडा संखेज्जा ।

१०४१. [१] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स णेरइअत्ते केवतिया दव्विदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेलया ? गोयमा ! अडु । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णात्थि, जस्सउत्थि अडु वा सोलस वा चउवीसा वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

[२] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स असुरकुमारत्ते केवतिया दव्विदिया अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेलगा ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णात्थि, जस्सउत्थि अडु वा सोलस वा चउवीसा वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । एवं जाव थणियकुमारत्ते ।

[३] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स पुढविकाइयत्ते केवतिया दव्विदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेलया ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णात्थि, जस्सउत्थि एक्को वा दो वा तिण्ण वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । एवं जाव वणप्फइकाइयत्ते ।

[४] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स वेइंदियते केवतिया दर्विंदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेल्लगा ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सउत्थि अडु वा चत्तारि वा छ वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । एवं तेइंदियते वि, णवरं पुरेक्खडा चत्तारि वा अडु वा बारस वाँ संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । ५ एवं चउरिंदियते वि नवरं पुरेक्खडा छ वा बारस वा अट्टारस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

[५] पंचेंदियतिरिक्खजोणियते जहा असुरकुमारते ।

[६] मणूसते वि एवं चेव । णवरं केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अडु वा सोलस वा चउवीसा वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । सब्बेसिं १० मणूसवज्जाणं पुरेक्खडा मणूसते कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि ति एवं ण बुच्चति ।

[७] वाणमंतर-जोइसिय-सोहम्मग जाव गेवेज्जगदेवते अतीया अणंता; बद्धेल्लगा णत्थि; पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सउत्थि अडु वा सोलस वा चउवीसा वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

[८] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजिय- १५ देवते केवतिया दर्विंदिया अतीया ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया बद्धेल्लगा ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सउत्थि अडु वा सोलस वा ।

[९] सब्बद्वासिद्धगदेवते अतीया णत्थि; बद्धेल्लगा णत्थि; पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सउत्थि अडु । २०

१०४२. एवं जहा णेरइयदंडओ णीओ तहा असुरकुमारेण वि णेयब्बो जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणिएणं । णवरं जस्स सद्वाणे जति बद्धेल्लगा तस्स तइ भाणियब्बा ।

१०४३. [१] एगमेगस्स णं भंते ! मणूसस्स णेरयइते केवतिया दब्बेंदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेल्लया ? गोयमा ! णत्थि । २५ केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सउत्थि अडु वा सोलस वा चउवीसा वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

१. जस्सउत्थि एक्को वा दो वा म० पु१ पु३ ॥ २. वा सोलस वा [वीसं वा] चउब्बीसा वा जै० ॥

[२] एवं जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणियते । णवरं एगिंदिय-विगलिंदिएसु  
जस्त जंतिया पुरेक्खडा तस्स तत्तिया भाणियव्वा ।

[३] एगमेगस्स णं भंते ! मणूसस्स मणूसते केवतिया दर्विंदिया अतीया ?  
गोयमा ! अणंता । केवतिया वद्देलगा ? गोयमा ! अडु । केवतिया पुरेक्खडा ?  
५ कस्सइ अतिथ कस्सइ णत्थि, जस्सउत्थि अडु वा सोलस वा चउवीसा वा संखेज्जा  
वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

[४] वाणमंतर-जोतिसिय जाव गेवेजगदेवते जहा णेरइयते ।

[५] एगमेगस्स णं भंते ! मणूसस्स विजय-वेजयंत-जयंताऽपराजियदेवते  
केवइया दर्विंदिया अतीया ? गोयमा ! कस्सइ अतिथ कस्सइ णत्थि, जस्सउत्थि  
१० अडु वा सोलस वा । केवतिया वद्देलगा ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ?  
गोयमा ! कस्सइ अतिथ कस्सइ णत्थि, जस्सउत्थि अडु वा सोलस वा ।

[६] एगमेगस्स णं भंते ! मणूसस्स सब्बटुसिद्धगदेवते केवतिया  
दर्विंदिया अतीता ? गोयमा ! कस्सइ अतिथ कस्सइ णत्थि, जस्सउत्थि अडु ।  
केवतिया वद्देलगा ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ  
१५ अतिथ कस्सइ णत्थि, जस्सउत्थि अडु ।

१०४४. वाणमंतर-जोतिसिए जहा णेरइए (सु. १०४१) ।

१०४५. [१] सोहम्मगदेवे वि जहा णेरइए (सु. १०४१) । णवरं  
सोहम्मगदेवस्स विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियते केवतिया दर्विंदिया ? गोयमा !  
कस्सइ अतिथ कस्सइ णत्थि, जस्सउत्थि अडु । केवतिया वद्देलगा ? गोयमा !  
२० णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अतिथ कस्सइ णत्थि, जस्सउत्थि  
अडु वा सोलस वा । सब्बटुसिद्धगदेवते जहा णेरइयस्स ।

[२] एवं जाव गेवेजगदेवस्स सब्बटुसिद्धगदेवते ताव णेयव्वं ।

१०४६. [१] एगमेगस्स णं भंते ! विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजिय-  
२५ देवस्स णेरइयते केवतिया दर्विंदिया अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवतिया  
वद्देलगा ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! णत्थि ।

[२] एवं जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणियते ।

[३] मणूसते अतीया अणंता, वद्देलगा णत्थि, पुरेक्खडा अडु वा सोलस  
वा चउवीसा वा संखेज्जा वा ।

[४] वाणमंतर-जोतिसियते जहा णेरइयते (सु. १०४१)।

[५] सोहम्मगदेवते अतीया अणंता । बद्धेल्लगा णत्थि । पुरेक्खडा कस्सइ  
अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सउत्थि अडु वा सोलस वा चउवीसा वा संखेजा वा ।

[६] एवं जाव गेवेजगदेवते ।

[७] विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियते अतीया कस्सइ अत्थि कस्सइ ५  
णत्थि, जस्सउत्थि अडु । केवतिया बद्धेल्लगा ? गोयमा ! अडु । केवतिया  
पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सउत्थि अडु ।

[८] एगमेगस्स णं भंते ! विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवस्स सब्ब-  
टुसिद्धगदेवते केवतिया दर्विंदिया अतीया ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया  
बद्धेल्लगा ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ १०  
कस्सइ णत्थि, जस्सउत्थि अडु ।

१०४७. [१] एगमेगस्स णं भंते ! सब्बटुसिद्धगदेवस्स णेरइयते  
केवतिया दर्विंदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेल्लगा ? गोयमा !  
णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! णत्थि ।

[२] एवं मणूसवज्जं जाव गेवेजगदेवते । णवरं मणूसते अतीया अणंता । १५  
केवतिया बद्धेल्लगा ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अडु ।

[३] विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवते अतीया कस्सइ अत्थि कस्सइ  
णत्थि, जस्सउत्थि अडु । केवतिया बद्धेल्लगा ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया  
पुरेक्खडा ? गोयमा ! णत्थि ।

[४] एगमेगस्स णं भंते ! सब्बटुसिद्धगदेवस्स सब्बटुसिद्धगदेवते २०  
केवतिया दर्विंदिया अतीया ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया बद्धेल्लगा ? गोयमा !  
अडु । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! णत्थि ।

१०४८. [१] णेरइयाणं भंते ! णेरइयते केवइया दर्विंदिया  
अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेल्लगा ? गोयमा ! असंखेजा । केवतिया  
पुरेक्खडा ? गोयमा ! अणंता ।

[२] णेरइयाणं भंते ! असुरकुमारते केवतिया दर्विंदिया अतीता ?  
गोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेल्लगा ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ?  
गोयमा ! अणंता ।

[३] एवं जाव गेवेजगदेवते ।

[४] णेरइयाणं भंते ! विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवते केवतिया दर्विदिया अतीता ? णत्थि । केवतिया वद्देलगा ? णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? असंखेजा ।

५ [५] एवं सब्बटुसिद्धगदेवते वि ।

१०४९. एवं जाव पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं सब्बटुसिद्धगदेवते भाणियवं । णवरं वणप्रतिकाइयाणं विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवते सब्बटु-सिद्धगदेवते य पुरेक्खडा अणंता; सब्बेसिं मणूस-सब्बटुसिद्धगवज्जाणं सद्वाणे वद्देलगा असंखेजा, परद्वाणे वद्देलगा णत्थि; वणस्सतिकाइयाणं सद्वाणे वद्देलगा १० अणंता ।

१०५० [१] मणुस्साणं णेरइयते अतीता अणंता, वद्देलगा णत्थि, पुरेक्खडा अणंता ।

[२] एवं जाव गेवेजगदेवते । णवरं सद्वाणे अतीता अणंता, वद्देलगा सिय संखेजा सिय असंखेजा, पुरेक्खडा अणंता ।

१५ [३] मणूसाणं भंते ! विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवते केवतिया दर्विदिया अतीता ? संखेजा॑ । केवतिया वद्देलगा ? णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? सिय संखेजा सिय असंखेजा । एवं सब्बटुसिद्धगदेवते वि ।

१०५१. वाणमंतर-जोइसियाणं जहा णेरइयाणं (सु. १०४८) ।

१०५२. सोहम्मगदेवाणं एवं चेव । णवरं विजय-वेजयंत-जयंत-अपरा-  
२० जियदेवते अतीता असंखेजा, वद्देलगा णत्थि, पुरेक्खडा असंखेजा । सब्बटु-  
सिद्धगदेवते अतीता णत्थि, वद्देलगा णत्थि, पुरेक्खडा असंखेजा ।

१०५३. एवं जाव गेवेजगदेवाणं ।

१०५४. [१] विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवाणं भंते ! णेरइयते केवतिया दर्वेदिया अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवतिया वद्देलगा ? णत्थि ।  
२५ केवतिया पुरेक्खडा ? णत्थि ।

[२] एवं जाव जोइसियते । णवरमेसिं मणूसत्ते अतीया अणंता; केवतिया वद्देलगा ? णत्थि; पुरेक्खडा असंखेजा ।

१०. <sup>०</sup>जा दर्विदिया अतीता । केव० म० ॥

[३] एवं जाव गेवेजगदेवते । सङ्घाणे अतीता असंखेजा । केवातयि बद्धेलगा ? असंखेजा । केवतिया पुरेक्खडा ? असंखेजा ।

[४] सब्बटुसिद्धगदेवते अतीता णत्थि, बद्धेलगा णत्थि, पुरेक्खडा असंखेजा ।

१०५५. [१] सब्बटुसिद्धगदेवाणं भंते ! ऐरइयते केवतिया दव्वेंदिया ५ अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेलगा ? णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? णत्थि ।

[२] एवं मणूसवज्जं जाव गेवेजगदेवते ।

[३] मणूसते अतीता अणंता, बद्धेलगा णत्थि, पुरेक्खडा संखेजा ।

[४] विजय-वेजयंत-जयंतापराजियदेवते केवतिया दव्विंदिया अतीता ? १० संखेजा । केवतिया बद्धेलगा ? नत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? णत्थि ।

[५] सब्बटुसिद्धगदेवाणं भंते ! सब्बटुसिद्धगदेवते केवतिया दव्विंदिया अतीता ? णत्थि । केवतिया बद्धेलगा ? संखेजा । केवइया पुरेक्खडा ? णत्थि । ११ दारं ॥

### [सुत्ताइं १०५६-६७. १२ भाविंदियदारं ]

१०५६. कति णं भंते ! भाविंदिया पण्णता ? गोयमा ! पंच भाविंदिया १५ पण्णता । तं जहा-सोइंदिए जाव फासिंदिए ।

१०५७. ऐरइयाणं भंते ! कति भाविंदिया पण्णता ? गोयमा ! पंच भाविंदिया पण्णता । तं जहा-सोइंदिए जाव फासेंदिए । एवं जस्स जति इंदिया तस्स तंत्तिया भाणियब्बा जाव वेमाणियाणं ।

१०५८. एगमेगस्स णं भंते ! ऐरइयस्स केवतिया भाविंदिया अतीता ? २० गोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेलगा ? पंच । केवतिया पुरेक्खडा ? पंच वा दस वा एक्कारस वा संखेजा वा असंखिज्जा वा अणंता वा ।

१०५९. एवं असुरकुमारस्स वि । णवरं पुरेक्खडा पंच वा छ वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा । एवं जाव थणियकुमारस्सै ।

१०६०. एवं पुढविकाइय-आउकाइय-वणस्सइकाइयस्स वि, वेइंदिय- २५ तेइंदिय-चउरिंदियस्स वि । तेउक्काइय-वाउक्काइयस्स वि एवं चेव, णवरं पुरेक्खंडा छ वा सत्त वा संखेजा वा असंखिज्जा वा अणंता वा ।

१. °डा असंखेज्जा म० पुर विना ॥ २. तइ भाणि० प्र० ॥ ३. °स्स वि । एवं म० प्र० पुर म०॥

१०६१. पंचेदियतिरिक्खजोणियस्स जाव ईसाणस्स जहा असुरकुमारस्स (सु. १०५९)। णवरं मणूसस्स पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि ति भाणियव्वं ।

१०६२. सणंकुमार जाव गेवेजगस्स जहा णेरइयस्स (सु. १०५७-५८) ।

५ १०६३. विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवस्स अतीया अणंता, वद्धेलगा पंच, पुरेक्खडा पंच वा दस वा पण्णरस वा संखेज्जा वाँ । सब्बट्टसिद्धगदेवस्स अतीता अणंता, वद्धेलगा पंच, केवतिया पुरेक्खडा ? पंच ।

१० १०६४. णेरइयाणं भंते ! केवइया भाविंदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया वद्धेलगा ? असंखेज्जा । केवतिया पुरेक्खडा ? अणंता । एवं १० जहा दर्विंदिएसु पोहत्तेण दंडओ भणिओ तहा भाविंदिएसु वि पोहत्तेण दंडओ भाणियव्वो, णवरं वणप्फइकाइयाणं वद्धेलगा वि अणंता ।

१०६५. एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स णेरइयते केवइया भाविंदिया अतीता ? गोयमा ! अणंता, वद्धेलगा पंच, पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सउत्थि पंच वा दस वा पण्णरस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । १५ एवं असुरकुमारते जाव थणियकुमारते, णवरं वद्धेलगा णत्थि ।

१०६६. [१] पुढविक्काइयते जाव वेङ्दियते जहा दर्विंदिया ।

[२] तेङ्दियते तहेव, णवरं पुरेक्खडा तिण्ण वा छ वा णव वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

[३] एवं चउरिंदियते वि । णवरं पुरेक्खडा चत्तारि वा अडु वा घारस २० वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

१०६७. एवं एते चेव गमा चत्तारि णेयव्वा जे चेव दर्विंदिएसु । नवरं तइयगमे जाणियव्वा जस्स जइ इंदिया ते पुरेक्खडेसु मुणेयव्वा । चउत्थगमे जहेव दव्वेंदिया जाव सब्बट्टसिद्धगदेवाणं सब्बट्टसिद्धगदेवते केवतिया भाविंदिया अतीता ? णत्थि, वद्धेलगा संखेज्जा, पुरेक्खडा णत्थि । १२ ॥

१. वा असंखेज्जा वा । सब्बट्टै घ० म० पु१ पु३ ॥ २-३. ०माराणै घ० म० प्र० पु१ पु३ ॥

## १६. सोलसमं पओगपयं

[सुत्तं १०६८. पओगभेयपरूपं]

१०६८. कइविहे ण भंते ! पओगे पण्णते ? गोयमा ! पण्णरसविहे पण्णते । तं जहा—सञ्चमणप्पओगे १ मोसमणप्पओगे २ सञ्चामोसमणप्पओगे ३ असञ्चामोसमणप्पओगे ४ एवं वद्धप्पओगे वि चउहा ८ ओरालियसरीरकायप्पओगे ९ ओरालियमीससरीरकायप्पओगे १० वेउब्बियसरीरकायप्पओगे ११ वेउब्बिय-मीससरीरकायप्पओगे १२ आहारगसरीरकायप्पओगे १३ आहारगमीससरीरकाय-प्पओगे १४ कैम्मासरीरकायप्पओगे १५ ।

[सुत्तं १०६९. जीवेसु ओहेणं पओगपरूपं]

१०६९. जीवाणं भंते ! कतिविहे पओगे पण्णते ? गोयमा ! पण्ण- २० रसविहे पओगे पण्णते । तं जहा—सञ्चमणप्पओगे जाव कैम्मासरीरकायप्पओगे ।

[सुत्तां १०७०-७६. चउबीसदंडएसु ओहेणं पओगपरूपं]

१०७०. णेरझ्याणं भंते ! कतिविहे पओगे पण्णते ? गोयमा ! एझ्झा-रसविहे पओगे पण्णते । तं जहा—सञ्चमणप्पओगे १ जाव असञ्चामोसवद्धप्पओगे ८ वेउब्बियसरीरकायप्पओगे ९ वेउब्बियमीससरीरकायप्पओगे १० कैम्मासरी- १५ रकायप्पओगे ११ ।

१०७१. एवं असुरकुमाराण वि जाव थणियकुमाराणं ।

१०७२. पुढविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! तिविहे पओगे पण्णते । तं जहा—ओरालियसरीरकायप्पओगे १ ओरालियमीससरीरकायप्पओगे २ कैम्मा-सरीरकायप्पओगे ३ । एवं जाव वणप्पइकाइयाणं । णवरं वाउकाइयाणं पंचविहे पओगे पण्णते, तं जहा—ओरालियसरीरकायप्पओगे १ ओरालियमीससरीरकाय-प्पओगे २ वेउब्बिए दुविहे ४ कैम्मासरीरकायप्पओगे ५ ।

१०७३. बेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! चउब्बिहे पओगे पण्णते । तं जहा—असञ्चामोसवद्धप्पओगे १ ओरालियसरीरकायप्पओगे २ ओरालियमीससरीर-

१. °प्पओगे १ असञ्चमण° मु० ॥ २. कैम्मस° पु२ ॥ ३. कैम्मस° ध० पु२ । एवमन्यत्रापि प्रत्यन्तरेषु कैम्मासरीर° कैम्मसरीर° इति पाठभेदान्यतम्. पाठः क्वचित् क्वचिदावृत्योपलभ्यते ॥

कायप्पओगे ३ कम्मासरीरकायप्पओगे ४ । एवं जाव चउरिंदियाणं ।

१०७४. पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! तेरसविहे पओगे पण्णते । तं जहा—सञ्चमणप्पओगे १ मोसमणप्पओगे २ सञ्चामोसमणप्पओगे ३ असञ्चामोसमणप्पओगे ४ एवं वइप्पओगे वि ८ ओरालियसरीरकायप्पओगे ९ ५ ओरालियमीससरीरकायप्पओगे १० वेउव्वियसरीरकायप्पओगे ११ वेउव्वियमीस—सरीरकायप्पओगे १२ कम्मासरीरकायप्पओगे १३ ।

१०७५. मणूसाणं पुच्छा । गोयमा ! पण्णरसविहे पओगे पण्णते । तं जहा—सञ्चमणप्पओगे १ जाव कम्मासरीरकायप्पओगे १५ ।

१०७६. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणियाणं जहा णेरइयाणं (सु. १०७०) ।

१०

[सुत्तं १०७७. जविसु विभागेणं पओगपरूप्वणं]

१०७७. जीवा णं भंते ! किं सञ्चमणप्पओगी जाव किं कम्मासरीरकायप्पओगी ? गोयमा ! जीवा सब्वे वि ताव होज्ञा सञ्चमणप्पओगी वि जाव वेउव्वियमीससरीरकायप्पओगी वि कम्मासरीरकायप्पओगी वि, अंहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य १ अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य २ अहवेगे य आहारगमीससरीरकायप्पओगी य ३ अहवेगे य आहारगमीससरीरकायप्पओगिणो य ४ चउभंगो, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य १ अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य २ अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य ३ अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य ४, एए जीवाणं अडु भंगा ।

[सुत्तं १०७८. नेरइएसु विभागेणं पओगपरूप्वणं]

१०७८. णेरइया णं भंते ! किं सञ्चमणप्पओगी जाव किं कम्मासरीरकायप्पओगी ? गोयमा ! णेरइया सब्वे वि ताव होज्ञा सञ्चमणप्पओगी वि जाव

१. अस्मिन् पोढशे पदे यत्र यत्र अहवेगे इति पाठोऽस्ति तत्र तत्र जे० घ० प्रत्यो वाहुल्येन अहवेते इति पाठ, क्वचिच अहवेण इति पाठ उपलभ्यते, एकस्मिन्नपि स्थाने अहवेगे इति पाठो नोपलभ्यते ॥ २-५. °मीससस° प्र० पु२ । एवमन्यत्रापि प्रत्यन्तरेषु °मीसासरीर° °मीससरीर° इति पाठमेदान्यतमः पाठ क्वचित् क्वचिदुपलभ्यते, क्वचिच °मीसगसरीर° इत्यपि ॥

वेउव्वियमीससरीरकायप्पओगी वि, अहवेगे य कम्मासरीरकायप्पओगी य १ अहवेगे य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २ ।

[सुत्तं १०७९. भवणवासिसु विभागेण पओगपर्लवणं ]

१०७९. एवं असुरकुमारा वि जाव थणियकुमारा वि ।

[सुत्तं १०८०. एर्गिदिष्ट्सु विभागेण पओगपर्लवणं ]

१०८०. पुढविकाइया णं भंते ! किं ओरालियसरीरकायप्पओगी ओरालियमीससरीरकायप्पओगी कम्मासरीरकायप्पओगी ? गोयमा ! पुढविकाइया णं ओरालियसरीरकायप्पओगी वि ओरालियमीससरीरकायप्पओगी वि कम्मासरीरकायप्पओगी वि । एवं जाव वणप्फतिकाइयाणं । णवरं वाउक्काइया वेउव्वियसरीरकायप्पओगी वि वेउव्वियमीससरीरकायप्पओगी वि ।

५

१०

[सुत्तं १०८१. विगलिंदिष्ट्सु विभागेण पओगपर्लवणं ]

१०८१. बेइंदिया णं भंते ! किं ओरालियसरीरकायप्पओगी जाव कम्मासरीरकायप्पओगी ? गोयमा ! बेइंदिया सब्वे वि ताव होज्जा असच्चामोसव-इप्पओगी वि ओरालियसरीरकायप्पओगी वि ओरालियमीससरीरकायप्पओगी वि, अहवेगे य कम्मासरीरकायप्पओगी य १ अहवेगे य कम्मासरीरकायप्पओगिणो १५ य २ । एवं जाव चउरिंदिया ।

१५

[सुत्तं १०८२. पंचिंदियतिरिक्खेसु विभागेण पओगपर्लवणं ]

१०८२. पंचेंदियतिरिक्खजोणिया जहा णेरहया (सु. १०७८) । णवरं ओरालियसरीरकायप्पओगी वि ओरालियमीससरीरकायप्पओगी वि, अहवेगे य कम्मासरीरकायप्पओगी य १ अहवेगे य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २ ।

२०

[सुत्तं १०८३. मणुस्सेसु विभागेण पओगपर्लवणं ]

१०८३. मणूसा णं भंते ! किं सच्चमणप्पओगी जाव किं कम्मासरीरकायप्पओगी ? गोयमा ! मणूसा सब्वे वि ताव होज्जा सच्चमणप्पओगी वि जाव ओरालियसरीरकायप्पओगी वि वेउव्वियसरीरकायप्पओगी वि वेउव्वियमीससरीरकायप्पओगी वि, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य १ अहवेगे य २५

ओरालियमीससरीरकायप्पओगिणो य २ अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य ३ अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य ४ अहवेगे य आहारगमीससरीरकायप्पओगी य ५ अहवेगे य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य ६ अहवेगे य कम्मगसरीरकायप्पओगी य ७ अहवेगे य कम्मगसरीरकायप्पओगिणो य ८, ९ एते अद्व भंगा पत्तेयं ।

अहवेगे य ओरालियमीससरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य १ अहवेगे य ओरालियमीससरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्प-ओगिणो य २ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारग-सरीरकायप्पओगी य ३ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहार-  
१० गसरीरकायप्पओगिणो य ४ एवं एते चत्तारि भंगा, अहवेगे य ओरालियमी-सासरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य १ अहवेगे य ओरा-लियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य २ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य ३ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य ४  
१५ चत्तारि भंगा, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्प-ओगी य १ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ३ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ४ एते चत्तारि भंगा, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसस-  
२० रीरकायप्पओगी य १ अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीर-कायप्पओगिणो य २ अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसा-सरीरकायप्पओगी य ३ अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसा-सरीरकायप्पओगिणो य ४ चत्तारि भंगा, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पओगी य १ अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य  
२५ कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २ अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ३ अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य कम्मगसरीरकायप्पओगिणो य ४ चउरो भंगा, अहवेगे य आहारगमीसगस-शीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पओगी य १ अहवेगे य आहारगमीसगसरीर-कायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पओगिणो य २ अहवेगे य आहारगमीससरीर-

कायप्पओगिणो य कम्मगसरीरकायप्पओगी य ३ अहंवेगे य आहारगमीससरीरकाय-  
प्पओगिणो य कम्मगसरीरकायप्पओगिणो य ४ चत्तारि भंगा, एवं चतुवीसं भंगा ।

ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मा-  
सरीरकायप्पओगी य ३ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारग-  
मीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ४ अहवेगे य  
ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मा-  
५ सरीरकायप्पओगी य ५ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य  
आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ६ अहवेगे य  
ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य  
कम्मासरीरकायप्पओगी य ७ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य  
आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ८ एते अडु  
१० भंगा, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी  
य कम्मासरीरकायप्पओगी य १ अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमी-  
सासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २ अहवेगे य आहारगसरीर-  
कायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ३  
अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य  
१५ कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ४ अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य  
आहारगमीससरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य ५ अहवेगे य  
आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीर-  
कायप्पओगिणो य ६ अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसा-  
२० सरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ७ अहवेगे य आहारगसरीर-  
कायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो  
य ८ एवं एते तियसंजोएणं चत्तारि अडुभंगा, सब्वे वि मिलिया चत्तसिं भंगा  
जाणियब्बा ३२।

अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी  
य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य १ अहवेगे य  
२५ ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसा-  
सरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २ अहवेगे य ओरालियमीसा-  
सरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्प-  
ओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ३ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्प-

ओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ४ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य ५ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य ६ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ७ अहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ८ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य ९ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य १० अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य ११ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य १२ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य १३ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य १४ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणा य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य १५ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य १६, एवं एते चउसंजोएण सोलस भंगा भवंति । सब्वे वि य णं २५ संपिंडिया असीति भंगा भवंति ८० ।

[सुत्तं १०८४. वाणमंत्राइसु विभागेण पओगपर्खवणं ]

१०८४. वाणमंत्र-जोइंसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा (सु.१०७९) ।

## [ सुतं १०८५. गह्यवायपरुवणं ]

१०८५. कतिविहे णं भेते ! गतिप्पवाए पण्णतं ? गोयमा ! पंचविहे पण्णते । तं जहा-पओगगती १ ततगती २ वंधणच्छेयणगती ३ उववायगती ४ विहायगती ५ ।

## [ सुताहं १०८६-८९. पओगगइपरुवणं ]

१०८६. से किं तं पओगगती ? पओगगती पण्णरसविहा पण्णता । तं जहा-सञ्चमणप्पओगगती एवं जहा पओगो भणिओ तहा एसा वि भाणियब्बा जाव कम्मगसरीरकायप्पओगगती ।

१०८७. जीवाणं भेते ! कतिविहा पओगगती पण्णता ? गोयमा ! पण्णरसविहा पण्णता । तं जहा-सञ्चमणप्पओगगती जाव कम्मासरीरकायप्प-ओगगती ।

१०८८. ऐरइयाणं भेते ! कतिविहा पओगगती पण्णता ? गोयमा ! एक्कारसविहा पण्णता । तं जहा-सञ्चमणप्पओगगती एवं उवउज्जिञ्जन जस्स जइविहा तस्स ततिविहा भाणितब्बा जाव वेमाणियाणं ।

१५ १०८९. जीवा णं भेते ! किं सञ्चमणप्पओगगती जाव कम्मगसरीरकायप्प-ओगगती ? गोयमा ! जीवा सच्चे वि ताव होज्जा सञ्चमणप्पओगगती वि, एवं तं चेव पुँब्बवणियं भाणियब्बं, भंगा तहेव जाव वेमाणियाणं । से तं पओगगती ।

## [ सुतं १०९०. ततगह्यपरुवणं ]

२० १०९०. से किं तं ततगती ? ततगती जेणं जं गामं वा जाव सणिवेसं वा संपडिते असंपते अंतरापहे वद्वति । से तं ततगती ।

## [ सुतं १०९१. वंधणच्छेयणगह्यपरुवणं ]

१०९१. से किं तं वंधणच्छेयणगती ? २ जेणं जीवो वा सरीराओ सरीरं वा जीवाओ । से तं वंधणच्छेयणगती ।

१. पंचविहे गह्यवाए पण्णते पु१ पु२ पु३ ॥ २. उवउज्जिञ्जन पु१ पु२ पु३ ॥  
३. पुँब्बभणियं पु१ पु२ पु३ ॥

[सुत्ताहं १०९२-११०४, उववायगद्वपरुवणं]

१०९२. से किं तं उववायगती ? २ तिविहा पण्णता । तं जहा-खेत्तोववायगती १ भवोववायगती २ णोभवोववातगती ३ ।

१०९३. से किं तं खेत्तोववायगती ? २ पंचविहा पण्णता । तं जहा-ऐरइयखेत्तोववातगती १ तिरिक्खजोणियखेत्तोववायगती २ मणूसखेत्तोववातगती ३ ५ देवखेत्तोववातगती ४ सिद्धखेत्तोववायगती ५ ।

१०९४. से किं तं ऐरइयखेत्तोववातगती ? २ सत्तविहा पण्णता । तं जहा-रयणप्पभापुढविणेरइयखेत्तोववातगती जाव अहेसत्तमापुढविणेरइयखेत्तोववाय-गती । से तं ऐरइयखेत्तोववायगती ।

१०९५. से किं तं तिरिक्खजोणियखेत्तोववायगती ? २ पंचविहा १० पण्णता । तं जहा-एर्गिदियतिरिक्खजोणियखेत्तोववायगती जाव पंचेदियतिरिक्ख-जोणियखेत्तोववायगती । से तं तिरिक्खजोणियखेत्तोववायगती ।

१०९६. से किं तं मणूसखेत्तोववायगई ? २ दुविहा पण्णता । तं जहा-सम्मुच्छममणूसखेत्तोववायगती गबमवक्कंतियमणुस्सखेत्तोववायगई । से तं मणूस-खेत्तोववायगती । १५

१०९७. से किं तं देवखेत्तोववायगती ? २ चउविहा पण्णता । तं जहा-भवणवइ जाव वेमाणियदेवखेत्तोववायगती । से तं देवखेत्तोववायगती ।

१०९८. से किं तं सिद्धखेत्तोववायगती ? २ अणेगविहा पण्णता । तं जहा-जंबुद्विवे दीवे भरहेरवयवाससपर्किंख सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगती, जंबुद्विवे दीवे चुलहिमवंत-सिहरिवासहरपव्यसपर्किंख सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगती, जंबुद्विवे दीवे हेमवय-हेरन्नवयवाससपर्किंख सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववातगती, जंबुद्विवे दीवे सद्वावति-वियडावतिवद्वेयडूसपर्किंख सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगती, जंबुद्विवे दीवे महाहिमवंत-रुप्पिवासहरपव्यसपर्किंख सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववातगती, २० जंबुद्विवे दीवे द्विवे गंधावति-मालवंतपरियायवद्वेयडूसपर्किंख सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववातगती, जंबुद्विवे दीवे णिसंढ-णीलवंतवासहरपव्यसपर्किंख सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववात-गती, २५ जंबुद्विवे दीवे पुञ्वविदेह-अवरविदेहसपर्किंख सपडिदिसिं सिद्धखेत्तो-

१. गंधावाति० मु० ॥ २. °तपव्यवद्व० पु२ ॥ ३. णिसह-णी० पु१ पु३ मु० ॥

ववातगती, जंबुदीवे दीवे देवकुरुतरकुरुसपर्किंख सपडिदिसि सिद्धखेतोववायगती, जंबुदीवे दीवे मंदरस्स पव्ययस्स सपर्किंख सपडिदिसि सिद्धखेतोववायगती, लवण-  
समुदे सपर्किंख सपडिदिसि सिद्धखेतोववायगती, धायइसंडे दीवे पुंरिमद्ध-  
पच्छिमद्धमंदरपव्ययस्स सपर्किंख सपडिदिसि सिद्धखेतोववातगती, कालोयसमुदे  
५ सपर्किंख सपडिदिसि सिद्धखेतोववातगती, पुक्खरवरदीवडुपुंरिमद्धभरहेवयवास-  
सपर्किंख सपडिदिसि सिद्धखेतोववातगती, एवं जाव पुक्खरवरदीवडुपच्छिमद्ध-  
मंदरपव्ययसपर्किंख सपडिदिसि सिद्धखेतोववातगती । से तं सिद्धखेतोववातगती ।  
से तं खेतोववातगती १ ।

१०९९. से किं तं भवोववातगती ? २ चउविहा पण्णता । तं जहा-  
१० णेरइय० जाव देवभवोववातगती । से किं तं णेरइयभवोववातगती ? २ सत्तविहा  
पण्णता तं जहा० । एवं सिद्धवज्जो भेओ भाणियव्वो, जो चेव खेतोववातगतीए  
सो चेव भवोववातगतीए । से तं भवोववातगती २ ।

११००. से किं तं णेभवोववातगती ? २ दुविहा पण्णता । तं  
जहा-पोगँलणोभवोववातगती य सिद्धणोभवोववातगती य ।

११०१. से किं तं पोगँलणोभवोववातगती ? २ जण्णं परमाणुपोगले  
लोगस्स पुरत्थिमिल्लाओ चरिमंताओ पैच्छिमिल्लं चरिमंतं एगसमएणं गच्छति,  
पैच्छिमिल्लाओ वा चरिमंताओ पुरत्थिमिल्लं चरिमंतं एगसमएणं गच्छति,  
दाहिणिल्लाओ वा चरिमंताओ उत्तरिल्लं चरिमंतं एगसमएणं गच्छति, एवं  
२० उत्तरिल्लातो दाहिणिल्लं, उवरिल्लाओ हेड्लिल्लं, हेड्लिल्लाओ वा उवरिल्लं । से तं  
पोगँलणोभवोववातगती ।

११०२. से किं तं सिद्धणोभवोववातगती ? २ दुविहा पण्णता । तं जहा-  
अणंतरसिद्धणोभवोववातगती य परंपरसिद्धणोभवोववातगती य ।

११०३. से किं तं अणंतरसिद्धणोभवोववातगती ? २ पन्नरसविहा  
पण्णता । तं जहा-तित्थसिद्धअणंतरसिद्धणोभवोववातगती य जाव अणेगसिद्धणो-  
२५ भवोववातगती य । [से तं अणंतरसिद्धणोभवोववातगती ।]

१. पुरच्छिमद्ध-प० पु२ ॥ २. °पुरच्छिमद्धभ० पु२ । °पुरत्थिमद्धभ० मु० ॥ ३. ५. पोगल-  
णोभ० जे० ध० म० ॥ ४. सिद्धणोभ० जे० ध० म० ॥ ६-७. पञ्चत्थिमि० म० प्र० पु१  
पु२ पु३ ॥ ८. पोगलणोभ० जे० ध० म० ॥ ९. सिद्धणोभ० जे० ध० म० ॥ १०-१४.  
°सिद्धणोभ० जे० ध० म० ॥

११०४. से किं तं परंपरसिद्धणोभवोववातगती १ २ अणेगविहा पण्णता । तं जहा—अपढमसमयसिद्धणोभवोववातगती एवं दुसमयसिद्धणो-भवोववातगती जाव अणंतसमयसिद्धणोभवोववातगती । से तं परंपरसिद्धणो-भवोववातगती । से तं सिद्धणोभवोववातगती । से तं णोभवोववायगती ३ । से तं उववातगती ।

[सुत्ताइँ ११०५—२२. विहायगतिपरुचर्ण ]

११०५. से किं तं विहायगती १ २ सत्तरसविहा पण्णता । तं जहा—फुसमाणगती १ अफुसमाणगती २ उवसंपज्जमाणगती ३ अणुवसंपज्जमाणगती ४ पोगगलगती ५ मंड्यगती ६ णावागती ७ णयगती ८ छायागती ९ छायाणु-वायगती १० लेसागती ११ लेसाणुवायगती १२ उँद्विसपविभत्तगती १३ १० चउपुरिसपविभत्तगती १४ वंकगती १५ पंकगती १६ खंधणविमोयणगती १७ ।

११०६. से किं तं फुसमाणगती ? २ जण्णं परमाणुपोगगले दुपदेसिय जाव अणंतपदेसियाणं खंधाणं अण्णमण्णं फुसित्ता णं गती पवत्तइ । से तं फुसमाणगती १ ।

११०७. से किं तं अफुसमाणगती ? २ जण्णं एतेसिं चेव अफुसित्ता १५ णं गती पवत्तइ । से तं अफुसमाणगती २ ।

११०८. से किं तं उवसंपज्जमाणगती ? २ जँण्णं रायं वा जुवरायं वा ईसरं वा तलवरं वा माडंबियं वा कोडुंबियं वा इबं वा सिर्द्धि वा सेणावइं वा सत्थवाहं वा उवसंपज्जिता णं गच्छति । से तं उवसंपज्जमाणगती ३ ।

११०९. से किं तं अणुवसंपज्जमाणगती ? २ जँण्णं एतेसिं चेव २० अण्णमण्णं अणुवसंपज्जिता णं गॅच्छति । से तं अणुवसंपज्जमाणगती ४ ।

१११०. से किं तं पोगगलगती ? २ जण्णं परमाणुपोगगलाणं जाव अणंतपएसियाणं खंधाणं गती पवत्तति । से तं पोगगलगती ५ ।

११११. से किं तं मंड्यगती ? २ जण्णं मंड्हौए उफ्फिडिया उप्फिडिया गच्छति । से तं मंड्यगती ६ ।

१—२. सीद्धणोभ<sup>३</sup> जे० ध० म० ॥ ३. उद्विसियविभ<sup>०</sup> म० प्र० पु१ पु२ ॥ ४. जण्णं जं रायं म० प्र० ॥ ५. °गती ३ । ग्रन्थाग्र ५००० पु२ ॥ ६. जहा एतेसिं ध० । जे णं एतेसिं प्र० ॥ ७. गच्छति प्र० पु२ ॥ ८. मंड्हओ फिडिता ग<sup>१</sup> मु० ॥ ९. उप्फिडिता पु२सं० । भोफ्फिडिता पु१ पु३

१११२. से किं तं णावागती ? २ जण्णं णावा पुञ्चवेयालीओ दाहिणवेयालिं जलपहेणं गच्छति, दाहिणवेयालीओ वा अवरवेयालिं जलपहेणं गच्छति । से तं णावागती ७ ।

१११३. से किं तं णयगती ? २ जण्णं णेगम-संगह-ववहार-उज्जुसुय-५ सद्समभिरूढ-एवंभूयाणं णयाणं जा गती, अहवा सव्वणया वि जं इच्छति । से तं णयगती ८ ।

१११४. से किं तं छायागती ? २ जैण्णं हयच्छायं वा गैयच्छायं वा नरच्छायं वा किञ्चरच्छायं वा महोरगच्छायं वा गंधच्छायं वा उसहच्छायं वा रहच्छायं वा छतच्छायं वा उवसंपन्निता णं गच्छति । से तं छायागती ९ ।

१० १११५. से किं तं छायाणुवातगती ? २ जैण्णं पुरिसं छाया अणु-गच्छति णो पुरिसे छायं अणुगच्छति । से तं छायाणुवातगती १० ।

१५ १११६. से किं तं लेस्सागती ? २ जैण्णं कण्ठलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावण्णत्ताए तांगंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्ञो भुज्ञो परिणमति, एवं १५ णीललेस्सा काउलेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव ताफासत्ताए परिणमति, एवं काउलेस्सा वि तेउलेस्सं, तेउलेस्सा वि पम्हलेस्सं, पम्हलेस्सा वि सुक्लेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव परिणमति । से तं लेस्सागती ११ ।

१११७. से किं तं लेस्साणुवायगती ? २ जलेस्साइं दब्बाइं परियाइत्ता कालं कोरति तलेस्सेसु उववज्जति । तं जहा—कण्ठलेस्सेसु वा जाव सुक्लेस्सेसु वा । से तं लेस्साणुवायगती १२ ।

२० १११८. से किं तं उंहिस्सपविभत्तगती ? २ जेणं आयरिय वा उवज्ज्ञायं वा येरं वा पवर्ति वा गणि वा गणहरं वा गणावच्छेइँयं वा उंहिसिय २ गच्छति । से तं उंहिस्सपविभत्तगती १३ ।

१११९. से किं तं चउपुरिसपविभत्तगती ? २ से जहाणामए चत्तारि पुरिसा संमगं पट्टिता समगं पज्जवट्टिया १ समगं पट्टिया विसमं पज्जवट्टिया २ विसमं

१, ३. जेणं म० पु१ पु२ ॥ २. गतच्छायं जे० ध० म० ॥ ४. पुरिसो पु२ ॥ ५. जणहं क० पु२ ॥  
६, ८. उंहिसियविभ० म० प्र० पु१ पु२ ॥ ७. °च्छेइं वा म० प्र० ॥ ९. समगं पज्जवट्टिया समगं पट्टिया १ समगं पज्जवट्टिया विसमं पट्टिया २ विसमं पज्जवट्टिया समगं पट्टिया ३ विसमं पज्जवट्टिया विसमं पट्टिया ४ । से म०, अशुद्धीकाप्रत्यन्तरगलितपात्रेपलब्धेः परावर्तितोऽयं श्रान्तिजनितः पाठमेदो मुद्रितादर्शे ॥

पट्टिया समर्गं पञ्जवट्टिया ३ विसमं पट्टिया विसमं पञ्जवट्टिया ४ । से तं चउ-  
पुरिसपविभत्तगती १४ ।

११२०. से किं तं वंकगती ? २ चउविहा पण्णता । तं जहा-  
घट्टणया १ थंभणया २ लेसणया ३ पवडणया ४ । से तं वंकगती १५ ।

११२१. से किं तं पंकगती ? २ से जहाणामए केइ पुरिसे सेयंसि वा ५  
पंकंसि वा उदयंसि वा कायं उँच्चहिया गच्छति । से तं पंकगती १६ ।

११२२. से किं तं वंधणविमोयणगती ? [ग्रन्थाग्रम् ५०००] २ जण्णं  
अंवाण वा अंबाडगाण वा माउलुंगाण वा विल्लाण वा कविद्वाण वा भल्लाण वा  
फणसाण वा दाँडिमाण वा पैरेवाण वा अक्खोडाण वा चोराण वा वोराण वा  
तिंडुयाण वा पक्काणं परियागयाणं वंधणाओ विप्पंमुक्काणं णिव्वाघाएणं अहे १०  
वीससाए गती पवत्तइ । से तं वंधणविमोयणगती १७ । [से तं विहायगती ।  
से तं गद्वप्पवाए ।]

॥ पण्णवणाए भगवतीए सोलसमं पथोगपयं समत्तं ॥

१. सरसि वा प्र० । सोइंसि वा पु२ ॥ २. उच्चिहता पु२ । उच्चिहिया मु० ॥ ३. अंदाडाण पु२ ॥ ४. भवाण म० प्र० पु२ । “भज्ञाण भर्चना फल” इति श्रीजीवविजयगणिकृते प्रज्ञापनासूत्रस्तवके । “भद्वाण भाद्रा-द्राप” इति श्रीधनविमलगणिकृते प्रज्ञापनासूत्रस्तवके ॥
५. दालिमाण म० प्र० पु२ ॥ ६. परेवताण म०, “परेवयाण-फलविशेष” इति श्रीधनविमलगणिकृते स्तवके । परिवताण पु२, “परिवतना फल” इति श्रीजीवविजयगणिकृते स्तवके ॥ ७. अक्खोलाण ध० म० प्र० पु२ ॥ ८. ढाराण पु२स० । “चाराण-फलविशेष” इति जीवविजयगणिकृते स्तवके । “चाराण-एही फलविशेष” इति श्रीधनविमलगणिकृते स्तवके ॥ ९. तिंदुयाण-तिद्वकफल” इति श्रीधनविमलगणिकृते स्तवके । “तिदुमाण-टीडसाफल” इति श्रीजीवविजयगणिकृते स्तवके ॥ १०. विमुक्काणं जे० ध० ॥

## १७. सत्तरसमं लेस्सापयं

पद्मो उद्देसओ

[ सुतं ११२३. पद्मुदेसस्स अत्थाहिगारा ]

११२३. आहार सम सरीरा उस्सासे १ कम्म२वण्ण३लेस्सासु४ ।  
६ समवेदण ५ समकिरिया ६ समाउया ७ चेव वोधवा ॥२०९॥

[ सुताहं ११२४-३०. नेरइप्पु समाहाराइसत्तदारपरुच्चणं ]

११२४. ऐरइया णं भंते ! सब्बे समाहारा सब्बे समसरीरा सब्बे समुस्सासणिस्सासा ? गोयमा ! णो इण्डे समडे । से केण्ड्रेण भंते ! एवं बुच्चति ऐरइया णो सब्बे समाहारा जाव णो सब्बे समुस्सासणिस्सासा ? गोयमा ! ऐरइया १० दुविहा पण्णता, तं जहा-महासरीरा य अप्पसरीरा य । तथ्य णं जे ते महासरीरा ते णं वहुतराए पोगले आहरेंति वहुतराए पोगले परिणामेंति वहुतराए पोगले उस्सासंति वहुतराए पोगले णीससंति, अभिक्खणं आहरेंति अभिक्खणं परिणामेंति अभिक्खणं ऊससंति अभिक्खणं णीससंति । तथ्य णं जे ते अप्पसरीरा ते णं अप्पतराए पोगले आहरेंति अप्पतराए पोगले परिणामेंति अप्पतराए पोगले २५ ऊससंति अप्पतराए पोगले णीससंति, आहच्च आहरेंति आहच्च परिणामेंति आहच्च ऊससंति आहच्च णीससंति, से' एतेण्डेण गोयमा ! एवं बुच्चइ ऐरइया णो सब्बे समाहारा णो सब्बे समसरीरा णो सब्बे समुस्सासणीसासा १ ।

११२५. ऐरइया णं भंते ! सब्बे समकम्मा ? गोयमा ! णो इण्डे समडे । से केण्ड्रेण भंते ! एवं बुच्चति ? ऐरइया णो सब्बे समकम्मा ? गोयमा ! २० ऐरइया दुविहा पण्णता, तं जहा-पुञ्चोववण्णगा य पञ्चोववण्णगा य । तथ्य णं जे ते पुञ्चोववण्णगा ते णं अप्पकम्मतरागा । तथ्य णं जे ते पञ्चोववण्णगा ते णं महाकम्मतरागा, सेण्डेण गोयमा ! एवं बुच्चति ऐरइया णो सब्बे समकम्मा २ ।

११२६. ऐरइया णं भंते ! सब्बे समवण्णा ? गोयमा ! णो इण्डे २५ समडे । से केण्ड्रेण भंते ! एवं बुच्चति ऐरइया णो सब्बे समवण्णा ? गोयमा !

---

१. सेण्णटेण पु२, एवमन्यत्रापि प्रत्यन्तरेष्वावृत्योपलभ्यते ॥ २. सेतेण्डेण पु२, एवमन्यत्रापि प्रत्यन्तरेष्वावृत्योपलभ्यते ॥

णेरइया दुविहा पण्णता, तं जहा—पुब्वोववण्णगा य पच्छेववण्णगा य । तथं णं जे ते पुब्वोववण्णगा ते णं विसुद्धवण्णतरागा । तथं णं जे ते पच्छेववण्णगा ते णं अविसुद्धवण्णतरागा, सेएणट्रेणं गोयमा ! एवं बुच्चति णेरइया णो सब्वे समवण्णा ३ ।

११२७. एवं जहेव वण्णेण भणिया तहेव लेस्सासु वि विसुद्धलेस्संतरागा ५  
अविसुद्धलेस्संतरागा य भाणियव्वा ४ ।

११२८. णेरइया णं भंते ! सब्वे समवेदणा ? गोयमा ! णो इणट्रे समट्रे । से केणट्रेणं भंते ! एवं बुच्चति णेरइया णो सब्वे समवेयणा ? गोयमा ! णेरइया दुविहा पण्णता, तं जहा—सण्णिभूया य असण्णिभूया य । तथं णं जे ते सण्णिभूया ते णं महावेदण्णतरागा । तथं णं जे ते असण्णिभूया ते णं अप्पवेदण्णतरागा, सेतेणट्रेणं गोयमा ! एवं बुच्चति नेरइया नो सब्वे समवेयणा ५ ।

११२९. णेरइया णं भंते ! सब्वे समकिरिया ? गोयमा ! णो इणट्रे समट्रे । से केणट्रेणं भंते ! एवं बुच्चति णेरइया णो सब्वे समकिरिया ? गोयमा ! णेरइया तिविहा पण्णता, तं जहा—सम्मदिङ्गी मिच्छँडिङ्गी सम्मामिच्छँडिङ्गी । तथं णं जे ते सम्मदिङ्गी तेसि णं चत्तारि किरियाओ कजंति, तं जहा—आरंभिया १ परिग्गहिया २ मायावत्तिया ३ अपच्चकखाणकिरिया ४ । तथं णं जे ते मिच्छँडिङ्गी जे य सम्मामिच्छँडिङ्गी तेसिं णेयंतियाओ पंच किरियाओ कजंति, तं जहा—आरंभिया १ परिग्गहिया २ मायावत्तिया ३ अपच्चकखाणकिरिया ४ मिच्छादंसणवत्तिया ५, सेतेणट्रेणं गोयमा ! एवं बुच्चति णेरइया णो सब्वे समकिरिया ६ ।

११३०. णेरइया णं भंते ! सब्वे समाउया ? गोयमा ! णो इणट्रे समट्रे । से केणट्रेणं भंते ! एवं बुच्चइ ? गोयमा ! णेरइया चउब्बिहा पण्णता, तं जहा—अत्थेगइया समाउया समोववण्णगा १ अत्थेगइया समाउया विसमोववण्णगा २ अत्थेगइया विसमाउया समोववण्णगा ३ अत्थेगइया विसमाउया विसमोववण्णगा ४, सेएणट्रेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ णेरइया णो सब्वे समाउया णो सब्वे समोववण्णगा ७ ।

[सुत्ताइं ११३१-३६. भवणवासिसु समाहाराइसत्तदारपरूपर्वणं ]

११३१. असुरकुमारा णं भंते ! सब्वे समाहारा ? स चैव पुच्छा । २५ गोयमा ! णो इणट्रे समट्रे, जहा णेरइया (सु. ११२४) ।

१-२. °लेसत° पु२ ॥ ३. मिच्छाडिङ्गी पु२, एवमन्यत्रापि ॥ ४. °च्छडिङ्गी तेसि णं नियताओ मु० ॥ ५. णियति° पु२ ॥ ६. °रा? एवं सब्वे वि पुच्छा । से केणट्रेणं भंते ! एवं बुच्चति? जहा नेर° मु० ॥

११३२. असुरकुमारा णं भंते ! सब्वे समकम्मा ? गोयमा ! णो इण्डे समडे । से केण्ड्रेण भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! असुरकुमारा दुविहा पण्णता, तं जहा-पुच्छोववण्णगा य पच्छोववण्णगा य । तथ्य णं जे ते पुच्छोववण्णगा ते णं महाकम्मतरागा । तथ्य णं जे ते पच्छोववण्णगा ते णं अपकम्मतरागा, सेएण्ड्रेण ६ गोयमा ! एवं बुच्चति असुरकुमारा णो सब्वे समकम्मा ।

११३३. [१] एवं वण्ण-लेस्साए पुच्छा । तथ्य णं जे ते पुच्छोववण्णगा ते णं अविसुद्धवण्णतरागा । तथ्य णं जे ते पच्छोववण्णगा ते णं विसुद्धवण्णतरागा, सेएण्ड्रेण गोयमा ! एवं बुच्चति असुरकुमारा सब्वे णो समवण्णा ।

१०

[२] एवं लेस्साए वि ।

११३४. वेदणाए जहा णेरइया (सु. ११२८) ।

११३५. अवसेसं जहा णेरइयाणं (सु. ११२९-३०) ।

११३६. एवं जाव थणियकुमारा ।

[मुक्ताहं ११३७-४०, एगिंदियाइसु समाहाराइसत्तदारप्रवर्णं ]

११

११३७. पुढविकाइया आहार-कम्म-वण्ण-लेस्साहं जहा णेरइया (सु. ११२४-२७) ।

११३८. पुढविकाइया णं भंते ! सब्वे समवेदणा ? हंता गोयमा ! सब्वे समवेयणा । से केण्ड्रेण भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! पुढविकाइया सब्वे असण्णी असण्णीभूयं अॅणियं वेदणं वेदेंति, सेतेण्ड्रेण गोयमा ! पुढविकाइया २० सब्वे समवेदणा ।

११३९. पुढविकाइया णं भंते ! सब्वे समकिरिया ? हंता गोयमा ! पुढविकाइया सब्वे समकिरिया । से केण्ड्रेण ? गोयमा ! पुढविकाइया सब्वे माइमिच्छदिर्दी, तेसिं णेयतियाओ पंच किरियाओ कजंति, तं जहा-आरंभिया १ परिगाहिया २ मायावत्तिया ३ अपच्चक्षाणकिरिया ४ मिच्छादंसणवत्तियाँ ५ ।

२६

११४०. एवं जाव चउरिंदिया ।

१. मल्यग्रन्तौ व्याख्यात अणियं इति पाठे म० पु२ प्रत्योरेवोपलभ्यते ॥ २. °या य । नेतेण्ड्रेण गो०! । ११४०. एवं मु० ॥

## [ सुत्तं ११४१. पंचिंदियतिरिक्खेसु समाहाराइसत्तदारप्रवणं ]

११४१. पंचिंदियतिरिक्खजोणिया जहा णेरइया (सु. ११२४-३०) । णवरं किरियाहिं सम्मदिङ्गी मिच्छदिङ्गी सम्मामिच्छदिङ्गी । तत्थ णं जे ते सम्मदिङ्गी ते दुविहा पण्णता, तं जहा—असंजया य संजयासंजया य । तत्थ णं जे ते संजयासंजया तेसि णं तिणिं किरियाओ कजंति, तं जहा—आरंभिया परिगगहिया ५ मायावत्तिया । तत्थ णं जे ते असंजया तेसि णं चत्तारि किरियाओ कजंति, तं जहा—आरंभिया १ परिगगहिया २ मायावत्तिया ३ अपचक्खाणकिरिया ४ । तत्थ णं जे ते मिच्छदिङ्गी जे य सम्मामिच्छदिङ्गी तेसिं णेयइयाओ पंच किरियाओ कजंति, तं जहा—आरंभिया १ परिगगहिया २ मायावत्तिया ३ अपचक्खाणकिरिया ४ मिच्छादंसणवत्तिया ५ । सेसं तं चेव ।

१०

## [ सुत्तं ११४२. मणुस्सेसु समाहाराइसत्तदारप्रवणं ]

११४२. मणूसाणं भंते ! सब्बे समाहारा ? गोयमा ! णो इँणडे समडे । से केणडेणं ? गोयमा ! मणूसा दुविहा पण्णता, तं जहा—महासरीरा य अप्सरीरा य । तत्थ णं जे ते महासरीरा ते णं बहुयराए पोगले आहोरेंति जाव बहुतराए १५ पोगले णीससंति, आहच आहोरेंति० आहच णीससंति । तत्थ णं जे ते अप्सरीरा ते णं अप्पतराए पोगले आहोरेंति जाव अप्पतराए पोगले णीससंति, अभिक्खणं आहोरेंति जाव अभिक्खणं नीससंति, सेएणडेणं गोयमा ! एवं बुच्चति मणूसा सब्बे णो समाहारा । सेसं जहा णेरइयाणं (सु. ११२५-३०) । णवरं किरियाहिं मणूसा तिविहा पण्णता, तं जहा—सम्मदिङ्गी मिच्छदिङ्गी सम्मामिच्छदिङ्गी । तत्थ णं जे ते सम्मदिङ्गी ते तिविहा पण्णता, तं जहा—संजया असंजया संजयासंजया । तत्थ णं जे ते संजया ते दुविहा पण्णता, तं जहा—सरागसंजया य वीतरागसंजया य, तत्थ २० णं जे ते वीयरागसंजया ते णं अकिरिया । तत्थ णं जे ते सरागसंजया ते दुविहा पण्णता, तं जहा—पमत्तसंजया य अपमत्तसंजया य, तत्थ णं जे ते अपमत्तसंजया तेसिं एगा मायावत्तिया किरिया कजंति, तत्थ णं जे ते पमत्तसंजया तेसिं दो किरियाओ कजंति, तं जहा—आरंभिया मायावत्तिया य । तत्थ णं जे ते संजयासंजया तेसिं तिणिं किरियाओ कजंति, तं जहा—आरंभिया १ परिगगहिया २ मायावत्तिया ३ । तत्थ णं जे ते असंजया तेसिं चत्तारि किरियाओ कजंति, तं जहा—आरंभिया १ २५

२०

२०

२५

परिगगहिया २ मायावत्तिया ३ अपचक्षणकिरिया ४ । तत्थ णं जे ते मिच्छद्विं जे  
य सम्मामिच्छद्विं तेसि णेरइयाओं पंच किरियाओ कजंति, तं जहा-आरंभिया १  
परिगगहिया २ मायावत्तिया ३ अपचक्षणकिरिया ४ मिच्छादंसणवत्तिया ५ ।  
सेसं जहा णेरइयाणं ।

५ [मुक्तांड ११४३-४४. वाणमंतराइसु समाहाराइसत्तदारपरूपवर्ण ]

११४३. वाणमंतराणं जहा असुरकुमाराणं (सु. ११३१-३५)

११४४. एवं जोइसिय-वेमाणियाण वि । णवरं ते वेदणाए दुविहा  
पणता, तं जहा-माइमिच्छद्विंउववण्णगा य अमाइसम्मद्विंउववण्णगा य ।  
तत्थ णं जे ते माइमिच्छद्विंवैवण्णगा ते णं अप्पवेदणतरागा । तत्थ णं जे ते  
अमाइसम्मद्विंवैवण्णगा ते णं महावेदणतरागा, सेएणद्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ०।  
सेसं तहेव ।

[मुक्तांड ११४५. मलेस्सेसु २४ दंडएसु ओहेणं समाहाराइसत्तदारपरूपवर्ण ]

११४५. सलेस्सा णं भंते ! णेरइया सब्बे समाहारा समसरीरा समुस्सा-  
सणिस्सासा ? स ब्रेव पुच्छा, एवं जहा ओहिओ गमओ (सु. ११२४-४४)  
२० भणिओ तहा मलेस्सगमओ वि णिरवसेसो भाणियव्वो जाव वेमाणिया ।

[मुक्तांड ११४६-५५. सलेस्सेसु २४ दंडएसु विभागेणं  
समाहाराइसत्तदारपरूपवर्ण ]

११४६. कण्हलेस्सा णं भंते ! णेरइया सब्बे समाहारा ३ पुच्छा । गोयमा !  
जहा ओहिया (मु. ११२४-३०) । णवरं णेरइया वेदणाए माइमिच्छद्विंवैवण्णगा  
२० य अमाइसम्मद्विंवैवण्णगा य भाणियव्वा । सेसं तहेव जहा ओहियाणं ।

११४७. असुरकुमारा जाव वाणमंतरा एते जहा ओहिया (सु. ११३१-  
४३) । णवरं मण्माणं किग्याहिं विसेसो, जाव तत्थ णं जे ते सम्मद्विं ते  
निक्षिपणाना, तं जहा-संजया अमंजया संजयासंजया य, जहा ओहियाणं  
(मु. ११४२) ।

११४८. जोइभिय-वेमाणिया आइलिगासु तिसु लेस्सासु ण पुच्छजंति ।

११४९. एवं जहा किण्हलेस्सा चारिया तहा णीललेस्सा वि चारियव्वा ।

११५०. काउलेस्सा णेरइएहिंतो आरब्म जाव वाणमंतराँ । णवरं काउलेस्सा णेरइया वेदणाए जहा ओहिया (सु. ११२८) ।

११५१. तेउलेस्साणं भंते ! असुरकुमाराणं ताओ चेव पुच्छाओ । गोयमा ! जहेव ओहिया तहेव (सु. ११३१-३५) । णवरं वेदणाए जहा ५ जोतिसिया (सु. ११४४) ।

११५२. पुढवि-आउ-वणस्सइ-पंचेंदियतिरिक्ख-मणूसा जहा ओहिया (सु. ११३७-३९, ११४१-४२) तहेव भाणियव्वा । णवरं मणूसा किरियाहिं जे संजया ते पमत्ता य अपमत्ता य भाणियव्वा, सरागा वीयरागा णत्थि ।

११५३. वाणमंतरा तेउलेस्साए जहा असुरकुमारा (सु. ११५१) । १०

११५४. एवं जोतिसिय-वेमाणिया वि । सेसं तं चेव ।

११५५. एवं पम्हलेस्सा वि भाणियव्वा, णवरं जेसिं अत्थि । सुक्लेस्सा वि तहेव जेसिं अत्थि । सव्वं तहेव जहा ओहियाणं गमओ । णवरं पम्हलेस्स-सुक्लेस्साओ पंचेंदियतिरिक्खजोणिय-मणूस-वेमाणियाणं चेव, ण सेसाणं ति ।

॥ पण्णवणाए लेस्सापए पठमो उद्देसओ समत्तो ॥ १६

\*

बीओ उद्देसओ

[सुत्तं ११५६. लेस्साभेयपरूपवर्णं]

११५६. कति णं भंते ! लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! छ्लेस्साओ पण्णत्ताओ । तं जहा-कण्हलेस्सा १ णीललेस्सा २ काउलेस्सा ३ तेउलेस्सा ४ पम्हलेस्सा ५ सुक्लेस्सा ६ । २०

[सुत्ताइ ११५७-६९. चउवीसदंडएसु लेस्सापरूपवर्णं]

११५७. णेरइयाणं भंते ! कति लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! तिणिण । तं जहा-किण्हलेस्सा नीललेस्सा काउलेस्सा ।

११५८. तिरिक्खजोणियाणं भंते ! कति लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! छ्लेस्साओ । तं जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्लेस्सा । २५

१. अत्र चारियव्वा इति पूर्वस्त्रादनुवर्तते ॥

११५९. एगिंदियाणं भंते ! कति लेस्साओ पणत्ताओ ? गोयमा ! चत्तारि लेस्साओ ! तं जहा—कण्हलेस्सा जाव तेउलेस्सा ।

११६०. पुढविक्काइयाणं भंते ! कति लेस्साओ ? गोयमा ! एवं चेव ।

११६१. आउ-वणप्फतिकाइयाण वि एवं चेव ।

६ ११६२. तेउ-वाउ-वेइंदिय-तेइंदिय-चउर्दियाणं जहा ऐरइयाणं (सु. ११५७) ।

११६३. [१] पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! छलेस्साओ, कण्हलेस्सा जाव सुक्लेस्सा ।

१० [२] समुच्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहा ऐरइयाणं (सु. ११५७) ।

[३] गव्भवकंतियपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! छलेस्साओ, तं जहा—कण्हलेस्सा जाव सुक्लेस्सा ।

[४] तिरिक्खजोणिणीणं पुच्छा । गोयमा ! छलेस्साओ एताओ चेव ।

१५ ११६४. [१] मणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! छलेस्साओ एताओ चेव ।

[२] समुच्छिममणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! जहा ऐरइयाणं (सु. ११५७) ।

[३] गव्भवकंतियमणूस्साणं पुच्छा । गोयमा ! छलेस्साओ, तं जहा—कण्हलेस्सा जाव सुक्लेस्सा ।

[४] मणुस्सीणं पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव ।

२० ११६५. [१] देवाणं पुच्छा । गोयमा ! छ एताओ चेव ।

[२] देवीणं पुच्छा । गोयमा ! चत्तारि । तं जहा—कण्हलेस्सा जाव तेउलेस्सा ।

११६६. [१] भवणवासीणं भंते ! देवाणं पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव ।

[२] एवं भवणवासिणीण वि ।

२१ ११६७. [१] वाणमंतरदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव ।

[२] एवं वाणमंतरीण वि ।

११६८. [?] जोइसियाणं पुच्छा । गोयमा ! एगा तेउलेस्सा ।

[२] एवं जोइसिणीण वि ।

११६९. [१] वेमाणियाणं पुच्छा । गोयमा ! तिणि । तं जहा-  
तेउलेस्सा पम्हलेस्सा सुक्लेस्सा ।

[२] वेमाणिणीणं पुच्छा । गोयमा ! एगा तेउलेसा ।

[सुत्ताइं ११७०. सलेस्सेसु जीवेसु अप्पावहुयं ]

११७०. एतेसि णं भंते ! सलेस्साणं जीवाणं कण्हलेस्साणं जाव सुक्लेस्साणं ५  
अलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्बत्थोवा जीवा सुक्लेस्सा,  
पम्हलेस्सा संखेजगुणा, तेउलेस्सा संखेजगुणा, अलेस्सा अणंतगुणा, काउलेस्सा  
अणंतगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया, सलेस्सा विसेसाहिया ।

[सुत्ताइं ११७१-९०. सलेस्सेसु २४ दंडएसु अप्पावहुयं ]

११७१. एतेसि णं भंते ! णेरइयाणं कण्हलेस्साणं नीललेस्साणं १०  
काउलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्बत्थोवा णेरइया  
कण्हलेस्सा, णीललेस्सा असंखेजगुणा, काउलेस्सा असंखेजगुणा ।

११७२. एतेसि णं भंते ! तिरिक्खजोणियाणं कण्हलेस्साणं जाव  
सुक्लेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्बत्थोवा तिरिक्ख-  
जोणिया सुक्लेसा, एवं जहा ओहिया (सु. ११७०) णवरं अँलेस्सवज्जा । १५

११७३. एतेसि णं भंते ! एगिंदियाणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण  
य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्बत्थोवा एगिंदिया तेउलेस्सा,  
काउलेस्सा अणंतगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया ।

११७४. एतेसि णं भंते ! पुढविक्काइयाणं कण्हलेस्साणं जाव  
तेउलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! जहा ओहिया एगिंदिया २०  
(सु. ११७३) । णवरं काउलेस्सा असंखेजगुणा ।

११७५. एवं आउक्काइयाण वि ।

११७६. एतेसि णं भंते ! तेउक्काइयाणं कण्हलेस्साणं णीललेस्साणं  
काउलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्बत्थोवा तेउक्काइया  
काउलेस्सा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया । २५

११७७. एवं वाउक्काइयाण वि ।

११७८. एतेसि णं भंते ! वणप्फइकाइयाणं कणहलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य ० जहा एगिंदियओहियाणं (सु. ११७३) ।

११७९. वेइंदिय-तेइंदिय-चौरिदियाणं जहा तेउक्काइयाणं (सु. ११७६) ।

५ ११८०. [१] एतेसि णं भंते ! पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं कणहलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! जहा ओहियाणं तिरिक्खजोणियाणं (सु. ११७२) । णवरं काउलेस्सा असंखेजगुणा ।

[२] सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं जहा तेउक्काइयाणं (सु. ११७६) ।

१० [३] गव्भवक्कंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं जहा ओहियाणं तिरिक्ख-जोणियाणं (सु. ११७२) । णवरं काउलेस्सा संखेजगुणा ।

[४] एवं तिरिक्खजोणिणीण वि ।

१५ [५] एतेसि णं भंते ! सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं गव्भवक्कंतिय-पंचेंदियतिरिक्खजोणियाण य कणहलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थेवा गव्भवक्कंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया सुक्कलेस्सा, पम्हलेस्सा संखेजगुणा, तेउलेस्सा संखेजगुणा, काउलेस्सा संखेजगुणा, नीललेस्सा विसेसाहिया, कणहलेस्सा विसेसाहिया, काउलेस्सा सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्ख-जोणिया असंखेजगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कणहलेस्सा विसेसाहिया ।

२० [६] एतेसि णं भंते ! सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजो-णिणीण य कणहलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! जहेव पंचमं (सु. ११८० [५]) तहा इमं पि छडुं भाणियव्वं ।

२५ [७] एतेसि णं भंते ! गव्भवक्कंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं तिरिक्ख-जोणिणीण य कणहलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थेवा गव्भवक्कंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया सुक्कलेस्सा, सुक्कलेस्साओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेजगुणाओ, पम्हलेस्सा गव्भवक्कंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया संखेजगुणा, पम्हलेस्साओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेजगुणाओ, तेउलेस्सा० संखेजगुणा, तेउलेस्साओ० संखेजगुणाओ, काउलेस्सा० संखेजगुणा, णीललेस्सा० विसेसाहिया, कणहलेस्सा० विसेसाहिया, काउलेस्साओ० संखेजगुणाओ, णीललेस्साओ० विसेसाहियाओ० कणहलेस्साओ० विसेसाहियाओ०

[८] एतेसि णं भंते ! समुच्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं गब्बवकं-  
तियपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीण य कण्हलेस्साणं जाव सुक्लेस्साण  
य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्बत्थोवा गब्बवकंतियतिरिक्ख-  
जोणिया सुक्लेस्सा, सुक्लेस्साओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेजगुणाओ, पम्हलेस्सा  
गब्बवकंतियतिरिक्खजोणिया संखेजगुणा, पम्हलेस्साओ तिरिक्खजोणिणीओ ६  
संखेजगुणाओ, तेउलेस्सा गब्बवकंतियतिरिक्खजोणिया संखेजगुणा, तेउलेस्सा-  
ओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेजगुणाओ, काउलेस्सा तिरिक्खजोणिया संखेजगुणा,  
णीललेस्सा० विसेसाहिया, कण्हलेस्सा० विसेसाहिया, काउलेस्साओ० संखेज-  
गुणाओ, णीललेस्साओ० विसेसाहियाओ, कण्हलेस्साओ० विसेसाहियाओ,  
काउलेस्सा समुच्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणिया असंखेजगुणा, णीललेस्सा० १०  
विसेसाहिया, कण्हलेस्सा० विसेसाहिया ।

[९] एतेसि णं भंते ! पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीण य  
कण्हलेस्साणं जाव सुक्लेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्बत्थोवा  
पंचेदियतिरिक्खजोणिया सुक्लेस्सा, सुक्लेस्साओ० संखेजगुणाओ, पम्हलेस्सा०  
संखेजगुणा, पम्हलेस्साओ० संखेजगुणाओ, तेउलेस्सा० संखेजगुणा, तेउलेस्साओ० १५  
संखेजगुणाओ, काउलेस्साओ० संखेजगुणाओ, णीललेस्साओ० विसेसाहियाओ,  
कण्हलेस्साओ० विसेसाहियाओ, काउलेस्सा० असंखेजगुणा, णीललेस्सा०  
विसेसाहिया, कण्हलेस्सा० विसेसाहिया ।

[१०] एतेसि णं भंते ! तिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीण य  
कण्हलेस्साणं जाव सुक्लेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! २०  
जहेव णवमं अप्पावहुगं तहा इमं पि, नवरं काउलेस्सा तिरिक्खजोणिया  
अणंतगुणा । एवं एते दस अप्पावहुगा तिरिक्खजोणियाणं ।

११८१. एवं मणूसाणं पि अप्पावहुगा भाणियब्बा । णवरं पच्छिमगं  
अप्पावहुगं णत्थि ।

११८२ [१] एतेसि णं भंते ! देवाणं कण्हलेस्साणं जाव सुक्लेस्साण २५  
य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्बत्थोवा देवा सुक्लेस्सा,  
पम्हलेस्सा असंखेजगुणा, काउलेस्सा असंखेजगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया,  
कण्हलेस्सा विसेसाहिया, तेउलेस्सा संखेजगुणा ।

१. °स्साओ ति०त्थीओ संखे० ध० ॥

[२] एतेसि णं भंते ! देवीणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्बत्थोवाओ देवीओ काउलेस्साओ, णीललेस्साओ विसेसाहियाओ, कण्हलेस्साओ विसेसाहियाओ, तेउलेस्साओ संखेजगुणाओ ।

[३] एतेसि णं भंते ! देवाणं देवीण य कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण ५ य कतरे कतरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्बत्थोवा देवा सुक्कलेस्सा, पम्हलेस्सा असंखेजगुणा काउलेस्सा असंखेजगुणा, नीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया, काउलेस्साओ देवीओ संखेजगुणाओ, णीललेस्साओ विसेसाहियाओ, कण्हलेस्साओ विसेसाहियाओ, तेउलेस्सा देवा संखेजगुणा, तेउलेस्साओ देवीओ संखेजगुणाओ ।

१० ११८३. [१] एतेसि णं भंते ! भवणवासीणं देवाणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्बत्थोवा भवणवासी देवा तेउलेस्सा, काउलेस्सा असंखेजगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया ।

[२] एतेसि णं भंते ! भवणवासिणीणं देवीणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! एवं चेव १५ ।

[३] एतेसि णं भंते ! भवणवासीणं देवाणं देवीण य कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्बत्थोवा भवणवासी देवा तेउलेस्सा, भवणवासिणीओ तेउलेस्साओ संखेजगुणाओ, काउलेस्सा भवणवासी असंखेजगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया, २० काउलेस्साओ भवणवासिणीओ संखेजगुणाओ, णीललेस्साओ विसेसाहियाओ, कण्हलेस्साओ विसेसाहियाओ ।

११८४. एवं वाणमंतराण वि तिण्णेव अप्पावहुया जहेव भवणवासीणं तहेव भाणियवा (सु. ११८३ [१-३]) ।

११८५. एतेसि णं भंते ! जोइसियाणं देवाणं देवीण य तेउलेस्साणं कतरे कतरेहिंतो आपा वा वहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा जोइसियदेवा तेउलेस्सा, जोइसिणिदेवीओ तेउलेस्साओ संखेजगुणाओ ।

१. जाव सुक्कलेस्साण य ध० ॥ २. [३] एवं एतेसि म० प्र० पु२ ॥ ३. °वासिणीओ देवीओ संखे° मुद्रिते ॥ ४. संखेजाओ, णील° ध० ॥ ५. जोइसिणीओ देवीओ ध० म० प्र० पु२ ॥ ६. संखेजाओ । जे० ॥

११८६. एतेसि णं भंते ! वेमाणियाणं देवाणं तेउलेस्साणं पूँम्हलेस्साणं सुक्लेस्साण य कतरे कतरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वेमाणिया सुक्लेस्सा, पूँम्हलेस्सा असंखेजगुणा, तेउलेस्सा असंखेजगुणा ।

११८७. एतेसि णं भंते ! वेमाणियाणं देवाणं देवीण य तेउलेस्साणं पूँम्हलेस्साणं सुक्लेस्साण य कतरे कतरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा ५ वेमाणिया देवा सुक्लेस्सा, पूँम्हलेस्सा असंखेजगुणा, तेउलेस्सा असंखेजगुणा, तेउलेस्साओ वेमाणिणीओ देवीओ संखेजगुणाओ ।

११८८. एतेसि णं भंते ! भवणवासीणं वाणमंतराणं जोइसियाणं वेमाणि-  
याण य देवाणं कण्हलेस्साणं जाव सुक्लेस्साण य कतरे कतरेहितो आपा वा ४ ?  
गोयमा ! सव्वत्थोवा वेमाणिया देवा सुक्लेस्सा, पूँम्हलेस्सा असंखेजगुणा, १० तेउलेस्सा असंखेजगुणा; तेउलेस्सा भवणवासी देवा असंखेजगुणा, काउलेस्सा असंखेजगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया; तेउलेस्सा वाणमंतरा देवा असंखेजगुणा, काउलेस्सा असंखेजगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, किंण्हलेस्सा विसेसाहिया; तेउलेस्सा जोइसियदेवा संखेजगुणा ।

११८९. एतासि णं भंते ! भवणवासिणीणं वाणमंतरीणं जोइसिणीणं १५ वेमाणिणीण य कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य कतरे कतरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवाओ देवीओ वेमाणिणीओ तेउलेस्साओ; भवणवासिणीओ तेउलेस्साओ असंखेजगुणाओ, काउलेस्साओ असंखेजगुणाओ, णीललेस्साओ विसेसाहियाओ, कण्हलेस्साओ विसेसाहियाओ; तेउलेस्साओ वाणमंतरीओ देवीओ २० असंखेजगुणाओ, काउलेस्साओ असंखेजगुणाओ, णीललेस्साओ विसेसाहियाओ, कण्हलेस्साओ विसेसाहियाओ; तेउलेस्साओ जोइसिणीओ देवीओ संखेजगुणाओ ।

११९०. एतेसि णं भंते ! भवणवासीणं जाव वेमाणियाणं देवाण य देवीण य कण्हलेस्साणं जाव सुक्लेस्साण य कतरे कतरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वेमाणिया देवा सुक्लेस्सा, पूँम्हलेस्सा असंखेजगुणा, तेउलेस्सा असंखेजगुणा, तेउलेस्साओ वेमाणिणीओ देवीओ संखेजगुणाओ; तेउलेस्सा भवणवासी देवा असंखेजगुणा, तेउलेस्साओ भवणवासिणीओ देवीओ संखेजगुणाओ, काउलेस्सा भवणवासी असंखेजगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, २५

१-२. अल्पवहृत्वाधिकारसूत्रेषु ध० आदर्शे पूँम्ह० स्थाने वंभ(पंभ) इति पाठो वर्तते ॥

३. कण्हलेस्सा पु२ ॥

कण्हलेस्सा विसेसाहिया, काउलेस्साओ भवणवासिणीओ संखेजगुणाओ, णीललेसाओ विसेसाहियाओ, कण्हलेसाओ विसेसाहियाओ; तेउलेस्सा वाणमंतरा असंखेजगुणा, तेउलेस्साओ वाणमंतरीओ संखेजगुणाओ, काउलेस्सा वाणमंतरा असंखेजगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया, काउलेस्साओ वाणमंतरीओ ५ संखेजगुणाओ, णीललेस्साओ विसेसाहियाओ, कण्हलेस्साओ विसेसाहियाओ; तेउलेस्सा जोइसिया संखेजगुणा, तेउलेस्साओ जोइसिणीओ संखेजगुणाओ ।

[मुत्तं ११९१. सलेस्सेसु जीवेसु इड्डिअप्पावहुयं]

११९१. एतेसि णं भंते ! जीवाणं कण्हलेस्साणं जाव सुक्लेस्साण य कतरे कतरेहितो अप्पिड्डिया वा महिड्डिया वा ? गोयमा ! कण्हलेस्सेहितो १० णीललेस्सा महिड्डिया, णीललेस्सेहितो काउलेस्सा महिड्डिया, एवं काउलेस्सेहितो तेउलेस्सा महिड्डिया, तेउलेस्सेहितो पम्हलेस्सा महिड्डिया, पम्हलेस्सेहितो सुक्लेस्सा महिड्डिया, संव्वप्पिड्डिया जीवा किण्हलेस्सा, संव्वमंहिड्डिया जीवा सुक्लेस्सा ।

[मुत्ताइ ११९२-१८. सलेस्सेसु २४ दंडएसु इड्डिअप्पावहुयं]

११९२. एतेसि णं भंते ! णेरइयाणं कण्हलेस्साणं णीललेस्साणं काउ- १५ लेस्साण य कतरे कतरेहितो अप्पिड्डिया वा महिड्डिया वा ? गोयमा ! कण्हलेस्सेहितो णीललेस्सा मंहिड्डिया, णीललेस्सेहितो काउलेस्सा महिड्डिया, संव्वप्पिड्डिया णेरइया कण्हलेस्सा, संव्वमंहिड्डिया णेरइया काउलेस्सा ।

११९३. एतेसि णं भंते ! तिरिक्खजोणियाणं कण्हलेस्साणं जाव सुक्लेस्साण य कतरे कतरेहितो अप्पिड्डिया वा महिड्डिया वा ? गोयमा ! जहा जीवा २० ।

११९४. एतेसि णं भंते ! एगिंदियतिरिक्खजोणियाणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य कतरे कतरेहितो अप्पिड्डिया वा महिड्डिया वा ? गोयमा ! कण्हलेस्सेहितो एगिंदियतिरिक्खजोणिएहितो णीललेस्सा मंहिड्डिया, णीललेस्सेहितो काउलेस्सा महिड्डिया, काउलेस्सेहितो तेउलेस्सा महिड्डिया, संव्वप्पिड्डिया एगिंदियतिरिक्खजोणिया कण्हलेस्सा, संव्वमंहिड्डिया तेउलेस्सा ।

१. क्रद्धत्पवहुत्मत्रेषु मुद्रिते सर्वव आपड्डिया महिड्डिया इति पाठे वर्तते ॥ २, ६, ९. संव्वप्पिड्डिया पु२ मु० ॥ ३. कण्ह० पु२ मु० ॥ ४, ७, १०. °महिड्डिया जे० ध० ॥ ५, ८. महिड्डीया जे० व० ॥

११९५. एवं पुढविकाइयाण वि ।

११९६. एवं एतेण अभिलावेण जहेव लेस्साओ भावियाओ तहेव णेयवं जाव चउरिंदिया ।

११९७. पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीणं सम्मुच्छिमाणं गब्बवकंतियाण य सव्वेसिं भाणियवं जाव अपिडिया वेमाणिया देवा तेउलेस्सा, ५ सव्वमहिडिया वेमाणिया देवा सुक्कलेस्सा ।

११९८. केइ भण्णति—चउवीसदंडएणं इडी भाणियवा ।

॥ १ वीओ उद्देसओ समतो ॥

॥

तइओ उद्देसओ

१०

[सुत्ताइं ११९९-१२००. नयमण्णं २४दंडएसु उववाय-उव्वद्वृणाओ]

११९९. [१] णेरइए णं भंते ! णेरइएसु उववज्जति ? अणेरइए णेरइएसु उववज्जति ? गोयमा ! णेरइए णेरइएसु उववज्जइ, णो अणेरइए णेरइएसु उववज्जति ।

[२] एवं जाव वेमाणियाणं ।

१२००. [१] णेरइए णं भंते ! णेरइएहिंतो उँव्वद्वृइ ? अणेरइए १५ णेरइएहिंतो उव्वद्वृति ? गोयमा ! अणेरइए णेरइएहिंतो उव्वद्वृति, णो णेरइए णेरइएहिंतो उव्वद्वृति ।

[२] एवं जाव वेमाणिए । णवरं जोतिसिय-वेमाणिएसु चयणं ति अभिलावो कायव्वो ।

[सुत्ताइं १२०१-७. सलेस्सेसु २४ दंडएसु ओहेणं उववाय-उव्वद्वृणाओ]

२०

१२०१. [१] से णूणं भंते ! कण्हलेसे णेरइए कण्हलेसेसु णेरइएसु उववज्जति ? कण्हलेसे उव्वद्वृति ? जल्लेसे उववज्जति तल्लेसे उव्वद्वृति ? हंता गोयमा ! कण्हलेसे णेरइए कण्हलेसेसु णेरइएसु उववज्जति, कैण्हलेसे उव्वद्वृति, जल्लेसे उववज्जति तल्लेसे उव्वद्वृति ।

१. वीयउहेसओ ॥ जे० ॥ २. अस्मिन्नुद्देशके उव्वद्वृइ इति पाठस्थाने विशेषतः पु२ प्रतौ अन्यासु प्रतिषु च क्वचित् क्वचित् उववद्वृइ इति पाठ आवृत्त्योपलभ्यते ॥ ३. °लेस्सेसु उ° जे० प्र० ॥ ४. °कण्हलेसेसु उ° व० ॥ ५. तल्लेसेसु उ° व० ॥

[२] एवं पीलेमें वि काउलेसे वि ।

१२०२. एवं अमुगकुमाग वि जाव थणियकुमाग वि । णवरं तेउलेस्सा अन्दिया ।

१२०३. [१] मे णृणं भते ! कणहलेसे पुढविकाइए कणहलेसेसु

• युद्धिराहानु उववज्ञनि ? कणहलेमें उव्वट्टति ? जलेसे उववज्ञति तलेसे उव्वट्टति ? हंता गोयमा ! कणहलेसे पुढविकाइए कणहलेसेसु पुढविकाइएसु उव्वट्टनि; मिय कणहलेसे उव्वट्टति, मिय नीललेसे उव्वट्टति, सिय काउलेसे उव्वट्टनि; मिय जलेमे उववज्ञै तलेसे उव्वट्टति ।

[३] एवं पीलेस्मा काउलेस्मा वि ।

[३] मे णृणं भने ! तेउलेसे पुढविकाइए तेउलेसेसु पुढविकाइएसु उव्वट्ट ? ० पुङ्डा । हंता गोयमा ! तेउलेसे पुढविकाइए तेउलेसेसु पुढविकाइएसु उव्वट्टनि; मिय कणहलेसे उव्वट्टै, मिय पीललेसे उव्वट्टै, मिय काउलेसे उव्वट्टति; नेउलेसे उववज्ञनि, णो चेव णं तेउलेसे उव्वट्टति ।

[४] एवं आउकाइय-चणपकड़काइया वि ।

[५] तेऊ वाऊ एवं चेव । णवरं एतेभि तेउलेस्सा णत्थि ।

१२०४. विय-निय-नउरिंदिया एवं चेव तिसु लेसासु ।

१२०५. च्येंटियतिग्निखजोणिया मणमा य जहा पुढविकाइया आदिलि-  
न्द्रिय निनु चत्सानु भणिया (मु. १२०३[१-२]) तहा छसु वि लेसासु  
“निरं गा । घास अपि हेमाओ चारियद्वाओ ।

१२०६. शाणमंतग जहा अमुगकुमागा (मु. १२०२) ।

१२०७. [१] मे णृणं भते ! तेउलेसे जोड़सिए तेउलेसेसु जोड़सिएसु  
तेऊ निनु चत्सानु अमुगकुमागा ।

[२] एवं रनाभिया वि । नवरं दोष्ह वि चयतीति अभिलाओ ।

कण्हलेस्सेसु णीललेस्सेसु काउलेस्सेसु णेरइएसु उववज्जति ? कण्हलेस्से काउलेस्से उव्वद्वति ? जल्लेसे उववज्जति तल्लेसे उव्वद्वति ? हंता गोयमा ! कण्हलेस्स-णीललेस्स-काउलेस्सेसु उववज्जति, जल्लेसे उववज्जति तल्लेसे उव्वद्वति ।

१२०९. से णूं भंते ! कण्हलेस्से जाव तेउलेस्से असुरकुमारे कण्हलेस्सेसु जाव तेउलेस्सेसु असुरकुमारेसु उववज्जति ? एवं जहेव नेरइए ५ (सु. १२०८) तहा असुरकुमारे वि जाव थाणियकुमारे वि ।

१२१०. [१] से णूं भंते ! कण्हलेस्से जाव तेउलेस्से पुढविकाइए कण्हलेस्सेसु जाव तेउलेस्सेसु पुढविकाइएसु उववज्जति ? एवं पुच्छा जहा असुर-कुमाराण । हंता गोयमा ! कण्हलेस्से जाव तेउलेस्से पुढविकाइए कण्हलेस्सेसु जाव तेउलेस्सेसु पुढविकाइएसु उववज्जति, सिय कण्हलेस्से उव्वद्वति सिय १० णीललेसे सिय काउलेस्से उव्वद्वति, सिय जल्लेसे उववज्जइ तल्लेसे उव्वद्वइ, तेउलेसे उववज्जइ, णो चेव णं तेउलेस्से उव्वद्वति ।

[२] एवं आउक्काइय-वणप्पकाइया वि भाणियब्बा ।

[३] से णूं भंते ! कण्हलेस्से णीललेस्से काउलेस्से तेउक्काइए कण्हलेस्सेसु णीललेसेसु काउलेसेसु तेउक्काइएसु उववज्जति ? कण्हलेसे णीललेसे १५ काउलेसे उव्वद्वति ? जल्लेसे उववज्जति तल्लेसे उव्वद्वति ? हंता गोयमा ! कण्हलेस्से णीललेस्से काउलेस्से तेउक्काइए कण्हलेस्सेसु णीललेसेसु काउलेसेसु तेउक्काइएसु उववज्जति, सिय कण्हलेसे उव्वद्वति सिय णीललेसे सिय काउलेस्से उव्वद्वति, सिय जल्लेसे उववज्जति तल्लेसे उव्वद्वति ।

[४] एवं वाउक्काइया वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिया वि भाणियब्बा । २०

१२११. से णूं भंते ! कण्हलेसे जाव सुक्कलेसे पंचेंदियतिरिक्खजोणिए कण्हलेसेसु जाव सुक्कलेसेसु पंचेंदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जति ? ० पुच्छा । हंता गोयमा ! कण्हलेसे जाव सुक्कलेसे पंचेंदियतिरिक्खजोणिए कण्हलेसेसु जाव सुक्कलेसेसु पंचेंदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जति, सिय कण्हलेसे उव्वद्वति जाव सिय सुक्कलेसे उव्वद्वति, सिय जल्लेसे उववज्जति तल्लेसे उव्वद्वति । २५

१२१२. एवं मणूसे वि ।

१२१३. वाणमंतरे जहा असुरकुमारे (सु. १२०९) ।

१२१४. जोइसिय-वेमाणिए वि एवं चेव । नवरं जस्स जल्लेसा, दोण्ह वि चयणं ति भाणियब्बं ।

[सुत्तं १२१५. कण्हाइलेस्सेसु नेरइयनु ओहिखेत्तपरुवणं]

१२१५. [१] कण्हलेस्से णं भंते ! णेरइए कण्हलेस्सं णेरइयं पणिहाए  
ओहिणा सब्बओ समंता समभिलोएमाणे २ केवतियं खेत्तं जाणति ? केवतियं खेत्तं  
पासइ ? गोयमा ! णो वहुयं खित्तं जाणति णो वहुयं खेत्तं पासइ, णो दूरं खेत्तं  
जाणति णो दूरं खेत्तं पासति, इंतिरियमेव खेत्तं जाणइ इंतिरियमेव खेत्तं पासति ।  
५ से केणडेणं भंते ! एवं वुच्चति कण्हलेसे णं णेरइए तं चैव जाव इंतिरियमेव खेत्तं  
पासति ? गोयमा ! से जहाणामए केहु पुरिसे वहुसमरमणिज्ञंसि भूमिभागंसि  
ठिज्ञा सब्बओ समंता समभिलोएज्ञा, तए णं से पुरिसे धरणितलगतं पुरिसं पणिहाए  
१० सब्बओ समंता समभिलोएमाणे २ णो वहुयं खेत्तं जाव पासति जाव इंतिरियमेव  
खेत्तं पासइ, सेणडेणं गोयमा ! एवं वुच्चति कण्हलेसे णं णेरइए जाव इंतिरियमेव  
खेत्तं पासति ।

[२] णीललेसे णं भंते ! णेरइए कण्हलेसं णेरइयं पणिहाय ओहिणा सब्बओ  
समंता समभिलोएमाणे २ केवतियं खेत्तं जाणइ ? केवतियं खेत्तं पासइ ? गोयमा !  
वहुतरागं खेत्तं जाणति वहुतरागं खेत्तं पासति, दूरतरागं खेत्तं जाणइ दूरतरागं  
१५ खेत्तं पासति, वितिमिरतरागं खेत्तं जाणइ वितिमिरतरागं खेत्तं पासइ, विसुद्धतरागं  
खेत्तं जाणति विसुद्धतरागं खेत्तं पासति । से केणडेणं भंते ! एवं वुच्चति णीललेस्से  
णं णेरइए कण्हलेसं णेरइयं पैणिहाय जाव विसुद्धतरागं खेत्तं पासइ ? गोयमा ! से  
जहाणामए केहु पुरिसे वहुसमरमणिज्ञाओ भूमिभागाओ पव्वयं दुरुहति, दुरुहिता  
२० सब्बओ समंता समभिलोएज्ञा, तए णं से पुरिसे धरणितलगयं पुरिसं पणिहाय सब्बओ  
समंता समभिलोएमाणे २ वहुतरागं खेत्तं जाणइ जाव विसुद्धतरागं खेत्तं  
पासति, से एतेणडेणं गोयमा ! एवं वुच्चति णीललेस्से णेरइए कण्हलेसं णेरइयं  
जाव विसुद्धतरागं खेत्तं पासति ।

[३] काउलेसे णं भंते ! णेरइए णीललेसं णेरइयं पणिद्वय ओहिणा  
सब्बओ समंता समभिलोएमाणे २ केवतियं खेत्तं जाणइ ? केवतियं खेत्तं पासइ ?

१. “कण्हलेसे णं भंते ! णेरइए कण्हलेसं णेरइयं पणिधाय ओहिणा सब्बओ समंता समभिलो-  
एमाणा केवतियं खेत्तं जाणति ? केवतियं खेत्तं पासति ? गोयमा ! णो वहुतरयं खेत्तं जाणइ,  
णो वहुतरयं खेत्तं पासति, तिरियमेव खेत्तं पासति । जह लेस्सुद्देसए ।” इति सूत्रफलदङ्ग  
अध्य.३ उ.१ तृतीयगाथाचूर्णौ प्रज्ञापनासूत्रपाठोद्धरणे ॥ २-४, ६-७. इत्तरिय पुरु मु० ॥
५. °तले गतं जे० ॥ ८-९. दूरतरखेत्तं मु० ॥ १०. पणिहाए जे० ॥ ११. °रागं खेत्तं जाणइ  
विसुद्धतरागं खेत्तं पा० मु० ॥

गोयमा ! बहुतरागं खेतं जाणइ बहुतरागं खेतं पासइ जाव विसुद्धतरागं खेतं पासइ । से केणडेण भंते ! एवं बुच्चति काउलेसे णं णेरइए जाव विसुद्धतरागं खेतं पासति ? गोयमा ! से जहाणामए केइ पुरिसे बहुसमरमणिज्ञाओ भूमिभागाओ पव्वतं दुरुहति, दुरुहिता रुखं दुरुहति, दुरुहिता दो वि पादे उच्चाविय सव्वओ समंता समभिलोएज्ञा, तए णं से पुरिसे पव्वतगयं धरणितलगयं च पुरिसं ५ पणिहाय सव्वओ समंता समभिलोएमाणे २ बहुतरागं खेतं जाणति बहुतरागं खेतं पासति जाव वितिमिरतरागं (? विसुद्धतरागं) खेतं पासइ, सेएणडेण गोयमा ! एवं बुच्चति काउलेसे णं णेरइए णीललेसं णेरइयं पणिधाय तं चेव जाव वितिमिरतरागं (? विसुद्धतरागं) खेतं पासति ।

[सुत्ताइं १२१६-१७. कण्हाइलेस्सेसु जीवेसु णाणपरूपणं ]

१०

१२१६. [१] कण्हलेसे णं भंते ! जीवे कतिसु णाणेसु होज्ञा ? गोयमा ! दोसु वा तिसु वा चउसु वा णाणेसु होज्ञा, दोसु होमाणे आभिणि-बोहिय-सुयणाणेसु होज्ञा, तिसु होमाणे आभिणि-बोहिय-सुयणाण-ओहिणाणेसु होज्ञा, अहवा तिसु होमाणे आभिणि-बोहिय-सुयणाण-मणपज्जवणाणेसु होज्ञा, चउसु होमाणे आभिणि-बोहियणाण-सुयणाण-ओहिणाण-मणपज्जवणाणेसु होज्ञा ।

१५

[२] एवं जाव पम्हलेसे ।

१२१७. सुक्कलेसे णं भंते ! जीवे कइसु णाणेसु होज्ञा ? गोयमा ! दोसु वा तिसु वा चउसु वा एगम्मि वा होज्ञा, दोसु होमाणे आभिणि-बोहियणाण० एवं जहेव कण्हलेस्साणं (सु. १२१६[१]) तहेव भाणियव्वं जाव चउहिं, एगम्मि होमाणे एगम्मि केवलणाणे होज्ञा ।

२०

॥ पण्णवणाए भगवतीए लेस्सापदे ततिओ उद्देसओ समत्तो ॥

#

चउत्थो उद्देसओ

[सुत्तं १२१८. चउत्युद्देसस्स अहिगारपरूपणं ]

१२१८. परिणाम१वण्ण२रस३गंध४सुद्ध५अपसत्थ६संकिलिद्वृण्हा७-८। २५  
गति९परिणाम१०पैदेसावगाह११-१२वगण१३ठाणाणमप्पवहुं१४-१५॥२१०॥

१. उच्चावद्वृत्ता मलयवृत्तौ ॥ २. °पदेसा वगण° जे० ध० म० प्र० । °पदेसोगाद्वगण° मु० ॥

[सुत्तं १२१९. लेस्सामेयपर्वतं]

१२१९. कति णं भंते ! लेस्साओ पणत्ताओ ? गोयमा ! छ्लेसाओ पणत्ताओ ! तं जहा—कणहलेस्सा जाव सुक्लेस्सा ।

[सुत्ताइ १२२०—२५. १ परिणामाहिंगारो ]

५      १२२०. से णूं भंते ! कणहलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावण्णत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति ? हंता गोयमा ! कणहलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावण्णत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति । से केणडेणं भंते ! एवं बुच्चति कणहलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति ? गोयमा ! से जहाणामए १० खीरे दूसिं पप्प सुद्धे वा वत्थे रागं पप्प तारूवत्ताए तावण्णत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति, सेएणडेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ कणहलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति ।

१२२१. एवं एतेणं अभिलिक्षेण णीललेस्सा काउलेस्सं पप्प, काउलेस्सा तेउलेस्सं पप्प, तेउलेस्सा पम्हलेस्सं पप्प, पम्हलेस्सा सुक्लेस्सं पप्प जाव भुज्जो २ परिणमति ।

१२२२. से णूं भंते ! कणहलेस्सा णीललेस्सं काउलेस्सं तेउलेस्सं पम्हलेस्सं सुक्लेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावन्नत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति ? हंता गोयमा ! कणहलेस्सा णीललेस्सं पप्प जाव सुक्लेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावन्नत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति । २० से केणडेणं भंते ! एवं बुच्चति किण्हलेस्सा णीललेस्सं जाव सुक्लेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति ? गोयमा ! से जहाणामए वेरुलियमणी सिया किण्हसुत्तए वा णीलसुत्तए वा लोहियसुत्तए वा हालिद्सुत्तए वा सुक्लिसुत्तए वा आइए समाणे तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति, सेएणडेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ किण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प जाव सुक्लेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति ।

२५      १२२३. से णूं भंते ! णीललेस्सा किण्हलेस्सं जाव सुक्लेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति ? हंता गोयमा ! एवं चेव ।

१२२४. एवं काउलेस्सा कण्हलेस्सं णीललेस्सं तेउलेस्सं पम्हलेस्सं सुक्कलेस्सं, एवं तेउलेस्सा किण्हलेस्सं णीललेस्सं काउलेस्सं पम्हलेस्सं सुक्कलेस्सं, एवं पम्हलेस्सा कण्हलेस्सं णीललेस्सं काउलेस्सं तेउलेस्सं सुक्कलेस्सं ।

१२२५. से णूणं भंते ! सुक्कलेस्सा किण्ह० णील० काउ० तेउ० पम्हलेस्सं पप्प जाव भुज्जो २ परिणमति ? हंता गोयमाँ ! एवं चेव ।

५

### [सुत्ताइं १२२६-३२. २ वण्णाहिगारो]

१२२६. कण्हलेस्सा णं भंते ! वण्णेण केरिसिया पण्णता ? गोयमा ! से जहाणामए जीमूए इ वा अंजणे इ वा खंजणे इ वा कज्जले इ वा गवले इ वा गैवलवलए इ वा जंबूफलए इ वा अङ्घारिट्टुए इ वा परपुड्डे इ वा भमरे इ वा भमरावली इ वा गयकलभे इ वा किण्हैकेसे इ वा आगासथिगले इ वा किण्हासोए १० इ वा किण्हकणवीरए इ वा किण्हबंधुजीवए इ वा । भंवेतारूवा ? गोयमा ! णो इँणडे समड्डे, किण्हलेस्सा णं एत्तो अणिर्दृतरिया चेव अकंततरिया चेव अप्पियतरिया चेव अमणुण्णतरिया चेव अंमणामतरिया चेव वण्णेण पण्णता ।

१२२७. णीललेस्सा णं भंते ! केरिसिया वण्णेण पण्णता ? गोयमा ! से जहाणामैं भिंगे इ वा भिंगपते इ वा चासे ति वा चाँसपिच्छे इ वा सुए इ १५ वा सुँयपिच्छे इ वा सामा इ वा वणराई इ वा उच्चतए इ वा परेवयगीवा इ वा मोरगीवा इ वा हलधरवसणे इ वा अयसिकुँसुमए इ वैं बाणकुँसुमए इ वा अंजणकेसियाकुँसुमए इ वा णीलुप्पले इ वा नीलासोए इ वा णीलकणवीरए इ वा णीलबंधुजीवए इ वा । भंवेतारूवा ? गोयमा ! णो इँणडे समड्डे, एत्तो जाव अमणामयरिया चेव वण्णेण पण्णता ।

२०

१२२८. काउलेस्सा णं भंते ! केरिसिया वण्णेण पण्णता ? गोयमा !

१. सुक्कलेस्सं पप्प जाव भुज्जो भुज्जो परिणमइ ? हंता गोयमा ! तं चेव । पु२ सु०॥ २. °मा । तं चेव म० प्र० पु२ ॥ ३. गवलवलए इति पदं मलयवृत्तौ न व्याख्यातम् ॥ ४. अङ्घारिट्टुए इति पाठस्थाने अरिट्टुए इति पाठानुसारि मलयवृत्तिव्याख्यानम् ॥ ५. किण्हैकेसे इ वा इति पाठानुसारि मलयवृत्तिव्याख्यानम् ॥ ६. भवे एयारूवे मलयवृत्तिगतावतरणे । भवे एतारूवे सु०॥ ७. हणमड्डे पु२ ॥ ८. °ट्टुइरिया जे० ॥ ९. अमणापतरिया इति पाठानुसारि मलयवृत्तिव्याख्यानम् । १०. °ए भिंगए इ वा सु० ॥ ११. चासपिच्छे जे० ध० । चासपिच्छए सु०॥ १२. सुयपिच्छे जे० ध० ॥ १३. उच्चतए जे० प्रदेशव्याख्यायां च ॥ १४, १६-१७. कुसुमे इ वा म० प्र० पु२ ॥ १५. वा वणकुँ मुद्रिते मुद्रितमलयवृत्तौ च, किन्तु मलयवृत्तेः ताडपत्रीयादिलिखितादर्शेषु बाणकुसुमे इत्येव पाठ उपलभ्यते ॥ १८. भवे तेयारूवा जे० ॥ १९. हणमड्डे पु२, एवमन्त्रापि ॥

से जहाणामए खयरसौरे इ वा कैयरसौरे इ वा धमाससौरे इ वा तंवे इ वा तंवकरोडए इ वा तंवच्छिवाडिया॑ इ वा वाइंगणिकुँसुमए इ वा कोइर्लच्छद-  
कुँसुमए इ वा < जवासाकुसुमे इ वा कैलकुसुमे इ वा >। भवेतारूवा ?  
गोयमा ! णो इण्डे समडे, काउलेस्सा णं एतो अणिडुतरिया जाव अमणा-  
५ मयरिया चेव वण्णेण पण्णता ।

१२२९. तेउलेस्सा णं भंते ! केरिसिया वण्णेण पण्णता ? गोयमा !  
से जहाणामए सससरुहिरे इ वा उरब्बरुहिरे इ वा वराहरुहिरे इ वा संवररुहिरे  
इ वा मणुस्सरुहिरे इ वौ॑ वालिंदगोवे इ वा वालदिवागरे इ वा संज्ञब्मरागे इ वा  
गुंजद्वरागे इ वा जाइहिंगुलुए इ वा पवालंकुरे इ वा लक्खारसे इ वा  
२० लोहियक्षमणी इ वा किमिरागकंवले इ वा गैयतालुए इ वा चीणपिटुरासी इ वा  
पौलियायकुसुमे इ वा जाँसुमणाकुसुमे इ वा किंसुर्यपुफ्करासी इ वा रनुप्पले  
इ वा रत्तासोगे इ वा रत्तकणवीरए इ वा रत्तवंधुजीवए इ वा । भैवेयारूवा ?  
गोयमा ! णो इण्डे समडे, तेउलेस्सा णं एतो इडुतरिया चेव जाव मणामतरिया  
चेव वन्नेण पण्णता ।

१५ १२३०. पम्हलेस्सा णं भंते ! केरिसिया वण्णेण पण्णता ? गोयमा ! से  
जहाणामै॑ चंपे इ वा चंपयछली इ वा चंपयभेदे इ वा हलिद्वा इ वा हलिद्वगुलिया  
इ वा हलिद्वभेए इ वा हरियाले इ वा हरियालगुलिया इ वा हरियालभेए इ वा  
चिउरे इ वा चिउररागे इ वा सुवण्णसिप्पी इ वा वरकणगणिहसे इ वा  
२० वरपुरिसवसणे इ वा अल्लकुसुमे इ वा चंपयकुसुमे इ वा कैणियारकुसुमे इ वा  
कुहंडियाकुसुमे इ वा सुवण्णजूहिया इ वा सुहिरण्णयाकुसुमे इ वा कोटेम्लदामे  
इ वा पीयासोगे इ वा पीयकणवीरए इ वा पीयवंधुजीवए इ वा । भवेतारूवा ?

१०. खद्दर० पु२ । खद्दिर० मु० ॥ २, ४-५. °सारए ह वा म० प्र० पु२ ॥ ३. कद्दर० पु२ मु० ॥
६. °याए ह मु० ॥ ७,९. °कुसुमे ह वा म० पु२ ॥ ८. °लच्छाकु० जे० ॥ १०. < > एत-  
चिद्वम्भगतः पाठो मल्यवृत्तौ न व्याख्यातः ॥ ११. कलकुसुमे ह वा इति पाठः प्र० पु१ पु३  
प्रतिपु श्रीधनविमलगणिकृतस्तवके च नास्ति । कलसकुसुमे ह वा पु२ । “कलसकुसुमे ह  
वा-कलसकुनुम फूल जेहवो” इति श्रीजीवविजयगणिकृतस्तवके ॥ १२. अकंततरिया जे० ध० ॥
१३. वा इंद्रगोवे ह वा वाल॑ मुद्रिते एव, मुद्रितादर्शे उपलभ्यमानोऽयं पाठो श्रान्तिजनित  
एव, न हि कर्सिमविद्यादर्शे उपलभ्यते ॥ १४. °कुरुए ह पु२ ॥ १५. गद्दता० जे० ध० ॥
१६. पारियाय० पु३ । पारिजाय० मु० ॥ १७. जासुमिणाकु० जे० ॥ १८. °यकुसुमरासी ध० ॥
१९. भवे प्रायारूवा इति मल्यवृत्तिगतावतरणे ॥ २०. °मणु चंपा ह जे० ध० म० प्र० ॥
२१. कणियार० मुद्रिते, मुद्रितमल्यवृत्तौ च ॥ २२. कोडेट्मल० जे० ॥

गोयमा ! णो इण्डे समडे, पम्हलेस्सा णं एत्तो इट्टतरिया चेव जाव मणामतरिया चेव वण्णेणं पण्णता ।

१२३१. सुक्कलेस्सा णं भंते ! केरिसिया वण्णेणं पण्णता ? गोयमा ! से जहाणामए अंके इ वा संखे इ वा चंदे इ वा कुंदे इ वा दगे इ वा दगरए इ वा दही इ वा दहिघणे इ वा खीरे इ वा खीरपूरे इ वा सुक्कछिवाडिया इ वा पेहुणमिंजिया इ वा धंत-धोयरुपपट्टे इ वा सारझयबलाहए इ वा कुमुददले इ वा पौँडरियदले इ वा सालिपिङ्गरासी ति वा कुडगपुफ्फरासी ति वा सिंदुवारवरमल्दामे इ वा सेयासोए इ वा सेयकणवीरे इ वा सेयबंधुजीवए इ वा । भवेतारूया ? गोयमा ! णो इण्डे समडे, सुक्कलेस्सा णं एत्तो इट्टतरिया चेवै कंतयरिया चेव पियतरिया चेव मणुण्णतरिया चेव मणामतरिया चेव वण्णेणं पण्णता ।

१२३२. एयाओ णं भंते ! छ्लेस्साओ कतिसु वण्णेसु साहिजंति ? गोयमा ! पंचसु वण्णेसु साहिजंति । तं जहा-कण्हलेसा कालएणं वण्णेणं साहिजंति, णीललेस्सा णीलएणं वण्णेणं साहिजंति, काउलेस्सा काललोहिएणं वण्णेणं साहिजंति, तेउलेस्सा लोहिएणं वण्णेणं साहिजइ, पम्हलेस्सा हालिद्वाणं वण्णेणं साहिजइ, सुक्कलेस्सा सुक्किलएणं वण्णेणं साहिजइ ।

### [सुत्ताहं १२३३-३८. ३ रसाहिगारो]

१२३३. कण्हलेस्सा णं भंते ! केरिसिया आसाएणं पण्णता ? गोयमा ! से जहाणामए णिंवे इ वा णिंवसारे इ वा णिंवछली इ वा णिंवफाणिए इ वा कुडए इ वा कुडगफले इ वा कुडगछली इ वा कुडगफाणिए इ वा कडुगतुंबी इ वा कडुगतुम्बीफले ति वा खारतउसी इ वा खारतउसीफले इ वा देवदाली इ वा देवदालिपुफे इ वा मियंवालुंकी इ वा मियंवालुंकीफले इ वा घोसाडिए इ वा घोसाडइफले इ वा कण्हकंदए इ वा वज्जकंदए इ वा । भवेतारूवा ? गोयमा ! णो इण्डे समडे, कण्हलेस्सा णं एत्तो अणिट्टतरिया चेव जाव अमणामयरिया चेव अंस्साएणं पण्णता ।

१२३४. णीललेस्साए पुच्छा । गोयमा ! से जहाणामए भंगी ति वा

१. °पूरए इ मु०॥ २. सिंदुवारमल्दामे मु०॥ ३. चेव मणामत° प्र० । चेव मणुण्णतरिया चेव वण्णेणं मु० ॥ ४. सुक्किलएणं मु०॥ ५. °ऐ णिंवए इ जे० ध० म०॥ ६. °सारए जे०ध०॥ ७. सितवा° जे० ध० । मिगवा° पु२ ॥ ८. मिगवा° पु२ ॥ ९. घोसाडए इ वा मु० ॥ १०. आसाएणं म० प्र० मु०, एवमन्यत्राप्यस्मन्नधिकारे ॥ ११. °ऐ हिं(भिं)गी ति वा भंगीरया इ वा जे०॥

भंगीरए इ वाँ पाढा इ वा चैविता इ वा चित्तामूलए इ वा पिष्ठीमूलए इ वा पिष्ठी इ वा पिष्ठिचुणे इ वा मिरिए इ वा मिरियचुणे इ वा सिंगवेरे इ वा सिंगवेरचुणे इ वा । भवेतारूढवा ? गोयमा ! णो इणडे समडे, णीललेस्सा णं एतो जाव अमणामतरिया चेव अस्साएणं पण्णता ।

६ १२३५. काउलेस्साए पुच्छा । गोयमा ! से जहाणामए अंबाण वा अंबाडगाण वा माउलुंगाण वा विळाण वा कविडाण वा भड्हाण वा फणसाण वा दालिमाण वा पारेवयाण वा अंकखोलाण वाँ चोराण वा बोराण वा तेंदुयाण वा अंपिक्काण अपरियागाणं वणेणं अणुववेताणं गंधेण अणुववेयाणं फासेणं अणुववेयाणं । भवेतारूढवा ? गोयमा ! णो इणडे समडे, जाव एतो अमणामयरिया १० चेव काउलेस्सा अस्साएणं पण्णता ।

१२३६. तेउलेस्सा णं पुच्छा । गोयमा ! से जहाणामए अंबाण वा जाँव तेंदुयाण वा पिक्कीणं परियावण्णाणं वणेणं उववेताणं पसत्थेणं जाव फासेणं जाव एतो मणामयरिया चेव तेउलेस्सा अस्साएणं पण्णता ।

१२३७. पम्हलेस्साए पुच्छा । गोयमा ! से जहाणामए चंदप्पभा इ वा १५ मणिसिलागा इ वा वरसीधू इ वा वरवारूणी ति वा पत्तासवे इ वा पुफ्फासवे इ वा फलासवे इ वा चोयासवे इ वा आसवे इ वा मधू इ वा मेरै इ वा कविसाणए इ वा खज्जूरसारए इ वा मुद्दियासारए इ वा सुँपिक्कखोयरसे इ वाँ अटुपिडुणिड्डिया इ वा जंवूफलकालिया इ वा वरपसण्णा इ वा आंसला मांसला पेसला ईसी ओडावलंविणी ईसिं वोच्छेयकड्हईं ईसी तंबच्छिकरणी उकोसमयपत्ता वणेणं

१. वा पाढी इ वा पाढा इ वा चपा इ वा चित्ताँ मु२ ॥ २. चविता इ वा इति पाठो मलयवृत्तौ न व्याख्यात ॥ ३. पिष्ठीमूलए इ वा इति पाठो जे० ध० श्रीजीवविजयकृतस्तवके च नास्ति ॥ ४. माउलिंगाण मु० ॥ ५. भच्चाण ध० म० प्र० मु२ । “भच्चाण—भर्चवृक्षना फल” श्रीजीवविजयगणिकृतस्तवके । “भहाण—द्राप अपक्व जेहवी” श्रीधनविमलगणिकृतस्तवके । दृश्यता पत्र २७३ टि ४ ॥ ६. अक्खोड्याण म० प्र० मु२ ॥ ७. “वा बोराण वा पोराण वा ते० वोर प्रसिद्ध, प्रोराणि प्रौढवदराणि” इति श्रीधनविमलगणिकृतस्तवके ॥ ८. चोराण वा इति पाठो मु२ मुद्रिते जीवविजयगणिकृतस्तवके च नास्ति । चाराण वा प्र० । दृश्यता पत्र २७३ टि ८ ॥ ९. अपक्काणं पुरस० मु० ॥ १०. जाव तेंदुयाण वा इति पाठः मु२ प्रतावेव ॥ ११. पक्काण म० प्र० मु२ ॥ १२. आसाएणं ध० म० प्र० ॥ १३. मणिसिलागा इ जे० । मणिसिला इ म० प्र० । मणिसलागा इ मु२ ॥ १४. मेरतिए इ जे० ध० ॥ १५. सुपक्क० मु० ॥ १६. वा कडुयपिछ० जे० । वा कटुपिछ० म०प्रतौ पाठान्तरम् ॥ १७. आसला इति पाठो मलयवृत्तौ न व्याख्यातः ॥ १८. मंसला म० मु० ॥

उववेया जाव फासेणं, आसायणिज्ञा वीसायणिज्ञा पीणणिज्ञा विंहणिज्ञा दीवणिज्ञा दप्पणिज्ञा मयणिज्ञा सर्विदिय-गायपल्हायणिज्ञा । भवेतारुया ? गोयमा ! णो इणडे समडे, पम्हलेस्सा णं एत्तो इटतरिया चेव जाव मणामतरिया चेव अस्साएणं पण्णता ।

१२३८. सुक्लेस्सा णं भंते ! केरिसिया अस्साएणं पण्णता ? गोयमा ! ५  
से जहाणामए गुले इ वा खंडे इ वा सक्करा इं वा मँच्छंडिया इ वा पप्पडमोदए इ वा भिसकंदे इ वा पुष्फुतरा इ वा पउमुतरा इ वा आयंसिया इ वा सिद्ध-  
तिया इ वा आगासफालिओवमा इ वाँ अणोवमाइ वा । भवेतारुवा ? गोयमा !  
णो इणडे समडे, सुक्लेस्सा णं एत्तो इटतरिया चेव कंततरिया चेव पियंतरिया  
चेव मणामयरिया चेव अस्साएणं पण्णता । १०

[सुत्ताइं १२३९-४१. ४-९ गंधाहिगाराइ अहिगारछकं]

१२३९. कति णं भंते ! लेस्साओ दुब्बिगंधाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा !  
तओ लेस्साओ दुब्बिगंधाओ पण्णत्ताओ । तं जहा-किण्हलेस्सा णीललेस्सा  
काउलेस्सा ।

१२४०. कति णं भंते ! लेस्साओ सुब्बिगंधाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! १५  
तओ लेस्साओ सुब्बिगंधाओ पण्णत्ताओ । तं जहा-तेउलेस्सा पम्हलेस्सा  
सुक्लेस्सा ।

१२४१. एवं तओ अविसुद्धाओ तओ विसुद्धाओ, तओ अप्पसत्थाओ  
तओ पसत्थाओ, तओ संकिलिड्वाओ तओ असंकिलिड्वाओ, तओ सीयलुक्खाओ  
तओ निद्धुण्हाओ, तओ दुग्गइगाँमिणीओ तओ सुग्गइगाँमिणीओ । २०

[सुत्तं १२४२. १० परिणामाहिगारो]

१२४२. कण्हलेस्सा णं भंते ! कतिविधं परिणामं परिणमति ? गोयमा !  
तिविहं वा नवविहं वा सत्तावीसतिविहं वा एक्कासीतिविहं वा वेतेयालसतविहं वा  
बहुं वा बहुविहं वा परिणामं परिणमति । एवं जाव सुक्लेसा ।

१. विंहणिज्ञा इति पाठो मल्यवृत्तौ न व्याख्यातः ॥ २. मँच्छंडिया म० प्र० ॥ ३. वा उवमाइ वा अणो० म० पुरसं० मु० ॥ ४. पिततरिया जे० ध० म० पुर ॥ ५-६. °गामियाओ म० प्र० पुर२ मु० ॥

[सुतं १२४३. ११ पदेसाहिगारो]

१२४३. कणहलेस्सा णं भंते ! कतिपदेसिया पणत्ता ? गोयमा !  
अणंतपदेसिया पणत्ता । एवं जाव सुक्लेस्सा ।

[सुतं १२४४. १२ अवगाहाहिगारो]

५ १२४४. कणहलेस्सा णं भंते ! कइपएसोगाढा पणत्ता ? गोयमा !  
असंखेजपएसोगाढा पणत्ता । एवं जाव सुक्लेस्सा ।

[सुतं १२४५. १३ वगणाहिगारो]

१२४५. कणहलेस्साए णं भंते ! केवतियाओ वगणाओ पणत्ताओ ?  
गोयमा ! अणताओ वगणाओ पणत्ताओ । एवं जाव सुक्लेस्साए ।

१०

[सुतं १२४६. १४ ठाणाहिगारो]

१२४६. केवतिया णं भंते ! कणहलेस्साठाणा पणत्ता ? गोयमा !  
असंखेजा कणहलेस्साठाणा पणत्ता । एवं जाव सुक्लेस्साए ।

[सुत्ताइ १२४७-४९. १५ अप्पवहुअहिगारो]

१२४७. एतेसि णं भंते ! कणहलेस्साठाणाणं जाव सुक्लेस्साठाणाण य  
१५ जहणगाणं दब्बड्याए पएसड्याए दब्बड्यपएसड्याए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा  
४ ? गोयमा ! सब्बत्थोवा जहणगा काउलेस्साठाणा दब्बड्याए, जहणगा  
णीललेस्साठाणा दब्बड्याए असंखेजगुणा, जहणगा कणहलेस्साठाणा दब्बड्याए  
असंखेजगुणा, जहणगा तेउलेस्संद्वाणा दब्बड्याए असंखेजगुणा, जहणगा  
पम्हलेस्साठाणा दब्बड्याए असंखेजगुणा, जहणगा सुक्लेस्संद्वाणा दब्बड्याए  
२० असंखेजगुणा; पदेसड्याए-सब्बत्थोवा जहणगा काउलेस्साठाणा पएसड्याए,  
जहणगा णीललेस्संद्वाणा पएसड्याए असंखेजगुणा, जहणगा कणहलेस्साठाणा  
पएसड्याए असंखेजगुणा, जहणगा तेउलेस्संद्वाणा पदेसड्याए असंखेजगुणा,  
जहणगा पम्हलेस्संद्वाणा पएसड्याए असंखेजगुणा, जहणगा सुक्लेस्साठाणा  
पदेसड्याए असंखेजगुणा; दब्बड्यपदेसड्याए-सब्बत्थोवा जहणगा काउलेस्संद्वाणा  
२५ दब्बड्याए, जहणगा णीललेस्संद्वाणा दब्बड्याए असंखेजगुणा, एवं कणहलेस्संद्वाणा

तेउलेस्सद्वाणा पम्हलेस्सद्वाणा, जहण्णगा सुक्लेस्सद्वाणा दब्बडुयाए असंखेजगुणा, जहण्णएहिंतो सुक्लेस्सद्वाणोहिंतो दब्बडुयाए जहण्णगा काउलेस्सद्वाणा पदेसद्वयाए अणंतगुणा, जहण्णगा णीललेस्सद्वाणा पएसद्वयाए असंखेजगुणा, एवं जाव सुक्लेस्सद्वाणा ।

१२४८. एतेसि णं भंते ! कण्हलेस्सद्वाणाणं जाव सुक्लेस्सद्वाणाणं य ५ उक्कोसगाणं दब्बडुयाए पएसद्वयाए दब्बडुपएसद्वयाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्बत्थोवा उक्कोसगा काउलेस्सद्वाणा दब्बडुयाए, उक्कोसगा णीललेस्सद्वाणा दब्बडुयाए असंखेजगुणा, एवं जहेव जहण्णगा तहेव उक्कोसगा वि, णवरं उक्कोस त्ति अभिलावो ।

१२४९. एतेसि णं भंते ! कण्हलेस्सद्वाणाणं जाव सुक्लेस्सद्वाणाणं य १० जहण्णुक्कोसगाणं दब्बडुयाए पएसद्वयाए दब्बडुपएसद्वयाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्बत्थोवा जहण्णगा काउलेस्सद्वाणा दब्बडुयाए, जहण्णया णीललेस्सद्वाणा दब्बडुयाए असंखेजगुणा, एवं कण्हलेस्सद्वाणा तेउलेस्सद्वाणा पम्हलेस्सद्वाणा, जहण्णगा सुक्लेस्सद्वाणा दब्बडुयाए असंखेजगुणा, जहण्णएहिंतो सुक्लेस्सद्वाणोहिंतो दब्बडुयाए उक्कोसा काउलेस्सद्वाणा दब्बडुयाए असंखेजगुणा, उक्कोसा णीललेस्सद्वाणा दब्बडुयाए असंखेजगुणा, एवं कण्हलेस्सद्वाणा तेउलेस्सद्वाणा पम्हलेस्सद्वाणा, उक्कोसा सुक्लेस्सद्वाणा दब्बडुयाए असंखेजगुणा; पदेसद्वयाए—१५ सब्बत्थोवा जहण्णगा काउलेस्सद्वाणा पएसद्वयाए, जहण्णगा णीललेस्सद्वाणा पएसद्वयाए असंखेजगुणा, एवं जहेव दब्बडुयाए तहेव पएसद्वयाए वि भाणियब्बं, णवरं पएसद्वयाए त्ति अभिलावविसेसो; दब्बडुपएसद्वयाए—सब्बत्थोवा जहण्णगा २० काउलेस्सद्वाणा दब्बडुयाए, जहण्णगा णीललेस्सद्वाणा दब्बडुयाए असंखेजगुणा, एवं कण्हलेस्सद्वाणा तेउलेस्सद्वाणा पम्हलेस्सद्वाणा, जहण्णया सुक्लेस्सद्वाणा दब्बडुयाए असंखेजगुणा, जहण्णएहिंतो सुक्लेस्सद्वाणोहिंतो दब्बडुयाए उक्कोसा काउलेस्सद्वाणा दब्बडुयाए असंखेजगुणा, उक्कोसा णीललेस्सद्वाणा दब्बडुयाए असंखेजगुणा, एवं कण्हलेस्सद्वाणा तेउलेस्सद्वाणा पम्हलेस्सद्वाणा, उक्कोसगा सुक्लेस्सद्वाणा दब्बडुयाए २५ असंखेजगुणा, उक्कोसएहिंतो सुक्लेस्सद्वाणोहिंतो दब्बडुयाए जहण्णगा काउलेस्सद्वाणा पदेसद्वयाए अणंतगुणा, जहण्णगा णीललेस्सद्वाणा पएसद्वयाए असंखेजगुणा, एवं कण्हलेस्सद्वाणा तेउलेस्सद्वाणा पम्हलेस्सद्वाणा, जहण्णगा सुक्लेस्सद्वाणा असंखेजगुणा,

१. असंखेजगुणूँ मु० । मलयवृत्तौ अणंतगुणापाठानुसारेण व्याख्यातमस्ति ॥

जहण्णएहिंतो सुक्लेसद्वाणोहिंतो पदेसद्याए उक्कोसा काउलेसद्वाणा पदेसद्याए असंखेजगुणा, उक्कोसया णीललेसद्वाणा पदेसद्याए असंखेजगुणा, एवं कण्हलेसद्वाणा तेउलेसद्वाणा पम्हलेसद्वाणा, उक्कोसया सुक्लेसद्वाणा पएसद्याए असंखेजगुणा ।

५      || पण्णवणाए भगवतीए लेस्सापदे चउत्थो उद्देसओ समत्तो ॥

६

### पंचमो उद्देसओ

[सुत्तं १२५०. लेस्साभेयप्रूवणं]

१२५०. कति णं भंते ! लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! छ्लेसाओ  
१० पण्णत्ताओ । तं जहा—कण्हलेस्सा जाव सुक्लेस्सा ।

[सुत्ताइ १२५१-५५. लेस्साणं परिणमणभावप्रूवणं]

१२५१. से पूणं भंते ! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावण्णत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए मुज्जो २ परिणमति ? एत्तो आढतं जहा चउत्थुदेसए तहा भाणियव्वं जाव वेरुलियमणिदिङ्तो त्ति ।

१२५२. से पूणं भंते ! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए णो तावण्णत्ताए णो तागंधत्ताए णो तारसत्ताए णो ताफासत्ताए मुज्जो २ परिणमति ? हंता गोयमा ! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए णो तावण्णत्ताए णो तागंधत्ताए णो तारसत्ताए णो ताफासत्ताए मुज्जो २ परिणमति । से केणडेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! आगारभावमाताए वा से सिया पलिभागभावमाताए वा से सिया कण्हलेस्सा णं सा, णो खलु सा णीललेस्सा, तत्थ गता उस्सक्ति, से-तेणडेणं गोयमा ! एवं बुच्चति कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव मुज्जो २ परिणमति ।

१२५३. से पूणं भंते ! णीललेस्सा काउलेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव मुज्जो २ परिणमति ? हंता गोयमा ! णीललेस्सा काउलेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव मुज्जो २ परिणमति । से केणडेणं भंते ! एवं बुच्चइ णीललेस्सा काउलेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव मुज्जो २ परिणमति ? गोयमा ! आगारभावमाताए वा से सिया पलिभागभावमाताए वा सिया णीललेस्सा णं सा, णो खलु सा काउलेस्सा,

तथ गता उसक्रति वा ओसक्रति वा, सेणद्वेण गोयमा ! एवं बुच्छ णीललेस्सा काउलेस्सं पप्प णो तारुवत्ताए जाव मुज्जो २ परिणमति ।

१२५४. एवं काउलेस्सा तेउलेस्सं पप्प, तेउलेस्सा पम्हलेस्सं पप्प, पम्हलेस्सा सुक्कलेस्सं पप्प ।

१२५५. से णूणं भंते ! सुक्कलेस्सा पम्हलेस्सं पप्प णो तारुवत्ताए जाव ५ परिणमति ? हंता गोयमा ! सुक्कलेस्सा तं चेव । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्ति सुक्कलेस्सा जाव णो परिणमति ? गोयमा ! आगारभावमाताए वा जाव सुक्कलेस्सा णं सा, णो खलु सा पम्हलेस्सा, तथ गता ओसक्रति, सेणद्वेण गोयमा ! एवं बुच्छ जाव णो परिणमति ।

॥ लेस्सापदे पंचमो उद्देसओ समत्तो ॥

✽

छट्टो उद्देसओ

[सुतं १२५६. लेस्साभेयपरुवर्णं]

१२५६. कति णं भंते ! लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! छ्लेसाओ १५ पण्णत्ताओ । तं जहा—कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा ।

[सुतं १२५७. मणुस्सेसु लेस्सापरुवर्णं]

१२५७. [१] मणूसाणं भंते ! कति लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! छ्लेसाओ पण्णत्ताओ । तं जहा—कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा ।

[२] मणूसीणं पुच्छा । गोयमा ! छ्लेसाओ पण्णत्ताओ । तं जहा—कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा ।

[३] कम्मभूमयमणूसाणं भंते ! कति लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! छ । तं जहा—कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा ।

[४] एवं कम्मभूमयमणूसीण वि ।

[५] भरहेरव्यमणूसाणं भंते ! कति लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! छ । तं जहा—कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा ।

[६] एवं मणुस्सीण वि ।

[७] पुच्चविदेह-अवरविदेहकम्भूमयमणूसाणं भंते ! कति लेस्साओ  
पण्णताओ ? गोयमा ! छ लेसाओ । तं जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्लेस्सा ।

[८] एवं मणूस्सीण वि ।

[९] ५ अकम्भूमयमणूसाणं पुच्छा । गोयमा ! चत्तारि लेस्साओ पण्णताओ ।  
तं जहा-कण्हलेस्सा जाव तेउलेस्सा ।

[१०] एवं अकम्भूमयमणूस्सीण वि ।

[११] एवं अंतरदीवयमणूसाणं मणूस्सीण वि ।

[१२] १० हेमवय-एरण्णवयअकम्भूमयमणूसाणं मणूस्सीण य कति लेस्साओ  
पण्णताओ ? गोयमा ! चत्तारि । तं जहा-कण्हलेस्सा जाव तेउलेस्सा ।

[१३] हरिवास-रम्यअकम्भूमयमणुस्साणं मणूस्सीण य पुच्छा ।  
गोयमा ! चत्तारि । तं जहा-कण्हलेस्सा जाव तेउलेस्सा ।

[१४] देवकुरुत्तरकुरुअकम्भूमयमणुस्साणं एवं चेव ।

[१५] एतेसिं चेव मणूस्सीणं एवं चेव ।

[१६] १५ धायइसंडपुरिमद्वे एवं चेव, पच्छिमद्वे वि । एवं पुक्खरद्वे वि  
भाणियव्वं [ग्रन्थाग्रम—५५००] ।

[सुतं १२५८. लेस्सं पटुच्च गव्युप्तिपूर्ववणं]

१२५८. [१] कण्हलेस्से णं भंते ! मणूसे कण्हलेस्सं गव्यं जणेज्ञा ?  
हंता गोयमा ! जणेज्ञा ।

[२] २० कण्हलेस्से णं भंते ! मणूसे णीललेस्सं गव्यं जणेज्ञा ? हंता  
गोयमा ! जणेज्ञा ।

[३] एवं काउलेस्सं तेउलेस्सं पम्हलेस्सं सुक्लेस्सं छप्पि आलावगा  
भाणियव्वा ।

१०. <sup>०</sup>पुरत्विमद्वे पु२ ॥ २. <sup>०</sup>रदीघे वि म० प्र० पु१ पु२ पु३ ॥ ३. कण्हलेस्सं मणूसं जणें  
जें ॥ ४. जणेज्ञा । जाव कण्ह० सुक्लेसं गव्यं जणेज्ञा । णीललेस्से णं मणूसे कण्हलेस्सं  
गव्यं जणेज्ञा ? हंता गो० ! जणेज्ञा । एवं जाव णील० मणुसे सुक्लेस्सं गव्यं जणेज्ञा । एवं  
काउलेसेण छप्पि आलावगा भाणितव्वा, तेउलेसेण वि पम्हलेसेण वि सुक्लेसेण वि । एवं  
एते उत्तीसं आलावगा म० प्र० पु२ ॥

[४] एवं णीललेसेण काउलेसेण तेउलेसेण वि पम्हलेसेण वि सुक्कलेसेण वि, एवं एते छत्तीसं आलावगा ।

[५] कण्हलेस्सा णं भंते ! इत्थिया कण्हलेसं गब्मं जणेज्ञा ? हंता गोयमा ! जणेज्ञा । एवं एते वि छत्तीसं आलावगा ।

[६] कण्हलेसे णं भंते ! मणूसे कण्हलेसाए इत्थियाए कण्हलेसं गब्मं ५ जणेज्ञा ? हंता गोयमा ! जणेज्ञा । एवं एते छत्तीसं आलावगा ।

[७] कम्मभूमयकण्हलेसे णं भंते ! मणुस्से कण्हलेस्साए इत्थियाए कण्हलेसं गब्मं जणेज्ञा ? हंता गोयमा ! जणेज्ञा । एवं एते वि छत्तीसं आलावगा ।

[८] अकम्मभूमयकण्हलेसे णं भंते ! मणूसे अकम्मभूमयकण्हलेस्साए १० इत्थियाए अकम्मभूमयकण्हलेसं गब्मं जणेज्ञा ? हंता गोयमा ! जणेज्ञा, णवरं चउसु लेसासु सोलस आलावगा । एवं अंतरदीवगा वि ।

॥ छट्टो उद्देसओ समत्तो ॥

॥ पण्णवणाए भगवईए सत्तरसमं लेस्सापयं समत्तं ॥

## १८. अद्वारसमं कायथिंडिपयं

[सुत्तं १२५९. अद्वारसमपयस्स अत्थाहिगारपरस्वरणं]

१२५९. जीवे १ गतिदिय २-३ काए ४

जोगे ५ वेदे ६ कसाय ७ लेसा ८ य ।

५

समत्त ९ णाण १० दंसण ११

संजय १२ उवओग १३ आहरे १४ ॥ २११ ॥

भासग १५ परित्त १६ पञ्चत्त १७

सुहुम १८ सण्णी १९ भवऽत्थि २०-२१ चरिमे २२ य ।

एतेसिं तु पदाणं कायथिंडि होति णायव्वा ॥ २१२ ॥

१०

[सुत्तं १२६०. पढमं जीवदारं]

१२६०. जीवे णं भंते ! जीवे त्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा !  
सञ्च्छं । दारं १ ॥

[सुत्ताइं १२६१-७०. वीयं गङ्गदारं]

१२६१. णेरइए णं भंते ! नेरइए त्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा !  
१५ जहणेण दस वाससहस्राइं, उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाइं ।

१२६२ [१]. तिरिक्खजोणिए णं भंते ! तिरिक्खजोणिए त्ति कालओ  
केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण अणंतं कालं, अणंताओ  
उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ कालतो, खेतओ अणंता लोगा, असंखेज्जा पोगल-  
परिष्ट्वा, ते णं पोगलपरियद्वा आवलियाए असंखेज्जतिमागो ।

२०

[२] तिरिक्खजोणिणी णं भंते ! तिरिक्खजोणिणीति कालओ केवचिरं  
होइ ? गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण तिण्ण पलिओवमाइं पुञ्चकोडि-  
पुहुत्तेअव्मद्याइं ।

१२६३. [१] एवं मणूसे वि ।

[२] मणूसी वि एवं चेव ।

१. °भागे पु२ ॥ २. °त्तमव्मद्याइं जे० विना ॥

१२६४. [१] देवे णं भंते ! देवे ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा !  
जहेव णेरइए (सु. १२६१) ।

[२] देवी णं भंते ! देवीति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा !  
जहण्णेणं दस वाससहस्राइं, उक्षोसेणं पणपणं पलिओवमाइं ।

१२६५. सिञ्चे णं भंते ! सिञ्चे ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! ५  
सादीए अपज्जवसिए ।

१२६६. [१] णेरइयअपज्जतए णं भंते ! णेरइयअपज्जतए ति कालओ  
केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहण्णेण वि उक्षोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[२] एवं जाव देवी अपज्जत्तिया ।

१२६७. णेरइयपज्जतए णं भंते ! णेरइयपज्जतए ति कालओ केवचिरं १०  
होइ ? गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्राइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्षोसेणं तेत्तीसं  
सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

१२६८. [१] तिरिक्खजोणियपज्जतए णं भंते ! तिरिक्खजोणिय-  
पज्जतए ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्षोसेणं  
तिण्णि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं । १६

[२] एवं तिरिक्खजोणियपज्जत्तिया वि ।

१२६९. मण्णसे मण्णसी वि एवं चेव ।

१२७०. [१] देवपज्जतए जहा णेरइयपज्जतए (सु. १२६७) ।

[२] देविपज्जत्तिया णं भंते ! देविपज्जत्तिय ति कालओ केवचिरं होइ ?  
गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्राइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्षोसेणं पणपणं २०  
पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं । दारं २ ॥

### [ १२७१-८४. तहयं इंदियदारं ]

१२७१. सइंदिए णं भंते ! सइंदिए ति कालओ केवचिरं होइ ?  
गोयमा ! सइंदिए दुविहे पण्णते । तं जहा—अणाईए वा अपज्जवसिए १ अणादीए  
वा सपज्जवसिए २ । २५

१२७२. एगिंदिए णं भंते ! एगिंदिए ति कालओ केवचिरं होइ ?  
गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्षोसेणं अणंतं कालं वणप्फङ्कालो ।

१२७३. वेइंदिए णं भंते ! वेइंदिए ति कालओ केवचिरं होइ ?  
गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण संखेजं कालं ।

१२७४. एवं तेइंदिय-चउरिंदिए वि ।

१२७५. पंचेंदिए णं भंते ! पंचेंदिए ति कालतो केवचिरं होइ ?  
६ गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण सागरोवमसहस्रं सातिरेण ।

१२७६. अणिंदिए णं ० पुच्छा । गोयमा ! सादीए अपज्जवसिए ।

१२७७. सइंदियअपज्जत्तए णं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि  
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१२७८. एवं जाव पंचेंदियअपज्जत्तए ।

१० १२७९. सइंदियपज्जत्तए णं भंते ! सइंदियपज्जत्तए ति कालओ केवचिरं  
होइ ? गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण सागरोवमसतपुहत्तं सातिरेण ।

१२८०. एगिंदियपज्जत्तए णं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण संखेजाइं वाससहस्राइं ।

१२८१. वेइंदियपज्जत्तए णं भंते ! वेइंदियपज्जत्तए ति ० पुच्छा ।

१५ गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण संखेजाइं वासाइं ।

१२८२. तेइंदियपज्जत्तए णं भंते ! तेइंदियपज्जत्तए ति ० पुच्छा ।  
गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण संखेजाइं रातिंदियाइं ।

१२८३. चउरिंदियपज्जत्तए णं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण संखेजा मासा ।

२० १२८४. पंचेंदियपज्जत्तए णं भंते ! पंचेंदियपज्जत्तए ति कालओ केवचिरं  
होइ ? गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण सागरोवमसयपुहत्तं । दारं ३ ॥

[ सुत्ताइं १२८५-१३२०. चउत्त्यं कायदारं ]

१२८५. सकाइए णं भंते ! सकाइए ति कालओ केवचिरं होइ ?  
गोयमा ! सकाइए दुविहे पण्णते । तं जहा-अणादीए वा अपज्जवसिए १  
२५ अणादीए वा सपज्जवसिए २ ।

१२८६. पुढविकाइए णं ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं,  
उक्कोसेण असंखेजं कालं, असंखेजाओ उस्सपिणि-ओसपिणीओ कालओ, खेतओ  
असंखेजा लोगा ।

१२८७. एवं आऊ-तेउ-वाउक्काइया वि ।

१२८८. वणप्फइकाइया णं ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण अणंतं कालं, अणंताओ उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अणंता लोगा, असंखेज्जा पोगलपरियद्वा, ते णं पोगलपरियद्वा आवलियाए असंखेज्जइभागो ।

५

१२८९. तसकाइए णं भंते ! तसकाइए त्ति ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण दो सागरोवमसहस्साइं संखेज्जवासअब्भइयाइं ।

१२९०. अकाइए णं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! अकाइए सादीए अपज्जवसिए ।

१२९१. सकाइयअपज्जत्तए णं ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि १० उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१२९२. एवं जाव तसकाइयअपज्जत्तए ।

१२९३. सकाइयपज्जत्तए णं ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण सागरोवमसयपुहुत्तं सातिरेगं ।

१२९४. पुढविक्काइयपज्जत्तए णं ० पुच्छा ! गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, १५ उक्कोसेण संखेज्जाइं वाससहस्साइं ।

१२९५. एवं आऊ वि ।

१२९६. तेउक्काइयपज्जत्तए णं ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण संखेज्जाइं राइंदियाइं ।

१२९७. वाउक्काइयपज्जत्तए णं ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, २० उक्कोसेण संखेज्जाइं वाससहस्साइं ।

१२९८. वणप्फइकाइयपज्जत्तए णं ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण संखेज्जाइं वाससहस्साइं ।

१२९९. तसकाइयपज्जत्तए णं ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण सागरोवमसयपुहुत्तं सातिरेगं ।

२५

१३००. सुहुमे णं भंते ! सुहुमे त्ति कालओ केवचिरं होति ? गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण असंखेज्जं कालं असंखेज्जाओ उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ असंखेज्जा लोगा ।

१३०१. सुहुमपुढविकाइए सुहुमआउकाइए सुहुमतेउकाइए सुहुमवा-  
उकाइए सुहुमवणप्फइकाइए सुहुमणिगोदे वि जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण  
असंखेजं कालं, असंखेजाओ उसपिणि-ओसपिणीओ कालओ, खेतओ असंखेजा  
लोगा ।

५ १३०२. सुहुमे ण भंते ! अपज्ञत्तए ति ० पुच्छा ! गोयमा ! जहणेण  
अंतोमुहुतं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

१३०३. पुढविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-वाउकाइय-वणस्सइकाइयाण  
य एवं चेव ।

१३०४. पज्ञत्याण वि एवं चेवै ।

१० १३०५. वादरे ण भंते ! वादरे ति कालतो केवचिरं होइ ? गोयमा !  
जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण असंखेजं कालं, असंखेजाओ उसपिणि-ओसपिणीओ  
कालतो, खेतओ अंगुलस्स असंखेजतिभागं ।

१३०६. वादरपुढविकाइए ण भंते ! २ पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
अंतोमुहुतं, उक्कोसेण सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीओ ।

१५ १३०७. एवं वादरआउकाइए वि जाव वाद्रवाउकाइए वि ।

१३०८. वादरवणस्सइकाइए ण भंते ! २ पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
अंतोमुहुतं, उक्कोसेण असंखेजं कालं जाव खेतओ अंगुलस्स असंखेजतिभागं ।

१३०९. पतेयसरीरवादरवणप्फइकाइए ण भंते ! ० पुच्छा । गोयमा !  
जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीओ ।

२० १३१०. णिगोए ण भंते ! णिगोए ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा !  
जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण अणंतं कालं, अणंताओ उसपिणि-ओसपिणीओ  
कालओ, खेतओ अडूइज्जा पोगगलपरियद्वा ।

१३११. वादरनिगोदे ण भंते ! वादर० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
अंतोमुहुतं, उक्कोसेण सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीओ ।

२५ १३१२. वादरतसकाइए ण भंते ! वादरतसकाइए ति कालओ केवचिरं  
होइ ? गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण दो सागरोवमसहस्साइं संखेज-  
वासअब्मइयाइं ।

---

१. °व जहा ओहियाण । १३०५. वा० मु०॥ २. जाव वादरतेउकाइए वि वाद्रवा० मु०॥

१३१३. एतेसिं चेव अपज्जतगा सव्वे वि जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं । .

१३१४. बादरपज्जतए णं भंते ! बादरपज्जत० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण सागरोवमसतपुहुतं सातिरेगं ।

१३१५. बादरपुढविक्काइयपज्जतए णं भंते ! बादर० पुच्छा । गोयमा ! ५ जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण संखेजाइं वाससहस्राइं ।

१३१६. एवं आउक्काइए वि ।

१३१७. तेउक्काइयपज्जतए णं भंते ! तेउक्काइयपज्जत० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण संखेजाइं राइंदियाइं ।

१३१८. वाउक्काइए वणप्फङ्काइए पतेयसरीरबायरवणप्फङ्काइए य १० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण संखेजाइं वाससहस्राइं ।

१३१९. णिगोयपज्जतए बादरणिगोयपज्जतए य पुच्छा । गोयमाँ ! दोणिं वि जहणेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

१३२०. बादरतसकाइयपज्जतए णं भंते ! बादरतसकाइयपज्जतए त्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण सागरोवमसत- १५ पुहुतं सातिरेगं । दारं ४ ॥

### [सुत्ताइं १३२१-२५. पंचमं जोगदारं]

१३२१. सजोगी णं भंते ! सजोगि त्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! सजोगी दुविहे पण्णते । तं जहा-अणादीए वा अपज्जवसिए १ अणादीए वा सपज्जवसिए २ । २०

१३२२. मणजोगी णं भंते ! मणजोगि त्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहणेण एकं समयं, उक्कोसेण अंतोमुहुतं ।

१३२३. एवं वयजोगी वि ।

१३२४. कायजोगी णं भंते ! २ ? गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण वणप्फङ्कालो । २५

१३२५. अजोगी णं भंते ! अजोगीति कालतो केवचिरं होइ ? गोयमा !  
सादीए अपज्जवसिए । दारं ५ ॥

[ सुत्ताइँ १३२६-३०. छडुं वेयदारं ]

१३२६. सवेदए णं भंते सवेदए त्ति० ? गोयमा ! सवेदए तिविहे  
५ पण्णते । तं जहा—अणादीए वा अपज्जवसिए १ अणादीए वा सपज्जवसिए २  
सादीए वा सपज्जवसिए ३ । तत्थ णं जे से सादीए सपज्जवसिए से जहण्णेण  
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण अणंतं कालं, अणंताओ उस्सपिणि-ओसापिणीओ कालओ,  
खेतओ अवडुं पोगलपरियहुं देसूणं ।

१३२७. इत्थिवेदे णं भंते ! इत्थिवेदे ति कालतो केवचिरं होति ?  
१० गोयमा ! एगेण आदेसेण जहण्णेण एकं समयं उक्कोसेण दसुतरं पलिओवमसतं  
पुब्वकोडिपुहुत्तमव्मइयं १ एगेण आदेसेण जहण्णेण एगं समयं उक्कोसेण अट्टारस  
पलिओवमाइं पुब्वकोडिपुहुत्तमव्मइयाइं २ एगेण आदेसेण जहण्णेण एगं समयं  
उक्कोसेण चोद्दस पलिओवमाइं पुब्वकोडिपुहुत्तमव्मइयाइं ३ एगेण आदेसेण  
जहण्णेण एगं समयं उक्कोसेण पलिओवमसयं पुब्वकोडिपुहुत्तमव्मइयं ४ एगेण  
१५ आदेसेण जहण्णेण एगं समयं उक्कोसेण पलिओवमपुहुत्तं पुब्वकोडिपुहुत्तमव्मइयं ५ ।

१३२८. पुरिसवेदे णं भंते ! पुरिसवेदे त्ति० ? गोयमा ! जहण्णेण  
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण सागरोवमसतपुहुत्तं सातिरेण ।

१३२९. नपुंसगवेदे णं भंते ! णपुंसगवेदे त्ति० पुच्छा । गोयमा !  
जहण्णेण एकं समयं, उक्कोसेण वणप्फङ्कालो ।

२० १३३०. अवेदए णं भंते ! अवेदए त्ति० पुच्छा । गोयमा ! अवेदए दुविहे  
पण्णते । तं जहा—सादीए वा अपज्जवसिए १ सादीए वा सपज्जवसिए २ । तत्थ णं  
जे से सादीए सपज्जवसिए से जहण्णेण एकं समयं उक्कोसेण अंतोमुहुत्तं । दारं ६ ॥

[ सुत्ताइँ १३३१-३४. सत्तमं कसायदारं ]

२५ १३३१. सकसाई णं भंते ! सकसाईति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा !  
सकसाई तिविहे पण्णते । तं जहा—अणादीए वा अपज्जवसिए १ अणादीए वा  
सपज्जवसिए २ सादीए वा सपज्जवसिए ३ जाव (सु. १३२६) अवडुं पोगल-  
परियहुं देसूणं ।

१३३२. कोहकसाईं णं भंते ! २ पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि  
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । एवं जाव मायकसाईं ।

१३३३. लोभकसाईं णं भंते ! लोभ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एकं  
समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं ।

१३३४. अकसाईं णं भंते ! अकसाईति कालतो केवचिरं होइ ? ५  
गोयमा ! अकसाई दुविहे पण्णते । तं जहा—सादीए वा अपज्जवसिए १ सादीए  
वा सपज्जवसिए २ । तथं णं जे से सादीए सपज्जवसिए से जहणेणं एकं समयं,  
उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं । दारं ७ ॥

[ सुत्ताइं १३३५-४२, अद्वृम्बं लेस्सादारं ]

१३३५. सलेस्से णं भंते ! सलेसे ति० पुच्छा । गोयमा ! सलेसे दुविहे १०  
पण्णते । तं जहा—अणादीए वा अपज्जवसिए १ अणादीए वा सपज्जवसिए २ ।

१३३६. कण्हलेसे णं भंते ! कण्हलेसे ति कालओ केवचिरं होइ ?  
गोयमा ! जहणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तेत्तिसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तब्भइयाइं ।

१३३७. णीललेसे णं भंते ! णीललेसे ति० पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं  
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं दस सागरोवमाइं पलिओवमासंखेज्जभागब्भइयाइं । १६

१३३८. काउलेस्से णं० पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अंतोमुहुत्तं, उक्को-  
सेणं तिण्णि सागरोवमाइं पलिओवमासंखेज्जभागब्भइयाइं ।

१३३९. तेउलेस्से णं० पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अंतोमुहुत्तं,  
उक्कोसेणं दो सागरोवमाइं पलिओवमासंखेज्जभागब्भइयाइं ।

१३४०. पम्हलेस्से णं० पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अंतोमुहुत्तं, २०  
उक्कोसेणं दस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तब्भइयाइं ।

१३४१. सुक्कलेस्से णं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अंतोमुहुत्तं,  
उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तब्भइयाइं ।

१३४२. अलेस्से णं० पुच्छा । गोयमा ! सादीए अपज्जवसिए ।  
दारं ८ ॥

१. जाव माण-मा० जे० विना । जाव कसायकसाती । लो० पु१ पु३ ॥ २. मायाक०  
म० पु२-॥

[सुन्ताइँ १३४३-४५. णवमं सम्मतदारं]

१३४३. सम्मदिद्वी णं भंते ! सम्मदिद्वि० केवचिरं होइ ? गोयमा ! सम्मदिद्वी दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-सादीए वा अपज्जवसिए १ सादीए वा सपज्जवसिए २ । तत्य णं जे से सादीए सपज्जवसिए से जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, ६ उक्कोसेण छावडिं सागरोवमाइं सातिरेगाइं ।

१३४४. मिच्छदिद्वी णं भंते !० पुच्छा । गोयमा ! मिच्छदिद्वी तिविहे पण्णत्ते । तं जहा-अणादीए वा अपज्जवसिए १ अणाईंग् वा सपज्जवसिए २ सादीए वा सपज्जवसिए ३ । तत्य णं जे से सादीए सपज्जवसिए से जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण अणंतं कालं, अणंताओ उस्साप्पिणि-ओस्साप्पिणीओ कालओ, १० खेतओ अबडुं पोगलपरियडुं देसूणं ।

१३४५. सम्मामिच्छदिद्वी णं० पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । दारं ९ ॥

[सुन्ताइँ १३४६-५३. दसमं णाणदारं]

१३४६. णाणी णं भंते ! णाणीति कालतो केवचिरं होइ ? गोयमा ! १५ णाणी दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-सादीए वा अपज्जवसिए १ सादीए वा सपज्जवसिए २ । तत्य णं जे से सादीए सपज्जवसिए से जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण छावडिं सागरोवमाइं साइरेगाइं ।

१३४७. आभिणिवोहियणाणी णं भंते !० पुच्छा । गोयमा एवं चेव ।

१३४८. एवं सुयणाणी वि ।

१३४९. ओहिणाणी वि एवं चेव । णवरं जहण्णेण एकं समयं ।

१३५०. मणपज्जवणाणी णं भंते ! मणपज्जवणाणीति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहण्णेण एकं समयं, उक्कोसेण देसूणं पुञ्चकोडिं ।

१३५१. केवलणाणी णं० पुच्छा । गोयमा ! सादीए अपज्जवसिए ।

१३५२. अण्णाणी-मङ्गलणाणी-सुयअण्णाणी णं० पुच्छा । गोयमा ! २५ अण्णाणी मतिअण्णाणी सुयअण्णाणी तिविहे पण्णत्ते । तं जहा-अणादीए वा अपज्जवसिए १ अणादीए वा सपज्जवसिए २ सादीए वा सपज्जवसिए ३ । तत्य

णं जे से सादीए सप्जवसिए से जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण अणतं कालं, अणताओ उस्सप्पिणि-ओस्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अवडुं पोगलपरियटुं देसूणं ।

१३५३. विभंगणाणी ॣं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण एक्कं समयं, उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाइं देसूणाए पुव्वकोडीए अब्मइयाइं । दारं १० ॥

[सुत्ताइं १३५४-५७. एकारसमं दंसणदारं]

५

१३५४. चक्रबुदंसणी ॣं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण सागरोवमसहस्सं सातिरेण ।

१३५५. अचक्रबुदंसणी ॣं भंते ! अचक्रबुदंसणीति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! अचक्रबुदंसणी दुविहे पण्णते । तं जहा-अणादीए वा अपज्जवसिए १ अणादीए वा सप्जवसिए २ ।

१०

१३५६. ओहिदंसणी ४० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण एक्कं समयं, उक्कोसेण दो छावडीओ सागरोवमाणं सातिरेगाओ ।

१३५७. केवलदंसणी ४० पुच्छा । गोयमा ! सादीए अपज्जवसिए । दारं ११ ॥

[सुत्ताइं १३५८-६१. बारसमं संजयदारं]

१५

१३५८. संजए ॣं भंते ! संजते त्ति० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण एक्कं समयं, उक्कोसेण देसूणं पुव्वकोडिं ।

१३५९. असंजए ॣं भंते ! असंजए त्ति० पुच्छा । गोयमा ! असंजए तिविहे पण्णते । तं जहा-अणादीए वा अपज्जवसिए १ अणादीए वा सप्जवसिए २ सादीए वा सप्जवसिए ३ । तथ्य ४ं जे से सादीए सप्जवसिए से जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण अणतं कालं, अणताओ उस्सप्पिणि-ओस्पिणीओ कालतो, खेत्ततो अवडुं पोगलपरियटुं देसूणं ।

२०

१३६०. संजयासंजए जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण देसूणं पुव्वकोडिं ।

१३६१. णोसंजए णोअसंजए णोसंजयासंजए ४० पुच्छा । गोयमा ! सादीए अपज्जवसिए । दारं १२ ॥

२५

१. °दंसणि त्ति म० पु१ पु२ पु३ ॥ २. °ए ४ं पुच्छा । गो० ! जह० मु० ॥

[सुत्ताइं १३६२-६३. तेरसमं उच्चोगदारं]

१३६२. सागारोवउत्ते णं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि  
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१३६३. अणागारोवउत्ते वि एवं चेव । दारं १३ ॥

५

[सुत्ताइं १३६४-७३. चोदसमं आहारदारं]

१३६४. आहारए णं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! आहारए दुविहे  
पण्णते । तं जहा-छउमत्थआहारए य केवलिआहारए य ।

१३६५. छउमत्थाहारए णं भंते ! छउमत्थाहारए ति कालओ केवचिरं  
होइ ? गोयमा ! जहणेण खुड्हागभवगगहणं दुसमज्ञणं, उक्कोसेणं असंखेज्ञं कालं,  
१० असंखेज्ञाओ उसपिणि-ओसपिणीओ कालतो, खेततो अंगुलस्स असंखेज्ञभागं ।

१३६६. केवलिआहारए णं भंते ! केवलिआहारए ति कालतो केवचिरं  
होइ ? गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं देसूणं पुब्वकोडिं ।

१६६७. अणाहारए णं भंते ! अणाहारए ति० पुच्छा । गोयमा !  
अणाहारए दुविहे पण्णते । तं जहा-छउमत्थअणाहारए य १ केवलिअणाहारए य २ ।

१३६८. छउमत्थअणाहारए णं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं  
एकं समयं, उक्कोसेणं दो समया ।

१३६९. केवलिअणाहारए णं भंते ! केवलिअणाहारए ति कालओ  
केवचिरं होइ ? गोयमा ! केवलिअणाहारए दुविहे पण्णते । तं जहा-सिद्ध-  
केवलिअणाहारए य १ भवत्थकेवलिअणाहारए य २ ।

२० १३७०. सिद्धकेवलिअणाहारए णं० पुच्छा । गोयमा ! सादीए  
अपज्जवसिए ।

१३७१. भवत्थकेवलिअणाहारए णं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! भवत्थ-  
केवलिअणाहारए दुविहे पण्णते । तं जहा-सजोगिभवत्थकेवलिअणाहारए य १  
अजोगिभवत्थकेवलिअणाहारए य २ ।

२५ १३७२. सजोगिभवत्थकेवलिअणाहारए णं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा !  
अजहण्णमणुक्कोसेणं तिणिण समया ।

१. °गारोवओगोवउत्ते मु० ॥ २. ए त्ति० ? अणाहारए दु० जे० ध० ॥

१३७३. अजोगिभवत्थकेवलिअणाहारए णं० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण  
वि उक्षोसेण वि अंतोमुहुत्तं । दारं १४ ॥

[सुत्ताइं १३७४-७५. पणरसमं भासगदारं]

१३७४. भासए णं० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण एकं समयं, उक्षोसेण  
अंतोमुहुत्तं ।

१३७५. अभासए णं० पुच्छा । गोयमा ! अभासए तिविहे पण्णते ।  
तं जहा-अणाईए वा अपज्जवसिए १ अणाईए वा सपज्जवसिए २ सादीए वा  
सपज्जवसिए ३ । तथ्य णं जे से सादीए सपज्जवसिए से जहणेण अंतोमुहुत्तं,  
उक्षोसेण वणप्फङ्कालो । दारं १५ ॥

[सुत्ताइं १३७६-८२ सोलसमं परित्तदारं]

१३७६. परित्ते णं भंते !० पुच्छा । गोयमा ! परित्ते दुविहे पण्णते ।  
तं जहा-कायपरित्ते य १ संसारपरित्ते य २ ।

१३७७. कायपरित्ते णं० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं,  
उक्षोसेण पुढविकालो असंखेज्ञाओ उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ ।

१३७८. संसारपरित्ते णं० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं,  
उक्षोसेण अणंतं कालं जाव अवहुं पोग्गलपरियहुं देसूणं ।

१३७९. अपरित्ते णं० पुच्छा । गोयमा ! अपरित्ते दुविहे पण्णते । तं  
जहा-कायअपरित्ते य १ संसारअपरित्ते य २ ।

१३८०. कायअपरित्ते णं० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं,  
उक्षोसेण वणप्फङ्कालो ।

१३८१. संसारअपरित्ते णं० पुच्छा । गोयमा ! संसारअपरित्ते दुविहे  
पण्णते । तं जहा-अणादीए वा अपज्जवसिए १ अणादीए वा सपज्जवसिए २ ।

१३८२. णोपरित्ते-णोअपरित्ते णं० पुच्छा । गोयमा ! सादीए अपज्जव-  
सिए । दारं १६ ॥

१. °ए ण भंते ! भासए त्ति कालतो केवचिरं होइ ? गोयमा ! पु२ ॥ २ अभासए दुविहे पण्णते ।  
तं जहा-सातीते वा अपज्जवसिते सानीते वा सपज्जवसिते । तन्य णं म० प्र० पु१ पु२ पु३ ॥

[ सुत्ताइ १३८३-८५. सत्तरसमं पञ्चतदारं ]

१३८३. पञ्चतए णं० पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अंतोमुहुतं, उक्षोसेणं सागरोवमसयपुहतं सातिरेगं ।

१३८४. अपञ्चतए णं० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्षोसेण वि ५ अंतोमुहुतं ।

१३८५. णोपञ्चतए-णोअपञ्चतए णं० पुच्छा । गोयमा ! सादीए अपञ्चवसिए । दारं १७ ॥

[ सुत्ताइ १३८६-८८. अद्वारसमं सुहुमदारं ]

१३८६. सुहुमे णं भंते ! सुहुमे त्ति० पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं १० अंतोमुहुतं, उक्षोसेणं पुढिकालो ।

१३८७. बादरे णं० पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अंतोमुहुतं, उक्षोसेणं असंखेजं कालं जाव (सु. १३६५) खेत्तओ अंगुलस्स असंखेजइभागं ।

१३८८. णोसुहुमणोबादरे णं भंते !० पुच्छा । गोयमा ! सादीए अपञ्चव-सिए । दारं १८ ॥

[ सुत्ताइ १३८९-९१. एगूणवीसइमं सणिदारं ]

१३८९. सण्णी णं भंते !० पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अंतोमुहुतं, उक्षोसेणं सागरोवमसतपुहतं सातिरेगं ।

१३९०. असण्णी णं भंते !० पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अंतोमुहुतं, उक्षोसेणं वणप्फइकालो ।

२० १३९१. णोसण्णीणोअसण्णी णं० पुच्छा । गोयमा ! सादीए अपञ्चवसिए । दारं १९ ॥

[ सुत्ताइ १३९२-९४. वीसइमं भवसिद्धियदारं ]

१३९२. भवसिद्धिए णं भंते !० पुच्छा । गोयमा ! अणादीए सपन्नवसिए ।

२१ १३९३. अभवसिद्धिए णं भंते !० पुच्छा । गोयमा ! अणादीए अपञ्चवसिए ।

१३९४. णोभवसिद्धियणोअभवसिद्धिए णं० पुच्छा । गोयमा ! सादीए  
अपञ्जवसिए । दारं २० ॥

[सुन्ताइं १३९५-९६, एगवीसइमं अत्थिकायदारं]

१३९५. धम्मत्थिकाए णं० पुच्छा । गोयमा ! सब्बद्धं ।

१३९६. एवं जाव अद्वासमए । दारं २१ ॥

६

[सुन्ताइं १३९७-९८, बावीसइमं चरिमदारं]

१३९७. चरिमे णं० पुच्छा । गोयमा ! अणादीए सपञ्जवसिए ।

१३९८. अचरिमे णं० पुच्छा । गोयमा ! अचरिमे दुविहे पण्णते । तं  
जहा—अणादीए वा अपञ्जवसिए १ सादीए वा अपञ्जवसिए २ । दारं २२ ॥

॥ एणवणाए भगवतीए अट्टारसमं कायट्टिइपयं समत्तं ॥

१०

## १९. एग्रणवीसइमं सम्मतपयं

[सुत्तं १३९९. जीवेसु सम्मतपर्वणं]

१३९९. जीवा णं भंते ! किं सम्मदिङ्गी मिच्छदिङ्गी सम्मामिच्छदिङ्गी ?  
गोयमा ! जीवा सम्मदिङ्गी वि मिच्छदिङ्गी वि सम्मामिच्छदिङ्गी वि ।

५ [सुत्ताइँ १४००-५. चउवीसदंडएसु सम्मतपर्वणं]

१४००. एवं ऐरइया वि ।

१४०१. असुरकुमारा वि एवं चेव जाव थणियकुमारा ।

१४०२. पुढविक्काइयाणं पुच्छा । गोयमा ! पुढविक्काइया णो सम्मदिङ्गी,  
मिच्छदिङ्गी, णो सम्मामिच्छदिङ्गी । एवं जाव वणप्फङ्काइया ।

१० १४०३. वेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! वेइंदिया सम्मदिङ्गी वि  
मिच्छदिङ्गी वि, णो सम्मामिच्छदिङ्गी । एवं जाव चउरेंदिया ।

१४०४. पंचेंदियतिरिक्खजोणिय-मणुस्सा वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिया  
य सम्मदिङ्गी वि मिच्छदिङ्गी वि सम्मामिच्छदिङ्गी वि ।

१५ १४०५. सिद्धाणं पुच्छा । गोयमा ! सिद्धा णं सम्मदिङ्गी, णो मिच्छदिङ्गी  
णो सम्मामिच्छदिङ्गी ।

॥ पणवणाए भगवतीए एग्रणवीसइमं सम्मतपयं समत्तं ॥

## २०. वीसइमं अंतकिरियापयं

[सुत्तं १४०६, वीसइमपयस्स अथाहिगारा]

१४०६. णेरइय अंतकिरिया १ अणंतरं २ एगसमय ३ उब्बट्टा ४।  
तित्थगर ५ चकि ६ बैल ७ वासुदेव ८ मंडलिय ९ रयणा  
य १० ॥ २१३ ॥ दारगाहा ॥ ५

[सुत्ताहं १४०७-९, पठमं अंतकिरियादारं]

१४०७. [१] जीवे णं भंते ! अंतकिरियं करेज्जा ? गोयमा ! अथेगइए  
करेज्जा, अथेगइए णो करेज्जा ।

[२] एवं णेरइए जाव वेमाणिए ।

१४०८. [१] णेरइए णं भंते ! णेरइएसु अंतकिरियं करेज्जा ? १०  
गोयमा ! णो इण्डे सम्डे ।

[२] णेरइए णं भंते ! असुरकुमारेसु अंतकिरियं करेज्जा ? गोयमा ! णो  
इण्डे सम्डे ।

[३] एवं जाव वेमाणिएसु । णवरं मणूसेसु अंतकिरियं करेज ति पुच्छा ।  
गोयमा ! अथेगइए करेज्जा, अथेगइए णो करेज्जा । १५

१४०९. एवं असुरकुमारे जाव वेमाणिए । ऐवमेते चउवीसं चउवीस-  
दंडगा ५७६ भवंति । दारं १ ॥

[सुत्ताहं १४१०-१३. वीर्यं अणंतरदारं]

१४१०. [१] णेरइया णं भंते ! किं अणंतरागता अंतकिरियं करेंति  
परंपरागया अंतकिरियं करेंति ? गोयमा ! अणंतरागया वि अंतकिरियं करेंति,  
परंपरागता वि अंतकिरियं करेंति । २०

[२] एवं र्यणप्पभापुढविणेरइया वि जाव पंकप्पभापुढविणेरइया ।

[३] धूमप्पभापुढविणेरइया णं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! णो अणंतरागया  
अंतकिरियं करेंति, परंपरागया अंतकिरियं करेंति । एवं जाव अहेसत्तमापुढविणेरइया ।

१. बैलदेव ७ वासु<sup>०</sup> पु१ पु२ पु३ मु०॥ २. पुच्छाए अ॑थ्ये० जे०॥ ३. एवमेव च० म० पु१ पु३  
मु०। एवं चउवीसं दं० पु२ ॥

१४११. असुरकुमारा जाव थणियकुमारा पुढवि-आउ-वणस्सइकाइया य अणंतरागया वि अंतकिरियं करेंति, परंपरागया वि अंतकिरियं करेंति ।

१४१२. तेउ-चाउ-बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिदिया णो अणंतरागया अंत-किरियं पकरेंति, परंपरागया अंतकिरियं पकरेंति ।

५ १४१३. सेसा अणंतरागया वि अंतकिरियं पकरेंति, परंपरागया वि अंतकिरियं पकरेंति । दारं २ ॥

[सुत्ताइ १४१४-१६, तह्यं एगसमयदारं]

१४१४. [१] अणंतरागया णं भंते ! णेरइया एगसमएणं केवतिया अंतकिरियं पकरेंति ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्ण वा, १० उक्कोसेणं दस ।

[२] र्यणप्पभापुढविणेरइया वि एवं चेव जाव वालुयप्पभापुढविणेरइया ।

[३] अणंतरागता णं भंते ! पंक्कप्पभापुढविणेरइया एगसमएणं केवतिया अंतकिरियं पकरेंति ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्ण वा, उक्कोसेणं चत्तारि ।

१५ १४१५. [१] अणंतरागया णं भंते ! असुरकुमारा एगसमएणं केवइया अंतकिरियं पकरेंति ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्ण वा, उक्कोसेणं दस ।

[२] अणंतरागयाओ णं भंते ! असुरकुमारीओ एगसमएणं केवतियाओ अंतकिरियं पकरेंति ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्को(क्का) वा दो वा तिण्ण वा, २० उक्कोसेणं पंच ।

[३] एवं जहा असुरकुमारा सदेवीया तहा जाव थणियकुमारा ।

१४१६. [१] अणंतरागया णं भंते ! पुढविक्काइया एगसमएणं केवतिया अंतकिरियं पकरेंति ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्ण वा, उक्कोसेणं चत्तारि ।

[२] एवं आउक्काइया वि चत्तारि । वणप्पइक्काइया छं । पंचेंदियति-रिक्खजोणिया दस । तिरिक्खजोणियीओ दस । मणूसा दस । मणूसीओ वीसं । वाणमंतरा दस । वाणमंतरीओ पंच । जोइसिया दस । जोइसिणीओ वीसं । वेमाणिया अडुसतं । वेमाणिणीओ वीसं । दारं ३ ॥

[सुत्ताइं १४१७-४३. चउत्थं उच्चदृढारं]

१४१७. णेरइए णं भंते ! णेरइएहिंतो अणंतरं उच्चहिता णेरइएसु उववज्जेज्जा ? गोयमा ! णो इणडे समडे ।

१४१८. णेरइए णं भंते ! णेरइएहिंतो अणंतरं उच्चहिता जसुरकुमारेसु उववज्जेज्जा ? गोयमा ! णो इणडे समडे ।

१४१९. एवं निरंतरं जाव चउरिंदिएसु पुच्छा । गोयमा ! णो इणडे समडे ।

१४२०. [१] णेरइए णं भंते ! णेरइएहिंतो अणंतरं उच्चहिता पंचें-  
दियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जेज्जा ? गोयमा ! अथेगइए उववज्जेज्जा, अथेगइए  
णो उववज्जेज्जा ।

[२] जे णं भंते ! णेरइएहिंतो अणंतरं उच्चहिता पंचेंदियतिरिक्खजो-  
णिएसु उववज्जेज्जा से णं केवलिपण्णतं धम्मं लभेज्जा सवणयाए ? गोयमा !  
अथेगइए लभेज्जा, अथेगइए णो लभेज्जा ।

[३] जे णं भंते ! केवलिपण्णतं धम्मं लभेज्जा सवणयाए से णं केवलं  
बोहिं बुज्जेज्जा ? गोयमा ! अथेगइए बुज्जेज्जा, अथेगइए णो बुज्जेज्जा ।

[४] जे णं भंते ! केवलं बोहिं बुज्जेज्जा से णं सद्हेज्जा पत्तिएज्जा रोएज्जा ?  
गोयमा ! सद्हेज्जा पत्तिएज्जा रोएज्जा ।

[५] जे णं भंते ! सद्हेज्जा पत्तिएज्जा रोएज्जा से णं आभिणिबोहियणाण-  
सुयणाणाइं उप्पाडेज्जा ? हंता ! गोयमा ! उप्पाडेज्जा ।

[६] जे णं भंते ! आभिणिबोहियणाण-सुयणाणाइं उप्पाडेज्जा से णं  
संचाएज्जा सीलं वा वयं वा गुणं वा वेरमणं वा पञ्चक्खाणं वा पोसहोववासं वा  
पडिवज्जितए ? गोयमा ! अथेगइए संचाएज्जा, अथेगइए णो संचाएज्जा ।

[७] जे णं भंते ! संचाएज्जा सीलं वा जाव पोसहोववासं वा पडिवज्जितए  
से णं ओहिणाणं उप्पाडेज्जा ? गोयमा ! अथेगइए उप्पाडेज्जा, अथेगइए णो  
उप्पाडेज्जा ।

[८] जे णं भंते ओहिणाणं उप्पाडेज्जा से णं संचाएज्जा मुंडे भविता  
अगाराओ अणगारियं पञ्चइतए ? गोयमा ! णो इणडे समडे ।

१४२१. [१] णेरडए पं भंते ! णेरडएहिंतो अणंतरं उब्बहिता मणसेसु उववज्जेज्जा ? गोयमा ! अत्थेगइए उववज्जेज्जा, अत्थेगइए पो उववज्जेज्जा ।

[२] जे पं भंते ! उववज्जेज्जा से पं केवलिपणतं धम्मं लभेज्जा सवण्याए ? गोयमा ! जहा पंचेदियतिरिक्खजोणिएसु (सु. १४२० [२-७]) जाव जे पं भंते ! ओहिणाणं उप्पाडेज्जा से पं संचाएज्जा मुडे भविता अगागांगा अणगाग्नियं पव्वहितए ? गोयमा ! अत्थेगइए संचाएज्जा, अत्थेगइए पो संचाएज्जा ।

[३] जे पं भंते ! संचाएज्जा मुडे भविता अगागांगा अणगारियं पव्वहितए से पं मणपज्जवणाणं उप्पाडेज्जा ? गोयमा ! अत्थेगइए उप्पाडेज्जा, अत्थेगइए पो उप्पाडेज्जा ।

१० [४] जे पं भंते ! मणपज्जवणाणं उप्पाडेज्जा से पं केवलणाणं उप्पाडेज्जा ? गोयमा ! अत्थेगइए उप्पाडेज्जा, अत्थेगइए पो उप्पाडेज्जा ।

[५] जे पं भंते ! केवलणाणं उप्पाडेज्जा से पं सिज्जेज्जा चुञ्जेज्जा मुञ्जेज्जा सव्वदुक्खाणं अंतं करेज्जा ? गोयमा ! मिज्जेज्जा जाव सव्वदुक्खाणं अंतं करेज्जा ।

१४२२. णेरडए पं भंते ! णेरडएहिंतो अणंतरं उब्बहिता वाणमंतर-  
१५ जोइसियन्वेमाणिएसु उववज्जेज्जा ? गोयमा ! पो इण्डे समडे ।

१४२३. असुरकुमारे पं भंते ! असुरकुमारेहिंतो अणंतरं उब्बहिता णेरडएसु उववज्जेज्जा ? गोयमा ! पो इण्डे समडे ।

१४२४. असुरकुमारे पं भंते ! असुरकुमारेहिंतो अणंतरं उब्बहिता असुरकुमारेसु उववज्जिज्जा ? गोयमा ! पो इण्डे समडे । एवं जाव थणियकुमारेसु ।

२० १४२५. [१] असुरकुमारे पं भंते ! असुरकुमारेहिंतो अणंतरं उब्बहिता पुढविकाइएसु उववज्जेज्जा ? हंता ! गोयमा ! अत्थेगइए उववज्जेज्जा, अत्थेगइए नो उववज्जेज्जा ।

[२] जे पं भंते ! उववज्जेज्जा से पं केवलिपणतं धम्मं लभेज्जा सवण्याए ? गोयमा ! नो इण्डे समडे ।

२५ [३] एवं आउ-वणपफईसु वि ।

१४२६. [१] असुरकुमारे पं भंते ! असुरकुमारेहिंतो अणंतरं उब्बहिता तेड-वाउ-चेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियसु उववज्जेज्जा ? गोयमा ! पो इण्डे समडे । अवसेसेसु पंचसु पंचेदियतिरिक्खजोणियादिसु असुरकुमारे जहा णेरडए (सु. १४२०-२२) ।

[२] एवं जाव थणियकुमरे ।

१४२७. [१] पुढविकाइए णं भंते ! पुढविकाइएहिंतो अणंतरं उच्चाहिता णेरइएसु उववजेजा ? गोयमा ! णो इणडे समडे ।

[२] एवं असुरकुमरेसु वि जाव थणियकुमरेसु वि ।

१४२८. [१] पुढविकाइए णं भंते ! पुढविकाइएहिंतो अणंतरं उच्चाहिता ५ पुढविकाइएसु उववजेजा ? गोयमा ! अत्थेगइए उववजेजा, अत्थेगइए णो उववजेजा ।

[२] जे णं भंते ! उववजेजा से णं केवलिपण्णतं धम्मं लभेजा सवणयाए ? गोयमा ! णो इणडे समडे ।

[३] एवं आउक्काइयादीसु णिरंतरं भाणियवं जाव चउरिंदिएसु ।

[४] पंचेंदियतिरिक्खजोणिय-मणूसेसु जहा णेरइए (सु. १४२०-२१) । १०

[५] वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएसु पडिसेहो ।

१४२९. एवं जहा पुढविकाइओ भणिओ तहेव आउक्काइओ वि वणप्फइकाइओ वि भाणियव्वो ।

१४३०. [१] तेउक्काइए णं भंते ! तेउक्काइएहिंतो अणंतरं उच्चाहिता णेरइएसु उववजेजा ? गोयमा ! णो इणडे समडे । १५

[२] एवं असुरकुमरेसु वि जाव थणियकुमरेसु वि ।

१४३१. [१] पुढविकाइय-आउ-तेउ-वाउ-वणस्सइ-बेइंदिय-तेइंदिय-च-उरिंदिएसु अत्थेगइए उववजेजा, अत्थेगइए णो उववजेजा ।

[२] जे णं भंते ! उववजेजा से णं केवलिपण्णतं धम्मं लभेजा सवणताए ? गोयमा ! नो इणडे समडे । २०

१४३२. [१] तेउक्काइए णं भंते ! तेउक्काइएहिंतो अणंतरं उच्चाहिता पंचेंदियतिरिक्खजोणिएसु उववजेजा ? गोयमा ! अत्थेगइए उववजेजा, अत्थेगइए णो उववजेजा ।

[२] जे णं भंते ! उववजेजा से णं केवलिपण्णतं धम्मं लभेजा सवणयाए ? गोयमा ! अत्थेगइए लभेजा, अत्थेगइए णो लभेजा । २५

[३] जे णं भंते ! केवलिपण्णतं धम्मं लभेजा सवणयाए से णं केवलं बोहिं बुज्जेजा ? गोयमा ! णो इणडे समडे ।

१४३३. मणूस-वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएसु पुच्छा । गोयमा ! णो इणडे समडे ।

१४३४. एवं जहेव तेउक्काइए पिरंतरं एवं वाउक्काइए वि ।

१४३५. वेइंदिए पां भंते ! वेइंदिएहिंतो अणंतरं उच्चटिता णेरइएसु उववज्जेज्जा ? गोयमा ! जहा पुढविक्काइए (सु. १४२७-२८) । एवं मणस्सेसु जाव मणपञ्जवणाणं उप्पाडेज्जा ।

५ १४३६. [१] एवं तेइंदिय-चउरिंदिया वि जाव मणपञ्जवनाणं उप्पाडेज्जा ।

[२] जे पां भंते ! मणपञ्जवनाणं उप्पाडेज्जा से पां केवलणाणं उप्पाडेज्जा ? गोयमा ! णो इणडु समडु ।

१० १४३७. [१] पंचेंदियतिरिक्खजोणिए पां भंते ! पंचिंदियतिरिक्ख-  
जोणिएहिंतो अणंतरं उच्चटिता णेरइएसु उववज्जेज्जा ? गोयमा ! अथेगइए उववज्जेज्जा, अथेगइए णो उववज्जेज्जा ।

[२] जे पां भंते ! उववज्जेज्जा से पां केवलिपण्णतं धम्मं लभेज्जा सवणयाए ? गोयमा ! अथेगइए लभेज्जा, अथेगइए णो लभेज्जा ।

१५ [३] जे पां केवलिपण्णतं धम्मं लभेज्जा सवणयाए से पां केवलं वोहिं चुज्जेज्जा ? गोयमा ! अथेगइए चुज्जेज्जा, अथेगइए नो चुज्जेज्जा ।

[४] जे पां भंते ! केवलं वोहिं चुज्जेज्जा से पां सद्हेज्जा पत्तिएज्जा रोएज्जा ? हंता गोयमा ! जाव रोएज्जा ।

२० [५] जे पां भंते ! सद्हेज्जा ३ से पां आभिणिवोहियणाण-सुयणाण-ओहिणाणाणि उप्पाडेज्जा ? हंता गोयमा ! उप्पाडेज्जा ।

[६] जे पां भंते ! आभिणिवोहियणाण-सुयणाण-ओहिणाणाइं उप्पाडेज्जा से पां संचाएज्जा सीलं वा जाव पडिवज्जितए ? गोयमा ! णो इणडु समडु ।

१४३८. एवं असुरकुमारेसु वि जाव थणियकुमारेसु ।

१४३९. एगिंदिय-विगलिंदिएसु जहा पुढविक्काइए (सु. १४२८[१-३]) ।

२५ १४४०. पंचिंदियतिरिक्खजोणिएसु मणस्सेसु य जहा णेरइए (सु. १४२०-२१) ।

१४४१. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिएसु जहा णेरइएसु ऊवव[१ जे]ज्जि पुच्छाए भणियाए (सु. १४३७) ।

१. उवज्जति पु० जे० ध० म० प्र० । उववज्जि त्ति पु० पु१ पु३ । उववज्जि त्ति पु० पु२ । उववज्जेज्जा पुच्छा भणिया । २. एवं सु० ॥

१४४२. एवं मणूसे वि ।

१४४३. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिए जहा असुरकुमारे (सु. १४२३-२६) । दारं ४ ।

[सुन्नाहं १४४४-५८, पंचमं तित्थगरदारं]

१४४४. रयणप्पभापुढविणेरइए णं भंते ! रयणप्पभापुढविणेरइएहिंतो ५  
अणंतरं उच्चाङ्गिता तित्थगरतं लभेजा ? गोयमा ! अत्थेगइए लभेजा, अत्थेगइए  
णो लभेजा । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति अत्थेगइए लभेजा, अत्थेगइए णो  
लभेजा ? गोयमा ! जस्स णं रयणप्पभापुढविणेरइयस्स तित्थगरणाम-गोयाहं कम्माइं १०  
बद्धाइं पुड्डाइं कडाइं पड्डवियाहं णिविड्डाइं अभिनिविड्डाइं अभिसमण्णागयाहं उदिण्णाइं  
णो उवसंताइं भवंति से णं रयणप्पभापुढविणेरइए रयणप्पभापुढविणेरइएहिंतो १५  
अणंतरं उच्चाङ्गिता तित्थगरतं लभेजा, जस्स णं रयणप्पभापुढविणेरइयस्स  
तित्थगरणाम-गोयाहं णो बद्धाइं जाव णो उदिण्णाइं उवसंताइं भवंति से णं  
रयणप्पभापुढविणेरइएहिंतो अणंतरं उच्चाङ्गिता तित्थगरतं णो लभेजा, सेतेणद्वेण  
गोयमा ! एवं बुच्चइ अत्थेगइए लभेजा अत्थेगइए णो लभेजा ।

१४४५. एवं जाव वालुयप्पभापुढविणेरइएहिंतो तित्थगरतं लभेजा । १५

१४४६. पंकप्पभापुढविणेरइए णं भंते ! पंकप्पभापुढविणेरइएहिंतो  
अणंतरं उच्चाङ्गिता तित्थगरतं लभेजा ? गोयमा ! णो इणडे समडे, अंतकिरियं  
पुण करेजा ।

१४४७. धूमप्पभापुढविणेरइए णं ० पुच्छा । गोयमा ! णो इणडे समडे,  
विरतिं पुण लभेजा । २०

१४४८. तंमापुढविणेरइए णं ० पुच्छा । गोयमा ! णो इणडे समडे,  
विरयाविरयं पुण लभेजा ।

१४४९. अहेसत्तमाए ० पुच्छा । गोयमा ! णो इणडे समडे, सम्मतं  
पुण लभेजा ।

१४५०. असुरकुमारे णं ० पुच्छा । गोयमा ! णो इणडे समडे, अंतकिरियं २५  
पुण करेजा ।

१. तसा० पुच्छा जे० पु२ ॥ २. °विरतिं पुण प० पु२ मु० ॥ ३. °कुमारा णं जे० ध० प्र० ॥

१४५१. एवं निरंतरं जाव आउक्काइए ।

१४५२. तेउक्काइए णं भंते ! तेउक्काइएहिंतो अणंतरं उब्बहिता उवज्जेज्जा (‘ता तिथगरत्तं लभेज्जा) ? गोयमा ! णो इण्डे समडे, केवलिपण्णतं धमं लभेज्जा सवणयाए ।

६. १४५३. एवं वाउक्काइए वि ।

१४५४. वणफङ्काइए णं ० पुच्छा । गोयमा ! णो इण्डे समडे, अंतकिरियं पुण करेज्जा ।

१४५५. वैइंदिय-तेइंदिय-चउरिदिग् णं ० पुच्छा । गोयमा ! णो इण्डे समडे, मणपञ्जवणाणं पुण उप्पाडेज्जा ।

२० १४५६. पंचेंदियतिरिक्खजोणिय-मणूस-वाणमंतर-जोइसिए णं ० पुच्छा । गोयमा ! णो इण्डे समडे, अंतकिरियं पुण करेज्जा ।

१४५७. सोहम्मगदेवे णं भंते ! अणंतरं चैं चइता तिथगरत्तं लभेज्जा ? गोयमा ! अत्थेगइए लभेज्जा, अत्थेगइए णो लभेज्जा, एवं जहा रयणप्पभापुढविणेरइग् (सु. १४४४) ।

२५ १४५८. एवं जाव सब्बडुसिद्धगंदेवे । दारं ५ ॥

[सुत्ताइ १४५९-६३. लुकुं चक्रिदारं]

१४५९. रयणप्पभापुढविणेरइए णं भंते ! अणंतरं उब्बहिता चक्रवहितं लभेज्जा ? गोयमा ! अत्थेगइए लभेज्जा, अत्थेगइए णो लभेज्जा । से केणदेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! जहा रयणप्पभापुढविणेरइयस्स तिथगरत्ते (सु. १४४४) ।

२० १४६०. सकरप्पभापुढविणेरइए अणंतरं उब्बहिता चक्रवहितं लभेज्जा ? गोयमा ! णो इण्डे समडे ।

१४६१. एवं जाव अहेसत्तमापुढविणेरइए ।

१४६२. तिरिय-मणुएहितो पुच्छा । गोयमा ! णो इण्डे समडे ।

१४६३. भवणवइ-वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएहितो पुच्छा । गोयमा !

२५ अत्थेगइए लभेज्जा, अत्थेगइए णो लभेज्जा । दारं ६ ॥

१. चयं च० पु२ सु० ॥ २. °गदेवत्ते । जे० । °गदेवाणं । म० प्र० । °गदेवा । पु२स० ॥  
३. °णेरड्पुति० म० ॥

## [सुत्तं १४६४. सत्तमं बलदारं]

१४६४. एवं बलदेवतं पि । णवरं सक्षरप्पभापुढविणेरइए वि  
लभेजा । दारं ७ ॥

## [सुत्तं १४६५. अदुमं वासुदेवदारं]

१४६५. एवं वासुदेवतं दोहिंतो पुढवीहिंतो वेमाणिएहिंतो य अणुत्तरोव- ५  
वातियवज्जेहिंतो, सेसेसु णो इणडे समडे । दारं ८ ॥

## [सुत्तं १४६६. नवमं मंडलियदारं]

१४६६. मंडलियतं अहेसत्तमा-तेउ-वाउवज्जेहिंतो । दारं ९ ॥

## [सुत्तं १४६७-६९. दसमं रथणदारं]

१४६७. सेणावइरयणतं गाहावइरयणतं वङ्मुइरयणतं पुरोहियरयणतं १०  
इत्थिरयणतं च एवं चेव, णवरं अणुत्तरोववाइयवज्जेहिंतो ।

१४६८. आसरयणतं हत्थिरयणतं च रथणप्पभाओ णिरंतरं जाव  
सहस्सारो अथेगइए लभेजा, अथेगइए णो लभेजा ।

१४६९. चक्ररयणतं छत्तरयणतं चम्मरयणतं दंडरयणतं असिरयणतं १५  
मणिरयणतं कागिणिरयणतं एतेसि णं असुरकुमारेहिंतो आरद्दं निरंतरं जाव  
ईसाणेहिंतो उववातो, सेसेहिंतो णो इणडे समडे । दारं १० ॥

## [सुत्तं १४७०. भवियदब्बदेवउववायपरूपणं]

१४७०. अह भंते ! असंजयभवियदब्बदेवाणं अविराहियसंजमाणं  
विराहियसंजमाणं अविराहियसंजमाणं विराहियसंजमाणं असण्णीणं २०  
तावसाणं कंदप्पियाणं चरग-परिब्वायगाणं किब्बिसियाणं तिरिच्छियाणं आजी-  
वियाणं आभिओगियाणं सलिंगीणं दंसणवावैण्णगाणं देवलोगेसु उववज्जमाणाणं  
कस्स कहिं उववाओ पण्णतो ? गोयमा ! असंजयभवियदब्बदेवाणं जहण्णेणं  
भवणवासीसु उक्कोसेणं उवरिमगेवेजगेसु, अविराहियसंजमाणं जहण्णेणं सोहम्मे  
कापे उक्कोसेणं सब्बडुसिर्द्वे, विराहियसंजमाणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं

५ सोहमे कप्ये, अविराहियसंजमासंजमाणं जहणेणं सोहमे कप्ये उक्षोसेणं अच्छुए  
कप्ये, विराहियसंजमासंजमाणं जहणेणं भवणवासीसु उक्षोसेणं जोइसिएसु,  
असणीणं जहणेणं भवणवासीसु उक्षोसेणं वाणमंतरेसु, तावसाणं जहणेणं  
भवणवासीसु उक्षोसेणं जोइसिएसु, कंदपियाणं जहणेणं भवणनासीसु उक्षोसेणं  
६ सोहमे कप्ये, चरग-परिव्यायगाणं जहणेणं भवणवासीसु उक्षोसेणं वंभलोए कप्ये,  
किविसियाणं जहणेणं सोहमे कप्ये उक्षोसेणं लंतए कप्ये, तंरिच्छियाणं जहणेणं  
भवणवासीसु उक्षोसेणं सहस्सरे कप्ये, आजीवियाणं जहणेणं भवणवासीसु  
उक्षोसेणं अच्छुए कप्ये, एवं आभियोगाण वि, सलिंगीणं द्रूषणवावण्णगाणं  
जहणेणं भवणवासीसु उक्षोसेणं उवरिमगेवेजाएसु ।

१०

[ सुत्ताइँ १४७१-७३, असणिआउयपरुवणं ]

१४७१. कतिविहे णं भंते ! असणिआउए पणते ? गोयमा !  
चउव्विहे असणिआउए पणते । तं जहा-णेरइयअसणिआउए जाव  
देवअसणिआउए ।

७६ १४७२. असणी णं भंते ! जीवे किं णेरइयाउयं पकरेति जाव देवाउयं  
पकरेति ? गोयमा ! णेरइयाउयं पकरेति जाव देवाउयं पकरेति, णेरइयाउयं  
पकरेमाणे जहणेणं दस वाससहस्राइ उक्षोसेणं पलिओवमस्स असंखेजइभागं  
पकरेति, तिरिक्खजोणियाउयं पकरेमाणे जहणेणं अंतोमुहुत्तं उक्षोरोणं  
पलिओवमस्स असंखेजइभागं पकरेति, एवं मणुयाउयं पि, देवाउयं जहा  
णेरइयाउयं ।

१४७३. एयस्स णं भंते ! णेरइयअसणिआउयस्स जाव देवअसणि-  
आउयस्स य क्लरे कतरेहिंतो अप्या वा ४ ? गोयमा ! सब्बत्थेवे देवअसणिआ-  
उए, मणुयअसणिआउए असंखेजगुणे, तिरिक्खजोणियअसणिआउए  
असंखेजगुणे, नेरइयअसन्निआउए असंखिजगुणे ।

॥ पणवणाए भगवतीए वीसहमं अंतकिरियापयं समत्तं ॥

## २१. एगवीसइमं ओगाहणसंठाणपयं

[सुत्तं १४७४, एगवीसइमपयस्स अत्थाहिगारपरम्परणं]

१४७४. विहि १ संठाण २ पमांण ३

पोगलचिणणा ४ सरीरसंजोगो ५ ।

दब्ब-पएसप्पबहुं ६ सरीरओगाहणप्पबहुं ७ ॥ २१४ ॥

[सुत्ताइं १४७५-१५५२, १-३ विहि-संठाण-पमाणदाशाइं]

१४७५. कति णं भंते ! सरीरया पण्णता ? गोयमा ! पंच सरीरया पण्णता । तं जहा—ओरालिए १ वेउव्विए २ आहारए ३ तेयए ४ कम्मए ५ ।

[सुत्ताइं १४७६-८७, ओरालियसरीरे विहिदारं]

१४७६. ओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे १० पण्णते । तं जहा—एगिंदियओरालियसरीरे जाव पंचेंदियओरालियसरीरे ।

१४७७. एगिंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णते । तं जहा—पुढविक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे जाव वणप्फङ्काइय-एगिंदियओरालियसरीरे ।

१४७८. [१] पुढविक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे १५ पण्णते ? गोयमा ! दुविहे पण्णते । तं जहा—सुहुमपुढविक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे य बादरपुढविक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे य ।

[२] सुहुमपुढविक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! दुविहे पण्णते । तं जहा—पज्जतगसुहुमपुढविक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे य अपज्जतगसुहुमपुढविक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे य ।

[३] बादरपुढविक्काइया वि एवं चेव ।

१४७९. एवं जाव वणस्सइकाइयएगिंदियओरालिय ति ।

१४८०. बेझंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! दुविहे पण्णते । तं जहा—पज्जतबेझंदियओरालियसरीरे य अपज्जतबेझंदियओरालियसरीरे य ।

१. पमागे हारिवृत्ति-मलयवृत्तिगतसूत्रपाठावतरणे, हारिवृत्तिप्रत्यन्तरे पुन पमाण डति पाठोऽध्युपलभ्यते ॥

१४८१. एवं तेऽदिय-चउर्णिदिया वि ।

१४८२. पञ्चेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कइविहे पणते ? गोयमा ! दुविहे पणते । तं जहा-तिरिक्खपञ्चेंदियओरालियसरीरे य मणुस्सपञ्चेंदियओरालियसरीरे य ।

५ १४८३. तिरिक्खजोणियपञ्चेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पणते ? गोयमा ! तिविहे पणते । तं जहा-जलयरतिरिक्खजोणियपञ्चेंदिय-ओरालियसरीरे य १ थलयरतिरिक्खजोणियपञ्चेंदियओरालियसरीरे य २ खहयर-तिरिक्खजोणियपञ्चेंदियओरालियसरीरे य ३ ।

१४८४. [१] जलयरतिरिक्खजोणियपञ्चेंदियओरालियसरीरे णं भंते !  
१० कतिविहे पणते ? गोयमा ! दुविहे पणते । तं जहा-समुच्छमजलयर-तिरिक्खजोणियपञ्चेंदियओरालियसरीरे य गव्मवक्षंतियजलयरतिरिक्खजोणियपञ्चें-  
१५ दियओरालियसरीरे य ।

[२] समुच्छमजलयरतिरिक्खजोणियपञ्चेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पणते ? गोयमा ! दुविहे पणते । तं जहा-पज्जत्तगसमुच्छमतिरिक्ख-  
२० जोणियपञ्चेंदियओरालियसरीरे य अपज्जत्तगसमुच्छमतिरिक्खजोणियपञ्चेंदियओरा-  
लियसरीरे य ।

[३] एवं गव्मवक्षंतिए वि ।

१४८५. [१] थलयरतिरिक्खजोणियपञ्चेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पणते ? गोयमा ! दुविहे पणते । तं जहा-चउप्पथलयरतिरिक्ख-  
२० जोणियपञ्चेंदियओरालियसरीरे य परिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपञ्चेंदियओरालिय-  
सरीरे य ।

[२] चउप्पथलयरतिरिक्खजोणियपञ्चेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पणते ? गोयमा ! दुविहे पणते । तं जहा-समुच्छमचउप्पथलय-  
२५ रतिरिक्खजोणियपञ्चेंदियओरालियसरीरे य गव्मवक्षंतियचउप्पथलयरतिरिक्खजो-  
णियपञ्चेंदियओरालियसरीरे य ।

[३] समुच्छमचउप्पथलयरतिरिक्खजोणियपञ्चेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कइविहे पणते ? गोयमा ! दुविहे पणते । तं जहा-पज्जत्तसमुच्छम-  
चउप्पथलयरतिरिक्खजोणियपञ्चेंदियओरालियसरीरे य अपज्जत्तसमुच्छमचउप्पथ-  
यलयरतिरिक्खजोणियपञ्चेंदियओरालियसरीरे य ।

[४] एवं गब्भवक्षंतिए वि ।

[५] परिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! दुविहे पण्णते । तं जहा—उरपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य भुयपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदिय-ओरालियसरीरे य ।

६

[६] उरपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! दुविहे पण्णते । तं जहा—सम्मुच्छिमउरपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य गब्भवक्षंतियउरपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य ।

[७] सम्मुच्छिमे दुविहे पण्णते । तं जहा—अपज्ञत्तसम्मुच्छिमउरपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य पज्ञत्तसम्मुच्छिमउरपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य ।

१०

[८] एवं गब्भवक्षंतियउरपरिसाप्चउक्कओ भेदो ।

[९] एवं भुयपरिसप्पा वि सम्मुच्छिम-गब्भवक्षंतिय-पज्ञत्त-अपज्ञता ।

१४८६. [१] खहयरा दुविहा पण्णता । तं जहा—सम्मुच्छिमा य गब्भवक्षंतिया य ।

[२] सम्मुच्छिमा दुविहा पण्णता । तं जहा—पज्ञता य अपज्ञता य ।

[३] गब्भवक्षंतिया वि पज्ञता य अपज्ञता य ।

१४८७. [१] मणूसपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! दुविहे पण्णते । तं जहा—सम्मुच्छिममणूसपंचेंदियओरालियसरीरे य गब्भवक्षंतियमणूसपंचेंदियओरालियसरीरे य ।

२०

[२] गब्भवक्षंतियमणूसपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! दुविहे पण्णते । तं जहा—पज्ञत्तगगब्भवक्षंतियमणूसपंचेंदिय-ओरालियसरीरे य अपज्ञत्तगगब्भवक्षंतियमणूसपंचेंदियओरालियसरीरे य ।

[सुत्ताइँ १४८८-१५०१. ओरालियसरीरे संठाणदारं ]

२५

१४८८. ओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठिए पण्णते ? गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए पण्णते ।

१४८९. एगिदियओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठिए पण्णते ? गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए पण्णते ।

१४९०. [१] पुढविकाइयएगिंदियओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठाण-  
संठिए पण्णते ? गोयमा ! मंसूरचंदसंठाणसंठिए पण्णते ।

[२] एवं सुहुमपुढविकाइयाण वि ।

[३] बायराण वि एवं चेव ।

६ [४] पज्जतापज्जताण वि एवं चेव ।

१४९१. [१] आउक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठाण-  
संठिए पण्णते ? गोयमा ! थिबुगबिंदुसंठाणसंठिए पण्णते ।

[२] एवं सुहुम-बायर-पज्जतापज्जताण वि ।

१४९२. [१] तेउक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठाण-  
१० संठिए पण्णते ? गोयमा ! सूईकलावसंठाणसंठिए पण्णते ।

[२] एवं सुहुम-बायर-पज्जतापज्जताण वि ।

१४९३. [१] वाउक्काइयाणं पडागासंठाणसंठिए पण्णते ।

[२] एवं सुहुम-बायर-पज्जतापज्जताण वि ।

१४९४. [१] वणफङ्काइयाणं णाणासंठाणसंठिए पण्णते ।

१५ [२] एवं सुहुम-बायर-पज्जतापज्जताण वि ।

१४९५. [१] बेइंदियओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठाणसंठिए  
पण्णते ? गोयमा ! हुंडसंठाणसंठिए पण्णते ।

[२] एवं पज्जतापज्जताण वि ।

१४९६. एवं तेइंदिय-चउर्रिदियाण वि ।

२० १४९७. [१] तिरिक्खजोणियपंचेदियओरालियसरीरे णं भंते !  
किंसंठाणसंठिए पण्णते ? गोयमा ! छविहसंठाणसंठिए पण्णते । तं जहा-सम-  
चउरंससंठाणसंठिए जाव हुंडसंठाणसंठिए वि । एवं पज्जताऽपज्जताण वि ३ ।

[२] सम्मुच्छमतिरिक्खजोणियपंचेदियओरालियसरीरे णं भंते !

२५ किंसंठाणसंठिए पण्णते ? गोयमा ! हुंडसंठाणसंठिए पण्णते । एवं पज्जतापज्जताण  
वि ३ ।

[३] गब्बवकंतियतिरिक्खजोणियपंचेदियओरालियसरीरे णं भंते ! किं-  
संठाणसंठिए पण्णते ? गोयमा ! छविहसंठाणसंठिए पण्णते । तं जहा-सम-

<sup>१</sup> सर्वेष्वप्यादशेषु मसूराचंद्र० इति पाठ उपलभ्यते ॥

चउरंसे जाव हुंडसंठाणसंठिए । एवं पज्जतापज्जताण वि ३ । एवमेते तिरिक्ख-  
जोणियाणं ओहियाणं णव आलावगा ।

१४९८. [१] जलयरतिरिक्खजोणियपंचेदियओरालियसरीरे णं भंते !  
किंसंठाणसंठिए पण्णते ? गोयमा ! छब्बिहसंठाणसंठिए पण्णते । तं जहा-  
समचउरंसे जाव हुंडे ।

[२] एवं पज्जतापज्जताण वि ।

[३] सम्मुच्छिमजलयरा हुंडसंठाणसंठिया । एतेसिं चैव पज्जतापज्जतगा  
वि एवं चैव ।

[४] गब्बवक्कंतियजलयरा छब्बिहसंठाणसंठिया । एवं पज्जतापज्जतगा वि ।

१४९९. [१] एवं थलयराण वि णव सुत्ताणि ।

[२] एवं चउप्पथलयराण वि उरपरिसप्पथलयराण वि मुयपरिसप्प-  
थलयराण वि ।

१५००. एवं खहयराण वि णव सुत्ताणि । णवरं सव्वत्थ सम्मुच्छिमा  
हुंडसंठाणसंठिया भाणियव्वा, इयरे छसु वि ।

१५०१. [१] मणूसपंचेदियओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठाणसंठिए १५  
पण्णते ? गोयमा ! छब्बिहसंठाणसंठिए पण्णते । तं जहा-समचउरंसे जाव हुंडे ।

[२] पज्जतापज्जताण वि एवं चैव ।

[३] गब्बवक्कंतियाण वि एवं चैव । पज्जताऽपज्जतगाण वि एवं चैव ।

[४] सम्मुच्छिमाणं पुच्छा । गोयमा ! हुंडसंठाणसंठिया पण्णता ।

[सुत्ताइँ १५०२-१३. ओरालियसरीरे पमाणदारं]

१५०२. ओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णता ?  
गोयमा ! जहणेणं अंगुलस्स असंखेज्जभागं, उक्कोसेणं सातिरेगं जोयणसहस्सं ।

१५०३. एगिंदियओरालियस्स वि एवं चैव जहा ओहियस्स  
(मु. १५०२) ।

१५०४. [१] पुढविक्काइयएगिंदियओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहा- २५  
लिया पुच्छा । गोयमा ! जहणेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जभागं ।

[२] एवं अपज्जतयाण वि पज्जतयाण वि ।

[३] एवं सुहुमाण वि पञ्चतापञ्चताणं ।

[४] वादराणं पञ्चतापञ्चताण वि एवं । एसो णवओ भेदो ।

१५०५. जहा पुढविक्काइयाणं तहा आउक्काइयाण वि तेउक्काइयाण वि वाउक्काइयाण वि ।

६ १५०६. [१] वणस्सइक्काइयओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पणता ? गोयमा ! जहणेण अंगुलस्स असंखेज्जभागं, उक्कोसेण सातिरेण जोयणसहस्रं ।

[२] अपञ्चताणं जहणेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जभागं ।

१० [३] पञ्चताणं जहणेण अंगुलस्स असंखेज्जभागं, उक्कोसेण सातिरेण जोयणसहस्रं ।

[४] वादराणं जहणेण अंगुलस्स असंखेज्जभागं, उक्कोसेण सातिरेण जोयणसहस्रं । पञ्चताण वि एवं चेव । अपञ्चताणं जहणेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जभागं ।

१५०७. [५] सुहुमाणं पञ्चतापञ्चताण य तिष्ठ वि जहणेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जभाग ।

१५०८. [१] वेइंदियओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पणता ? गोयमा ! जहणेण अंगुलस्स असंखेज्जभागं, उक्कोसेण वारस जोयणाइ ।

[२] एवं सब्वत्थ वि अपञ्चतयाणं अंगुलस्स असंखेज्जभागं जहणेण वि उक्कोसेण वि ।

२० [३] पञ्चतयाणं जहेव ओरालियस्स ओहियस्स (सु. १५०२) ।

१५०८. एवं तेइंदियाणं तिष्णि गाउयाइं, चउरिंदियाणं चत्तारि गाउयाइं ।

१५०९. पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं उक्कोसेण जोयणसहस्रं ३, एवं समुच्छिमाणं ३, गव्भवक्षंतियाण वि ३ । एवं चेव णवओ भेदो भाणियव्वो ।

२५ १५१०. एवं जलयराण वि जोयणसहस्रं, णवओ भेदो ।

१५११. [१] थलयराण वि णवओ भेदो <sup>१३</sup> उक्कोसेण छगाउयाइं,

१. णवओ भेदो भाणियव्वो, उक्को<sup>०</sup> ध० ॥ २. सर्वेष्वपि सूत्रादर्शैपूपलभ्यमान  $\triangle \square$  एतच्चि-  
हान्तर्गत पाठोऽसङ्गत आभाति, दीक्षायामस्य पाठस्य व्याख्या न वर्तते, नोपलभ्यते चायं पाठः  
श्रीजीवविजयगणिकृतस्तवके ॥

पज्जत्ताण वि एवं चेव ३ । सम्मुच्छिमाणं पज्जत्ताण य उक्कोसेणं गाउयपुहत्तं । गब्बवक्कंतियाणं उक्कोसेणं छग्गाउयाइं पज्जत्ताण य २ । ▷ ओहियचउप्यपज्जत्य-गब्बवक्कंतियपज्जत्याण य उक्कोसेणं छग्गाउयाइं । सम्मुच्छिमाणं पज्जत्ताण य गाउयपुहत्तं उक्कोसेणं ।

[२] एवं उरपरिसप्पाण वि ओहिय-गब्बवक्कंतियपज्जत्याणं जोयणसहस्रं ५  
सम्मुच्छिमाणं जोयणपुहत्तं ।

[३] भुयपरिसप्पाणं ओहियगब्बवक्कंतियाण य उक्कोसेणं गाउयपुहत्तं ।  
सम्मुच्छिमाणं धणुपुहत्तं ।

१५१२. खहयराणं ओहिय-गब्बवक्कंतियाणं सम्मुच्छिमाण य तिष्ठ वि  
उक्कोसेणं धणुपुहत्तं । इमाओ संगहणिगाहाओ—  
१०

जोयणसहस्रस छग्गाउयाइं तत्तो य जोयणसहस्रं ।

गाउयपुहत्तं भुयए धणुपुहत्तं च पक्खीसु ॥ २१५ ॥

जोयणसहस्रस गाउयपुहत्तं तत्तो य जोयणपुहत्तं ।

दोण्हं तु धणुपुहत्तं सम्मुच्छिमे होति उच्चतं ॥ २१६ ॥

१५१३. [१] मणुस्सोरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरो-  
गाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं  
तिण्णि गाउयाइं ।  
१५

[२] अपज्जत्ताणं जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जइभागं ।

[३] सम्मुच्छिमाणं जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जइभागं ।

[४] गब्बवक्कंतियाणं पज्जत्ताण य जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जइभागं,  
उक्कोसेणं तिण्णि गाउयाइं ।  
२०

[सुत्ताइं १५१४-२०. वेउच्चियसरीरे विहिदारं]

१५१४. वेउच्चियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे  
पण्णत्ते । तं जहा—एर्गिंदियवेउच्चियसरीरे य पंचेंदियवेउच्चियसरीरे य ।

१५१५. [१] जदि एर्गिंदियवेउच्चियसरीरे किं वाउक्काइयएर्गिंदियवे-  
उच्चियसरीरे अवाउक्काइयएर्गिंदियवेउच्चियसरीरे ? [ग्रन्थाग्रम् ६०००] गोयमा !  
वाउक्काइयएर्गिंदियवेउच्चियसरीरे, णो अवाउक्काइयएर्गिंदियवेउच्चियसरीरे ।  
२५

१. ° त्ताणं एव म० पु३ ॥ २. ° माणं पज्जत्ताण य जोय ° पु२ ॥ ३. धणुपु ° म० प्र० पु३ ॥

[२] जदि वाउकाइयएगिंदियवेउव्वियसररे किं सुहुमवाउकाइयएगिं-  
दियवेउव्वियसररे वादरवाउकाइयएगिंदियवेउव्वियसररे ? गोयमा ! णो  
सुहुमवाउकाइयएगिंदियनेउव्वियसररे, वायरवाउकाइयएगिंदियवेउव्वियसररे ।

[३] जदि वादरवाउकाइयएगिंदियवेउव्वियसररे किं पज्जतवायरवाउका-  
इयएगिंदियवेउव्वियसररे अपज्जतवायरवाउकाइयएगिंदियवेउव्वियसररे ? गोयमा !  
पज्जतवादरवाउकाइयएगिंदियवेउव्वियसररे, णो अपज्जतवादरवाउकाइयएगिंदियवे-  
उव्वियसररे ।

१५१६. जदि पंचेंदियवेउव्वियसररे किं णेरइयपंचेंदियवेउव्वियसररे  
जाव किं देवपंचेंदियवेउव्वियसररे ? गोयमा ! णेरइयपंचेंदियवेउव्वियसररे वि  
१० जाव देवपंचेंदियवेउव्वियसररे वि ।

१५१७. [१] जदि णेरइयपंचेंदियवेउव्वियसररे किं रयणप्पभा-  
पुढविणेरइयपंचेंदियवेउव्वियसररे जाव किं अहेसत्तमापुढविणेरइयपंचेंदियवे-  
उव्वियसररे ? गोयमा ! रयणप्पभापुढविणेरइयपंचेंदियवेउव्वियसररे वि जाव  
अहेसत्तमापुढविणेरइयपंचेंदियवेउव्वियसररे वि ।

[२] जदि रयणप्पभापुढविणेरइयपंचेंदियवेउव्वियसररे किं पज्जत-  
गररयणप्पभापुढविणेरइयपंचेंदियवेउव्वियसररे अपज्जतगररयणप्पभापुढविणेरइयपंचें-  
दियवेउव्वियसररे ? गोयमा ! पज्जतगररयणप्पभापुढविणेरइयपंचेंदियवेउव्वियसररे  
वि अपज्जतगररयणप्पभापुढविणेरइयपंचेंदियवेउव्वियसररे वि ।

[३] एवं जाव अहेसत्तमाए दुँगतो भेदो णेयव्वो ।

१५१८. [१] जदि तिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसररे किं सम्मु-  
च्छमतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसररे गव्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदिय-  
वेउव्वियसररे ? गोयमा ! णो सम्मुच्छमतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसररे,  
गव्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसररे ।

[२] जदि गव्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसररे किं संखे-  
२५ जवासाउयगव्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसररे असंखेजवासाउयग-  
व्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसररे ? गोयमा ! संखेजवासाउय-  
गव्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसररे, णो असंखेजवासाउयगव्भवक्कं-  
तियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसररे ।

[३] जदि संखेजवासाउयगब्भवक्षंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्विय-  
सरीरे किं पञ्जत्तगसंखेजवासाउयगब्भवक्षंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे  
अपञ्जत्तगसंखेजवासाउयगब्भवक्षंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे ? गो-  
यमा ! पञ्जत्तगसंखेजवासाउयगब्भवक्षंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे,  
णो अपञ्जत्तगसंखेजवासाउयगब्भवक्षंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे ।

[४] जदि संखेजवासाउयगब्भवक्षंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्विय-  
सरीरे किं जलयरसंखेजवासाउयगब्भवक्षंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे  
थलयरसंखेजवासाउयगब्भवक्षंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे खहयर-  
संखेजवासाउयगब्भवक्षंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा !  
जलयरसंखेजवासाउयगब्भवक्षंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे वि थलयर-  
संखेजवासाउयगब्भवक्षंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे वि खहयरसंखेज-  
वासाउयगब्भवक्षंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे वि ।

[५] जदि जलयरसंखेजवासाउयगब्भवक्षंतियतिरिक्खजोणियपंचेदियवे-उव्वियसरीरे किं पज्जत्तगजलयरसंखेजवासाउयगब्भवक्षंतियतिरिक्खजोणियपंचेदि-यवेउव्वियसरीरे अपज्जत्तगजलयरसंखेजवासाउयगब्भवक्षंतियतिरिक्खजोणियपंचेदि-यवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! पज्जत्तगजलयरसंखेजवासाउयगब्भवक्षंतियतिरिक्ख-जोणियपंचेदियवेउव्वियसरीरे, णो अपज्जत्तगजलयरसंखेजवासाउयगब्भवक्षंतियति-रिक्खजोणियपंचेदियवेउव्वियसरीरे ।

[६] जदि थलयरसंखेजवासाउयगब्मवक्षंतियतिरिक्खजोणियपंचेदिय जाव सररे किं चउप्पय जाव सररे परिसप्प जाव सररे ? गोयमा ! चउप्पय जाव २० सररे वि परिसप्प जाव सररे वि ।

[७] एवं संव्वेसिं णेयं जाव खहयराणं पजत्ताणं, णो अपजत्ताणं ।

१५१९. [१] जदि मणूसपंचेदियवेउव्वियसरीरे किं समुच्छिममणूस-  
पंचेदियवेउव्वियसरीरे गब्बवक्षंतियमणूसपंचेदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! णो  
समुच्छिममणूसपंचेदियवेउव्वियसरीरे, गब्बवक्षंतियमणूसपंचेदियवेउव्वियसरीरे । २५

[२] जदि गब्भवक्षंतियमणूसपंचेदियवेउव्वियसरीरे किं कम्मभूमगगब्भ-  
वक्षंतियमणूसपंचेदियवेउव्वियसरीरे अकम्मभूमगगब्भवक्षंतियमणूसपंचेदियवेउव्वि-  
यसरीरे अंतरदीवयगब्भवक्षंतियमणूसपंचेदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! कम्मभू-

मगगवभवक्तियमणूसपंचेदियवेउव्वियसररे, णो अकम्मभूमगगवभवक्तियमणूस-  
पंचेदियवेउव्वियसररे नो अंतरदीवयगवभवक्तियमणूसपंचेदियवेउव्वियसररे य ।

[३] जदि कम्मभूमगगवभवक्तियमणूसपंचेदियवेउव्वियसररे किं  
संखेजवासाउयकम्मभूमगगवभवक्तियमणूसपंचेदियवेउव्वियसररे असंखेजवासा-  
५ उयकम्मभूमगगवभवक्तियमणूसपंचेदियवेउव्वियसररे ? गोयमा ! संखेजवासा-  
उयकम्मभूमगगवभवक्तियमणूसपंचेदियवेउव्वियसररे, णो असंखेजवासाउयकम्म-  
भूमगगवभवक्तियमणूसपंचेदियवेउव्वियसररे ।

[४] जदि संखेजवासाउयकम्मभूमगगवभवक्तियमणूसपंचेदियवेउव्विय-  
सररे किं पञ्चतगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगवभवक्तियमणूसपंचेदियवेउव्वियसररे  
१० अपञ्चतगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगवभवक्तियमणूसपंचेदियवेउव्वियसररे ? गोय-  
मा ! पञ्चतगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगवभवक्तियमणूसपंचेदियवेउव्वियसररे,  
णो अपञ्चतगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगवभवक्तियमणूसपंचेदियवेउव्वियसररे ।

१५२०. [१] जदि देवपंचेदियवेउव्वियसररे किं भवणवासिदेवपंचें-  
दियवेउव्वियसररे जाव वेमाणियदेवपंचेदियवेउव्वियसररे ? गोयमा ! भवण-  
वासिदेवपंचेदियवेउव्वियसररे वि जाव वेमाणियदेवपंचेदियवेउव्वियसररे वि ।

[२] जदि भवणवासिदेवपंचेदियवेउव्वियसररे किं असुरकुमारभवणवासि-  
देवपंचेदियवेउव्वियसररे जाव थणियकुमारभवणवासिदेवपंचेदियवेउव्वियसररे ?  
गोयमा ! असुरकुमार० जाव थणियकुमारभवणवासिदेवपंचेदियवेउव्वियसररे वि ।

[३] जदि असुरकुमारभवणवासिदेवपंचेदियवेउव्वियसररे किं पञ्चतग-  
२० असुरकुमारभवणवासिदेवपंचेदियवेउव्वियसररे अपञ्चतगअसुरकुमारभवणवासिदेव-  
पंचेदियवेउव्वियसररे ? गोयमा ! पञ्चतगअसुरकुमारभवणवासिदेवपंचेदियवे-  
उव्वियसररे वि अपञ्चतगअसुरकुमारभवणवासिदेवपंचेदियवेउव्वियसररे वि ।  
एवं जाव थणियकुमारे वि ण दुगओ भेदो ।

[४] एवं वाणमंतराणं अहुविहाणं, जोइसियाणं पंचविहाणं ।

२५ [५] वेमाणिया दुविहा-कप्पोवगा कापातीता य । कप्पोवगा वारसविहा,  
तेसि पि एवं चेव दुगतो भेदो । कापातीता दुविहा-गेवेजगा य अणुत्तरा य ।  
गेवेजगा णवविहा, अणुत्तरोववाइया पंचविहा, एतेसि पञ्चतापञ्चताभिलवेणं  
दुगतो भेदो ।

[सुत्ताइं १५२१-२६. वेउव्वियसरीरे संठाणदारं]

१५२१. वेउव्वियसरीरे णं भंते ! किंसंठिए पण्णते ? गोयमा ! णाणा-  
संठाणसंठिए पण्णते ।

१५२२. वाउक्काइयएर्गिदियवेउव्वियसरीरे णं भंते ! किंसंठिए पण्णते ?  
गोयमा ! पडागासंठाणसंठिए पण्णते ।

१५२३. [१] णेरइयपंचेंदियवेउव्वियसरीरे णं भंते ! किंसंठिए पण्णते ?  
गोयमा ! णेरइयपंचेंदियवेउव्वियसरीरे दुविहे पण्णते । तं जहा-भवधारणिजे य  
उत्तरवेउव्विए य । तथ्य णं जे से भवधारणिजे से हुंडसंठाणसंठिए पण्णते । तथ्य णं  
जे से उत्तरवेउव्विए से वि हुंडसंठाणसंठिए पण्णते ।

[२] र्यणाप्पभापुढविणेरइयपंचेंदियवेउव्वियसरीरे णं भंते ! किंसंठाण-  
संठिए पण्णते ? गोयमा ! र्यणप्पभापुढविणेरइयाणं दुविहे सरीरे पण्णते । तं  
जहा-भवधारणिजे य उत्तरवेउव्विए य । तथ्य णं जे से भवधारणिजे से वि हुंडे,  
जे वि उत्तरवेउव्विए से वि हुंडे । एवं जाव अहेसत्तमापुढविणेरइयवेउव्वियसरीरे ।

१५२४. [१] तिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे णं भंते !  
किंसंठाणसंठिए पण्णते ? गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए पण्णते ।

[२] एवं जल्यर-थल्यर-खहयराण वि । थल्यराण चउप्प्य-परिसप्पाण  
वि । परिसप्पाण उरपरिसाप-भुयपरिसप्पाण वि ।

१५२५. एवं मणूसुपंचेंदियवेउव्वियसरीरे वि ।

१५२६. [१] असुरकुमारभवणवासिदेवपंचेंदियवेउव्वियसरीरे णं भंते !  
किंसंठिए पण्णते ? गोयमा ! असुरकुमाराणं देवाणं दुविहे सरीरे पण्णते । तं २०  
जहा-भवधारणिजे य उत्तरवेउव्विए य । तथ्य णं जे से भवधारणिजे से णं  
समचउरंसंठाणसंठिए पण्णते । तथ्य णं जे से उत्तरवेउव्विए से णं णाणासंठाण-  
संठिए पण्णते ।

[२] एवं जाव थणियकुमारदेवपंचेंदियवेउव्वियसरीरे ।

[३] एवं वाणमंतराण वि । णवरं ओहिया वाणमंतरा पुच्छिजंति ।

[४] एवं जोइसियाण वि ओहियाणं ।

[५] एवं सोहम्म जाव अच्चुयदेवसरीरे ।

[६] गेवेज्जगकप्पातीयवेमाणियदेवपंचेंदियवेउव्वियसरीरे णं भंते !

किंसंठिए पण्ठते ? गोयमा ! गेवेजगदेवाणं एगे भवधारणिजे सरीए, से णं समचउरंसंठाणसंठिए पण्ठते ।

[७] एवं अणुतरोववातियाण वि ।

[सुत्ताइ १५२७-३२. वेउव्वियसरीरे पमाणदारं]

६ १५२७. वेउव्वियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्ठता ? गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेण सातिरें जोयणसतसहस्सं ।

१५२८. वाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्ठता ? गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्को-सेण वि अंगुलस्स असंखेजइभागं ।

१० १५२९. [१] ऐरइयपंचेदियवेउव्वियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्ठता ? गोयमा ! दुविहा पण्ठता । तं जहा-भवधारणिज्ञा य उत्तरवेउव्विया य । तथ्य णं जा सा भवधारणिज्ञा सा जहण्णेण अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेण पंचधणुसयाइं । तथ्य णं जा सा उत्तरवेउव्विया सा जहण्णेण अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेण धणुसहस्सं ।

१५ [२] रयणप्पभापुढविणेरइयाणं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्ठता ? गोयमा ! दुविहा पण्ठता । तं जहा-भवधारणिज्ञा य उत्तरवेउव्विया य । तथ्य णं जा सा भवधारणिज्ञा सा जहण्णेण अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेण सत्त धणूङ्ँ तिणिण रयणीओ छच अंगुलाइं । तथ्य णं जा सा उत्तरवेउव्विया सा जहण्णेण अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेण पण्णरस धणूङ्ँ अडूइज्जाओ रयणीओ ।

२० [३] सक्करप्पभाए पुच्छा । गोयमा ! जाव तथ्य णं जा सा भवधार-णिज्ञा सा जहण्णेण अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेण पण्णरस धणूङ्ँ अडूइज्जाओ रयणीओ । तथ्य णं जा सा उत्तरवेउव्विया सा जहण्णेण अंगुलस्स संखेजइ-भागं, उक्कोसेण एक्तीसं धणूङ्ँ एक्का य रयणी ।

२५ [४] वालुयप्पभाए भवधारणिज्ञा एक्तीसं धणूङ्ँ एक्का य रयणी, उत्तरवेउव्विया वाविंध धणूङ्ँ दोणिण य रयणीओ ।

[५] पंकप्पभाए भवधारणिज्ञा वाविंध धणूङ्ँ दोणिण य रयणीओ, उत्तरवेउव्विया पणुवीसं धणुसतं ।

[६] धूमप्पभाए भवधारणिज्ञा पणुवीसं धणुसतं, उत्तरवेउव्विया अडूइज्जाइं धणुसताइं ।

[७] तमाए भवधारणिज्ञा अडूइज्ञाइं धणुसताइं, उत्तरवेउविया पंच धणुसताइं ।

[८] अहेसत्तमाए भवधारणिज्ञा पंच धणुसताइं, उत्तरवेउविया धणुसहस्रं । एयं उक्षोसेणं ।

[९] जहणेणं भवधारणिज्ञा अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उत्तरवेउविया ५ अंगुलस्स संखेज्जइभागं ।

१५३०. तिरिक्खजोणियपंचेदियवेउवियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णता ? गोयमा ! जहणेणं अंगुलस्स संखेज्जइभागं, उक्षोसेणं जोयणसतपुहत्तं ।

१५३१. मणूसुपंचेदियवेउवियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरो- १० गाहणा पण्णता ? गोयमा ! जहणेणं अंगुलस्स संखेज्जइभागं, उक्षोसेणं सातिरेणं जोयणसतसहस्रं ।

१५३२. [१] असुरकुमारभवणवासिदेवपंचिंदियवेउवियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णता ? गोयमा ! असुरकुमाराणं देवाणं दुविहा सरीरोगाहणा पण्णता । तं जहा—भवधारणिज्ञा य उत्तरवेउविया य । तथ णं १५ जा सा भवधारणिज्ञा सा जहणेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्षोसेणं सत्त रयणीओ । तथ णं जा सा उत्तरवेउविया सा जहणेणं अंगुलस्स संखेज्जइभागं, उक्षोसेणं जोयणसतसहस्रं ।

[२] एवं जाव थणियकुमाराणं ।

[३] एवं ओहियाणं वाणमंतराणं । २०

[४] एवं जोइसियाण वि ।

[५] सोहम्मीसाणगदेवाणं एवं चेव उत्तरवेउविया जाव अञ्जुओ कप्पो । णवरं सणंकुमारे भवधारणिज्ञा जहणेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं उक्षोसेणं छ रयणीओ, एवं माहिंदे वि, बंभलोय-लंतगेसु पंच रयणीओ, महासुक्ष-सहस्सरेसु चत्तारि रयणीओ, आण्य-पाण्य-आरण-अञ्जुएसु तिण्ण रयणीओ । २५

[६] गेवेज्जगकप्पातीतवेमाणियदेवपंचेदियवेउवियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णता ? गोयमा ! गेवेज्जगदेवाणं एगा भवधारणिज्ञा सरीरोगाहणा पण्णता, सा जहणेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं उक्षोसेणं दो रयणीओ ।

[७] एवं अणुत्तरोववाइयदेवाण वि । णवरं एका रयणी ।

[सुतं १५३३, आहारगसरीरे विहिदारं]

१५३३. [१] आहारगसरीरे णं भंते ! कतिविहे पणते ? गोयमा !

एगागरे पणते ।

[२] जदि एगागरे पणते किं मणूसआहारगसरीरे अमणूसआहारग-

सरीरे ? गोयमा ! मणूसआहारगसरीरे, णो अमणूसआहारगसरीरे ।

[३] जदि मणूसआहारगसरीरे किं सम्मुच्छिमणूसआहारगसरीरे  
गव्यवक्तियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! णो सम्मुच्छिमणूसआहारगसरीरे,  
गव्यवक्तियमणूसआहारगसरीरे ।

[४] जदि गव्यवक्तियमणूसआहारगसरीरे किं कम्मभूमगगव्यवक्तिय-  
मणूसआहारगसरीरे अकम्मभूमगगव्यवक्तियमणूसआहारगसरीरे अंतरदीविगगव्य-  
वक्तियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! कम्मभूमगगव्यवक्तियमणूसआहारगसरीरे,  
णो अकम्मभूमगगव्यवक्तियमणूसआहारगसरीरे णो अंतरदीविगगव्यवक्तियमणूस-  
आहारगसरीरे ।

[५] जदि कम्मभूमगगव्यवक्तियमणूसआहारगसरीरे किं संखेजवा-  
साउयकम्मभूमगगव्यवक्तियमणूसआहारगसरीरे असंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्य-  
वक्तियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! संखेजवासाउयकम्मभूमगगव्यवक्तियमणूस-  
आहारगसरीरे, णो असंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्यवक्तियमणूसआहारगसरीरे ।

[६] जदि संखेजवासाउयकम्मभूमगगव्यवक्तियमणूसआहारगसरीरे  
किं पज्जत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्यवक्तियमणूसआहारगसरीरे अपज्जत्तग-  
संखेजवासाउयकम्मभूमगगव्यवक्तियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! पज्जत्तग-  
संखेजवासाउयकम्मभूमगगव्यवक्तियमणूसआहारगसरीरे, णो अपज्जत्तगसंखेजवा-  
साउयकम्मभूमगगव्यवक्तियमणूसआहारगसरीरे ।

[७] जदि पज्जत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्यवक्तियमणूसआहारग-  
सरीरे किं सम्मदिद्विपज्जत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्यवक्तियमणूसआहारग-  
सरीरे मिच्छदिद्विपज्जत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्यवक्तियमणूसआहारगसरीरे ?  
सम्मामिच्छदिद्विपज्जत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्यवक्तियमणूसआहारगसरीरे ?  
गोयमा ! सम्मदिद्विपज्जत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्यवक्तियमणूसआहारगसरीरे,  
णो मिच्छदिद्विपज्जत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्यवक्तियमणूसआहारगसरीरे णो  
सम्मामिच्छदिद्विपज्जत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्यवक्तियमणूसआहारगसरीरे ।

[८] जदि सम्मद्विपज्जत्तगसंखेजवासाउयकम्भूमगगब्भवक्षंतियमणूसु-  
आहारगसरीरे किं संजयसम्मद्विपज्जत्तगसंखेजवासाउयकम्भूमगगब्भवक्षंतियमणू-  
सआहारगसरीरे असंजयसम्मद्विपज्जत्तगसंखेजवासाउयकम्भूमगगब्भवक्षंतियमणू-  
पूसआहारगसरीरे संजतासंजतसम्मद्विपज्जत्तगसंखेजवासाउयकम्भूमगगब्भवक्षं-  
तियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! संजयसम्मद्विपज्जत्तगसंखेजवासाउयकम्भ-  
भूमगगब्भवक्षंतियमणूसआहारगसरीरे, णो असंजयसम्मद्विपज्जत्तगसंखेजवासा-  
उयकम्भूमगगब्भवक्षंतियमणूसआहारगसरीरे णो संजयासंजयसम्मद्विपज्जत्तग-  
संखेजवासाउयकम्भूमगगब्भवक्षंतियमणूसआहारगसरीरे ।

५

[९] जदि संजतसम्मद्विपज्जत्तगसंखेजवासाउयकम्भूमगगब्भवक्षंतिय-  
मणूसआहारगसरीरे किं पमत्तसंजयसम्मद्विपज्जत्तगसंखेजवासाउयकम्भूमगगब्भ-  
वक्षंतियमणूसआहारगसरीरे अपमत्तसंजयसम्मद्विपज्जत्तगसंखेजवासाउयकम्भूमग-  
गब्भवक्षंतियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! पमत्तसंजयसम्मद्विपज्जत्तगसंखेजवासा-  
उयकम्भूमगगब्भवक्षंतियमणूसआहारगसरीरे, णो अपमत्तसंजतसम्मद्विपज्जत्तग-  
संखेजवासाउयकम्भूमगगब्भवक्षंतियमणूसआहारगसरीरे ।

१०

[१०] जदि पमत्तसंजयसम्मद्विपज्जत्तगसंखेजवासाउयकम्भूमगगब्भ-  
वक्षंतियमणूसआहारगसरीरे किं इडुपत्तपमत्तसंजयसम्मद्विपज्जत्तगसंखेजवासाउय-  
कम्भूमगगब्भवक्षंतियमणूसआहारगसरीरे अणिडुपत्तपमत्तसंजयसम्मद्विपज्जत्तग-  
संखेजवासाउयकम्भूमगगब्भवक्षंतियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! इडुपत्तपमत्त-  
संजयसम्मद्विपज्जत्तगसंखेजवासाउयकम्भूमगगब्भवक्षंतियमणूसआहारगसरीरे, णो  
अणिडुपत्तपमत्तसंजयसम्मद्विपज्जत्तगसंखेजवासाउयकम्भूमगगब्भवक्षंतियमणूस - २०  
आहारगसरीरे ।

१५

२०

[सुन्तं १५३४. आहारगसरीरे संठाणदारं]

१५३४. आहारगसरीरे णं भंते ! किंसंठिए पण्णते ? गोयमा ! समच-  
उरंससंठाणसंठिए पण्णते ।

२५

[सुन्तं १५३५. आहारगसरीरे पमाणदारं]

१५३५. आहारगसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णता ?  
गोयमा ! जहणेण देसूणा रयणी, उक्कोसेण पडिपुण्णा रयणी ।

[सुचाइ १५३६-३९. तेयगसरीरे विहिदारं]

१५३६. तेयगसरीरे ण भंते ! कतिविहे पणत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पणत्ते ! तं जहा—एगिंदियतेयगसरीरे जाव पंचेंदियतेयगसरीरे ।

५ १५३७. एगिंदियतेयगसरीरे ण भंते ! कतिविहे पणत्ते ? गोयमा !  
पंचविहे पणत्ते ! तं जहा—पुढविकाइय जाव वणप्फइकाइयएगिंदियतेयगसरीरे ।

१५३८. एवं जहा ओरालियसरीरस्स भेदो भणिओ (सु. १४७७-८?)  
तहा तेयगस्स वि जाव चउरिदियाणं ।

१५३९. [१] पंचेंदियतेयगसरीरे ण भंते ! कतिविहे पणत्ते ? गोयमा !  
चउनिहे पणत्ते ! तं जहा—णेरइयतेयगसरीरे जाव देवतेयगसरीरे ।

<sup>१०</sup> [२] णेरइयाणं दुगतो भेदो भाणियब्बो जहा वेउन्नियसरीरे  
(सु. १५१७) ।

[३] पंचेंदियतिरिक्खजोणियाण मणूसाण य जहा ओरालियसरीरे भेदो  
भणितो (सु. १४८२-८७) तहा भाणियब्बो ।

<sup>१५</sup> [४] देवाणं जहा वेउन्नियसरीरे भेओ भणितो (सु. १५२०) तहा  
भाणियब्बो जाव सञ्चटुसिञ्चदेवे ति ।

[सुचाइ १५४०-४४. तेयगसरीरे संठाणदारं]

१५४०. तेयगसरीरे ण भंते ! किंसंठिए पणत्ते ? गोयमा ! णाणासंठाण-  
संठिए पणत्ते ।

<sup>२०</sup> १५४१. एगिंदियतेयगसरीरे ण भंते ! किंसंठिए पणत्ते ? गोयमा !  
णाणासंठाणसंठिए पणत्ते ।

१५४२. पुढविकाइयएगिंदियतेयगसरीरे ण भंते ! किंसंठिए पणत्ते ?  
गोयमा ! मसूरचंदसंठाणसंठिए पणत्ते ।

१५४३. एवं ओरालियसंठाणाणुसारेण भाणियब्बं (सु. १४९०-९६)  
जाव चउरिदियाणं ति ।

<sup>२५</sup> १५४४. [१] णेरइयाणं भंते ! तेयगसरीरे किंसंठिए पणत्ते ?  
गोयमा ! जहा वेउन्नियसरीरे (सु. १५२३) ।

[२] पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं मणूसाण य जहा एतेसि चेव औरालियति (सु. १५२४-२५)।

[३] देवाणं भंते ! तेयगसरीरे किंसंठिए पण्णते ? गोयमा ! जहा वेउव्वियस्स (सु. १५२६) जाव अणुत्तरोववाइय त्ति ।

[सुन्ताइ १५४५-५१. तेयगसरीरे पमाणदारं]

६

१५४५. जीवस्स पां भंते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णता ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभ-बाहलेणं; आयामेणं जहणेणं अंगुलस्स असंखेजइभागो, उक्कोसेणं लोगंताओ लोगंतो ।

१५४६. एगिंदियस्स पां भंते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णता ? गोयमा ! एवं चेव, जाव पुढवि-आउ-तेउ-वाउ-वणप्फइकाइयस्स । १०

१५४७. [१] बेइंदियस्स पां भंते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णता ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभ-बाहलेणं; आयामेणं जहणेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं तिरियलोगाओ लोगंतो । १५

[२] एवं जाव चउरिंदियस्स ।

१५४८. णेरइयस्स पां भंते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णता ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभ-बाहलेणं; आयामेणं जहणेणं सातिरेंगं जोयणसहसं, उक्कोसेणं अहे जाव अहेस-तमा पुढवी, तिरियं जाव सयंभुरमणे समुद्दे, उडुं जाव पंडगवणे पुक्खरिणीओ । २०

१५४९. पंचेंदियतिरिक्खजोणियस्स पां भंते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णता ? गोयमा ! जहा बेइंदियसरीरस्स (सु. १५४७ [१]) ।

१५५०. मणूसस्स पां भंते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णता ? गोयमा ! समयखेत्ताओ लोगंतो । २५

१५५१. [१] असुरकुमारस्स पां भंते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णता ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभ-बाहलेणं; आयामेणं जहणेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं

अं ह जाव तच्चाए पुढवीए हेड्ले चरिमंते, तिरियं जाव सयंसुरमणसमुद्रस  
वाहिरिले वेइयंते, उडुं जाव इसीपव्वारा पुढवी ।

[२] एवं जाव थणियकुमारतेयगसरीरस्स ।

[३] वाणमंतर-जोइसिया सोहमीसाणगा य एवं चेव ।

[४] सणंकुमारदेवस्स णं भंते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहयस्स  
तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णता ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता  
विक्खंभ-वाहलेण; आयामेण जहणेण अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेण  
अहे जाव महापातालाण दोच्चे तिभागे, तिरियं जाव सयंसुरमणसमुद्दे, उडुं जाव  
अच्चुओ कापो ।

[५] एवं जाव सहस्सारदेवस्स ।

[६] आणयदेवस्स णं भंते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहयस्स तेयासरी-  
रस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णता ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभ-  
वाहलेण; आयामेण जहणेण अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेण अहे जाव  
अहेलोइयगामा, तिरियं जाव मणूसखेते, उडुं जाव अच्चुओ कप्पो ।

[७] एवं जाव आरणदेवस्स ।

[८] अच्चुयदेवस्स वि एवं चेव । णवरं उडुं जाव सगाइं विमाणाइं ।

[९] गेवेजगदेवस्स णं भंते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहयस्स  
तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णता ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता  
विक्खंभ-वाहलेण; आयामेण जहणेण विजाहरसेढीओ, उक्कोसेण जाव अहेलोइय-  
गामा, तिरियं जाव मणूसखेते, उडुं जाव सगाइं विमाणाइं ।

[१०] अणुत्तरोववाइयस्स वि एवं चेव ।

[सुत्तं १५५२. कम्मगसरीरे विहि-संठाण-पमाणदाराइं]

१५५२. कम्मगसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे  
पण्णते । तं जहा-एर्गिदियकम्मगसरीरे जाव पंचेदिय० । एवं जहेव तेयग-  
सरीरस्स भेदो संठाणं ओगाहणा य भणिया (सु. १५३६-५१) तहेव णिरवसेसं  
भाणियव्वं जाव अणुत्तरोववाइय ति ।

[सुत्ताइं १५५३-५८. ४ पोग्गलचिणणादारं]

?५५३. ओरालियसरीरस्स णं भंते ! कतिदिसि पोग्गला चिजंति ?

गोयमा ! णिव्वाधाएण छहिसिं, वाधातं पडुच सिय तिदिसिं सिय चउदिसिं सिय पंचदिसिं ।

१५५४. वेउव्वियसरीरस्स ण भंते ! कतिदिसिं पोगला चिजंति ?  
गोयमा ! णियमा छहिसिं ।

१५५५. एवं आहारगसरीरस्स वि ।

१५५६. तेया-कम्मगाण जहा ओरालियसरीरस्स (सु. १५५३) ।

१५५७. ओरालियसरीरस्स ण भंते ! कतिदिसिं पोगला उवचिजंति ?  
गोयमा ! एवं चेव, जाव कम्मगसरीरस्स ।

१५५८. एवं उवचिजंति(?) अवचिजंति ।

[सुन्नाइ १५५९-६४. ५ सरीरसंजोगदारं]

१५५९. जस्स ण भंते ! ओरालियसरीरं तस्स ण वेउव्वियसरीरं ?  
जस्स वेउव्वियसरीरं तस्स ओरालियसरीरं ? गोयमा ! जस्स ओरालियसरीरं तस्स  
वेउव्वियसरीरं सिय अत्थि सिय णत्थि, जस्स वेउव्वियसरीरं तस्स ओरालियसरीरं  
सिय अत्थि सिय णत्थि ।

१५६०. जस्स ण भंते ! ओरालियसरीरं तस्स आहारगसरीरं ? जस्स १५  
आहारगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं ? गोयमा ! जस्स ओरालियसरीरं तस्स  
आहारगसरीरं सिय अत्थि सिय णत्थि, जस्स पुण आहारगसरीरं तस्स  
ओरालियसरीरं णियमा अत्थि ।

१५६१. जस्स ण भंते ! ओरालियसरीरं तस्स तेयगसरीरं ? जस्स २०  
तेयगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं ? गोयमा ! जस्स ओरालियसरीरं तस्स तेयगसरीरं  
णियमा अत्थि, जस्स पुण तेयगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं सिय अत्थि सिय णत्थि ।

१५६२. एवं कम्मगसरीरं पि ।

१५६३. [१] जस्स ण भंते ! वेउव्वियसरीरं तस्स आहारगसरीरं ?  
जस्स आहारगसरीरं तस्स वेउव्वियसरीरं ? गोयमा ! जस्स वेउव्वियसरीर  
तस्साहारगसरीरं णत्थि, जस्स वि य आहारगसरीरं तस्स वि वेउव्वियसरीर णत्थि । २५

[२] तेया-कम्माइं जहा ओरालिएण समं (सु. १५६१-६२) तहेव  
आहारगसरीरेण वि समं तेया-कम्माइं चारेयव्वाणि ।

१५६४. जस्स ण भंते ! तेयगसरीरं तस्स कम्मगसरीरं ? जस्स कम्म-

गसरीरं तस्स तेयगसरीरं ? गोयमा ! जस्स तेयगसरीरं तस्स कम्मगसरीरं नियमा अत्थि, जस्स वि कम्मगसरीरं तस्स वि तेयगसरीरं णियमा अत्थि ।

[ मुक्तं १५६५. ६ दब्ब-पएसडप्पवहुदारं ]

१५६५. एतेसि पं भंते ! ओरालिय-वेउव्विय-आहारग-तेया-कम्मग-  
५ सरीराणं दब्बडुयाए पएसडुयाए दब्बडुपएसडुयाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ?  
गोयमा ! सब्बत्थोवा आहारगसरीरा दब्बडुयाए, वेउव्वियसरीरा दब्बडुयाए  
असंखेजगुणा, ओरालियसरीरा दब्बडुयाए असंखेजगुणा, तेया-कम्मगसरीरा दो  
वि तुला दब्बडुयाए अणंतगुणा; पएसडुयाए-सब्बत्थोवा आहारगसरीरा पएस-  
डुयाए, वेउव्वियसरीरा पदेसडुयाए असंखेजगुणा, ओरालियसरीरा पदेसडुयाए  
२० असंखेजगुणा, तेयगसरीरा पदेसडुयाए अणंतगुणा, कम्मगसरीरा पदेसडुयाए  
अणंतगुणा; दब्बडुपदेसडुयाए-सब्बत्थोवा आहारगसरीरा दब्बडुयाए, वेउव्विय-  
सरीरा दब्बडुयाए असंखेजगुणा, ओरालियसरीरा दब्बडुयाए असंखेजगुणा,  
ओरालियसरीरेहिंतो दब्बडुयाए आहारगसरीरा पएसडुयाए अणंतगुणा, वेउव्विय-  
२५ सरीरा पदेसडुयाए असंखेजगुणा, ओरालियसरीरा पदेसडुयाए असंखेजगुणा,  
तेया-कम्मगसरीरा दो वि तुला दब्बडुयाए अणंतगुणा, तेयगसरीरा पदेसडुयाए  
अणंतगुणा, कम्मगसरीरा पदेसडुयाए अणंतगुणा ।

[ मुक्तं १५६६. ७ सरीरओगाहणडप्पवहुदारं ]

१५६६. एतेसि पं भंते ! ओरालिय-वेउव्विय-आहारग-तेया-कम्मगसरी-  
राणं जहणियाए ओगाहणाए उक्कोसियाए ओगाहणाए जहणुक्कोसियाए ओगाह-  
२० णाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्बत्थोवा ओरालियसरीरस्स  
जहणिया ओगाहणा, तेया-कम्मगाणं दोणह वि तुला जहणिया ओगाहणा विसेसाहिया,  
वेउव्वियसरीरस्स जहणिया ओगाहणा असंखेजगुणा, आहारग-  
२५ मरीरस्स जहणिया ओगाहणा असंखेजगुणा; उक्कोसियाए ओगाहणाए-सब्बत्थोवा  
आहारगसरीरस्स उक्कोसिया ओगाहणा, ओरालियसरीरस्स उक्कोसिया ओगाहणा  
३० संखेजगुणा, वेउव्वियसरीरस्स उक्कोसिया ओगाहणा संखेजगुणा, तेया-कम्मगाणं  
दोणह वि तुला उक्कोसिया ओगाहणा असंखेजगुणा; जहणुक्कोसियाए ओगाहणा-  
ा-सब्बत्थोवा ओरालियसरीरस्स जहणिया ओगाहणा, तेया-कम्मगाणं दोणह वि  
तुला जहणिया ओगाहणा विसेसाहिया, वेउव्वियसरीरस्स जहणिया ओगाहणा

असंखेजगुणा, आहारगसरीरस्स जहणिया ओगाहणा असंखेजगुणा, आहारग-  
सरीरस्स जहणियाहिंतो ओगाहणाहिंतो तस्स चेव उक्कोसिया ओगाहणा  
विसेसाहिया, ओरालियसरीरस्स उक्कोसिया ओगाहणा संखेजगुणा, वेउच्चिय-  
सरीरस्स णं उक्कोसिया ओगाहणा संखेजगुणा, तेया-कम्मगाणं दोऽह वि तुल्ला  
उक्कोसिया ओगाहणा असंखेजगुणा ।

५

॥ पण्णवणाप भगवतीए एगवीसइमं ओगाहैणसंठाणपयं समत्तं ॥

## २२. बाबीसइमं किरियापयं

[सुत्ताइं १५६७-७२. किरियाभेय-पभेयपरूपणं]

१५६७. कति णं भंते ! किरियाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! पंच  
किरियाओ पण्णत्ताओ । तं जहा-काइया १ आहिगरणिया २ पादोसिया ३  
५ पारियावणिया ४ पाणाइवातकिरिया ५ ।

१५६८. काइया णं भंते ! किरिया कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा !  
दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-अणुवरयकाइया य दुप्पउत्तकाइया य ।

१५६९. आहिगरणिया णं भंते ! किरिया कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा !  
दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-संजोयणाहिकरणिया य निव्वत्तणाहिकरणिया य ।

१५७०. पादोसिया णं भंते ! किरिया कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा !  
१० तिविहा पण्णत्ता । तं जहा-जेणं अप्पणो वा परस्स वा तदुभयस्स वा असुभं मणं  
पहरेति । से तं पादोसिया किरिया ।

१५७१. पारियावणिया णं भंते ! किरिया कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा !  
१५ तिविहा पण्णत्ता । तं जहा-जेणं अप्पणो वा परस्स वा तदुभयस्स वा असायं  
नेदणं उदीरेति । से तं पारियावणिया किरिया ।

१५७२. पाणातिवातकिरिया णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा !  
१५ तिविहा पण्णत्ता । तं जहा-जेणं अप्पाणं वा परं वा तदुभयं वा जीवियाओ  
ववरोवैऽ । से तं पाणाइवायकिरिया ।

[सुत्तं १५७३. जीवेसु सकिरियत्त-अकिरियत्तपरूपणं]

१५७३. जीवा णं भंते ! किं सकिरिया अकिरिया ? गोयमा ! जीवा  
१५ सकिरिया वि अकिरिया वि । से केण्टेणं भंते ! एवं चुच्चति जीवा सकिरिया वि  
अकिरिया वि ? गोयमा ! जीवा दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-संसारसमावणगा य  
असंसारसमावणगा य । तथ्य णं जे ते असंसारसमावणगा ते णं सिद्धा, सिद्धा  
१५ णं अकिरिया । तथ्य णं जे ते संसारसमावणगा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-  
सेलेसिपडिवणगा य असेलेसिपडिवणगा य । तथ्य णं जे ते सेलेसिपडिवणगा

१ पत्यन्तरेषु व्यचिन् व्यचिन् आहिगरणियास्थाने आहिगरणिया इति पाठ उपलभ्यतेऽस्मिन् देप ॥

ते णं अकिरिया । तत्थ णं जे ते असेलेसिपडिवण्णगा ते णं सकिरिया । से एतेण-  
द्वेण गोयमा ! एवं बुच्चति जीवा सकिरिया वि अकिरिया वि ।

[सुत्ताइ १५७४-८०, जीवाईसु किरियाविसयपरुवणं]

१५७४. अत्थि णं भंते ! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कज्जति ? हंता  
गोयमा ! अत्थि । कम्हि णं भंते ! जीवाणं पाणाइवाएण किरिया कज्जइ ? गोयमा ! ५  
छसु जीवणिकाएसु ।

१५७५. [१] अत्थि णं भंते ! णेरइयाणं पाणाइवाएणं किरिया कज्जति ?  
गोयमा ! एवं चेव ।

[२] एवं जाव निरंतरं वेमाणियाणं ।

१५७६. [१] अत्थि णं भंते ! जीवाणं मुसावाएणं किरिया कज्जति ? हंता ! १०  
अत्थि । कम्हि णं भंते ! जीवाणं मुसावाएणं किरिया कज्जति ? गोयमा ! सब्दव्वेसु ।

[२] एवं णिरंतरं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

१५७७. [१] अत्थि णं भंते ! जीवाणं अदिणादाणेणं किरिया कज्जति ?  
हंता अत्थि । कम्हि णं भंते ! जीवाणं अदिणादाणेणं किरिया कज्जइ ? गोयमा !  
गहण-धारणिजेसु दव्वेसु । १५

[२] एवं णेरइयाणं णिरंतरं जाव वेमाणियाणं ।

१५७८. [१] अत्थि णं भंते ! जीवाणं मेहुणेणं किरिया कज्जइ ? हंता !  
अत्थि । कम्हि णं भंते ! जीवाणं मेहुणेणं किरिया कज्जति ? गोयमा ! रुवेसु वा  
रुवसहगतेसु वा दव्वेसु ।

[२] एवं णेरइयाणं णिरंतरं जाव वेमाणियाणं । २०

- १५७९. [१] अत्थि णं भंते ! जीवाणं परिगहेणं किरिया कज्जइ ? हंता !  
अत्थि । कम्हि णं भंते ! जीवाणं परिगहेणं किरिया कज्जति ? गोयमा ! सब्दव्वेसु ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

१५८०. एवं कोहेणं माणेणं मायाए लोभेणं पेजेणं दोसेणं कलहेणं  
अब्भकखाणेणं पेसुणेणं परपरिवाएणं अरतिरतीए मायामोसेणं मिच्छादंसणसल्लेणं २५  
सब्देसु जीवं-णेरइयभेदेसु भाणियव्वं णिरंतरं जाव वेमाणियाणं ति । एवं  
आद्वारस एते दंडगा १८ ।

<sup>१</sup> जीवा णेरइयभेदेण भाणियव्वा णिरं<sup>०</sup> म० प्र० पु२ म० ॥

[ सुत्ताइँ १५८१-८४, जीवाईसु किरियाहेउहिं कम्मपगडिवंधपरुवणं ]

१५८१. [१] जीवे णं भंते ! पाणाइवाएणं कति कम्मपगडीओ वंधति ?  
गोयमा ! सत्तविहवंधए वा अद्विहवंधए वा ।

[२] एवं ऐरइए जाव निरंतरं वेमाणिए ।

६ १५८२. जीवा णं भंते ! पाणाइवाएणं कति कम्मपगडीओ वंधति ?  
गोयमा ! सत्तविहवंधगा वि अद्विहवंधगा वि ।

१५८३. [१] ऐरइया णं भंते ! पाणाइवाएणं कति कम्मपगडीओ  
वंधति ? गोयमा ! सच्चे वि ताव होज्ञा सत्तविहवंधगा, अहवा सत्तविहवंधगा य  
अद्विहवंधगे य, अहवा सत्तविहवंधगा य अद्विहवंधगा य ।

१० [२] एवं असुरकुमारा वि जाव थणियकुमारा ।

[३] पुढवि-आउ-तेउ-वाउ-वणप्पफङ्काइया य, एते सच्चे वि जहा  
ओहिया जीवा (सु. १५८२) ।

[४] अवसेसा जहा ऐरइया ।

१५ १५८४. [१] एवं एते जीविगिंदियवज्ञा तिणिण तिणिण भंगा सव्वत्थ  
भाणियव्व ति जाव मिच्छादंसणसलेणं ।

[२] एवं एगत्त-पोहत्तिया छत्तीसं दंडगा होंति ।

[ सुत्ताइँ १५८५-८७, जीवाईसु कम्मवंधमहिकिच्च किरियापरुवणं ]

१५८५. [१] जीवे णं भंते ! णाणावरणिजं कम्मं वंधमाणे कति-  
किरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंचकिरिए ।

२० [२] एवं ऐरइए जाव वेमाणिए ।

१५८६. [१] जीवा णं भंते ! णाणावरणिजं कम्मं वंधमाणा कति-  
किरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि चउकिरिया वि पंचकिरिया वि ।

[२] एवं ऐरइया निरंतरं जाव वेमाणिया ।

२५ १५८७. [१] एवं दरिसणावरणिजं वेयणिजं मोहणिजं आउयं णामं  
गोय अतराइयं च अद्विहकम्मपगडीओ भाणियव्वाओ ।

[२] एगत्त-पोहत्तिया सोलस दंडगा ।

१. जाणि० जै० ॥ २. °वरणीयं वै० पु२ ॥ ३. अटु वि कम्म० प्र० ॥

[सुन्ताइः १५८८-१६०४, जीवाईसु एगत्त-पुहत्तेहिं किरियापरुवर्णं]

१५८८. जीवे णं भंते ! जीवातो कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंचकिरिए सिय अकिरिए ।

१५८९. [१] जीवे णं भंते ! णेरइयाओ कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चतुकिरिए सिय अकिरिए । ५

[२] एवं जाव थणियकुमाराओ ।

[३] पुढविकाईय-आउकाईय-तेउकाईय-वाउकाईय-वणप्फइकाईय-बेईं-दिय-तेईंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियतिरिक्खजोणिय-मणूसातो जहा जीवातो (सु. १५८८) ।

[४] वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाओ जहा णेरइयाओ (सु. १५८९) । १०

१५९०. जीवे णं भंते ! जीवेहिंतो कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंचकिरिए सिय अकिरिए ।

१५९१. जीवे णं भंते ! णेरइएहिंतो कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय अकिरिए । एवं जहेव पढमो दंडओ तहा एसो वि वितिओ भाणियव्वो । १५

१५९२. जीवा णं भंते ! जीवाओ कतिकिरिया ? गोयमा ! सिय तिकिरिया वि सिय चउकिरिया वि सिय पंचकिरिया वि सिय अकिरिया वि ।

१५९३. जीवा णं भंते ! णेरइयाओ कतिकिरिया ? गोयमा ! जहेव आइल्लदंडओ तहेव भाणियव्वो जाव वेमाणिय त्ति ।

१५९४. जीवा णं भंते ! जीवेहिंतो कतिकिरिया ? गोयमा ! तिकिरिया २० वि चउकिरिया वि पंचकिरिया वि अकिरिया वि ।

१५९५. [१] जीवा णं भंते ! णेरइएहिंतो कतिकिरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि चउकिरिया वि अकिरिया वि ।

[२] असुरकुमारेहिंतो वि एवं चेव जाव वेमाणिएहिंतो । [णवरं] ओरालियसररेहिंतो जहा जीवेहिंतो (सु. १५९४) । २५

१५९६. णेरइए णं भंते ! जीवातो कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंचकिरिए ।

१. °काईयाओ आउकाईयाओ तेउकाईयाओ वाउकाईयाओ वणस्सतिकाईयाओ बैईं° पु२ पु३॥ २. °यव्वो । जाव वेमाणिय त्ति । १५९२. जी° पु२ मु० ॥

१५९७. [१] णेरइए णं भंते ! णेरइयाओ कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए ।

[२] < एवं जाव वेमाणियाओ । णवरं ओरालियसरीराओ जहा जीवाओ (सु. १५९६) ।

५ १५९८. णेरइए णं भंते ! जीवेहिंतो कइकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंचकिरिए ।

१५९९. [१] णेरइए णं भंते ! णेरइएहिंतो कइकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए । एवं जहेव पढ्मो दंडओ तहा एसो वि चितिओ भाणियब्बो । ▷

१० [२] एवं जाव वेमाणिएहिंतो । णवरं णेरइयस्स णेरइएहिंतो देवेहिंतो य पंचमा किरिया णत्थि ।

१६००. णेरइया णं भंते ! जीवाओ कतिकिरिया ? गोयमा ! सिय तिकिरिया सिय चउकिरिया सिय पंचकिरिया ।

१६०१. एवं जाव वेमाणियाओ । णवरं णेरइयाओ देवाओ य पंचमा १५ किरिया णत्थि ।

१६०२. णेरइया णं भंते ! जीवेहिंतो कतिकिरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि चउकिरिया वि पंचकिरिया वि ।

१६०३. [१] णेरइया णं भंते ! णेरइएहिंतो कतिकिरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि चउकिरिया वि ।

२० [२] एवं जाव वेमाणिएहिंतो । णवरं ओरालियसरीरेहिंतो जहा जीवेहिंतो (सु. १६०२) ।

२५ १६०४. [१] असुरकुमारे णं भंते ! जीवातो कतिकिरिए ? गोयमा ! जहेव णेरइएणं चत्तारि दंडगा (सु. १५९६-९९) तहेव असुरकुमारेण वि चत्तारि दंडगा भाणियब्बा । एवं उवउज्जिञ्चण भावेयव्वं ति-जीवे मणूसे य अकिरिए बुच्चति, सेसा अकिरिया ण बुच्चति, सब्बे जीवा ओरालियसरीरेहिंतो पंचकिरिया, णेरइय-देवेहिंतो य पंचकिरिया ण बुच्चति ।

[२] एवं एकेकजीवपए चत्तारि चत्तारि दंडगा भाणियब्बा । एवं एयं दंडगसयं । सब्बे वि य जीवादीया दंडगा ।

[सुत्ताइं १६०५-६. चउवीसदंडएसु किरियापरूपणाइ]

१६०५. कति णं भंते ! किरियाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! पंच किरियाओ पण्णत्ताओ ! तं जहा—काइया जाव पाणाइवायकिरिया ।

१६०६. [१] णेरइयाणं भंते ! कति किरियाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! पंच किरियाओ पण्णत्ताओ ! तं जहा—काइया जाव पाणाइवायकिरिया । ५

[२] एवं जाव वेमाणियाणं ।

[सुत्ताइं १६०७-१६. जीवईसु किरियाणं सहभावपरूपणाइ]

१६०७. जस्स णं भंते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जइ तस्स आहि-गरणिया किरिया कज्जति ? जस्स आहिगरणिया किरिया कज्जति तस्स काइया किरिया कज्जति ? गोयमा ! जस्स णं जीवस्स काइया किरिया कज्जति तस्स आहिगरणी णियमा कज्जति, जस्स आहिगरणी किरिया कज्जति तस्स वि काइया किरिया णियमा कज्जति । १०

१६०८. जस्स णं भंते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जति तस्स पाओसिया किरिया कज्जति ? जस्स पाओसिया किरिया कज्जति तस्स काइया किरिया कज्जति ? गोयमा ! एवं चेव । १५

१६०९. जस्स णं भंते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जइ तस्स पारियावणिया किरिया कज्जइ ? जस्स पारियावणिया किरिया कज्जइ तस्स काइया किरिया कज्जति ? गोयमा ! जस्स णं जीवस्स काइया किरिया कज्जइ तस्स पारियावणिया किरिया सिय कज्जति सिय णो कज्जति, जस्स पुण पारियावणिया किरिया कज्जति तस्स काइया नियमा कज्जति । २०

१६१०. एवं पाणाइवायकिरिया वि ।

१६११. एवं आदिल्लाओ परोप्परं नियमा तिणिण कज्जंति । जस्स आदिल्लाओ तिणिण कज्जंति तस्स उवरिल्लाओ दोणिण सिय कज्जंति सिय णो कज्जंति । जस्स उवरिल्लाओ दोणिण कज्जंति तस्स आइल्लाओ तिणिण णियमा कज्जंति ।

१६१२. जस्स णं भंते ! जीवस्स पारियावणिया किरिया कज्जइ तस्स पाणाइवायकिरिया कज्जति ? जस्स पाणाइवायकिरिया कज्जति तस्स पारियावणिया किरिया कज्जति ? गोयमा ! जस्स णं जीवस्स पारियावणिया किरिया कज्जति तस्स पाणाइवायकिरिया सिय कज्जति सिय णो कज्जति, जस्स पुण २५

पाणाइवायकिरिया कज्जति तस्स पारियावणिया किरिया नियमा कज्जति ।

१६१३. [१] जस्स णं भंते ! णेरइयस्स काइया किरिया कज्जति तस्स आहिगरणिया किरिया कज्जति ? गोयमा ! जहेव जीवस्स (सु. १६०७ तः १२) तहेव णेरइयस्स वि ।

५ [२] एवं निरंतरं जाव वेमाणियस्स ।

१६१४. जं समयं णं भंते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जति तं समयं आहिगरणिया किरिया कज्जति ? जं समयं आहिगरणिया किरिया कज्जति तं समयं काइया किरिया कज्जति ? एवं जहेव आइल्हओ दंडओ भणिओ (सु. १६०७ तः १३) तहेव भाणियव्वो जाव वेमाणियस्स ।

१० १६१५. जं देसं णं भंते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जति तं देसं णं आहिगरणिया किरिया कज्जति ? ० तहेव जाव वेमाणियस्स ।

१६१६. [१] जं पएसं णं भंते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जति तं पएसं आहिगरणिया किरिया कज्जति ? ० एवं तहेव जाव वेमाणियस्स ।

१५ [२] एवं एते जस्स १ जं समयं २ जं देसं ३ जं पएसं णं ४ चत्तारि दंडगा होंति ।

[सुत्तां १६१७-१९. जीवाईसु आओजियकिरियापरूपवर्णं]

१६१७. कति णं भंते ! आजोजिताओ किरियाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! पंच आओजिताओ किरियाओ पण्णत्ताओ । तं जहा-काइया जाव पाणाइवायकिरिया ।

१६१८. एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

२० १६१९. जस्स णं भंते ! जीवस्स काइया आओजिया किरिया अत्थि तस्स आहिकरणिया आओजिया किरिया अत्थि ? जस्स आहिगरणिया आओजिया किरिया अत्थि तस्स काइया आओजिया किरिया अत्थि ? एवं एतेणं अभिलाखेण ते चेव चत्तारि दंडगा भाणियव्वा जस्स १ जं समयं २ जं देसं ३ जं पदेसं ४ जाव वेमाणियाणं ।

२५ [सुत्तं १६२०. जीवेसु किरियाणं पुढापुढभावपरूपवर्णं]

१६२०. जीवे णं भंते ! जं समयं काइयाए आहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए पुडे तं समयं पारियावणियाए किरियाए पुडे ? पाणाइवायकिरियाए पुडे ? गोयमा ! अत्येगइए जीवे एगइयाओ जीवाओ जं समयं काइयाए आहिगरणियाए

पाओसियाए किरियाए पुडे तं समयं पारियावणियाए किरियाए पुडे पाणाइवाय-  
किरियाए पुडे १, अत्थेगइए जीवे एगइयाओ जीवाओ जं समयं काइयाए  
आहिगरणियाए पादोसियाए किरियाए पुडे तं समयं पारियावणियाए किरियाए  
पुडे पाणाइवायकिरियाए अपुडे २, अत्थेगइए जीवे एगइयाओ जीवाओ जं समयं  
काइयाए आहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए पुडे तं समयं पारियावणियाए ५  
किरियाए अपुडे पाणाइवायकिरियाए अपुडे ३ ।  $\overleftarrow{1}$  अत्थेगइए जीवे एगइयाओ  
जीवाओ जं समयं काइयाए आहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए अपुडे तं समयं  
पारियावणियाए किरियाए अपुडे पाणाइवायकिरियाए अपुडे ४ ।  $\triangleright$

[सुत्तं १६२१. पथारंतरेण किरियाभेयपरूपणं]

१६२१. कइ णं भंते ! किरियाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! पंच किरि- १०  
याओ पण्णत्ताओ । तं जहा-आरंभिया १ पारिगग्हिया २ मायावत्तिया ३  
अपचक्खाणकिरिया ४ मिच्छादंसणवत्तिया ५ ।

[सुत्ताईं १६२२-२६. आरंभियाइकिरियासामित्तपरूपणं]

१६२२. आरंभिया णं भंते ! किरिया कस्स कज्जति ? गोयमा ! १५  
अण्णयरस्सावि पमत्तसंजयस्स ।

१६२३. पारिगग्हिया णं भंते ! किरिया कस्स कज्जति ? गोयमा !  
अण्णयरस्सावि संजयासंजयस्स ।

१६२४. मायावत्तिया णं भंते ! किरिया कस्स कज्जति ? गोयमा !  
अण्णयरस्सावि अपमत्तसंजयस्स ।

१६२५. अपचक्खाणकिरिया णं भंते ! कस्स कज्जति ? गोयमा ! २०  
अण्णयरस्सावि अपचक्खाणिस्स ।

१६२६. मिच्छादंसणवत्तिया णं भंते ! किरिया कस्स कज्जति ? गोयमा !  
अण्णयरस्सावि मिच्छादंसणिस्स ।

[सुत्तं १६२७. चउवीसदंडएसु किरियापरूपणं]

१६२७. [१] नेरइयाणं भंते ! कति किरियाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! २५  
पंच किरियाओ पण्णत्ताओ । तं जहा-आरंभिया जाव मिच्छादंसणवत्तिया ।

[२] एवं जाव वेमाणियाणं ।

[सुन्ताइ १६२८-३६. जीवाईसु किरियाणं सहभावपर्वत्यं]

१६२८. जस्स णं भंते ! जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जति तस्स पारिगगहिया किरिया कज्जति ? जस्स पारिगगहिया किरिया कज्जइ तस्स आरंभिया किरिया कज्जति ? गोयमा ! जस्स णं जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जति तस्स पारिगगहिया किरिया सिय कज्जति सिय णो कज्जइ, जस्स पुण पारिगगहिया किरिया कज्जइ तस्स आरंभिया किरिया नियमा कज्जति ।

१६२९. जस्स णं भंते ! जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जति तस्स मायावत्तिया किरिया कज्जइ ? ० पुच्छा । गोयमा ! जस्स णं जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जइ तस्स मायावत्तिया किरिया णियमा कज्जइ, जस्स पुण मायावत्तिया किरिया कज्जइ तस्स आरंभिया किरिया सिय कज्जइ सिय णो कज्जइ ।

१६३०. जस्स णं भंते ! जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जइ तस्स अपच्चक्खाणकिरिया कज्जइ ? ० पुच्छा । गोयमा ! जस्स णं जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जइ तस्स अपच्चक्खाणकिरिया सिय कज्जइ सिय णो कज्जइ, जस्स पुण अपच्चक्खाणकिरिया कज्जति तस्स आरंभिया किरिया णियमा कज्जति ।

१६३१. एवं मिच्छादंसणवत्तियाए वि समं ।

१६३२. एवं पारिगगहिया वि तिहिं उवरिल्लाहिं समं चारेयच्चा ।

१६३३. जस्स मायावत्तिया किरिया कज्जति तस्स उवरिल्लाओ दो वि सिय कज्जंति सिय णो कज्जंति, जस्स उवरिल्लाओ दो कज्जंति तस्स मायावत्तिया णियमा कज्जति ।

१६३४. जस्स अपच्चक्खाणकिरिया कज्जति तस्स मिच्छादंसणवत्तिया किरिया सिय कज्जइ सिय णो कज्जइ, जस्स पुण मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जति तस्स अपच्चक्खाणकिरिया णियमा कज्जति ।

१६३५. [१] नेइयस्स आइलियाओ चत्तारि परोप्परं णियमा कज्जंति, जस्स एताओ चत्तारि कज्जंति तस्स मिच्छादंसणवत्तिया किरिया भइज्जति, जस्स पुण मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जति तस्स एयाओ चत्तारि णियमा कज्जंति ।

[२] एवं जाव थणियकुमारस्स ।

[३] पुढनिक्काइयस्स जाव चउरिंदियस्स पंच वि परोप्परं णियमा कज्जंति ।

१. °क्खाणिया कि° जे० ॥

[४] पंचेदियतिरिक्खजोणियस्स आइलियाओ तिण्णि वि परोप्परं णियमा कजंति, जस्स एयाओ कजंति तस्स उवरिल्लाओ दो भइजंति, जस्स उवरिल्लाओ दोण्णि कजंति तस्स एताओ तिण्णि वि णियमा कजंति; जस्स अपच्चक्खाणकिरिया तस्स मिच्छादंसणवत्तिया सिय कजाति सिय णो कजाति, जस्स पुण मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कजाति तस्स अपच्चक्खाणकिरिया णियमा कजाति । ५

[५] मणूसस्स जहा जीवस्स ।

[६] वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणियस्स जहा णेरइयस्स ।

१६३६. जं समयण्ण भंते ! जीवस्स आरंभिया किरिया कजाति तं समयं पारिग्गहिया किरिया कजाति ? एवं एते जस्स १ जं समयं २ जं देसं ३ जं पैदेसण्णं ४ चत्तारि दंडगा णेयब्बा । जहा णेरइयाणं तहा सब्बदेवाणं णेयब्बं जाव वेमाणियाणं । १०

[सुत्ताइ १६३७-४१. जीवाईसु पावट्टाणविरइपर्वताणं]

१६३७. अत्थि णं भंते ! जीवाणं पाणाइवायवेरमणे कजाति ? हंता ! अत्थि । कम्हि णं भंते ! जीवाणं पाणाइवायवेरमणे कजाति ? गोयमा ! छसु - जीवणिकाएसु ।

१६३८. [१] अत्थि णं भंते ! णेरइयाणं पाणाइवायवेरमणे कजाति ? १५ गोयमा ! णो इण्डे सम्डे ।

[२] एवं जाव वेमाणियाणं । णवरं मणूसाणं जहा जीवाणं (सु. १६३७) ।

१६३९. एवं मुसावाएणं जाव मायामोसेणं जीवस्स य मणूसस्स य, सेसाणं णो इण्डे सम्डे । णवरं अदिण्णादाणे गहण-धारणिजेसु दब्बेसु, मेहुणे २० रूवेसु वा रूवसहगएसु वा दब्बेसु, सेसाणं सँब्बदब्बेसु ।

१६४०. अत्थि णं भंते ! जीवाणं मिच्छादंसणसल्लवेरमणे कजाति ? हंता ! अत्थि । कम्हि णं भंते ! जीवाणं मिच्छादंसणसल्लवेरमणे कजाइ ? गोयमा ! सब्बदब्बेसु ।

१६४१. एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । णवरं एगिंदिय-विगलिं- २५ दियाणं णो इण्डे सम्डे ।

१. उवरिल्लादोण्णि भहू० म० प्र० पु१ पु३॥ २. पदेसेण य चत्तारि म० प्र० पु१ पु२ पु३॥ ३. रूवसहगेसु जेऽ॥ ४. सब्बेसु दब्बेसु म० प्र० पु१ पु२ पु३॥

[सुत्ताहं १६४२-४९. पावड्हाणविरेसु जीवाईसु कम्मपगडिवंधपरुवं ]

१६४२. पाणाइवायविरए णं भेते ! जीवे कति कम्मपगडीओ वंधति ? गोयमा ! सत्तविहवंधए वा अद्विहवंधगे वा छविहवंधिए वा एगविहवंधगे वा अवंधए वा । एवं मणूसे वि भाषियव्वे ।

५        १६४३. पाणाइवायविरया णं भेंते ! जीवा कति कम्मपगडीओ वंधंति ?  
गोयमा ! सब्बे वि ताव हैज्ञा सत्तविहवंवगा य एगविहवंवगा य ? ।

अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य अद्विहवंधगे य १ अहवा  
सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य अद्विहवंधगा य २ अहवा सत्तविहवंधगा य  
एगविहवंधगा य छविहवंधगे य ३ अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य  
छविहवंधगा य ४ अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य अवंधगे य ५  
अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य अवंधगा य ६।

अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य अद्विहवंधगे य छविहवंधगे

- य १ अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य अद्विहवंधगे य छविहवंधगा य २ अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य अद्विहवंधगा य छविहवंधगे य ३ अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य अद्विहवंधगा य छविहवंधगा य ४, अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य अद्विहवंधगे य अवंधए य १ अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य अद्विहवंधगे य अवंधगा य २ अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य अद्विहवंधगा य अवंधगे य ३ अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य अद्विहवंधगा य अवंधगा य ४, अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य अद्विहवंधगे य अवंधगे य १ अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य छविहवंधगे य अवंधगा य २ अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य छविहवंधगे य अवंधए य ३ अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य छविहवंधगा य अवंधगा य ४।

अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य अद्विहवंधगे य छव्विहवंधगे  
२५ य अवंधगे य १ अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य अद्विहवंधगे य  
छव्विहवंधगे य अवंधगा य २ अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य  
अद्विहवंधगे य छव्विहवंधगा य अवंधगे य ३ अहवा सत्तविहवंधगा य एग-  
विहवंधगा य अद्विहवंधगे य छव्विहवंधगा य अवंधगा य ४ अहवा सत्तवि-  
हवंधगा य एगविहवंधगा य अद्विहवंधगा य छव्विहवंधगे य अवंधगे य ५

अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य अद्विहवंधगा य छविहवंधगे य अवंधगा य ६ अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य अद्विहवंधगा य छविहवंधगा य अवंधगे य ७ अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य अद्विहवंधगा य छविहवंधगा य अवंधगा य ८ एते अद्व भंगा । सब्वे वि मिलिया सत्तावीसं भंगा भवंति । ५

१६४४. एवं मणूसाण वि एते चेव सत्तावीसं भंगा भाणियव्वा ।

१६४५. एवं मुसावायविरयस्स जाव मायामोसविरयस्स जीवस्स य मणूसस्स य ।

१६४६. मिच्छादंसणसल्लविरए णं भंते ! जीवे कति कम्पगडीओ वंधति ? गोयमा ! सत्तविहवंधए वा अद्विहवंधए वा छविहवंधए वा एगविह- १० वंधए वा अवंधए वा ।

१६४७. [१] मिच्छादंसणसल्लविरए णं भंते ! णेरइए कति कम्पगडीओ वंधति ? गोयमा ! सत्तविहवंधए वा अद्विहवंधए वा, जाव पंचेदियतिरिक्खजोणिए ।

[२] मणूसे जहा जीवे (सु. १६४६) ।

[३] वाणमंतर-जोइसिय-त्रेमाणिए जहा णेरइए । १५

१६४८. मिच्छादंसणसल्लविरया णं भंते ! जीवा कति कम्पगडीओ वंधति ? गोयमा ! ते चेव सत्तावीसं भंगा भाणियव्वा (सु. १६४३) ।

१६४९. [१] मिच्छादंसणसल्लविरया णं भंते ! णेरइया कति कम्प-  
गडीओ वंधति ? गोयमा ! सब्वे वि ताव होज सत्तविहवंधगा १ अहवा सत्तविह-  
वंधगा य अद्विहवंधगे य २ अहवा सत्तविहवंधगा य अद्विहवंधगा य ३ । २०

[२] एवं जाव वेमाणिया । णवरं मणूसाणं जहा जीवाणं (सु. १६४८) ।

[सुत्ताईं १६५०-६२. पावद्वाणविरएसु जीवाईसु किरियाभेयपर्खवणं]

१६५०. पाणाइवायविरयस्स णं भंते ! जीवस्स किं आरंभिया किरिया कज्जति दूजाव मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जइ? गोयमा ! पाणाइवाय-  
विरयस्स जीवस्स आरंभिया किरिया सिय कज्जइ सिय णो कज्जइ । २५

१६५१. पाणाइवायविरयस्स णं भंते ! जीवस्स पारिगहिया किरिया कज्जइ ? गोयमा ! णो इण्डे सम्डे ।

१. सर्वेष्वप्यादर्शेष्वप्लम्यमानः <द> एतच्चिहमध्यगतः पाठोऽसन्त एव ॥

१६५२. पाणाइवायविरयस्स णं भंते ! जीवस्स मायावत्तिया किरिया कज्जइ ? गोयमा ! सिय कज्जइ सिय णो कज्जति ।

१६५३. पाणाइवायविरयस्स णं भंते ! जीवस्स अपचक्खाणवत्तिया किरिया कज्जति ? गोयमा ! णो इणडे समडे ।

६ १६५४. मिच्छादंसणवत्तियाए पुच्छा । गोयमा ! नो इणडे समडे ।

१६५५. एवं पाणाइवायविरयस्स मणूसस्स वि ।

१६५६. एवं जाव मायामोसविरयस्स जीवस्स मणूसस्स य ।

१० १६५७. मिच्छादंसणसलविरयस्स णं भंते ! जीवस्स किं आरंभिया किरिया कज्जति जाव मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जति ? गोयमा ! मिच्छादंसण-  
सलविरयस्स जीवस्स आरंभिया किरिया सिय कज्जति सिय नो कज्जति । एवं  
जाव अपचक्खाणकिरिया॑ । मिच्छादंसणवत्तिया किरिया नो कज्जति ।

१६५८. मिच्छादंसणसलविरयस्स णं भंते ! ऐरइयस्स किं आरंभिया किरिया कज्जति जाव मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जइ ? गोयमा ! आरंभिया वि किरिया कज्जति जाव अपचक्खाणकिरिया वि कज्जति, मिच्छादंसणवत्तिया किरिया णो कज्जइ ।

१५ १६५९. एवं जाव थणियकुमारस्स ।

१६६०. मिच्छादंसणसलविरयस्स णं भंते ! पंचेंदियतिरिक्खजोणियस्स एवमेव पुच्छा । गोयमा ! आरंभिया किरिया कज्जइ जाव मायावत्तिया किरिया कज्जइ, अपचक्खाणकिरिया सिय कज्जइ सिय णो कज्जइ, मिच्छादंसणवत्तिया किरिया णो कज्जति ।

२० १६६१. मणूसस्स जहा जीवस्स (सु. १६५७) ।

१६६२. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा ऐरइयस्स (सु. १६५८) ।

[ मुत्तं १६६३. आरंभियाइकिरियाणं अप्पावहुयं ]

२५ १६६३. एयासि णं भंते ! आरंभियाणं जाव मिच्छादंसणवत्तियाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवाओ मिच्छादंसणवत्तियाओ किरियाओ, अपचक्खाणकिरियाओ विसेसाहियाओ, पारिग्गहियाओ विसेसाहियाओ, आरंभियाओ किरियाओ विसेसाहियाओ, मायावत्तियाओ विसेसाहियाओ ।

॥ पणवणाए भगवईप वावीसइमं किरियापयं समत्तं ॥

१. °या सिय कज्जति सिय नो कज्जति । मिच्छा° पुर ॥

## २३. तेवीसइमं कम्मपगडिपयं

पढमो उद्देसओ

[सुत्तं १६६४. पढमुद्देसस्स अत्थाहिगारा]

१६६४. कति पगडी १ कह बंधति २

कतिहि व ठणेहिं बंधए जीवो ३ । ५

कति वेदेइ य पयडी ४ अणुभावो कतिविहो कस्स ५ ॥ २१७ ॥

[सुत्ताइ १६६५-६६. १ कतिपयडिदारं]

१६६५. कति णं भंते ! कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! अटु  
कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ । तं जहा-णाणावरणिजं १ दैरिसणावरणिजं २  
वेदणिजं ३ मोहणिजं ४ आउयं ५ णामं ६ गोयं ७ अंतराइयं ८ । १०

१६६६. णेरइयाणं भंते ! कति कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा !  
एवं चेवै । एवं जाव वेमाणियाणं ।

[सुत्ताइ १६६७-६९. २ कहबंधतिदारं]

१६६७. कहण्णं भंते ! जीवे अटु कम्मपगडीओ बंधइ ? गोयमा !  
णाणावरणिजस्स कम्मस्स उदएणं दैरिसणावरणिजं कम्मं णियच्छति, दरिसणा- १५  
वरणिजस्स कम्मस्स उदएणं दंसणमोहणिजं कम्मं णियच्छति, दंसणमोहणिजस्स  
कम्मस्स उदएणं मिच्छतं णियँच्छति, मिच्छतेण उँदिणेणं गोयमा ! एवं खलु  
जीवे अटु कम्मपगडीओ बंधइ ।

१६६८. कहण्णं भंते ! णेरइए अटु कम्मपगडीओ बंधति ? गोयमा !  
एवं चेवै । एवं जाव वेमाणिए । २०

१. दंसणा० पु१ पु२ पु३ ॥ २, ६. चेव, जाव जे० ध० ॥ ३. दंसणा० म० प्र० मु० ॥

४. णिगच्छति जे० पु२ ॥ ५. श्रीमद्रिहरिभद्रपादैः सर्वेष्वप्यादर्शेष्वपलभ्यमान उदिणेण इत्येव पाठः स्वव्याख्याया व्याख्यातोऽस्ति, तथा हि—“ततश्च मिथ्यात्वेन उदीर्णेन एव खलु जीवोऽष्टकर्मप्रकृतीर्वभ्राति” । अपि चोत्तराध्यनचूर्णावपि एतत्पाठोद्वरणे उदिणेण इत्येव पाठ उपलभ्यते । किञ्च “तत एवं मिथ्यात्वेन जीवोऽस्तु प्रकृतीर्वभ्राति” इति श्रीमलयगिरिपाद-व्याख्यानानुसारेण श्रीमद्भिः सागरानन्दसूर्पिष्ठैः उदिणेण इति पाठो विहित् सम्भाव्यते ॥

१६६९. कहणं भंते ! जीवा अडु कम्मपगडीओ वंधति ? गोयमा !  
एवं चेव । एवं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइँ १६७०-७४. ३ कतिठाणवंधदारं]

१६७०. जीवे णं भंते ! णाणावरणिजं कम्मं कतिहिं ठाणेहिं वंधति ?  
५ गोयमा ! दोहिं ठाणेहिं । तं जहा-रागेण य दोसेण य । रागे दुविहे पण्णते, तं  
जहा-माया य लोभे य । दोसे दुविहे पण्णते, तं जहा-कोहे य माणे य । इच्छेहिं  
चउहिं ठाणेहिं वीरिओवग्गहिएहिं एवं खलु जीवे णाणावरणिजं कम्मं वंधति ।

१६७१. एवं णेरइए जाव वेमाणिए ।

१६७२. जीवा णं भंते ! णाणावरणिजं कम्मं कतिहिं ठाणेहिं वंधति ?  
१० गोयमा ! दोहिं ठाणेहिं, एवं चेव ।

१६७३. एवं णेरइया जाव वेमाणिया ।

१६७४. [१] एवं दंसणावरणिजं जाव अंतराइयं ।

[२] एवं एते एगत्त-पोहत्तिया सोलस दंडगा ।

[सुत्ताइँ १६७५-७८. ४ कतिपयडिवेददारं]

१५ १६७५. जीवे णं भंते ! णाणावरणिजं कम्मं वेदेति ? गोयमा ! अत्थे-  
गइए वेदेति, अत्थेगइए णो वेदेति ।

१६७६. [१] णेरइए णं भंते ! णाणावरणिजं कम्मं वेदेति ? गोयमा !  
णियमा वेदेति ।

[२] एवं जाव वेमाणिए । णवरं मणूसे जहा जीवे (सु. १६७५) ।

२० १६७७. [१] जीवा णं भंते ! णाणावरणिजं कम्मं वेदेति ? गोयमा !  
एवं चेव ।

[२] एवं जाव वेमाणिया ।

१६७८. [१] एवं जहा णाणावरणिजं तहा दंसणावरणिजं मोहणिजं  
अंतराइयं च ।

२५ [२] वेदणिजाऽऽउय-णाम-गोयाइ एवं चेव । णवरं मणूसे वि णियम  
वेदेति ।

[३] एवं एते एगत्त-पोहत्तिया सोलस दंडगा ।

[सुन्ताइ १६७९-८०. ५ कतिविधाणुभावदार]

१६७९. णाणावरणिजस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेण बद्धस्स पुट्टस्स बद्ध-फास-पुट्टस्स संचितस्स चियस्स उवचितस्स आवागपत्तस्स विवागपत्तस्स फलपत्तस्स उदयपत्तस्स जीवेण कडस्स जीवेण णिव्वत्तियस्स जीवेण परिणामियस्स सयं वा उदिण्णस्स परेण वा उदीरियस्स तदुभएण वा उदीरिजमाणस्स गतिं पप्प ५ ठितिं पप्प भवं पप्प पोगलं पप्प पोगलपरिणामं पप्प कतिविहे अणुभावे पण्णते ? गोयमा ! णाणावरणिजस्स णं कम्मस्स जीवेण बद्धस्स जाव पोगलपरिणामं पप्प दसविहे अणुभावे पण्णते । तं जहा-सोयावरणे १ सोयविण्णाणावरणे २ णेत्तावरणे ३ १० णेत्तविण्णाणावरणे ४ घाणावरणे ५ घाणविण्णाणावरणे ६ रसावरणे ७ रसविण्णा-णावरणे ८ फासावरणे ९ फासविण्णाणावरणे १० । जं वेदेति पोगलं वा पोगले १० वा पोगलपरिणामं वा वीससा वा पोगलाणं परिणामं, तेसिं वा उदएणं जाणियव्वं ण जाणइ, जाणिउकामे वि ण याणइ, जाणित्ता वि ण याणति, उच्छण्णणाणी यावि भवति णाणावरणिजस्स कम्मस्स उदएणं । एस णं गोयमा ! णाणावरणिजे कम्मे । एस णं गोयमा ! णाणावरणिजस्स कम्मस्स जीवेण बद्धस्स जाव पोगलपरिणामं पप्प दसविहे अणुभावे पण्णते १ । १५

१६८०. दरिसणावरणिजस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेण बद्धस्स जाव पोगलपरिणामं पप्प कतिविहे अणुभावे पण्णते ? गोयमा ! दरिसणावरणिजस्स णं कम्मस्स जीवेण बद्धस्स जाव पोगलपरिणामं पप्प णवविहे अणुभावे पण्णते । तं जहा-णिहा १ णिहाणिहा २ पयला ३ पयलापयला ४ थीणिझी ५ चकखु-दंसणावरणे ६ अचकखुदंसणावरणे ७ ओहिदंसणावरणे ८ केवलदंसणावरणे ९ । २० जं वेदेति पोगलं वा पोगले वा पोगलपरिणामं वा वीससा वा पोगलाणं परिणामं, तेसिं वा उदएणं पासियव्वं ण पासति, पासिउकामे वि ण पासति, पासित्ता वि ण पासति, उच्छन्नदंसणी यावि भवति दरिसणावरणिजस्स कम्मस्स उदएणं । एस णं गोयमा ! दरिसणावरणिजे कम्मे । एस णं गोयमा ! दरिसणावरणिजस्स कम्मस्स जीवेण बद्धस्स जाव पोगलपरिणामं पप्प णवविहे अणुभावे पण्णते २ । २५

१६८१. [१] सातवेदणिजस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेण बद्धस्स जाव पोगलपरिणामं पप्प कतिविहे अणुभावे पण्णते ? गोयमा ! सायावेदणिजस्स णं

१. बद्धस्स पुट्टस्स बद्ध-फास-पुट्टस्स जाव ध० ॥ २. थीणझी म० प्र० म० ॥

कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जावं अट्टविहे अणुभावे पण्णते । तं जहा—मणुण्णा सदा  
 १ मणुण्णा रूवा २ मणुण्णा गंधा ३ मणुण्णा रसा ४ मणुण्णा फासा ५  
 मणोसुहता ६ वैङ्गसुहया ७ कायसुहया ८ । जं वेएइ पोगलं वा पोगले वा  
 पोगलपरिणामं वा वीससा वा पोगलाणं परिणामं, तेसि वा उदएणं सातावेदणिजं  
 ५ कम्मं वेदेति । एस णं गोयमा ! सातावेदणिजे कम्मे । एस णं गोयमा !  
 सातावेयणिजस्स जाव अट्टविहे अणुभावे पण्णते ।

[२] असातावेयणिजस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं ० तहेव पुच्छा  
 उत्तरं च । नवरं अमणुण्णा सदा जाव कायदुहया । एस णं गोयमा ! असाया-  
 वेदणिजस्स जाव अट्टविहे अणुभावे पण्णते ३ ।

१० १६८२. मोहणिजस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव कतिविहे  
 अणुभावे पण्णते ? गोयमा ! मोहणिजस्स णं कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव  
 पंचविहे अणुभावे पण्णते । तं जहा—सम्मतवेयणिजे १ मिच्छत्वेयणिजे २  
 सम्मामिच्छत्वेयणिजे ३ कसायवेयणिजे ४ णोकसायवेयणिजे ५ । जं वेदेति  
 २५ पोगलं वा पोगले वा पोगलपरिणामं वा वीससा वा पोगलाणं परिणामं,  
 तेसि वा उदएणं मोहणिजं कम्मं वेदेति । एस णं गोयमा ! मोहणिजे कम्मे ।  
 एस णं गोयमा ! मोहणिजस्स कम्मस्स जाव पंचविहे अणुभावे पण्णते ४ ।

१६८३. आउअस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं ० तहेव पुच्छा । गोयमा !  
 आउअस्स णं कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव चउविहे अणुभावे पण्णते । तं  
 जहा—णेरइयाउए १ तिरियाउए २ मण्याउए ३ देवाउए ४ । जं वेएइ पोगलं  
 २० वा पोगले वा पोगलपरिणामं वा वीससा वा पोगलाणं परिणामं, तेसि वा  
 उदएणं आउयं कम्मं वेदेति । एस णं गोयमा ! आउए कम्मे । एस णं गोयमा !  
 आउअस्स कम्मस्स जाव चउविहे अणुभावे पण्णते ५ ।

१६८४. [१] सुभणामस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं ० पुच्छा ।  
 गोयमा ! सुभणामस्स णं कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव चोहसविहे अणुभावे  
 २५ पण्णते । तं जहा—इड्डा सदा १ इड्डा रूवा २ इड्डा गंधा ३ इड्डा रसा ४  
 इड्डा फासा ५ इड्डा गती ६ इड्डा ठिती ७ इड्डे लावणे ८ इड्डा जसोकिती ९  
 इड्डे उड्डाण-कम्म-घल-विरिय-पुरिसक्कार-परकमे १० इड्डसरता ११ कंतसरता १२

१. जाव सत्तविहे अणुभावे पण्णते इत्यादि यावत् वतिसुहया ७ । जं वेएइ जे० ध० पु१  
 पु३ ॥ २. वयसु० पु२स० मु० ॥ ३, ५. जाव सत्तविहे जे० ध० पु१ पु३ ॥ ४. जाव  
 वतिदुहया जे० ध० पु१ पु३ ॥

पियस्सरया १३ मणुष्णस्सरया १४ । जं वेएइ पोगगलं वा पोगगले वा पोगगलपरिणामं वा वीससा वा पोगगलाणं परिणामं, तेसिं वा उदएणं सुभणामं कम्मं वेदेति । एस णं गोयमा ! सुभनामे कम्मे । एस णं गोयमा ! सुभणामस्स कम्मस्स जाव चोद्दसविहे अणुभावे पण्णते ।

[२] दुहणामस्स णं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव । णवरं आणिड्डा ५ सहा १ जाव हीणस्सरया ११ दीणस्सरया १२ अणिड्डस्सरया १३ अकंतस्सरया १४ । जं वेदेति सेसं तं चेव जाव चोद्दसविहे अणुभावे पण्णते ६ ।

१६८५. [१] उच्चागोयस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेण ० पुच्छा । गोयमा ! उच्चागोयस्स णं कम्मस्स जीवेण वद्धस्स जाव अड्डविहे अणुभावे पण्णते । तं जहा—जातिविसिड्डया १ कुलविसिड्डया २ बलविसिड्डया ३ रूवविसिड्डया ४ तवविसिड्डया ५ सुयविसिड्डया ६ लाभविसिड्डया ७ इस्सरियविसिड्डया ८ । जं वेदेति पोगगलं वा पोगगले वा पोगगलपरिणामं वा वीससा वा पोगगलाणं परिणामं, तेसिं वा उदएणं जाव अड्डविहे अणुभावे पण्णते ।

[२] णीयागोयस्स णं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव । णवरं जातिविहीणया १ जाव इस्सरियविहीणया ८ । जं वेदेति पोगगलं वा पोगगले वा पोगगलपरिणामं वा वीससा वा पोगगलाणं परिणामं, तेसिं वा उदएणं जाव अड्डविहे अणुभावे पण्णते ७ ।

१६८६. अंतराइयस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेण ० पुच्छा । गोयमा ! अंतराइयस्स णं कम्मस्स जीवेण वद्धस्स जाव पंचविहे अणुभावे पण्णते । तं जहा—दाणंतराए १ लाभंतराए २ भोगंतराए ३ उवभोगंतराए ४ वीरियंतराए ५ । जं वेदेति पोगगलं वा पोगगले वा जाव वीससा वा पोगगलाणं परिणामं वा, तेसिं वा उदएणं अंतराइयं कम्मं वेदेति । एस णं गोयमा ! अंतराइए कम्मे । एस णं गोयमा ! जाव पंचविहे अणुभावे पण्णते ८ ।

॥ कस्मपगडिपदे पठमो उद्देसओ समत्तो ॥

\*

वीओ उद्देसओ

२५

[सुत्ताइ १६८७-९६. मूलोत्तरपयडिभेदपरुवणं]

१६८७. कति णं भंते ! कम्मपगडीओ पण्णताओ ? गोयमा ! अड्ड कम्मपगडीओ पण्णताओ । तं जहा—णाणावरणिजं जाव अंतराइयं ।

१६८८. पाणावरणिज्ञे णं भंते ! कम्मे कतिविहे पणते ? गोयमा ! पंचविहे पणते ! तं जहा—आभिणिवोहियणाणावरणिज्ञे जाव केवलणाणावरणिज्ञे ।

१६८९. [१] दरिसणावरणिज्ञे णं भंते ! कम्मे कतिविहे पणते ? गोयमा ! दुविहे पणते ! तं जहा—णिदापंचए य दंसणचउक्कए य ।

५ [२] णिदापंचए णं भंते ! कतिविहे पणते ? गोयमा ! पंचविहे पणते ! तं जहा—णिदा जाव थीण्गिद्धी ।

[३] दंसणचउक्कए णं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! चउच्चिहे पणते ! तं जहा—चक्खुदंसणावरणिज्ञे जाव केवलदंसणावरणिज्ञे ।

१० १६९०. [१] वेयणिज्ञे णं भंते ! कम्मे कतिविहे पणते ? गोयमा ! दुविहे पणते ! तं जहा—सातावेदणिज्ञे य असातावेयणिज्ञे य ।

[२] सातावेयणिज्ञे णं भंते ! कम्मे ० पुच्छा । गोयमा ! अदुविहे पणते ! तं जहा—मणुण्णा सद्वा जाव कायसुहया (सु. १६८१ [१]) ।

[३] असायवेदणिज्ञे णं भंते ! कम्मे कतिविहे पणते ? गोयमा ! अदुविहे पणते ! तं जहा—अमणुण्णा सद्वा जाव कायदुहया ।

१५ १६९१. [१] मोहणिज्ञे णं भंते ! कम्मे कतिविहे पणते ? गोयमा ! दुविहे पणते ! तं जहा—दंसणमोहणिज्ञे य चरितमोहणिज्ञे य ।

[२] दंसणमोहणिज्ञे णं भंते ! कम्मे कतिविहे पणते ? गोयमा ! तिविहे पणते ! तं जहा—सम्मतवेयणिज्ञे १ मिच्छतवेयणिज्ञे २ सम्मामिच्छतवेयणिज्ञे ३ य ।

२० [३] चरितमोहणिज्ञे णं भंते ! कम्मे कतिविहे पणते ? गोयमा ! दुविहे पणते ! तं जहा—कसायवेयणिज्ञे य णोकसायवेयणिज्ञे य ।

[४] कसायवेयणिज्ञे णं भंते ! कम्मे कतिविहे पणते ? गोयमा ! सोलसविहे पणते ! तं जहा—अणंताणुबंधी कोहे १ अणंताणुबंधी माणे २ अणंताणुबंधी माया ३ अणंताणुबंधी लोभे ४ अपच्चकखाणे कोहे ५ एवं माणे ६ माया ७ लोभे ८ पच्चकखाणावरणे कोहे ९ एवं माणे १० माया ११ लोभे १२ संजलणे कोहे १३ एवं माणे १४ माया १५ लोभे १६ ।

[५] णोकसायवेयणिज्ञे णं भंते ! कम्मे कतिविहे पणते ? गोयमा ! णवविहे पणते ! तं जहा—इत्यवेए १ पुरिसवेए २ णपुंसगवेदे ३ हासे ४ रती ५ अरती ६ भये ७ सोगे ८ दुगुंछा ९ ।

१. कम्मे णं कति० प्र० पु२ ॥ २. °दा निदानिदा जाव पु२ ॥ ३. थीणद्धी प्र० पु२ मु० ॥

१६९२. आउए णं भंते ! कम्मे कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! चउच्चिहे पण्णते । तं जहा—णेरइयाउए जाव देवाउए ।

१६९३. णामे णं भंते ! कम्मे कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! बायालीसइ-  
विहे पण्णते । तं जहा—गतिणामे १ जाइणामे २ सरीरणामे ३ सरीरंगोवंगणामे ४  
सरीरबंधणामे ५ सरीरसंघायणामे ६ संघयणामे ७ संठाणणामे ८ वण्णणामे ९  
गंधणामे १० रसणामे ११ फासणामे १२ अगुरुलहुयणामे १३ उवधायणा-  
मे १४ पराघायणामे १५ आणुपुब्बीणामे १६ उस्सासणामे १७ आयवणामे १८  
उज्जोयणामे १९ विहायगतिणामे २० तसणामे २१ थावरणामे २२ सुहुमणा-  
मे २३ बादरणामे २४ पज्जतणामे २५ अपज्जतणामे २६ साहारणसरीरणामे २७  
पत्तेयसरीरणामे २८ थिरणामे २९ अथिरणामे ३० सुभणामे ३१ असुभणामे ३२  
सुभगणामे ३३ दूभगणामे ३४ सूसरणामे ३५ दूसरणामे ३६ आदेजणामे ३७  
अणादेजणामे ३८ जसोकित्तिणामे ३९ अजसोकित्तिणामे ४० णिम्माणणामे ४१  
तित्थगरणामे ४२ ।

१६९४. [१] गतिणामे णं भंते ! कम्मे कतिविहे पण्णते ? गोयमा !  
चउच्चिहे पण्णते । तं जहा—णिरयगतिणामे १ तिरियगतिणामे २ मणुयगतिणामे ३  
देवगतिणामे ४ ।

[२] जाइणामे णं भंते ! कम्मे ० पुच्छा । गोयमा ! पंचविहे पण्णते । तं  
जहा—एगिंदियजाइणामे जाव पंचेदियजाइणामे ।

[३] सरीरणामे णं भंते ! कम्मे कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे  
पण्णते । तं जहा—ओरालियसरीरणामे जाव कम्मगसरीरणामे ।

[४] सरीरंगोवंगणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! तिविहे  
पण्णते । तं जहा—ओरालियसरीरंगोवंगणामे १ वेउच्चियसरीरंगोवंगणामे २ आहार-  
गसरीरंगोवंगणामे ३ ।

[५] सरीरबंधणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे  
पण्णते । तं जहा—ओरालियसरीरबंधणामे जाव कम्मगसरीरबंधणामे ।

[६] सरीरसंघायणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे  
पण्णते । तं जहा—ओरालियसरीरसंघातणामे जाव कम्मगसरीरसंघायणामे ।

[७] संघयणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! छविहे पण्णते ।  
तं जहा—वङ्ग्रोसभणारायसंघयणामे १ उसभणारायसंघयणामे २ णारायसंघयण-

णमे ३ अद्दणारायसंघयणणमे ४ खीलिंयासंघयणणमे ५ छेवडुसंघयणणमे ६ ।

[८] संठाणणमे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! छव्विहे पण्णते । तं जहा-समचउरंसंठाणणमे २ णगोहपरिमंडलसंठाणणमे २ साति-संठाणणमे ३ वामणसंठाणणमे ४ खुज्जसंठाणणमे ५ हुंडसंठाणणमे ६ ।

६ [९] वण्णणमे णं भंते ! कम्मे कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णते । तं जहा-कालवण्णणमे जाव सुक्किलवण्णणमे ।

[१०] गंधणमे णं भंते ! कम्मे ० पुच्छा । गोयमा ! दुविहे पण्णते । तं जहा-सुरभिगंधणमे १ दुरभिगंधणमे २ ।

१० [११] रसणमे णं ० पुच्छा । गोयमा ! पंचविहे पण्णते । तं जहा-तित्तरसणमे जाव महुररसणमे ।

[१२] फासणमे णं ० पुच्छा । गोयमा ! अडुविहे पण्णते । तं जहा-कक्खडफासणमे जाव लुक्खफासणमे ।

[१३] अगुस्तुहुअणमे एगागारे पण्णते ।

[१४] उवधायणमे एगागारे पण्णते ।

१५ [१५] परावायणमे एगागारे पण्णते ।

[१६] आणुपुव्विणमे चउव्विहे पण्णते । तं जहा-णेरइयाणुपुव्विणमे जाव देवाणुपुव्विणमे ।

[१७] उस्सासणमे एगागारे पण्णते ।

[१८] सेसाणि सव्वाणि एगागाराइं पण्णत्ताइं जाव तित्थगरणमे । २० णवरं विहायगतिणमे दुविहे पण्णते । तं जहा-पसत्थविहायगतिणमे य अपसत्थविहायगतिणमे य ।

१६९५. [१] गोए णं भंते ! कम्मे कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! दुविहे पण्णते । तं जहा-उच्चागोए य णीयागोए य ।

२५ [२] उच्चागोए णं भंते ! कम्मे कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! अडुविहे पण्णते । तं जहा-जाइविसिड्या जाव इस्सारियविसिड्या ।

[३] एवं णीयागोए वि । णवरं जातिविहीणया जाव इस्सारियविहीणया ।

१६९६. अंतराइए णं भंते ! कम्मे कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णते । तं जहा-दाणंतराइए जाव वीरियंतराइए ।

[ सुन्नाहै १६९७-१७०४, कर्मपयडीणं ठिङ्परुवणं ]

१६९७. णाणावरणिज्जस्स णं भंते ! कर्मस्स केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण तीसं सागरोवमकोडाकोडीओ; तिणिं य वाससहस्राहैं अबाहा, अबाहूणिया कर्मठिती कर्मणिसेगो ।

१६९८. [१] निदापंचयस्स णं भंते ! कर्मस्स केवतियं कालं ठिती ५ पण्णता ? गोयमा ! जहणेण सागरोवमस्स तिणिं सत्तभागा पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊण्या, उक्कोसेण तीसं सागरोवमकोडाकोडीओ; तिणिं य वाससहस्राहैं अबाहा, अबाहूणिया कर्मठिती कर्मणिसेगो ।

[२] दंसणचउक्कस्स णं भंते ! कर्मस्स केवतियं कालं ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण तीसं सागरोवमकोडाकोडीओ; तिणिं १० य वाससहस्राहैं अबाहा० ।

१६९९. [१] सातावेयणिज्जस्स इरियावहियबंधगं पङ्कुच्च अजहण्ण-मणुक्कोसेण दो समया, संपराइयबंधगं पङ्कुच्च जहणेण वारस मुहुता, उक्कोसेण पण्णरस सागरोवमकोडाकोडीओ; पण्णरस य वाससताहैं अबाहा० ।

[२] असायावेयणिज्जस्स जहणेण सागरोवमस्स तिणिं सत्तभागा १५ पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊण्गा, उक्कोसेण तीसं सागरोवमकोडाकोडीओ; तिणिं य वाससहस्राहैं अबाहा० ।

१७००. [१] सम्भत्वेयणिज्जस्स पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतो-मुहुतं, उक्कोसेण छावडिं सागरोवमाहैं साइरेगाहैं ।

[२] मिच्छत्वेयणिज्जस्स जहणेण सागरोवमं पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊण्गं, उक्कोसेण सैत्तरिं कोडाकोडीओ; सत्त य वाससहस्राहैं अबाहा, अबाहूणिया० । २०

[३] सम्मामिच्छत्वेदणिज्जस्स जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं ।

[४] कसायचारसगस्स जहणेण सागरोवमस्स चत्तारि सत्तभागा २५ पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊण्या, उक्कोसेण चत्तालीसं सागरोवमकोडाकोडीओ; चत्तालीसं वाससताहैं अबाहा, जाव णिसेगो ।

[५] कोहसंजलणाए पुच्छा । गोयमा ! जहणेण दो मासा, उक्कोसेण चतालीसं सागरोवमकोडाकोडीओ; चतालीसं वाससताइं जाव णिसेगो ।

[६] माणसंजलणाए पुच्छा । गोयमा ! जहणेण मासं, उक्कोसेण जहा कोहस्स ।

५ [७] मायासंजलणाए पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अद्वमासं, उक्कोसेण जहा कोहस्स ।

[८] लोभसंजलणाए पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण जहा कोहस्स ।

१० [९] इत्थिवेदस्स णं ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सागरोवमस्स दिव्वडुं सत्तभागं पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणयं, उक्कोसेण पणरस सागरोवम-कोडाकोडीओ; पणरस य वाससताइं अवाहा० ।

[१०] पुरिसवेयस्स णं ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अटु संवच्छराइं, उक्कोसेण दस सागरोवमकोडाकोडीओ; दस य वाससयाइं अवाहा, जाव निसेगो ।

१५ [११] नपुंसगवेदस्स णं ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सागरोवमस्स दुष्णि सत्तभागा पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणगा, उक्कोसेण वीसं सागरो-वमकोडाकोडीओ; वीसतिं वाससताइं अवाहा० ।

[१२] हौस-रतीणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सागरोवमस्स एकं सत्तभागं पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणं, उक्कोसेण दस सागरोवमकोडाकोडीओ; दस य वाससताइं अवाहा० ।

२० [१३] अरड-भय-सोग-दुगुंछाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सागरोवमस्स दोणि सत्तभागा पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणया, उक्कोसेण वीसं साग-रोवमकोडाकोडीओ; वीसतिं वाससताइं अवाहा० ।

२५ १७०१. [१] ऐरइयाउयस्स णं ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण दस वाससहस्राइं अंतोमुहुतमव्मइयाइं, उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाइं पुव्वकोडी-तिभागमव्मइयाइं ।

[२] तिरिक्खजोणियाउअस्स पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण तिणि पलिओवमाइं पुव्वकोडीतिभागमव्मइयाइं ।

[३] एवं मणूसाउअस्स वि ।

[४] देवाउअस्स जहा णेरइयाउअस्स ठिति त्ति ।

१७०२. [१] णिरयगतिणांमाए णं भंते ! कम्मस्स ० पुच्छा ।  
गोयमा ! जहणेणं सागरोवमसहस्रस्स दो सत्तभागा पलिओवमस्स असंखेज-  
तिभागेणं ऊणगा, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ; वीस य वाससताइं  
अबाहा० ।

[२] तिरियगतिणांमाए जहा णपुंसगवेदस्स (सु. १७०० [११]) ।

[३] मणुयगतिणांमाए पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं सागरोवमस्स दिवडुं  
सत्तभागं पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं पण्णरस सागरोवम-  
कोडाकोडीओ; पण्णरस य वाससताइं आबाहा० ।

[४] देवगतिणांमाए णं ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं सागरोवमसहस्रस्स  
एकं सत्तभागं पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं जहा पुरिसवेयस्स  
[सु. १७००. [१०]) ।

[५] एरिंदियजाइणामाए पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं सागरोवमस्स  
दोणिण सत्तभागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणगा, उक्कोसेणं वीसं सागरो-  
वमकोडाकोडीओ; वीस य वाससताइं अबाहा० ।

[६] बेरिंदियजाइणामाए णं ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं सागरोवमस्स  
णव पण्णतीसतिभागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणगा, उक्कोसेणं अट्टारस  
सागरोवमकोडाकोडीओ; अट्टारस य वाससताइं अबाहा० ।

[७] तेरिंदियजाइणामाए णं जहणेणं एवं चेव, उक्कोसेणं अट्टारस  
सागरोवमकोडाकोडीओ; अट्टारस य वाससताइं अबाहा० ।

[८] चउरिंदियजाइणामाए णं ० पुच्छा । जहणेणं सागरोवमस्स नव  
पण्णतीसतिभागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणया, उक्कोसेणं अट्टारस  
सागरोवमकोडाकोडीओ; अट्टारस य वाससताइं अबाहा० ।

[९] पंचेंदियजाइणामाए णं ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं सागरोवमस्स  
दोणिण सत्तभागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणगा, उक्कोसेणं वीसं सागरो-  
वमकोडाकोडीओ; वीस य वाससताइं अबाहा० ।

[१०] ओरालियसरीरणामाए वि एवं चेव ।

[११] वेउव्वियसरीरणामाए णं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं

सागरोवमसहस्रस्स दो सत्तभागा पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणया, उक्कोसेण वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ; वीस य वाससताइं अवाहा० ।

[१२] आहारगसरीरणामाए जहणेण अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ, उक्कोसेण वि अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ ।

५ [१३] तेया-कम्मसरीरणामाए जहणेण [सागरोवमस्स] दोणि सत्तभागा पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणया, उक्कोसेण वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ; वीस य वाससताइं अवाहा० ।

[१४] ओरालिय-न्वेउन्विय-आहारगसरीरंगोवंगणामाए तिणिं वि एवं चेव ।

[१५] सरीरवंधणणामाए वि पंचण्ह वि एवं चेव ।

१० [१६] सरीरसंघायणामाए पंचण्ह वि जहा सरीरणामाए (सु. १७०२ [१०-१३]) कम्मस्स ठिति ति ।

[१७] वझेसभणारायसंघयणणामाए जहा रतिणामाए (सु. १७०० [१२]) ।

१५ [१८] उसभणारायसंघयणणामाए पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सागरो-वमस्स छ पणतीसतिभागा पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणगा, उक्कोसेण वारस सागरोवमकोडाकोडीओ; वारस य वाससयाइं अवाहा० ।

[१९] णारायसंघयणणामाए जहणेण सागरोवमस्स सत्त पणतीसति-भागा पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणगा, उक्कोसेण चोहस सागरोवमकोडा-कोडीओ; चोहस य वाससताइं अवाहा० ।

२० [२०] अद्धणारायसंघयणणामस्स जहणेण सागरोवमस्स अदु पणती-सतिभागा पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणगा, उक्कोसेण सोलस सागरोवम-कोडाकोडीओ; सोलस य वाससताइं अवाहा० ।

२५ [२१] खीलियासंघयणे ण ० पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सागरोवमस्स णव पणतीसतिभागा पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणगा, उक्कोसेण अद्वारस सागरोवमकोडाकोडीओ; अद्वारस य वाससयाइं अवाहा० ।

[२२] सेवंहुसंघयणणामस्स पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सागरोवमस्स दोणि सत्तभागा पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणगा, उक्कोसेण वीसं सागरो-वमकोडाकोडीओ; वीस य वाससयाइं अवाहा० ।

[२३] एवं जहा संघयणामाए छ भणिया एवं संठणा वि छ भाणियव्वा ।

[२४] सुक्किलवण्णनामाए पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं सागरोवमस्स एगं सत्तभागं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं दस सागरोवम-कोडाकोडीओ; दस य वाससयाइं अबाहा० ।

[२५] हालिद्वण्णनामाए पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं सागरोवमस्स पंच अद्वावीसतिभागा पलिओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगा, उक्कोसेणं अद्वतेरस सागरोवमकोडाकोडीओ; अद्वतेरस य वाससयाइं अबाहा० ।

[२६] लोहियवण्णनामाए णं० पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं सागरोवमस्स छ अद्वावीसतिभागा पलिओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगा, उक्कोसेणं पण्णरस १० सागरोवमकोडाकोडीओ; पण्णरस य वाससयाइं अबाहा० ।

[२७] णीलवण्णनामाए पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं सागरोवमस्स सत्त अद्वावीसतिभागा पलिओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणया, उक्कोसेणं अद्वद्वारस सागरोवमकोडाकोडीओ; अद्वद्वारस य वाससयाइं अबाहा० ।

[२८] कालवण्णनामाए जहा सेवँडुसंघयणस्स (सु. १७०२ [२२]) । १५

[२९] सुबिगंधणामाए पुच्छा । गोयमा ! जहा सुक्किलवण्णनामस्स (सु. १७०२ [२४]) ।

[३०] दुबिगंधणामाए जहा सेवँडुसंघयणस्स ।

[३१] रसाणं महुरादीणं जहा वण्णाणं भणियं (सु. १७०२ [२४-२८]) २० तहेव परिवाडीए भाणियव्वं ।

[३२] फासा जे अपसत्था तेसिं जहा सेवँडुस्स, जे पसत्था तेसिं जहा सुक्किलवण्णनामस्स (सु. १७०२ [२४]) ।

[३३] अगुरुलहुणामाए जहा सेवँडुस्स ।

[३४] एवं उवधायणामाए वि ।

[३५] पराधायणामाए वि एवं चेव ।

[३६] णिरयाणुपुच्चिणामाए पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं सागरोवम-सहस्रस्स दो सत्तभागा पलिओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणगा, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ; वीस य वाससयाइं अबाहा० ।

[३७] तिरियाणुपुञ्चीए पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सागरोवमस्स दो सत्तभागा पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणगा, उक्कोसेण वीसं सागरोवम-कोडाकोडीओ; वीस य वाससताइं अवाहा० ।

५ [३८] मणुयाणुपुञ्चिणामाए णं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सागरोवमस्स दिवडं सत्तभागं पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणगं, उक्कोसेण पण्णरस सागरोवमकोडाकोडीओ; पण्णरस य वाससयाइं अवाहा० ।

[३९] देवाणुपुञ्चिणामाए पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सागरोवमसहस्सस्स एं सत्तभागं पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणगं, उक्कोसेण दस सागरो-वमकोडाकोडीओ; दस य वाससताइं अवाहा० ।

१० [४०] उस्सासणामाए पुच्छा । गोयमा ! जहा तिरियाणुपुञ्चीए ।

[४१] आयवणामाए वि एवं चेव, उज्जोवणामाए वि ।

[४२] पसत्थविहायगतिणामाए पुच्छा । गोयमा ! जहणेण एं सागरोवमस्स सत्तभागं, उक्कोसेण दस सागरोवमकोडाकोडीओ; दस य वाससताइं अवाहा० ।

१५ [४३] अपसत्थविहायगतिणामस्स पुच्छा । गोयमा ! जहणेण साग-रोवमस्स दोण्णि सत्तभागा पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणया, उक्कोसेण वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ; वीस य वाससयाइं अवाहा० ।

[४४] तसणामाए यावरणामाए य एवं चेव ।

२० [४५] सुहुमणामाए पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सागरोवमस्स णव पण्टीसतिभागा पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणया, उक्कोसेण अट्ठारस सागरोवमकोडाकोडीओ; अट्ठारस य वाससयाइं अवाहा० ।

[४६] वादरणामाए जहा अपसत्थविहायगतिणामस्स (सु. १७०२ [४३]) ।

२५ [४७] एवं पञ्जतगणामाए वि । अपञ्जतगणामाए जहा सुहुमणामस्स (सु. १७०२ [४५])

[४८] पत्तेयसरीरणामाए वि दो सत्तभागा । साहारणसरीरणामाए जहा सुहुमस्स ।

[४९] थिरणामाए एं सत्तभागं । अथिरणामाए दो ।

[५०] सुभणामाए एगो । असुभणामाए दो ।

- [५१] सुभगणामाए एगो । दूभगणामाए दो ।  
 [५२] सूसरणामाए एगो । दूसरणामाए दो ।  
 [५३] आएज्जणामाए एगो । अणाएज्जणामाए दो ।  
 [५४] जसोकित्तिणामाए जहणेणं अडु मुहुत्ता, उक्कोसेणं दस सागरो-  
वमकोडाकोडीओ; दस य वाससताइं अबाहा० ।

[५५] अजसोकित्तिणामाए पुच्छा । गोयमा ! जहा अपसत्थविहायगति-  
णामस्स (सु. १७०२ [४३]) ।

[५६] एवं णिम्माणणामाए वि ।

[५७] तित्थगरणामाए णं० पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अंतोसागरोवम-  
कोडाकोडीओ, उक्कोसेण वि अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ ।

[५८] एवं जत्थ गो सत्तभागो तत्थ उक्कोसेणं दस सागरोवमकोडा-  
कोडीओ दस य वाससयाइं अबाहा० । जत्थ दो सत्तभागा तत्थ उक्कोसेणं वीसं  
सागरोवमकोडाकोडीओ वीस य वाससयाइं अबाहा० ।

१७०३. [१] उच्चागोयस्स पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अडु मुहुत्ता,  
उक्कोसेणं दस सागरोवमकोडाकोडीओ; दस य वाससयाइं अबाहा० ।

[२] णीयागोयस्स पुच्छा । गोयमा ! जहा अपसत्थविहायगतिणामस्स ।

१७०४. अंतराइयस्स णं० पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अंतोमुहुत्तं,  
उक्कोसेणं तीसं सागरोवमकोडाकोडीओ; तिणिण य वाससहस्राइं अबाहा, अबाहूणिया  
कम्मठिती कम्मणिसेगो ।

[सुत्ताइं १७०५—१४. एर्गिंदिएसु कम्मपयडीणं ठिइबंधपरूवणं ]

१७०५. एर्गिंदिया णं भंते ! जीवा णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स किं वंधंति ?  
गोयमा ! जहणेणं सागरोवमस्स तिणिण सत्तभागे पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण  
ऊणए, उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णे वंधंति ।

१७०६. एवं णिहापंचकस्स वि दंसणचउक्कस्स वि ।

१७०७. [१] एर्गिंदिया णं भंते ! जीवा सातावेयणिज्जस्स कम्मस्स २५  
किं बंधंति ? गोयमा ! जहणेणं सागरोवमस्स दिवडुं सत्तभागं पलिओवमस्स  
असंखेज्जभागेण ऊणयं, उक्कोसेणं तं चेव पडिपुण्णं वंधंति ।

[२] असायावेयणिज्जस्स जहा णाणावरणिज्जस्स (सु. १७०५) ।

१७०८. [१] एगिंदिया णं भंते ! जीवा सम्मतवेयणिजस्स कम्मस्स किं वंधंति ? गोयमा ! णत्थि किंचि वंधंति ।

[२] एगिंदिया णं भंते ! जीवा मिच्छतवेयणिजस्स कम्मस्स किं वंधंति ? गोयमा ! जहणेण सागरोवमं पलिओवमस्स असंखेजइभागेण ऊणयं, उक्कोसेणं तं ५ चेव पडिपुण्णं वंधंति ।

[३] एगिंदिया णं भंते ! जीवा सम्मामिच्छतवेयणिजस्स किं वंधंति ? गोयमा ! णत्थि किंचि वंधंति ।

[४] एगिंदिया णं भंते ! कसायबारसगस्स किं वंधंति ? गोयमा ! जहणेण सागरोवमस्स चत्तारि सत्तभागे पलिओवमस्स असंखेजइभागेण ऊणए, उक्कोसेणं ते १० चेव पडिपुण्णे वंधंति ।

[५] एवं कोहसंजलणाए वि जाव लोभसंजलणाए वि ।

[६] इत्थिवेयस्स जहा सायवेयणिजस्स (सु. १७०७ [१]) ।

[७] एगिंदिया पुरिसवेदस्स कम्मस्स जहणेण सागरोवमस्स एकं सत्तभागं पलिओवमस्स असंखेजइभागेण ऊणयं, उक्कोसेणं तं चेव पडिपुण्णं वंधंति ।

[८] एगिंदिया णपुंसगवेदस्स कम्मस्स जहणेण सागरोवमस्स दो सत्तभागे पलिओवमस्स असंखेजइभागेण ऊणए, उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णे वंधंति ।

[९] हास-रतीए जहा पुरिसवेयस्स (सु. १७०८ [७]) ।

[१०] अरति-भय-सोग-दुगुंछाए जहा णपुंसगवेयस्स (सु. १७०८ [८]) ।

२० १७०९. णेरइयाउअ देवाउअ णिरयगतिणाम देवगतिणाम वेउव्वियसरीरणाम आहारगसरीरणाम णेरइयाणुपुव्विणाम देवाणुपुव्विणाम तित्थगरणाम एयाणि पयाणि ण वंधंति ।

१७१०. तिरिक्खजोणियाउअस्स जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुञ्चकोडी सत्तहिं वाससहस्सेहिं वाससहस्सतिभागेण य अहियं वंधंति । एवं २५ मणुस्साउअस्स वि ।

१७११. [१] तिरियगतिणामाए जहा णपुंसगवेदस्स (सु. १७०८ [८]) । मणुयगतिणामाए जहा सातावेदणिजस्स (सु. १७०७ [१]) ।

[२] एगिंदियजाइणामाए पंचेंदियजातिणामाए य जहा णपुंसगवेदस्स । वेझंदिय-तेझंदियजातिणामाए जहणेण सागरोवमस्स णव पणतीसतिभागे पलिओवमस्स

असंखेज्जइभागेण ऊणए, उक्कोसेण ते चेव पडिपुणे बंधंति । चउरिंदियनामाए वि जहणेण सागरोवमस्स णव पणतीसतिभागे पलिओवमस्स असंखिज्जइभागेण ऊणए, उक्कोसेण ते चेव पडिपुणे बंधंति ।

१७१२. एवं जत्थ जहणेण दो सत्तभागा तिणिं वा चत्तारि वा सत्तभाँगा अट्टावीसतिभागा ० भवंति तत्थ णं जहणेण ते चेव पलिओवमस्स ५ असंखेज्जइभागेण ऊणगा भाणियव्वा, उक्कोसेण ते चेव पडिपुणे बंधंति । जत्थ णं जहणेण एगो वा दिवडौ वा सत्तभागो तत्थ जहणेण तं चेव भाणियव्वं, उक्कोसेण तं चेव पडिपुणं बंधंति ।

१७१३. जसोकिति-उच्चागोयाणं जहणेण सागरोवमस्स एं सत्तभागं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागेण ऊणयं, उक्कोसेण तं चेव पडिपुणं बंधंति । १०

१७१४. अंतराइयस्स णं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! जहा णाणावरणि-जस्स जाव उक्कोसेण ते चेव पडिपुणे बंधंति ।

### [ सुत्ताइं १७१५-२०. बेइंदिपसु कम्मपयडीण ठिइवंधपरूपवणं ]

१७१५. बेइंदिया णं भंते ! जीवा णाणावरणिजस्स कम्मस्स किं बंधंति ? गोयमा ! जहणेण सागरोवमपणुवीसाए तिणिं सत्तभागा पलिओवमस्स १५ असंखेज्जइभागेण ऊणया, उक्कोसेण ते चेव पडिपुणे बंधंति ।

१७१६. एवं णिहापंचगस्स वि ।

१७१७. एवं जहा एगिंदियाणं भणियं तहा बेइंदियाण वि भाणियव्वं । णवरं सागरोवमपणुवीसाए सह भाणियव्वा पलिओवमस्स असंखेज्जइभागेण ऊणा, सेसं तं चेव, जत्थ एगिंदिया ण बंधंति तत्थ एते वि ण बंधंति । २०

१७१८. बेइंदिया णं भंते ! जीवा मिच्छत्वेयणिजस्स किं बंधंति ? गोयमा ! जहणेण सागरोवमपणुवीसं पलिओवमस्स असंखिज्जइभागेण ऊणयं, उक्कोसेण तं चेव पडिपुणं बंधंति ।

१७१९. तिरिक्खजोणियाउअस्स जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण २५ पुव्वकोडिं चउहिं वासेहिं अहियं बंधंति । एवं मणुयाउअस्स वि ।

१७२०. सेसं जहा एगिंदियाणं जाव अंतराइयस्स ।

१. °गां सत्त वा सत्तभागा भवति जे० ॥ २. °साए भाणि° ध० म०॥

[सुत्ताइं १७२१-२४. तेइंदिएसु कम्मपयडीण ठिंवंधपरूपण]

१७२१. तेइंदिया णं भंते ! जीवा णाणावरणिज्जस्स किं वंधंति ? गोयमा ! जहणेण सागरोवमपणासाए तिणिण सत्तभागा पलिओवमस्स असंखेज्जइ-भागेण ऊणया, उक्कोसेण ते चेव पडिपुणे वंधंति । एवं जस्स जइ भागा ते ५ तस्स सागरोवमपणासाए सह भाणियब्बा ।

१७२२. तेइंदिया णं० मिच्छत्वेयणिज्जस्स कम्मस्स किं वंधंति ? गोयमा ! जहणेण सागरोवमपणासं पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणयं, उक्कोसेण तं चेव पडिपुणं वंधंति ।

१७२३. तिरिक्खजोणियाउअस्स जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण १० पुव्वकोडिं सोलसहिं राइंदिएहिं राइंदियतिभागेण य अहियं वंधंति । एवं मणुस्सा-उयस्स वि ।

१७२४. सेसं जहा वेइंदियाणं जाव अंतराइयस्स ।

[सुत्ताइं १७२५-२७. चउरिंदिएसु कम्मपयडीण ठिंवंधपरूपण]

१७२५. चउरिंदिया णं भंते ! जीवा णाणावरणिज्जस्स किं वंधंति ? १५ गोयमा ! जहणेण सागरोवमस्यस्स तिणिण सत्तभागे पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणए, उक्कोसेण ते चेव पडिपुणे वंधंति । एवं जस्स जइ भागा ते तस्स सागरोवमस्तेण सह भाणियब्बा ।

१७२६. तिरिक्खजोणियाउअस्स कम्मस्स जहणेण अंतोमुहुतं, उक्कोसेण पुव्वकोडिं दोहिं मासेहिं अहियं । एवं मणुस्साउअस्स वि ।

१७२७. सेसं जहा वेइंदियाणं । णवरं मिच्छत्वेयणिज्जस्स जहणेण सागरोवमस्तं पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणयं, उक्कोसेण तं चेव पडिपुणं वंधंति । सेसं जहा वेइंदियाणं जाव अंतराइयस्स ।

[सुत्ताइं १७२८-३३. असणीसु कम्मपयडीण ठिंवंधपरूपण]

१७२८. असणी णं भंते ! जीवा पंचेंदिया णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स किं २५ वंधंति ? गोयमा ! जहणेण सागरोवमसहस्सस्स तिणिण सत्तभागे पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणए, उक्कोसेण ते चेव पडिपुणे वंधंति । एवं सो चेव गमो जहा वेइंदियाणं । णवरं सागरोवमसहस्सेण समं भाणियब्बा जस्स जाति भाग ति ।

१७२९. मिच्छत्वेदणिज्जस्स जहणेण सागरोवमसहस्रं पलिओवमस्स  
असंखेज्जभागेण ऊणयं, उक्कोसेण तं चेव पडिपुण्णं ।

१७३०. [१] णेरइयाउअस्स जहणेण दस वाससहस्राइं अंतोमुहुत्त-  
बमझ्याइं, उक्कोसेण पलिओवमस्स असंखेज्जभागं पुञ्कोडितिभागबमझ्यं बंधंति ।

[२] एवं-तिरिक्खजोणियाउअस्स वि । णवरं जहणेण अंतोमुहुत्तं । ५

[३] एवं मणुस्साउअस्स वि ।

[४] देवाउअस्स जहा णेरइयाउअस्स ।

१७३१. [१] असण्णी णं भंते ! जीवा पंचेंदिया णिरयगतिणामाए  
कम्मस्स किं बंधंति ? गोयमा ! जहणेण सागरोवमसहस्रस्स दो सत्तभागे  
पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणए, उक्कोसेण ते चेव पडिपुण्णे । १०

[२] एवं तिरियगतीए वि ।

[३] मणुयगतिणामाए वि एवं चेव । णवरं जहणेण सागरोवमसहस्रस्स  
दिवडुं सत्तभागं पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणयं, उक्कोसेण तं चेव पडिपुण्णं  
बंधंति ।

[४] एवं देवगतिणामाए वि । णवरं जहणेण सागरोवमसहस्रस्स १५  
एं सत्तभागं पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणयं, उक्कोसेण तं चेव पडिपुण्णं ।

[५] वेउव्वियसरीरणामाए पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सागरोवमसह-  
स्रस्स दो सत्तभागे पलिओवमस्स असंखेज्जभागेण ऊणए, उक्कोसेण दो पडिपुण्णे  
बंधंति ।

१७३२. सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-आहारगसरीरणामाए तित्थगरणामाए य ण २०  
किंचि बंधंति ।

१७३३. अवसिडुं जहा बेइंदियाणं । णवरं जस्स जत्तिया भागा तस्स  
ते सागरोवमसहस्रसेण सह भाणियव्वा सच्चेसिं आणुपुञ्चीए जाव अंतराइयस्स ।

[सुन्ताइ १७३४-४१. सण्णीसु कर्मपयडीणं ठिक्कंधपरूपणं]

१७३४. सण्णी णं भंते ! जीवा पंचेंदिया णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स २५  
किं बंधंति ? गोयमा ! जहणेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण तीसं सागरोवमकोडा-  
कोडीओ, तिणिण य वाससहस्राइं अबाहा० ।

१७३५. [१] सृष्टीं पं भंते ! पंचेदिया णिहापंचगस्स किं वंधंति ?  
गोयमा ! जहणेणं अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ; उक्कोसेणं तीसं सागरोवमकोडा-  
कोडीओ, तिणिं य वाससहस्राइं अवाहा० ।

[२] दंसणचउक्कस्स जहा णाणावरणिजस्स ।

५ १७३६. [१] सातावेदणिजस्स जहा ओहिया ठिती भणिया तहेव  
भाणियब्बा इरियावहियवंधयं पङ्कुच संपराइयवंधयं च ।

[२] असातावेयणिजस्स जहा णिहापंचगस्स ।

१० १७३७. [१] सम्मतवेदणिजस्स सम्मामिच्छत्वेदणिजस्स य जा  
ओहिया ठिती भणिया तं वंधंति ।

[२] मिच्छत्वेदणिजस्स जहणेणं अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ, उक्कोसेणं  
सत्तरिं सागरोवमकोडाकोडीओ; सत्त य वाससहस्राइं अवाहा० ।

[३] कसायवारसगस्स जहणेणं एवं चेव, उक्कोसेणं चत्तालीसं सागरो-  
वमकोडाकोडीओ; चत्तालीस य वाससयाइं आवाहा० ।

१५ [४] कोह-माण-माया-लोभसंजलणाए य दो मासा मासो अद्भुमासो  
अंतोमुहुतो एयं जहणगं, उक्कोसगं पुण जहा कसायवारसगस्स ।

१७३८. चउण्ह वि आउआणं जा ओहिया ठिती भणिया तं वंधंति ।

१७३९. [१] आहारगसरीरस्स तित्थगरणामाए य जहणेणं अंतोसाग-  
रोवमकोडाकोडीओ, उक्कोसेण वि अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ वंधंति ।

२० [२] पुरिसंवेदस्स जहणेणं अटु संवच्छराइं, उक्कोसेणं दस सागरोवम-  
कोडाकोडीओ; दस य वाससयाइं अवाहा० ।

[३] जसोकित्तिणामाए उच्चागोयस्स य एवं चेव। णवरं जहणेणं अटु  
मुहुता० ।

१७४०. अंतराइयस्स जहा णाणावरणिजस्स ।

२५ १७४१. सेसएसु सव्वेसु ठणेसु संघयणेसु संठाणेसु वणेसु गंधेसु य  
जहणेणं अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ, उक्कोसेण जा जस्स ओहिया ठिती भणिया  
तं वंधंति, णवरं इमं णाणत्तं-अवाहा अवाहूणिया ण बुच्चति । एवं आणुपुब्बीए  
सव्वेमि जाव अंतराइयस्स ताव भाणियवं ।

[सुत्ताइं १७४२-४४. जहण्णठिवंधगपरूपणं]

१७४२. णाणावरणिज्जस्स णं भंते ! कम्मस्स जहण्णठितिवंधए के ? गोयमा ! अण्णयेर सुहुमसंपराए उवसामए वा खवए वा, एस णं गोयमा ! णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स जहण्णठितिवंधए, तव्वइरिते अजहणे । एवं एतेण अभिलावेण मोहाऽऽउवज्जाणं सेसकम्माणं भाणियव्वं । ५

१७४३. मोहणिज्जस्स णं भंते ! कम्मस्स जहण्णठितिवंधए के ? गोयमा ! अण्णयेर बायरसंपराए उवसामए वा खवए वा, एस णं गोयमा ! मोहणिज्जस्स कम्मस्स जहण्णठितिवंधए, तव्वतिरिते अजहणे ।

१७४४. आउयस्स णं भंते ! कम्मस्स जहण्णठितिवंधए के ? गोयमा ! जे णं जीवे असंखेप्पद्धप्पविडे सब्बणिरुद्दे से आउए, सेसे सब्बमहंतीए आउ- १० अबंधद्वाए, तीसे णं आउअबंधद्वाए चरिमकालसमयंसि सब्बजहण्णयं ठिं पज्जाता- पज्जतियं णिव्वतेति । एस णं गोयमा ! आउयकम्मस्स जहण्णठितिवंधए, तव्वइरिते अजहणे ।

[सुत्ताइं १७४५-५३. उक्तोसठिवंधगपरूपणं]

१७४५. उक्तोसकालठितीयं णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं किं णेरइओ १५ बंधति तिरिक्खजोणिओ बंधति तिरिक्खजोणिणी बंधति मणुस्सो बंधति मणुस्सी बंधति देवो बंधति देवी बंधति ? गोयमा ! णेरइओ वि बंधति जाव देवी वि बंधति ।

१७४६. केरिसए णं भंते ! णेरइए उक्तोसकालठितीयं णाणावरणिज्जं कम्मं बंधति ? गोयमा ! सण्णी पंचिंदिए सब्बाहिं पज्जतीहिं पज्जते सागारे जागरे २० सुतोवउत्ते मिच्छादिद्वी कण्हलेसे उक्तोससंकिलिद्वपरिणामे ईसिमज्जमपरिणामे वा, एरिसए णं गोयमा ! णेरइए उक्तोसकालठितीयं णाणावरणिज्जं कम्मं बंधति ।

१७४७. [१] केरिसए णं भंते ! तिरिक्खजोणिए उक्तोसकालठितीयं णाणावरणिज्जं कम्मं बंधति ? गोयमा ! कम्मभूमए वा कम्मभूमगपलिभागी वा २५ सण्णी पंचेंदिए सब्बाहिं पज्जतीहिं पज्जत्तए, सेसं तं चेव जहा णेरइयस्स ।

[२] एवं तिरिक्खजोणिणी वि, मणूसे वि मणूसी वि । देव-देवी जहा णेरइए (सु. १७४६) ।

१७४८. एवं आउअवज्जाणं सत्तण्हं कम्माणं ।

१७४९. उक्कोसकालठितीयं ण भंते ! आउयं कम्मं किं णेरइओ बंधइ जाव देवी बंधइ ? गोयमा ! णो णेरइओ बंधइ, तिरिक्खजोणिओ बंधति, णो तिरिक्खजोणिणी बंधति, मणुस्सो वि बंधति, मणुस्सी वि बंधति, णो देवो बंधति, णो देवी बंधइ ।

५ १७५०. केरिसए ण भंते ! तिरिक्खजोणिए उक्कोसकालठितीयं आउयं कम्मं बंधति ? गोयमा ! कम्मभूमए वा कम्मभूमगपलिभागी वा सणी पंचेंदिए सव्वाहिं पज्जतीहिं पज्जतए सागरे जागरे सुतोवउत्ते मिच्छद्विडी परमकिणहलेस्से उक्कोससंकिलिडुपरिणामे, एरिसए ण गोयमा ! तिरिक्खजोणिए उक्कोसकालठितीयं आउयं कम्मं बंधति ।

१० १७५१. केरिसए ण भंते ! मणूसे उक्कोसकालठितीयं आउयं कम्मं बंधति ? गोयमा ! कम्मभूमगे वा कम्मभूमगपलिभागी वा जाव सुतोवउत्ते सम्मद्विडी वा मिच्छद्विडी वा कण्हलेसे वा सुक्कलेसे वा णाणी वा अण्णाणी वा उक्कोससंकिलिडुपरिणामे वा तप्पाउगगविसुज्ज्ञमाणपरिणामे वा, एरिसए ण गोयमा ! मणूसे उक्कोसकालठिईयं आउयं कम्मं बंधति ।

१५ १७५२. केरिसिया ण भंते ! मणूसी उक्कोसकालठितीयं आउयं कम्मं बंधइ ? गोयमा ! कम्मभूमिगा वा कम्मभूमगपलिभागी वा जाव सुतोवउत्ता सम्मद्विडी सुक्कलेस्सा तप्पाउगगविसुज्ज्ञमाणपरिणामा एरिसिया ण गोयमा ! मणुस्सी उक्कोसकालठितीयं आउयं कम्मं बंधति ।

१७५३. अंतराइयं जहा णाणावरणिजं (सु. १७४५-४७) ।

## २४. चतुर्वीसहमं कम्मबंधपयं

[सुत्ताहं १७५४-६१. णाणावरणिज्जबंधएसु जीवाईसु कम्मपयडिवंधपरूपणं ]

१७५४. [१] कति णं भंते ! कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! अटु कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ । तं जहा—णाणावरणिज्जं जाव अंतराइयं ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

१७५५. जीवे णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं बंधमाणे कति कम्मपगडीओ बंधति ? गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अटुविहबंधए वा छविहबंधए वा ।

१७५६. [१] णेरइए णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं बंधमाणे कति कम्मपगडीओ बंधति ? गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अटुविहबंधए वा ।

[२] एवं जाव वेमाणिए । णवरं मणूसे जहा जीवे (सु. १७५५) ।

१७५७. जीवा णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं बंधमाणा कति कम्मपगडीओ बंधांति ? गोयमा ! सव्वे वि ताव होज्जा सत्तविहबंधगा य अटुविहबंधगा य १ अहवा सत्तविहबंधगा य अटुविहबंधगा य छविहबंधगे य २ अहवा सत्तविहबंधगा य अटुविहबंधगा य छविहबंधगा य ३ ।

१७५८. [१] णेरइया णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं बंधमाणा कति कम्मपगडीओ बंधांति ? गोयमा ! सव्वे वि ताव होज्जा सत्तविहबंधगा १ अहवा सत्तविहबंधगा य अटुविहबंधगे य २ अहवा सत्तविहबंधगा य अटुविहबंधगा य, ३ तिण्ण भंगा ।

[२] एवं जाव थणियकुमारा ।

१७५९. [१] पुढविक्काइयाणं पुच्छा । गोयमा ! सत्तविहबंधगा वि अटुविहबंधगा वि ।

[२] एवं जाव वणस्सतिकाइया ।

१७६०. वियलाणं पंचेंदियतिरिक्खजोणियाण य तियमंगो—सव्वे वि ताव होज्जा सत्तविहबंधगा १ अहवा सत्तविहबंधगा य अटुविहबंधए य २ अहवा सत्तविहबंधगा य अटुविहबंधगा य ३ ।

१७६१. मणूसा णं भंते ! णाणावरणिज्जस्स पुच्छा । गोयमा ! सव्वे वि ताव होज्जा सत्तविहबंधगा १ अहवा सत्तविहबंधगा य अटुविहबंधए य २ अहवा सत्तविहबंधगा य अटुविहबंधगा य ३ अहवा सत्तविहबंधगा य छविहबंधए य ४

अहवा सत्तविहवंधगा य छविहवंधगा य ५ अहवा सत्तविहवंधगा य अद्विहवंधए य छविहवंधए य ६ अहवा सत्तविहवंधगा य अद्विहवंधगे य छविहवंधगा य ७ अहवा सत्तविहवंधगा य अद्विहवंधगा य छविहवंधए य ८ अहवा सत्तविहवंधगा य अद्विहवंधगा य छविहवंधगा य ९, एवं एते णव ५ भंगा । सेसा णाणमंतराइया जाव वेमाणिया जहा णेरइया सत्तविहादिवंधगा भणिया (सु. १७५८ [१]) तहा भाणियव्वा ।

[ सुत्तं १७६२. दंसणावरणिज्जवंधएसु जीवाईसु कम्मपयडिवंधपरूपणं ]

१७६२. एवं जहा णाणावरणं वंधमाणा जाहिं भणिया दंसणावरणं पि वंधमाणा ताहिं जीवादीया एगत्त-पोहत्तेहिं भाणियव्वा ।

१० [ सुत्ताई १७६३-६५. वेयणिज्जवंधएसु जीवाईसु कम्मपयडिवंधपरूपणं ]

१७६३. [१] वेयणिज्जं वंधमाणे जीवे कति कम्मपगडीओ वंधति ? गोयमा ! सत्तविहवंधए वा अद्विहवंधए वा छविहवंधए वा एगविहवंधए वा ।

[२] एवं मण्णूसे वि ।

[३] सेसा णारगादीया सत्तविहवंधगा य अद्विहवंधगा य जाव १५ वेमाणिए ।

१७६४. जीवा णं भंते ! वेयणिज्जं कम्मं० पुच्छा । गोयमा ! सब्बे वि ताव होज्जा सत्तविहवंधगा य अद्विहवंधगा य एगविहवंधगा य छविहवंधगे य १ अहवा सत्तविहवंधगा य अद्विहवंधगा य एगविहवंधगा य छविहवंधगा य २ ।

१७६५. [१] अवसेसा णारगादीया जाव वेमाणिया जाओ णाणावरणं २० वंधमाणा वंधति ताहिं भाणियव्वा ।

[२] णवरं मण्णूसा णं भंते ! वेदणिज्जं कम्मं वंधमाणा कति कम्मपग-डीओ वंधति ? गोयमा ! सब्बे वि ताव होज्जा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य १ अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य अद्विहवंधए य २ अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य अद्विहवंधगा य ३ अहवा सत्तविहवंधगा य २५ एगविहवंधगा य छविहवंधगे य ४ अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य छविहवंधगा य ५ अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य अद्विहवंधए य

छविहबंधए य ६ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अद्विहबंधए य  
छविहबंधगा य ७ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अद्विहबंधगा य  
छविहबंधए य ८ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अद्विहबंधगा य  
छविहबंधगा य ९, एवं णव भंगाँ ।

[सुत्ताइ १७६६-६८. मोहणिज्ञाइबंधपसु जीवार्द्धसु कम्मपयडिवंधपरूपणं]

५

१७६६. मोहणिज्ञं बंधमाणे जीवे कति कम्मपगडीओ बंधइ ? गोयमा !  
जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो । जीवेगिंदिया सत्तविहबंधगा वि अद्विहबंधगा वि ।

१७६७. [१] जीवे णं भंते ! आउअं कम्मं बंधमाणे कति कम्म-  
पगडीओ बंधइ ? गोयमा ! णियमा अडु । एवं णेरइए जाव वेमाणिए ।

[२] एवं पुहत्तेण वि ।

१०

१७६८. [१] णाम-गोय-अंतरायं बंधमाणे जीवे कति कम्मपगडीओ  
बंधति ? गोयमा ! जाओ णाणावरणिज्ञं बंधमाणे बंधइ ताहिं भाणियव्वो ।

[२] एवं णेरइए वि जाव वेमाणिए ।

[३] एवं पुहत्तेण वि भाणियव्वं ।

॥ पण्णवणाए भगवतीए चउवीसइमं कम्मबंधपदं समत्तं ॥

१५

## २५. पंचवीसइमं कर्मवंधवेयपयं

[सुत्ताहृ १७६९-७४, णाणावरणाद्वंधपसु जीवार्द्धसु कर्मपयादिवेयपस्त्रयं]

१७६९. [१] कति णं भंते ! कर्मपगडीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा !  
अद्व कर्मपगडीओ पण्णत्ताओ । तं जहा-णाणावरणिज्ञं जाव अंतराइयं ।

५ [२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

१७७०. [१] जीवे णं भंते ! णाणावरणिज्ञं कर्मं वंधमाणे कति  
कर्मपगडीओ वेदेति ? गोयमा ! णियमा अद्व कर्मपगडीओ वेदेति ।

[२] एवं णेरइए जाव वेमाणिए ।

१७७१. एवं पुहत्तेण वि ।

१० १७७२. एवं वेयणिज्ञवज्जं जाव अंतराइयं ।

१७७३. [१] जीवे णं भंते ! वेयणिज्ञं कर्मं वंधमाणे कइ कर्म-  
पगडीओ वेएइ ? गोयमा ! सत्तविहवेयए वा अद्वविहवेयए वा चउविहवेयए वा ।

[२] एवं मणूसे वि । सेसा णेरइयार्द्द एगत्तेण वि पुहत्तेण वि णियमा  
अद्व कर्मपगडीओ वेदेति, जाव वेमाणिया ।

१५ १७७४ [१] जीवा णं भंते ! वेदणिज्ञं कर्मं वंधमाणा कति कर्म-  
पगडीओ वेदेति ? गोयमा ! सब्वे वि ताव होजा अद्वविहवेदगा य चउविहवेदगा  
य १ अहवा अद्वविहवेदगा य चउविहवेदगा य सत्तविहवेदगे य २ अहवा  
अद्वविहवेदगा य चउविहवेदगा य सत्तविहवेदगा य ३ ।

[२] एवं मणूसा वि भाणियव्वा ।

२० || पण्णवणाए भगवतीए पंचवीसइमं कर्मवंधवेदपयं समत्तं ॥

## २६. छब्बीसइमं कम्मवेयवंधपयं

[सुत्ताइं १७७५-८१. णाणावरणिज्ञवेदसु जीवाईसु कम्मपयडिवंधपरुवणं ]

१७७५. [१] कति णं भंते ! कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा !  
अटु कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ । तं जहा-णाणावरणिजं जाव अंतराइयं ।

[२] एवं पेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

१७७६. जीवे णं भंते ! णाणावरणिजं कम्मं वेदेमाणे कति कम्मपगडीओ  
बंधति ? गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अटुविहबंधए वा छव्विहबंधए वा एगविहबंधए वा ।

१७७७. [१] पेरइए णं भंते ! णाणावरणिजं कम्मं वेदेमाणे कति  
कम्मपगडीओ बंधति ? गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अटुविहबंधए वा ।

[२] एवं जाव वेमाणिए । [णवरं] मणूसे जहा जीवे (सु. १७७६) । १०

१७७८. जीवा णं भंते ! णाणावरणिजं कम्मं वेदेमाणा कति कम्म-  
पगडीओ बंधति ? गोयमा ! सव्वे वि ताव होजा सत्तविहबंधगा य अटुविह-  
बंधगा य १ अहवा सत्तविहबंधगा य अटुविहबंधगा य छव्विहबंधए य २ अहवा  
सत्तविहबंधगा य अटुविहबंधगा य छव्विहबंधगा य ३ अहवा सत्तविहबंधगा य  
अटुविहबंधगा य एगविहबंधगे य ४ अहवा सत्तविहबंधगा य अटुविहबंधगा य १५  
एगविहबंधगा य ५ अहवा सत्तविहबंधगा य अटुविहबंधगा य छव्विहबंधए य  
एगविहबंधए य ६ अहवा सत्तविहबंधगा य अटुविहबंधगा य ए छव्विहबंधए य  
एगविहबंधगा य ७ अहवा सत्तविहबंधगा य अटुविहबंधगा य छव्विहबंधगा य  
एगविहबंधए य ८ अहवा सत्तविहबंधगा य अटुविहबंधगा य छव्विहबंधगा य  
एगविहबंधगा य ९, एवं एते नव भंगा । २०

१७७९. अवसेसाणं एगिंदिय-मणूसवज्जाणं तियभंगो जाव वेमाणियाणं ।

१७८०. एगिंदिया णं सत्तविहबंधगा य अटुविहबंधगा य ।

१७८१. मणूसाणं पुच्छा । गोयमा ! सव्वे वि ताव होजा सत्तविह-  
बंधगा १ अहवा सत्तविहबंधगा य अटुविहबंधगे य २ अहवा सत्तविहबंधगा य  
अटुविहबंधगा य ३ अहवा सत्तविहबंधगा य छव्विहबंधए य, एवं छव्विहबंधएण २५  
वि समं दो भंगा ५ एगविहबंधएण वि समं दो भंगा ७ अहवा सत्तविहबंधगा  
य अटुविहबंधए य छव्विहबंधए य चउभंगो ११ अहवा सत्तविहबंधगा य

१. वेदमाणे पुर, एकमन्यत्रापि ॥ २. वेदमाणा पुर, एकमन्यत्रापि ॥

अद्विहवंधए य एगविहवंधए य चउभंगो १५ अहवा सत्तविहवंधगा य छविहवंधगो य एगविहवंधए य चउभंगो १९ अहवा सत्तविहवंधगा य अद्विहवंधए य छविहवंधए य एगविहवंधए य भंगा अद्व २७, एवं एते सत्तावीसं भंगा ।

[मुत्तं १७८२. दंसणावरणाइवेदएसु जीवार्द्धसु एगत-पुहत्तेण कम्मवंधपस्त्वणं]

६ १७८२. एवं जहा णाणावरणिज्ञं तहा दरिसणावरणिज्ञं पि अंतराइयं पि ।

[मुत्ताइं १७८३-८४. वेयणिज्ञवेदएसु जीवार्द्धसु कम्मपयडिवंधपस्त्वणं]

१७८३. [१]जीवे णं भते ! वेयणिज्ञं कम्मं वेदेमाणे कति कम्मपगडीओ वंधति ? गोयमा ! सत्तविहवंधए वा अद्विहवंधए वा छविहवंधए वा एगविहवंधए वा अवंधए वा ।

१० [२] एवं मण्से वि । अवसेसा णारगादीया सत्तविहवंधगा य अद्विहवंधगा य । एवं जाव वेमाणिए ।

१५ १७८४. [१] जीवा णं भते ! वेदणिज्ञं कम्मं वेदेमाणा कति कम्मपगडीओ वंधति ? गोयमा ! सब्वे वि ताव होज्ञा सत्तविहवंधगा य अद्विहवंधगा य एगविहवंधगा य १ अहवा सत्तविहवंधगा य अद्विहवंधगा य एगविहवंधगा य छविहवंधगो य २ अहवा सत्तविहवंधगा य अद्विहवंधगा य एगविहवंधगा य छविहवंधगा य ३ अवंधगेण वि समं दो भंगा भाणियव्वा ५ अहवा सत्तविहवंधगा य अद्विहवंधगा य एगविहवंधगा य छविहवंधए य अवंधए य चउभंगो ९, एवं एते णव भंगा ।

[२] एगिदियाणं अभंगयं ।

२० [३] णारगादीणं तियभंगो, जाव वेमाणियाणं । णवरं मणूसाणं पुच्छा । गोयमा ! सब्वे वि ताव होज्ञा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य १ अहवा सत्तविहवंधगा य एगविहवंधगा य छविहवंधए य अद्विहवंधए य अवंधए य, एवं एते सत्तावीसं भंगा भाणियव्वा जहा किरियासु पाणाइवायविरतस्स (सु. १६४३) ।

[मुत्ताइं १७८५-८६. आउयाइवेदएसु जीवार्द्धसु कम्मपयडिवंधपस्त्वणं]

२५ १७८५. एवं जहा वेदणिज्ञं तहा आउयं णामं गोयं च भाणियव्वं ।

१७८६. मोहणिज्ञं वेदेमाणे जहा वंधे णाणावरणिज्ञं तहा भाणियाव्वं (सु. १७५५-६१) ।

॥ पणवणाए मगवईए छन्नीसइमं कम्मवेयवंधपयं समत्तं ॥

## २७. सत्तावीसइमं कम्मवेयवेयगपयं

[सुत्ताइँ १७८७-९२. णाणावरणिज्ञाइवेदएसु जीवार्द्धसु कम्मपयडिवेयपर्लवणं]

१७८७. [१] कति णं भंते ! कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा !  
अट्ठ। तं जहा-णाणावरणिज्ञं जाव अंतराइयं ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

१७८८. [१] जीवे णं भंते ! णाणावरणिज्ञं कम्मं वेदेमाणे कति कम्म-  
पगडीओ वेदेति ? गोयमा ! सत्तविहवेदए वा अट्ठविहवेदए वा ।

[२] एवं मणूसे वि । अवसेसा एगत्तेण वि पुहत्तेण वि नियमा  
अट्ठविहकम्मपगडीओ वेदेति जाव वेमाणिया ।

१७८९. जीवा णं भंते ! णाणावरणिज्ञं कम्मं वेदेमाणा कति कम्म- १०  
पगडीओ वेदेति ? गोयमा ! सञ्चे वि ताव होज्ञा अट्ठविहवेदगा १ अहवा  
अट्ठविहवेदगा य सत्तविहवेदगे य २ अहवा अट्ठविहवेदगा य सत्तविहवेदगा य  
३। एवं मणूसा वि ।

१७९०. दरिसणावरणिज्ञं अंतराइयं च एवं चेव भाणियव्वं ।

१७९१. वेदणिज्ञ-आउअ-णाम-गोयाइं वेदेमाणे कति कम्मपगडीओ १५  
वेदेति ? गोयमा ! जहा बंधगवेयगस्स वेदणिज्ञं (सु. १७७३-७४) तहा  
भाणियव्वं ।

१७९२. [१] जीवे णं भंते ! मोहणिज्ञं कम्मं वेदेमाणे कति कम्म-  
पगडीओ वेदेति ? गोयमा ! णियमा अट्ठ कम्मपगडीओ वेदेति ।

[२] एवं णेरइए जाव वेमाणिए ।

[३] एवं पुहत्तेण वि ।

॥ पण्णवणाए भगवतीए सत्तावीसतिमं कम्मवेदवेदयपयं समत्तं ॥

१. हवेज्ज म०॥ २. °यव्वाणि । १७९२. जी° पुरस० विना ॥

## २८. अद्वावीसद्दमं आहारपयं

पठमो उद्देसओ

[सुत्तं १७९३. पढमुद्देसस्स अत्थाहिगारपरव्वणं]

१७९३. सचित्ता१५हारद्वी २ केवति ३ किं वा वि ४

५ सब्बओ चेव ५।

कतिभागं ६ सब्बे खलु ७ परिणामे चेव ८ वोधव्वे ॥ २१७ ॥

एगिंदिसरीरादी ९ लोमाहारे १० तहेव मणभक्खी ११ ।

एतेसिं तु पयाणं विभावणा होइ कायव्वा ॥ २१८ ॥

[सुत्तं १७९४. चउवीसदंडएसु १ सचित्ताहारदारं]

१० १७९४. [१] णेरइया णं भंते ! किं सचित्ताहारा अचित्ताहारा मीसाहारा ? गोयमा ! णो सचित्ताहारा, अचित्ताहारा, णो मीसाहारा ।

[२] एवं असुरकुमारा जाव वेमाणिया ।

[३] ओरालियसंरीरी जाव मणूसा सचित्ताहारा वि अचित्ताहारा वि मीसाहारा वि ।

१५ [सुत्ताइं १७९५-१८०५. नेरइएसु २-८ आहारद्विआइदारसत्तगं]

१७९५. णेरइया णं भंते ! आहारद्वी ? हंता गोयमा ! आहारद्वी ।

१७९६. णेरइयाणं भंते ! केवतिकालस्स आहारडे समुप्पज्जति ? गोयमा ! णेरइयाणं आहारे दुविहे पण्णते, तं जहा-आभोगणिव्वत्तिए य अणाभोगणिव्वत्तिए य । तथ्य णं जे से अणाभोगणिव्वत्तिए से णं अणुसमयमविरहिए २० आहारडे समुप्पज्जति । तथ्य णं जे से आभोगणिव्वत्तिए से णं असंखेजसमइए अंतोमुहुत्तिए आहारडे समुप्पज्जति ।

१७९७. णेरइया णं भंते ! किमाहारमाहारेति ? गोयमा ! दव्वओ अणंतपदेसियाइं, खेत्तओ असंखेजपदेसोगाढाइं, कालतो अण्णतेरठितियाइं, भावओ वण्णमंताइं, गंधमंताइं रसमंताइं फासमंताइं ।

१. °सरीरा म० पु२ म० ॥ २. °तरकालठिति° जे० पु२ ॥

१७९८. [१] जाइं भावओ वण्णमंताइं आहोरेंति ताइं किं एगवण्णाइं आहोरेंति जाव किं पंचवण्णाइं आहोरेंति ? गोयमा ! ठाणमगणं पडुच्च एगवण्णाइं पि आहोरेंति जाव पंचवन्नाइं पि आहोरेंति, विहाणमगणं पडुच्च कालवण्णाइं पि आहोरेंति जाव सुक्किलाइं पि आहोरेंति ।

[२] जाइं वण्णओ कालवण्णाइं आहोरेंति ताइं किं एगगुणकालाइं ५ आहोरेंति जाव दसगुणकालाइं आहोरेंति संखेजगुणकालाइं असंखेजगुणकालाइं अणंतगुणकालाइं आहोरेंति ? गोयमा ! एगगुणकालाइं पि आहोरेंति जाव अणंतगुणकालाइं पि आहोरेंति । एवं जाव सुक्किलाइं पि ।

१७९९. एवं गंधओ वि रसतो वि ।

१८००. [१] जाइं भावओ फासमंताइं ताइं णो एगफासाइं आहोरेंति णो १० दुफासाइं आहोरेंति णो तिफासाइं आहोरेंति, चउफासाइं आहोरेंति जाव अदुफासाइं पि आहोरेंति, विहाणमगणं पडुच्च कक्खडाइं पि आहोरेंति जाव लुक्खाइं पि ।

[२] जाइं फासओ कक्खडाइं आहोरेंति ताइं किं एगगुणकक्खडाइं १५ आहोरेंति जाव अणंतगुणकक्खडाइं आहोरेंति ? गोयमा ! एगगुणकक्खडाइं पि आहोरेंति जाव अणंतगुणकक्खडाइं पि आहोरेंति । एवं अटु वि फासा भाणियब्बा १५ जाव अणंतगुणलुक्खाइं पि आहोरेंति ।

[३] जाइं भंते ! अणंतगुणलुक्खाइं आहोरेंति ताइं किं पुडाइं आहोरेंति अपुडाइं आहोरेंति ? गोयमा ! पुडाइं आहोरेंति, णो अपुडाइं आहोरेंति, जहा भासुदेसए (सु. ८७७ [१५-२३]) जाव णियमा छदिसिं आहोरेंति ।

१८०१. ओसण्णकारणं पडुच्च वण्णओ काल-नीलाइं गंधओ दुविगंधाइं २० रसतो तितरस-कडुयाइं फासओ कक्खड-गस्य-सीय-लुक्खाइं तेसिं पोराणे वण्णगुणे गंधगुणे रसगुणे फासगुणे विप्परिणामइत्ता परिपीलइत्ता परिसाडइत्ता परिविञ्चंसइत्ता अणे अपुव्वे वण्णगुणे गंधगुणे रसगुणे फासगुणे उप्पाएत्ता आयसरीरखेतोगाढे पोगगले सव्वप्पणयाए आहारमाहोरेंति ।

१८०२. णेरइया णं भंते ! सव्वतो आहोरेंति सव्वतो परिणामेंति २५ सव्वओ ऊससंति सव्वओ णीससंति अभिक्खणं आहोरेंति अभिक्खणं परिणामेंति अभिक्खणं ऊससंति अभिक्खणं णीससंति आहच्च आहोरेंति आहच्च परिणामेंति आहच्च ऊससंति आहच्च णीससंति ? हंता गोयमा ! णेरइया सव्वतो आहोरेंति एवं तं चेव जाव आहच्च णीससंति ।

१८०३. णेरइया णं भंते ! जे पोगले आहारत्ताए गेण्हंति ते णं तेसिं पोगलाणं सेयालंसि कतिभागं आहोरेंति कतिभागं आसाएंति ? गोयमा ! असंखेज्जतिभागं आहोरेंति अणंतभागं अस्साएंति ।

१८०४. णेरइया णं भंते ! जे पोगले आहारत्ताए गेण्हंति ते किं सब्बे ५ आहोरेंति णो सब्बे आहोरेंति ? गोयमा ! ते सब्बे अपरिसेसिए आहोरेंति ।

१८०५. णेरइया णं भंते ! जे पोगले आहारत्ताए गेण्हंति ते णं तेसिं पोगला कीसत्ताए मुज्जो २ परिणमंति ? गोयमा ! सोइंदियत्ताए जाव फासिंदियत्ताए अणिङ्कुत्ताए अकंतत्ताए अप्पियत्ताए असुभत्ताए अमणुण्णत्ताए अमणामत्ताए २० अणिच्छियत्ताए अभिज्ञियत्ताए अहत्ताए णो उडृत्ताए दुक्खत्ताए णो सुहत्ताए एसिं(ते तेसिं) मुज्जो मुज्जो परिणमंति ।

[सुतं १८०६. भवणवासीसु २-८ आहारड्हिआळारसत्तं]

१८०६. [१] असुरकुमारा णं भंते ! आहारडी ? हंता ! आहारडी । एवं जहा णेरइयाणं तदा असुरकुमाराण वि भाणियव्वं जाव ते तेसिं मुज्जो मुज्जो परिणमंति । तत्थ णं जे से आभोगणिव्वत्तिए से णं जहण्णेणं चउत्थमत्तस्स १५ उक्कोसेणं सातिरेगस्स वाससहस्रस्स आहारडे समुप्पज्जति । ओसण्णकारणं पडुच्च वण्णओ हालिह-सुकिलाइं गंधओ सुव्विगंधाइं रसओ अंविल-महुराइं फासओ मउय-लहुअ-णिङ्डुण्हाइं तेसिं पोराणे वण्णरुणे जाव फासिंदियत्ताए जाव मणामत्ताए इच्छियत्ताए अभिज्ञियत्ताए [ग्रन्थाग्रम्-७०००] उडृत्ताए णो अहत्ताए सुहत्ताए २० णो दुहत्ताए ते तेसिं मुज्जो २ परिणमंति । सेसं जहा णेरइयाणं ।

१८०७. [२] एवं जाव थणियकुमाराणं । णवरं आभोगणिव्वत्तिए उक्कोसेणं दिवसपुहत्तस्स आहारडे समुप्पज्जति ।

[मुत्ताइ १८०७-१३. एगिंदिएसु २-८ आहारड्हिआळारसत्तं]

१८०७. पुढनिकाइया णं भंते ! आहारडी ? हंता ! आहारडी ।

१८०८. पुढनिकाइयाणं भंते ! केवतिकालस्स आहारडे समुप्पज्जति ? २० गोयमा ! अणुसमयं अविराहिए आहारडे समुप्पज्जति ।

१. नेचालसि मलकृत्तो ॥ २. सेसपू मु० ॥ ३. ०५ तेसि मु० ॥ ४. जाव तेसि पु१ मु२ पु३ मु० ॥

१८०९. पुढविक्काइया ण भंते ! किमाहारमाहारेंति एवं जहा ऐरइयाणं (सु. १७९७-१८००) जाव ताइं भंते ! कति दिसिं आहारेंति ? गोयमा ! णिव्वाघाएणं छद्दिसिं, वाघायं पडुच्च सिय तिदिसिं सिय चउदिसिं सिय पंचदिसिं, णवरं ओसण्णकारणं ण भंवति, वण्णतो काल-णील-लोहिय-हालिद-सुक्किलाइं, गंधओ सुबिमगंध-दुबिमगंधाइं, रसओ तित्ते-कडुय-कसाय-अंबिल-महुराइं, फासतो ककखडै-मउय-गरुअ-लहुय-सीय-उँसिण-णिझ-लुक्खाइं, तेसिं पोराणे वण्णगुणे सेसं जहा ऐरइयाणं (सु. १८०१-२) जाव आहच्च णीससंति ।

१८१०. पुढविक्काइया ण भंते ! जे पोगले आहारत्ताए गेण्हंति तेसि<sup>४</sup> ण भंते ! पोगलाणं सेयालंसि कतिभागं आहारेंति कतिभागं आसाएंति ? गोयमा ! असंखेजतिभागं आहारेंति अणंतभागं आसाएंति ।

१८११. पुढविक्काइया ण भंते ! जे पुगले आहारत्ताए गिण्हंति ते किं सव्वे आहारेंति णो सव्वे आहारेंति ? जहेव ऐरइया (सु. १८०४) तहेव ।

१८१२. पुढविक्काइया ण भंते ! जे पोगले आहारत्ताए गेण्हंति ते णं तेसिं पोगला कीसत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमंति ? गोयमा ! फासेंदियवेमायत्ताए<sup>५</sup> भुज्जो भुज्जो परिणमंति ।

१८१३. एवं जाव वणप्फइकाँइयाणं ।

[सुत्ताइं १८१४-२३. विगलिंदिएसु २-८ आहारड्डिआइदारसत्तगं]

१८१४. बेइंदिया ण भंते ! आहारड्डी ? हंता गोयमा ! आहारड्डी ।

१८१५. बेइंदियाणं भंते ! केवतिकालस्स आहारडे समुप्पज्जति ? जहा ऐरइयाणं (सु. १७९६) । णवरं तत्थ णं जे से आभोगणिव्वत्तिए से णं असंखेजसमझए अंतोमुहुत्तिए वेमायाए आहारडे समुप्पज्जति । सेसं जहा पुढविक्काइयाणं (सु. १८०९) जाव आहच्च णीससंति, णंवरं णियमा छद्दिसिं ।

१८१६. बेइंदियां ण भंते ! जे पोगले आहारत्ताए गेण्हंति ते णं तेसिं पोगलाणं सेयालंसि कतिभागं आहारेंति कतिभागं अस्साएंति ? एवं जहा ऐरइयाणं (सु. १८०३) ।

१. भण्णति जे० विना । हवति मलयवृत्तौ ॥ २. तित्तरस-कडुयरस-कसायरस अ० म० प्र० पु१ पु२ पु३ म० ॥ ३. °डफास-म० पु१ पु२ पु३ म०॥ ४. °उण्ह-णि० म०॥ ५. तेसिं भते ! म० म० ॥ ६. °ए तेसिं भु० पु२॥ ७. °काइया । जे० ध० म० ॥ ८. ऐरत्तिया । जे० ध० ॥ ९. णवरण्णं णियमा जे० ध० ॥ १०. °या ण भते ! पुच्छा । गोयमा ! जे पो० पु२ म० ॥

१८१७. वेइंदिया णं भंते ! जे पोगले आहारत्ताए गेणहंति ते किं सब्बे आहारेंति णो सब्बे आहारेंति ? गोयमा ! वेइंदियाणं दुविहे आहारे पणते, तं जहा — लोमाहारे य पक्खेवाहारे य । जे पोगले लोमाहारत्ताए गेणहंति ते सब्बे अपरिसेसे आहारेंति, जे पोगले पक्खेवाहारत्ताएँ गेणहंति तेसिं असंखे-  
५ जडभागमाहारेंति णेगाइं च णं भागसहस्राइं अफासाइज्जमाणाणं अणासाइ-  
जमाणाणं विद्धंसमागच्छंति ।

१८१८. एतेसि णं भंते ! पोगलाणं अणासाइज्जमाणाणं अफासाइज्ज-  
माणाण य कतरे कतरेहिंतो ४ ? गोयमा ! सब्बत्थेवा पोगला अणासाइज्जमाणा,  
अफासाइज्जमाणा अणंतगुणा ।

१० १८१९. वेइंदिया णं भंते ! जे पोगले आहारत्ताए० पुच्छा । गोयमा !  
जिविंभदिय-फासिंदियवेमायत्ताए ते तेसिं मुज्जो २ परिणमंति ।

१८२०. एवं जाव चउरिंदिया । णवरं णेगाइं च णं भागसहस्राइं  
अणगवाइज्जमाणाइं अफासाइज्जमाणाइं अणस्साइज्जमाणाइं विद्धंसमागच्छंति ।

१५ १८२१. एतेसि णं भंते ! पोगलाणं अणावाइज्जमाणाणं अणासाइज्ज-  
माणाणं अफासाइज्जमाणाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्बत्थेवा  
पोगला अणगवाइज्जमाणा, अणस्साइज्जमाणा अणंतगुणा, अफासाइज्जमाणा अणंत-  
गुणा ।

१८२२. तेइंदिया णं भंते ! जे पोगला० पुच्छा । गोयमा ! वारिंदिय-  
जिविंभदिय-फासिंदियवेमायत्ताएँ ते तेसिं मुज्जो २ परिणमंति ।

२० १८२३. चउरिंदियाणं चक्किंखदिय-धारिंदिय-जिविंभदिय-फासिंदियवेमा-  
यत्ताएँ ते तेसिं मुज्जो मुज्जो परिणमंति, सेसं जहा तेइंदियाणं ।

[सुत्ताइं १८२४-२८. पंचिंदियतिरिक्खजोणिया २-८ आहारद्विआहदारसत्तगं]

२५ १८२४. पंचेंदियतिरिक्खजोणिया जहा तेइंदिया । णवरं तत्थ णं जे  
से आभोगणिव्वत्तिए से जहणेणं अंतोमुहुत्तस्स, उक्कोसेणं छट्टमत्तस्स आहारडे  
समुप्पन्नति ।

१८२५. पंचेंदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! जे पोगले आहारत्ताए०

१. °ए॒ गेणहंति ते णं तेसि ध० ॥ २. °ए॒ तेसिं जे० ध० विना ॥ ३. °ए॒ तेसिं पु२सं० मु० ।  
°ए॒ पूसि मु१ पु३ ॥

१८३६]

पंचेदियतिरिक्खाईसु २-८ आहारट्रिआइदारसत्तगं ।

३९७

पुच्छा । गोयमा ! सोइंदिय-चक्रिखंदिय-घाणिंदिय-जिबिंदिय-फासोंदियवेमायत्ताए  
भुजो २ परिणमंति ।

१८२६. मणूसा एवं चेव । णवरं आभोगणिव्वत्तिए जहणेण अंतो-  
मुहुत्तस्स, उक्कोसेण अटुमभत्तस्स आहारडे समुप्पज्जति ।

१८२७. वाणमंतरा जहा णागकुमारा (सु. १८०६ [२]) । ५

१८२८. एवं जोइसिया वि । णवरं आभोगणिव्वत्तिए जहणेण दिवस-  
पुहत्तस्स, उक्कोसेण वि दिवसपुहत्तस्स आहारडे समुप्पज्जति ।

[सुत्ताइं १८२९-५२. वेमाणिएसु २-८ आहारट्रिआइदारसत्तगं ]

१८२९. एवं वेमाणियाँ वि । णवरं आभोगणिव्वत्तिए जहणेण दिवस-  
पुहत्तस्स, उक्कोसेण तेत्तीसाए वाससहस्राणं आहारडे समुप्पज्जति । सेसं जहा १०  
असुरकुमाराणं (सु. १८०६ [१]) जाव ते तेसिं भुजो २ परिणमंति ।

१८३०. सोहमे आभोगणिव्वत्तिए जहणेण दिवसपुहत्तस्स, उक्कोसेण  
दोणं वाससहस्राणं आहारडे समुप्पज्जइ ।

१८३१. ईसाँणाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण दिवसपुहत्तस्स साति-  
रेगस्स, उक्कोसेण सातिरेगाणं दोणं वाससहस्राणं । १५

१८३२. सणंकुमाराणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण दोणं वाससहस्राणं,  
उक्कोसेण सत्तणं वाससहस्राणं ।

१८३३. माहिंदे पुच्छा । गोयमा ! जहणेण दोणं वाससहस्राणं  
सातिरेगाणं, उक्कोसेण सत्तणं वाससहस्राणं सातिरेगाणं ।

१८३४. बंभलोएँ णं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण सत्तणं वाससहस्राणं, २०  
उक्कोसेण दसणं वाससहस्राणं ।

१८३५. लंतए णं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण दसणं वाससहस्राणं,  
उक्कोसेण चोदसणं वाससहस्राणं आहारडे समुप्पज्जइ ।

१८३६. महासुक्के णं पुच्छा । गोयमा ! जहणेण चोदसणं  
वाससहस्राणं, उक्कोसेण सत्तरसणं वाससहस्राणं । २५

१. °याण वि जे० ध० म० ॥ २. °राणं एतेसिं पु१ पु२ पु३ । °राण जाव एतेसि म० प्र० मु०॥

३. ईसाणे णं जे० ध० विना ॥ ४. °ए पु१ पु२ पु३ प्र० मु० ॥

१८३७. सहसरे णं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं सत्तरसणं वाससहस्राणं, उक्कोसेणं अद्वारसणं वाससहस्राणं ।

१८३८. आणए णं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अद्वारसणं वाससहस्राण, उक्कोसेणं एगूणवीसाए वाससहस्राणं ।

५ १८३९. पाणए णं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एगूणवीसाए वाससहस्राणं, उक्कोसेणं वीसाए वाससहस्राणं ।

१८४०. आरणे णं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं वीसाए वाससहस्राणं, उक्कोसेणं एकवीसाए वाससहस्राणं ।

१८४१. अच्चुए णं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एकवीसाए वाससहस्राणं, १० उक्कोसेणं वावीसाए वाससहस्राणं ।

१८४२. हेडिमहेडिमगेवेजगाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं वावीसाए वाससहस्राण, उक्कोसेणं तेवीसाए वाससहस्राणं । एवं सञ्चय सहस्राणि भाणियवाणि जाव सञ्चडं ।

१८४३. हेडिममज्जिमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं तेवीसाए, १५ उक्कोसेणं चउवीसाए ।

१८४४. हेडिमउवरिमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं चउवीसाए, उक्कोसेणं पणुवीसाए ।

१८४५. मज्जिमहेडिमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं पणुवीसाए, २० उक्कोसेणं छव्वीसाए ।

१८४६. मज्जिममज्जिमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं छव्वीसाए, उक्कोसेणं सत्तावीसाए ।

१८४७. मज्जिमउवरिमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं सत्तावीसाए, २५ उक्कोसेणं अद्वावीसाए ।

१८४८. उवरिमहेडिमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं अद्वावीसाए, २० उक्कोसेणं एगूणतीसाए ।

१८४९. उवरिममज्जिमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एक्कूणतीसाए, २५ उक्कोसेणं तीसाए ।

१८५०. उवरिमित्तवरिमगेवेजगाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं तीसाए, उक्कोसेणं एक्कतीसाए ।

१८५१. विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणेणं एक्कतीसाए, उक्कोसेणं तेत्तीसाए ।

१८५२. संब्बहुगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! अजहणणमणुक्कोसेणं तेत्तीसाए ५ वाससहस्राणं आहारड्डे समुप्पज्जति ।

[सुन्ताइं १८५३-५८. चउवीसदंडएसु ९ एर्गिंदियसरीरादिदारं]

१८५३. णेरइया णं भंते ! किं एर्गिंदियसरीराइं आहारेंति जाव पंचेंदिय-  
सरीराइं आहारेंति ? गोयमा ! पुव्वभावपण्णवणं पडुच्च एर्गिंदियसरीराइं पि  
आहारेंति जाव पंचेंदियसरीराइं पि, पडुप्पण्णभावपण्णवणं पडुच्च णियमा पंचेंदिय- १०  
सरीराइं आहारेंति ।

१८५४. एवं जाव थणियकुमारा ।

१८५५. पुढविक्काइयाणं पुच्छा । गोयमा ! पुव्वभावपण्णवणं पडुच्च एवं  
चेव, पडुप्पण्णभावपण्णवणं पडुच्च णियमा एर्गिंदियसरीराइं आहारेंति ।

१८५६. बेइंदिया पुव्वभावपण्णवणं पडुच्च एवं चेव, पडुप्पण्णभावपण- १५  
वणं पडुच्च णियमा बेइंदियैसरीराइं आहारेंति ।

१८५७. एवं जाव चउरिंदिया ताव पुव्वभावपण्णवणं पडुच्च एवं,  
पडुप्पण्णभावपण्णवणं पडुच्च णियमा जस्स जति इंदियाइं तैइंदियसरीराइं ते  
आहारेंति ।

१८५८. सेसा जहा णेरइया जाव वेमाणिया ।

२०

[सुन्ताइं १८५९-६१. चउवीसदंडएसु १० लोमाहारदारं]

१८५९. णेरइया णं भंते ! किं लोमाहारा पक्खेवाहारा ? गोयमा !  
लोमाहारा, णो पक्खेवाहारा ।

१८६०. एवं एर्गिंदिया सब्बे देवा य् भाणियव्वा जाव वेमाणिया ।

१८६१. बेइंदिया जाव मणूसा लोमाहारा वि पक्खेवाहारा वि ।

२५

१. संब्बहुगसिद्धदे० मु० ॥ २. °दियाणं सरी० म० प्र० ॥ ३. तइ+इदिय०=तइदिय० ॥

[सुत्ताइ १८६२-६४. चउवीसदंडएसु ११ मणभक्खिदारं]

१८६२. णेरइया णं भंते ! किं ओयाहारा मणभक्खी ? गोयमा !  
ओयाहारा, णो मणभक्खी ।

१८६३. एवं सब्बे ओरालियसरीरा वि ।

५ १८६४. देवा सब्बे जाव वेमाणिया ओयाहारा वि मणभक्खी वि ।  
तत्थ णं जे ते मणभक्खी देवाँ तेसि णं इच्छामणे समुप्पज्जइ 'इच्छामो णं  
मणभक्खणं करित्तए' तए णं तेहिं देवेहिं एवं मणसीकते समाणे खिष्पामेव जे  
पोगला इड्डा कंता जाव मणामा ते तेसिं मणभक्खत्ताए परिणमंति, से जहाणामए  
१० सीता पोगला सीयं पप्पा सीयं चेव अइवइत्ताणं चिङ्गुंति उसिणा वा पोगला उसिणं  
पैप्पा उसिणं चेव अतिवइत्ताणं चिङ्गुंति एवामेव तेहिं देवेहिं मणभक्खणे कते  
समाणे गोयमा ! से इच्छामणे खिष्पामेव अवेति ।

॥ पणवणाए भगवतीए आहारपदे पठमो उद्देसओ समत्तो ॥

\*

वीओ उद्देसओ

१५ [सुत्त १८६५. वीउद्देसस्स अथाहिगारपरूपणं]

१८६५. आहार १ भविय २ सण्णी ३

लेस्सा ४ दिही य ५ संजय ६ कसाए ७ ।

णाणे ८ जोगुवओगे ९-१०

वेदे य ११ सरीर १२ पजती १३ ॥ २१९ ॥

२० [सुत्ताइ १८६६-७०. जीवाईसु १ आहारदारं]

१८६६. [१] जीवे णं भंते ! किं आहारए अणाहारए ? गोयमा !  
सिय आहारए सिय अणाहारए ।

[२] एवं नेरइए जाव असुरकुमारे जाव वेमाणिए ।

१८६७. सिद्धे णं भंते ! किं आहारए अणाहारए ? गोयमा ! णो  
२५ आहारए, अणाहारए ।

१. व्या तेसि णं मणे स० इति मलयृत्तिसम्मत. पाठः ॥ २-३. पप्प प्र० पु२ मु० ॥

१८६८. जीवा णं भंते ! किं आहारया अणाहारया ? गोयमा !  
आहारगा वि अणाहारगा वि ।

१८६९. [१] णेरइयाणं पुच्छा । गोयमा ! सब्वे वि ताव होज्ञा आहारगा १  
अहवा आहारगा य अणाहारगे य २ अहवा आहारगा य अणाहारगा य ३ ।

[२] एवं जाव वेमाणिया । णवरं एगिंदिया जहा जीवा ।

१८७०. सिद्धाणं पुच्छा । गोयमा ! णो आहारगा, अणाहारगा । दारं १ ॥

[सुत्ताइं १८७१-७५. २ भवियदारे आहारयाइप्रूवणं ]

१८७१. [१] भवसिद्धिए णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए ?  
गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए ।

[२] एवं जाव वेमाणिए ।

१८७२. भवसिद्धिया णं भंते ! जीवा किं आहारगा अणाहारगा ?  
गोयमा ! जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

१८७३. अभवसिद्धिए वि एवं चेव ।

१८७४. [१] णोभवसिद्धिए-णोअभवसिद्धिए णं भंते ! जीवे किं  
आहारए अणाहारए ? गोयमा ! णो आहारए, अणाहारए ।

[२] एवं सिद्धे वि ।

१८७५. [१] णोभवसिद्धिया-णोअभवसिद्धिया णं भंते ! जीवा किं  
आहारगा अणाहारगा ? गोयमा ! णो आहारगा, अणाहारगा ।

[२] एवं सिद्धा वि । दारं २ ॥

[सुत्ताइं १८७६-८२. ३ सण्णिदारे आहारयाइप्रूवणं ]

२०

१८७६. [१] सण्णी णं भंते ! जीवे किं आहारगे अणाहारगे ? गोयमा !  
सिय आहारगे सिय अणाहारगे ।

[२] एवं जाव वेमाणिए । णवरं एगिंदिय-विगलिंदिया ण पुच्छिज्जंति ।

१८७७. सण्णी णं भंते ! जीवा किं आहारया अणाहारगा ? गोयमा !  
जीवाईओ तियभंगो जाव वेमाणिया ।

२५

१८७८. [१] असण्णी णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए ?  
गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए ।

[२] एवं णेरइए जाव वाणमंत्रे ।

[३]' जोइसियै-वेमाणिया ण पुच्छिज्जंति ।

१८७९. असण्णी णं भंते ! जीवा किं आहारगा अणाहारगा ? गोयमा ! आहारगा वि अणाहारगा वि, एगो भंगो ।

५ १८८०. [१] असण्णी णं भंते ! णेरइया किं आहारगा अणाहारगा ? गोयमा ! आहारगा वा १ अणाहारगा वा २ अहवा आहारए य अणाहारए य ३ अहवा आहारए य अणाहारगा य ४ अहवा आहारगा य अणाहारगे य ५ अहवा आहारगा य अणाहारगा य ६, एवं एते छब्बंगा ।

[२] एवं जाव थणियकुमारा ।

१० [३] एगिंदिएसु अभंगयं ।

[४] वेइंदिय जाव पंचेदियतिरिक्खजोणिएसु तियभंगो ।

[५] मणूस-वाणमंतरेसु छब्बंगा ।

१८८१. [१] णोसण्णी-णोअसण्णी णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए ।

१५ [२] एवं मणूसे वि ।

[३] सिद्धे अणाहारए ।

१८८२. [१] पुहत्तेणं णोसण्णी-णोअसण्णी जीवा आहारगा वि अणाहारगा वि ।

[२] मणूसेसु तियभंगो ।

२० [३] सिद्धा अणाहारगा । दरं ३ ॥

[सुतांड १८८३-८६, ४ लेस्सादारे आहारयाइपूळवण]

१८८३. [१] सलेसे णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए ।

[२] एवं जाव वेमाणिए ।

२५ १८८४. सलेसा णं भंते ! जीवा किं आहारगा अणाहारगा ? गोयमा ! जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

१. [३] णवर जोहू जे० व० पु१ पु२ पु३ । नायं पाठमेद समीचीन ॥ २. 'सिया वेमा' पु२ ॥

१८८५. [१] एवं कैण्हलेसाए वि णीललेसाए वि काउलेसाए वि जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

[२] तेउलेस्साए पुढवि-आउ-वणप्पहकाइयाणं छबंगा ।

[३] सेसाणं जीवादीओ तियभंगो जेसिं अतिथ तेउलेस्सा ।

[४] पम्हलेस्साए सुक्कलेस्साए य जीवादीओ तियभंगो । ५

१८८६. अलेस्सा जीवा मणूसा सिद्धा य एगत्तेण वि पुहत्तेण वि णो आहारगा, अणाहारगा । दारं ४ ॥

[सुत्ताइं १८८७-८९. ५ दिड्हिदारे आहारयाइपरूपणं]

१८८७. [१] सम्मादिड्ही णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए । १०

[२] वेझंदिये-तेझंदिय-चउरिंदिया छबंगा ।

[३] सिद्धा अणाहारगा ।

[४] अवसेसाणं तियभंगो ।

१८८८. मिच्छदिड्हीसु जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

१८८९. [१] सम्मामिच्छदिड्ही णं भंते ! किं आहारए अणाहारए ? १५ गोयमा ! आहारए, णो अणाहारए ।

[२] एवं एगिंदिय-विगलिंदियवज्जं जाव वेमाणिए ।

[३] एवं पुहत्तेण वि । दारं ५ ॥

[सुत्ताइं १८९०-९३. जीवाईसु ६ संजयदारे आहारयाइपरूपणं]

१८९०. [१] संजए णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए ? २० गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए ।

[२] एवं मणूसे वि ।

[३] पुहत्तेण तियभंगो ।

१८९१. [१] असंजए पुच्छा । गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए । २५

१. कैण्हलेसा वि णीललेसा वि काउलेसा वि जीवे० म० प्र० पु१ पु३ ॥ २. वेझंदिया तेझंदिया चउरिंदिया म० प्र० पु१ पु३ म० ॥

[२] पुहत्तेणं जीवेगिंदियवज्ञो तियभंगो ।

१८९२. संजयासंजए जीवे पंचेदियतिरिक्खजोणिए मणूसे य एते एगत्तेण वि पुहत्तेण वि आहारगा, णो अणाहारगा ।

१८९३. णोसंजए-णोअसंजए-णोसंजयासंजए जीवे सिद्धे य एते एगत्तेण ५ वि पुहत्तेण वि णो आहारगा, अणाहारगा । दारं ६ ॥

[सुत्ताहं १८९४-९६. ७ कसायदारे आहारयाइपरूपण]

१८९४. [१] सकसाईं णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए ।

[२] एवं जाव वेमाणिए ।

१० १८९५. [१] पुहत्तेणं जीवेगिंदियवज्ञो तियभंगो ।

[२] कोहकसाईंसु जीवादिएसु एवं चेव । णवरं देवेसु छबंगा ।

[३] माणकसाईंसु मायाकसाईंसु य देव-णेरइएसु छबंगा । अवसे-  
साणं जीवेगिंदियवज्ञो तियभंगो ।

१५ [४] लोभकसाईंसु णेरइएसु छबंगा । अवसेसेसु जीवेगिंदियवज्ञो तियभंगो ।

१८९६. अकसाईं जहा णोसण्णी-णोअसण्णी (सु. १८८१-८२) ।  
दारं ७ ॥

[सुत्ताहं १८९७-९९. ८ णाणदारे आहारयाइपरूपण]

१८९७. णाणी जहा सम्महिंडी (सु. १८८७) ।

२० १८९८. [१] आभिणिवोहियणाँणि-सुतणाणिसु वेइंदिय-तेइंदिय-  
चउरिंदिएसु छबंगा । अवसेसेसु जीवादीओ तियभंगो जेसिं अत्थि ।

[२] ओहिणाणी पंचेदियतिरिक्खजोणिया आहारगा, णो अणाहारगा ।  
अवसेसेसु जीवादीओ तियभंगो जेसिं अत्थि ओहिणाणं ।

२५ [३] मणफजवणाणी जीवा मणूसा य एगत्तेण वि पुहत्तेण वि आहारगा,  
णो अणाहारगा ।

[४] केवलणाणी जहा णोसण्णी-णोअसण्णी (सु. १८८१-८२) ।

१. जीवादीसु प्र० पु१ पु२ पु३ ॥ २. °णाणी सुयणाणी य वेइ° मु० ॥

१८९९. [१] अण्णाणी मङ्गलाणी सुयअण्णाणी जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

[२] विभंगणाणी पंचेदियतिरिक्खजोणिया मणूसा य आहारगा, णो अणाहारगा । अवसेसेसु जीवादीओ तियभंगो । दारं ८ ॥

[सुत्तं १९००. ९ जोगदारे आहारयाइपरूपवर्णं]

५

१९००. [१] सजोगीसु जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

[२] मणजोगी वइजोगी य जहा सम्मामिच्छद्विं (सु. १८८९)। णवरं वइजोगो विगलिंदियाण वि ।

[३] कायजोगीसु जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

[४] अजोगी जीव-मणूस-सिद्धा अणाहारगा । दारं ९ ॥

१०

[सुत्तं १९०१. १० उवओगदारे आहारयाइपरूपवर्णं]

१९०१. [१] सागाराणागारोवउत्तेसु जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

[२] सिद्धा अणाहारगा । दारं १० ॥

[सुत्तं १९०२. ११ वेददारे आहारयाइपरूपवर्णं]

१५

१९०२. [१] संवेदे जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

[२] इत्थिवेद-पुरिसंवेदेसु जीवादीओ तियभंगो ।

[३] णपुंसगवेदए जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

[४] अवेदए जहा केवलणाणी (सु. १८९८ [४]) । दारं ११ ॥

[सुत्तं १९०३. १२ सरीरदारे आहारयाइपरूपवर्णं]

२०

१९०३. [१] ससरीरी जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

[२] ओरालियसरीरीसु जीव-मणूसेसु तियभंगो ।

[३] अवसेसा आहारगा, णो अणाहारगा, जेसिं अथि ओरालियसरीरं ।

[४] वेउवियसरीरी आहारगसरीरी य आहारगा, णो अणाहारगा, जेसिं अथि ।

[५] तेय-कम्मगसरीरी जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

२५

[६] असरीरी जीवा सिद्धा य णो आहारगा, अणाहारगा । दारं १२ ॥

[सुत्ताइ १९०४-७, १३ पञ्चतिदारे आहारयाइप्रवृत्तं ]

१९०४. [१] आहारपञ्जतीपञ्जतए सरीरपञ्जतीपञ्जतए इंदियपञ्जती-  
पञ्जतए आणापाणुपञ्जतीपञ्जतए भासा-मणपञ्जतीपञ्जतए एयासु पंचसु वि पञ्जतीसु  
५ जीवेसु मणूसेसु य तियभंगो ।

[२] अवसेसा आहारगा, णो अणाहारगा ।

[३] भासा-मणपञ्जती पंचेंदियाणं, अवसेसाणं णात्यि ।

१९०५. [१] आहारपञ्जतीअपञ्जतए णो आहारए, अणाहारए, एगत्तेण  
वि पुहत्तेण वि ।

१० [२] सरीरपञ्जतीअपञ्जतए सिय आहारए सिय अणाहारए ।

[३] उंवरिल्लियासु चउसु अपञ्जतीसु णेरइय-देव-मणूसेसु छबंगा,  
अवसेसाणं जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

१९०६. भासा-मणअपञ्जतीए(°जत्तएसु) जीवेसु पंचेंदियतिरिक्खजोणिएसु  
य तियभंगो, णेरइय-देव-मणुएसु छबंगा ।

१५ १९०७. सव्वपदेसु एगत्त-पुहत्तेणं जीवादीया दंडगा पुच्छाए भाणियव्वा ।  
जस्स जं अत्यि तस्स तं पुच्छज्जति, जं णात्यि तं ण पुच्छज्जति जाव भासा-  
मणपञ्जतीए अपञ्जतएसु णेरइय-देव-मणुएसु य छबंगा । सेसेसु तियभंगो ।  
दारं १३ ॥

॥ वीओ उद्देसओ समत्तो ॥

२० ॥ पणवणाए भगवतीए अट्टावीसइमं आहारपयं समत्तं ॥

## २९. एग्रणतीसङ्गमं उवओगपयं

[मुक्ताइं १९०८-२७, जीवार्ड्सु उवओगभेय-पभेयपर्लवणं ]

१९०८. कतिविहे णं भंते ! उवओगे पण्णते ? गोयमा ! दुविहे उवओगे पन्नते । तं जहा—सागारोवओगे य अणागारोवओगे य ।

१९०९. सागारोवओगे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! अद्विहे ५ पण्णते । तं जहा—आभिणिबोहियणाणसागारोवओगे १ सुयणाणसागारोवओगे २ ओहिणाणसागारोवओगे ३ मणपज्जवणाणसागारोवओगे ४ केवलणाणसागारोवओगे ५ मतिअण्णाणसागारोवओगे ६ सुयअण्णाणसागारोवओगे ७ विभंगणाणसागा-रोवओगे ८ ।

१९१०. अणागारोवओगे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! १० चउविहे पण्णते । तं जहा—चकखुदंसणअणागारोवओगे १ अचकखुदंसणअणा-गारोवओगे २ औहिदंसणअणागारोवओगे ३ केवलदंसणअणागारोवओगे ४ ।

१९११. एवं जीवाणं पि ।

१९१२. णेरइयाणं भंते ! कतिविहे उवओगे पण्णते ? गोयमा ! दुविहे १५ .उवओगे पण्णते । तं जहा—सागारोवओगे य अणागारोवओगे य ।

१९१३. णेरइयाणं भंते ! सागारोवओगे कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! छविहे पण्णते । तं जहा—मतिणाणसागारोवओगे १ सुयणाणसागारोवओगे २ ओहिणाणसागारोवओगे ३ मतिअण्णाणसागारोवओगे ४ सुयअण्णाणसागारो-वओगे ५ विभंगणाणसागारोवओगे ६ ।

१९१४. णेरइयाणं भंते ! अणागारोवओगे कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! २० तिविहे पण्णते । तं जहा—चकखुदंसणअणागारोवओगे १ अचकखुदंसणअणा-गारोवओगे २ औहिदंसणअणागारोवओगे ३ य ।

१९१५. एवं जाव थणियकुमाराणं ।

१९१६. पुढविक्काइयाणं पुच्छा । गोयमा ! दुविहे उवओगे पण्णते । २५ तं जहा—सागारोवओगे य अणागारोवओगे य ।

१९१७. पुढविकाइयाणं भंते ! सागारोवओगे कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! दुविहे पण्णते । तं जहा—मतिअ॑ण्णाणे सुतअ॑ण्णाणे ।

१९१८. पुढविकाइयाणं भंते ! अणागारोवओगे कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! एगे अचक्खुदंसणाणागारोवओगे पण्णते ।

६ १९१९. एवं जाव वणप्फइकाइयाणं ।

१९२०. वेङ्दियाणं पुच्छा । गोयमा ! दुविहे उवओगे पण्णते । तं जहा—सौंगारे अणागारे य ।

१९२१. वेङ्दियाणं भंते ! सागारोवओगे कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! चउव्विहे पण्णते । तं जहा—आभिणिवोहियणाणसागारोवओगे १ सुयणाण-  
१० सागारोवओगे २ मतिअ॑ण्णाणसागारोवओगे ३ सुतअ॑ण्णाणसागारोवओगे ४ ।

१९२२. वेङ्दियाण भंते ! अणागारोवओगे कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! एगे अचक्खुदंसणअणागारोवओगे ।

१९२३. एवं तेङ्दियाण वि ।

१९२४. चउरिंदियाण वि एवं चेव । णवरं अणागारोवओगे दुविहे पण्णते । तं जहा—चक्खुदंसणअणागारोवओगे य अचक्खुदंसणअणागारोवओगे य ।

१९२५. पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं जहा णेरइयाणं (सु. १९१२-१४)।

१९२६. मणुस्साणं जहा ओहिए उवओगे भणियं (सु. १९०८-१०) तहेव भाणियब्बं ।

१९२७. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा णेरइयाणं (सु. १९१२-२० १४)।

[ सुत्ताइं १९२८-३५. जीवाईसु सागाराणागारोवओगपूर्वणं ]

१९२८. जीवा णं भंते ! किं सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता ? गोयमा ! सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि । से केणडेणं भंते ! एवं वुच्चति जीवा सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि ? गोयमा ! जे णं जीवा आभिणिवोहिय-  
२५ णाण-सुतणाण-ओहिणाण-मण-केवल-मतिअ॑ण्णाण-सुतअ॑ण्णाण-विभंगणाणोवउत्ता ते णं जीवा सागारोवउत्ता, जे णं जीवा चक्खुदंसण-अचक्खुदंसण-ओहिदंसण-

१. °अ॑ण्णाण० सुतश० । मु० ॥ २. सागारोवओगे अणागारोवओगे य मु० ॥

केवलदंसणोवउत्ता ते णं जीवा अणागारोवउत्ता, सेतेणद्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चति जीवा सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि ।

१९२९. णेरइया णं भंते ! किं सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता ? गोयमा ! णेरइया सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि । से केणद्वेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! जे णं णेरइया आभिणिबोहियणाण-सुत-ओहिणाण-मतिअण्णाण-सुतअण्णाण- ५ विभंगणाणोवउत्ता ते णं णेरइया सागारोवउत्ता, जे णं णेरइया चक्रखुदंसण-अचक्रखुदंसण-ओहिदंसणोवउत्ता ते णं णेरइया अणागारोवउत्ता, सेतेणद्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चति जाव सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि ।

१९३०. एवं जाव थणियकुमारा ।

१९३१. पुढविक्काइयाणं पुच्छा । गोयमा ! तहेव जाव जे णं पुढ- १० विकाइया मतिअण्णाण-सुतअण्णाणोवउत्ता ते णं पुढविक्काइया सागारोवउत्ता, जे णं पुढविक्काइया अचक्रखुदंसणोवउत्ता ते णं पुढविक्काइया अणागारोवउत्ता, सेतेणद्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चति जाव वणप्पहकाइया ।

१९३२. [१] बेइंदियाणं अहुसहिया तहेव पुच्छा गोयमा ! जाव जे णं बेइंदिया आभिणिबोहियणाण-सुतणाण-मतिअण्णाण-सुयअण्णाणोवउत्ता ते णं बेइंदिया १५ सागारोवउत्ता, जे णं बेइंदिया अचक्रखुदंसणोवउत्ता ते णं बेइंदिया अणागारोवउत्ता, सेतेणद्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चति० ।

[२] एवं जाव चउरिंदिया । णवरं चक्रखुदंसणं अब्मइयं चउरिंदियाणं ।

१९३३. पंचेदियतिरिक्खजोणिया जहा णेरइया (सु. १९२९) ।

१९३४. मणूसा जहा जीवा (सु. १९२८) । २०

१९३५. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिया जहा णेरइया (सु. १९२९) ।

॥ पण्णवणाए भगवतीए पगूणतीसइमं उवओगपयं समत्तं ॥

## ३०. तीसइमं पासण्यापयं

[सुत्ताइँ १९३६-५३. जीवाईसु पासण्याभेय-पभेयपर्वतं]

१९३६. कतिविहा णं भंते ! पासण्या पण्णता ? गोयमा ! दुविहा पासण्या पण्णता । तं जहा—सागारपासण्या अणागारपासण्या य ।

५ १९३७. सागारपासण्या णं भंते ! कइविहा पण्णता ? गोयमा ! छविहा पण्णता । तं जहा—सुयणाणसागारपासण्या १ ओहिणाणसागारपासण्या २ मणपञ्जवणाणसागारपासण्या ३ केवलणाणसागारपासण्या ४ सुयअन्नाणसागार-पासण्या ५ विभंगनाणसागारपासण्या ६ ।

१९३८. अणागारपासण्या णं भंते ! कतिविहा पण्णता ? गोयमा ! १० तिविहा पण्णता । तं जहा—चकखुदंसणअणागारपासण्या १ ओहिदंसणअणा-गारपासण्या २ केवलदंसणअणागारपासण्या ३ ।

१९३९. एवं जीवाणं पि ।

१९४०. ऐरड्याणं भंते ! कतिविहा पासण्या पण्णता ? गोयमा ! दुविहा पण्णता । तं जहा—सागारपासण्या अणागारपासण्या य ।

१५ १९४१. ऐरड्याणं भंते ! सागारपासण्या कतिविहा पण्णता ? गोयमा ! चउविहा पण्णता । तं जहा—सुतणाणसागारपासण्या १ ओहिणाणसागारपासण्या २ सुयअण्णाणसागारपासण्या ३ विभंगणाणसागारपासण्या ४ ।

१९४२. ऐरड्याणं भंते ! अणागारपासण्या कतिविहा पण्णता ? गोयमा ! दुविहा पण्णता । तं जहा—चकखुदंसणअणागारपासण्या य ओहिदंसणअणागार-पासण्या य ।

१९४३. एवं जाव यणियकुमारा ।

१९४४. पुढविक्काइयाणं भंते ! कतिविहा पासण्या पण्णता ? गोयमा ! एगा सागारपासण्या ।

२५ १९४५. पुढविक्काइयाणं भंते ! सागारपासणता कतिविहा पण्णता ? गोयमा ! एगा सुयअण्णाणसागारपासणता पण्णता ।

१९४६. एवं जाव वणप्फङ्काइयाणं ।

१९४७. वेइंदियाणं भंते ! कतिविहा पासण्या पण्णता ? गोयमा ! एगा सागारपासणता पण्णता ।

१९४८. बेइंदियाणं भंते ! सागारपासण्ता कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—सुतणाणसागारपासण्ता य सुयअण्णाणसागारपासण्ता य ।

१९४९. एवं तेइंदियाण वि ।

१९५०. चउर्दियाणं पुच्छा । गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—सागारपासण्ता य अणागारपासण्ता य । सागारपासण्या जहा बेइंदियाणं ५ (सु. १९४७-४८) ।

१९५१. चउर्दियाणं भंते ! अणागारपासण्ता कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! एगा चक्खुदंसणअणागारपासण्या पण्णत्ता ।

१९५२. मणूसाणं जहा जीवाणं (सु. १९३९) ।

१९५३. सेसा जहा णेरइया (सु. १९४०-४२) जाव वेमाणिया । १०

[सुत्ताइ १९५४-६२. जीवार्द्धसु पस्सभेयपरूपण]

१९५४. जीवा णं भंते ! किं सागारपस्सी अणागारपस्सी ? गोयमा ! जीवा सागारपस्सी वि अणागारपस्सी वि । से केणडेणं भंते ! एवं बुच्चति जीवा सागारपस्सी वि अणागारपस्सी वि ? गोयमा ! जे णं जीवा सुयणाणी ओहिणाणी मणपञ्जवणाणी केवलणाणी सुयअण्णाणी विभंगणाणी ते णं जीवा सागारपस्सी, जे १५ णं जीवा चक्खुदंसणी ओहिदंसणी केवलदंसणी ते णं जीवा अणागारपस्सी, सेतेणडेणं गोयमा ! एवं बुच्चति जीवा सागारपस्सी वि अणागारपस्सी वि ।

१९५५. णेरइया णं भंते ! किं सागारपस्सी अणागारपस्सी ? गोयमा ! एवं चेव । णवरं सागारपासण्ताए मणपञ्जवणाणी केवलणाणी ण बुच्चंति, अणागारपासण्ताए केवलदंसणं णाथि । २०

१९५६. एवं जाव थणियकुमारा ।

१९५७. [१] पुढविक्काइयाणं पुच्छा । गोयमा ! पुढविक्काइया सागारपस्सी, णो अणागारपस्सी । से केणडेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! पुढविक्काइयाणं एगा सुयअण्णाणसागारपासण्या पण्णत्ता, सेतेणडेणं गोयमा ! एवं बुच्चति० ।

[२] एवं जाव वणस्सतिकाइया । २५

१९५८. बेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! सागारपस्सी, णो अणागारपस्सी । से केणडेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! बेइंदियाणं दुविहा सागारपासण्या पण्णत्ता । तं जहा—सुयणाणसागारपासण्या य सुयअण्णाणसागारपासण्या य, सेतेणडेणं गोयमा ! एवं बुच्चति० ।

१९५९. एवं तेइंदियाण वि ।

१९६०. चउरिंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! चउरिंदिया सागारपस्सी वि अणागारपस्सी वि । से केणद्वेण० ? गोयमा ! जे णं चउरिंदिया सुयणाणी सुतअण्णाणी ते णं चउरिंदिया सागारपस्सी, जे णं चउरिंदिया चकखुदंसणी ते ५ णं चउरिंदिया अणागारपस्सी, सेतेणद्वेण० गोयमा ! एवं बुच्चति० ।

१९६१. मणूसा जहा जीवा (सु. १९५४) ।

१९६२. अवसेसा जहा ऐरइया (सु. १९५५) जाव वेमाणिया ।

[ सुत्ताइ १९६३-६४. केवलिउवओगपरुवणं ]

१९६३. केवली णं भंते ! इमं रयणप्पभं पुढविं आगारेहिं हेतूहिं १० उवमाहिं दिङ्डतेहिं वण्णेहिं संठाणेहिं पमाणेहिं पडोयारेहिं जं समयं जाणति तं समयं पासति जं समयं पासति तं समयं जाणति ? गोयमा ! णो इणद्वे समडे । से केणद्वेण० भंते ! एवं बुच्चति केवली णं इमं रयणप्पभं पुढविं आगारेहिं जाव जं समयं जाणति णो तं समयं पासति जं समयं पासति णो तं समयं जाणति ? गोयमा ! सागारे से णाणे भवति अणागारे से दंसणे भवति, सेतेणद्वेण० जाव णो १५ तं समयं जाणति । एवं जाव अहेसत्तमं । एवं सोहम्मं कप्पं जाव अच्चुयं गेवेज-गविमाणा अणुत्तरविमाणा ईसीपब्मारं पुढविं परमाणुपोगगलं दुपएसियं खंधं जाव अणंतपदेसियं खंधं ।

१९६४. केवली णं भंते ! इमं रयणप्पभं पुढविं अणागारेहिं अहेतूहिं २० अणुवमाहिं अदिङ्डतेहिं अवण्णेहिं असंठाणेहिं अपमाणेहिं अपडोयारेहिं पासति, ण जाणति ? हंता गोयमा ! केवली णं इमं रयणप्पभं पुढविं अणागारेहिं जाव पासति, ण जाणइ । से केणद्वेण० भंते ! एवं बुच्चति केवली णं इमं रयणप्पभं पुढविं अणागारेहिं जाव पासति, ण जाणइ ? गोयमा ! अणागारे से दंसणे भवति सागारे से णाणे भवति, सेतेणद्वेण० गोयमा ! एवं बुच्चति केवली णं इमं रयणप्पभं पुढविं अणागारेहिं जाव पासति, ण जाणति । एवं जाव ईसीपब्मारं पुढविं २५ परमाणुपोगगलं अणंतपदेसियं खंधं पासइ, ण जाणइ ।

॥ पणवणाए भगवतीए तीसइमं पासणयापयं समत्तं ॥

## ३१. एगतीसइमं सणिपयं

[सुन्नाइ १९६५-७२, जीवाईसु सणिआइभेयपर्लवर्ण]

१९६५. जीवा णं भंते ! किं सण्णी असण्णी णोसण्णी-णोअसण्णी ?  
गोयमा ! जीवा सण्णी वि असण्णी वि णोसण्णी-णोअसण्णी वि ।

१९६६. ऐरइया णं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! ऐरइया सण्णी वि ५  
असण्णी वि, णो णोसण्णी-णोअसण्णी ।

१९६७. एवं असुरकुमारा जाव थणियकुमारा ।

१९६८. पुढविक्काइयाणं पुच्छा । गोयमा ! णो सण्णी, असण्णी, णो  
णोसण्णी-णोअसण्णी ।

१९६९. एवं बेहंदिय-तेहंदिय-चउरिंदिया वि । १०

१९७०. मणूसा जहा जीवा (सु. १९६५) ।

१९७१. पंचेदियतिरिक्खजोणिया वाणमंत्रा य जहा ऐरइया  
(सु. १९६६) ।

१९७२. जोइसिय-वेमाणिया सण्णी, णो असण्णी णो णोसण्णी-  
णोअसण्णी । १५

१९७३. सिद्धाणं पुच्छा । गोयमा ! णो सण्णी णो असण्णी, णोसण्णि-  
णोअसण्णी ।

ऐरइय-तिरिय-मणुया य वणयरसुरा य सण्णडसण्णी य ।

विगलिंदिया असण्णी, जोतिस-वेमाणिया सण्णी ॥ २२० ॥

॥ पण्णवणाए भगवतीए एगतीसइमं सणिपयं समत्तं ॥

२०

## ३२. वत्तीसइमं संजमपयं

[ सुत्ताइँ १९७४-८०, जीवाईसु संजयाइभेयपर्वणं ]

१९७४. जीवा णं भंते ! किं संजया असंजया संजतासंजता णोसंजत-  
णोअसंजतणोसंजयासंजया ? गोयमा ! जीवा णं संजया वि असंजया वि  
५ संजयासंजया वि णोसंजयणोअसंजयणोसंजतासंजया वि ।

१९७५. ऐरइयाँ णं भंते ! किं संजया असंजया संजयासंजया णोसंजत-  
णोअसंजतणोसंजयासंजया ? गोयमा ! ऐरइया णो संजया, असंजया, णो संजया-  
संजया णो णोसंजयणोअसंजयणोसंजतासंजया ।

१९७६. एवं जाव चउरिंदिया ।

१० १९७७. पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! पंचेंदियतिरिक्ख-  
जोणिया णो संजया, असंजया वि संजतासंजता वि, णो णोसंजयणोअसंजयणोसंजया-  
संजया ।

१९७८. मणूसा णं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! मणूसा संजया वि असंजय  
वि संजतासंजया वि, णो णोसंजतणोअसंजयणोसंजतासंजया ।

१५ १९७९. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिया जहा ऐरइया (सु. १९७५) ।

१९८०. सिद्धाणं पुच्छा । गोयमा ! सिद्धा नो संजया नो असंजया नो  
संजयासंजया, णोसंजयणोअसंजयणोसंजयासंजया ।

संजय अस्संजय मीसगा य जीवा तहेव मणुया य ।

संजतरहिया तिरिया, सेसा अस्संजता होंति ॥ २२१ ॥

२०

॥ पण्णवणाए भगवतीए वत्तीसइमं संजमपयं समन्तं ॥

१. °या ण भंते ! पुच्छा । गोयमा ! सु० ॥

## ३३. तेत्तीसइमं ओहिपयं

[सुन्तं १९८१. तेत्तीसइमपयस्स अत्थाहिगारपरूपणं]

१९८१. भेद १ विसय २ संठाणे ३ अन्वितर-बाहिरे ४ य देसोही ५।  
ओहिस्स य खय-वडूँ ६ पडिवाई चेवंडपडिवाई ७॥ २२२॥

[सुन्तं १९८२. १ ओहिभेयदारं]

५

१९८२. कतिविहा णं भंते ! ओही पण्णता ? गोयमा ! दुविहा ओही पण्णता । तं जहा—भवपच्चइया य खओवसमिया य । दोण्हं भवपच्चइया, तं जहा—देवाण य णेरइयाण य । दोण्हं खओवसमिया, तं जहा—मणूसाणं पंचेदिय-तिरिक्खजोणियाण य ।

[सुन्ताईं १९८३—२००७. २ ओहिविसयदारं]

१०

१९८३. णेरइया णं भंते ! केवतियं खेत्तं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहण्णेणं अद्वगाउयं, उक्कोसेणं चत्तारि गाउयाईं ओहिणा जाणंति पासंति ।

१९८४. रयणप्पभापुढविणेरइया णं भंते ! केवतियं खेत्तं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहण्णेणं अद्वुड्डाईं गाउयाईं, उक्कोसेणं चत्तारि गाउयाईं १५ ओहिणा जाणंति पासंति ।

१९८५. सक्करप्पभापुढविणेरइया जहण्णेणं तिणि गाउयाईं, उक्कोसेणं अद्वुड्डाईं गाउयाईं ओहिणा जाणंति पासंति ।

१९८६. वालुयप्पभापुढविणेरइया जहण्णेणं अड्डाइज्जाईं गाउयाईं, उक्को-सेणं तिणि गाउयाईं ओहिणा जाणंति पासंति ।

२०

१९८७. पंकप्पभापुढविणेरइया जहण्णेणं दोणि गाउयाईं, उक्कोसेणं अड्डाइज्जाईं गाउयाईं ओहिणा जाणंति पासंति ।

१९८८. धूमप्पभापुढविणेरइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं दिवडूं गाउयं, उक्कोसेणं दो गाउयाईं ओहिणा जाणंति पासंति ।

१९८९. तमापुढवि ० ? गोयमा ! जहणेण गाउयं, उक्कोसेण दिवडुं गाउयं ओहिणा जाणंति पासंति ।

१९९०. अहेसत्तमाए पुच्छा । गोयमा ! जहणेण अद्वगाउयं, उक्कोसेण गाउयं ओहिणा जाणंति पासंति ।

६. १९९१. असुरकुमारा णं भंते ! ओहिणा केवतियं खेत्तं जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहणेण पणुवीसं जोयणाइं, उक्कोसेण असंखेजे दीव-समुदे ओहिणा जाणंति पासंति ।

१९९२. णागकुमारा णं जहणेण पणुवीसं जोयणाइं, उक्कोसेण संखेजे दीव-समुदे ओहिणा जाणंति पासंति ।

१० १९९३. एवं जाव थणियकुमारा ।

१९९४. पंचेंदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! केवतियं खेत्तं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहणेण अंगुलस्स असंखेजतिभागं, उक्कोसेण असं-खेजे दीव-समुदे ।

१९९५. मणूसा णं भंते ! ओहिणा केवतियं खेत्तं जाणंति पासंति ? १५ गोयमा ! जहणेण अंगुलस्स असंखेजतिभागं, उक्कोसेण असंखेजाइं अलोए लोयपमाणमेत्ताइं खंडाइं ओहिणा जाणंति पासंति ।

१९९६. वाणमंतरा जहा णागकुमारा (सु. १९९२) ।

१९९७. जोइसिया णं भंते ! केवतियं खेत्तं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहणेण संखेजे दीव-समुदे, उक्कोसेण वि संखिजे २० दीव-समुदे ।

१९९८. सोहम्मगदेवा णं भंते ! केवतियं खेत्तं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहणेण अंगुलस्स असंखेजतिभागं, उक्कोसेण अहे जाव इमीसे रथणप्पभाए पुढवीए हेड्हिले चरिमंते तिरियं जाव असंखेजे दीव-समुदे उडुं जाव सगाइं विमाणाइं ओहिणा जाणंति पासंति ।

२५ १९९९. एवं ईसाणगदेवा वि ।

२०००. सणकुमारदेवा वि एवं चेव । णवरं अहे जाव दोच्चाए सक्कर-प्पभाए पुढवीए हेड्हिले चरिमंते ।

२००१. एवं माहिंदगदेवा वि ।

२००२. बंभलोग-लंतगदेवा तच्चाए पुढवीए हेड्हिले चरिमंते ।

२००३. महासुक्क-सहस्सारगदेवा चउत्थीए पंकप्पभाए पुढवीए हेड्हिले चरिमंते ।

२००४. आणय-पाणय-आरण-अच्चुयदेवा अहे जाव पंचमाए धूमप्पभाए पुढवीए हेड्हिले चरिमंते ।

२००५. हेड्हिम-मज्जिमगेवेजगदेवा अहे जाव छड्हाए तमाए पुढवीए हेड्हिले चरिमंते ।

२००६. उवरिमगेवेजगदेवा णं भंते ! केवतियं खेत्तं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेजतिभागं, उक्कोसेण अहेसत्तमाए पुढवीए हेड्हिले चरिमंते तिरियं जाव असंखेजे दीव-समुद्रे उडूं जाव सँगाइं १० विमाणाइं ओहिणा जाणंति पासंति ।

२००७. अणुत्तरोववाइयदेवा णं भंते ! केवतियं खेत्तं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! संभिन्नं लोगणालिं ओहिणा जाणंति पासंति ।

[सुत्ताइं २००८-१६. ३ ओहिसंठाणदारं]

२००८. ऐरइयाणं भंते ! ओही किंसंठिए पण्णते ? गोयमा ! १५ तप्पागारसंठिए पण्णते ।

२००९. [१] असुरकुमाराणं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! पल्लगसंठिए ।

[२] एवं जाव थणियकुमाराणं ।

२०१०. पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! णाणासंठाण-  
संठिए पण्णते ।

२०

२०११. एवं मणूसाण वि ।

२०१२. वाणमंतराणं पुच्छा । गोयमा ! पडहसंठाणसंठिए पण्णते ।

२०१३. जोतिसियाणं पुच्छा । गोयमा ! झल्लरिसंठाणसंठिए पण्णते ।

२०१४. [१] सोहम्मगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! उडूसुइंगागारसंठिए पण्णते ।

२५

[२] एवं जाव अच्चुयदेवाणं पुच्छा ।

२०१५. गेवेजगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! पुफ्फचंगेरिसंठिए पण्णते ।

पणवणासुत्ते तेच्चीसइमं ओहिपर्यं ।

[सु. २०२६-

२०१६. अणुत्तरोववाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जवणालियासंठिए ओही पण्णते ।

[सुत्ताइं २०१७-२१. ४ ओहिअविभतरन्वाहिरदारं]

२०१७. ऐरइया णं भंते ! ओहिस्स किं अंतो वाहिं ? गोयमा ! अंतो, ५ नो वाहिं ।

२०१८. एवं जाव थणियकुमारा ।

२०१९. पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! णो अंतो, वाहिं ।

२०२०. मणूसाणं पुच्छा । गोयमा ! अंतो वि वाहिं पि ।

२०२१. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणियाणं जहा ऐरइयाणं (सु. २०१७) ।

१० [सुत्ताइं २०२२-२६. ५ देसोहिदारं]

२०२२. ऐरइया णं भंते ! किं देसोही सब्बोही ? गोयमा ! देसोही, णो सब्बोही ।

२०२३. एवं जाव थणियकुमाराणं ।

२०२४. पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! देसोही, णो सब्बोही ।

१५ २०२५. मणूसाणं पुच्छा । गोयमा ! देसोही वि सब्बोही वि ।

२०२६. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणियाणं जहा ऐरइयाणं (सु. २०२२) ।

[सुत्ताइं २०२७-३१. ६-७ ओहिस्स खयवड्हिआइदाराइं]

२०२७. ऐरइयाणं भंते ! ओही किं आणुगामिए अणाणुगामिए वडुमाणए हायमाणए पडिवाई अपडिवाई अवड्हिए अणवड्हिए ? गोयमा ! २० आणुगामिए, नो अणाणुगामिए नो वडुमाणए णो हायमाणए णो पडिवाई, अपडिवादी अवड्हिए, णो अणवड्हिए ।

२०२८. एवं जाव थणियकुमाराणं ।

२०२९. पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! आणुगामिए वि जाव अणवड्हिए वि ।

२५ २०३०. एवं मणूसाण वि ।

२०३१. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणियाणं जहा ऐरइयाणं (सु. २०२७) ।

॥ पणवणाए भगवतीए तेच्चीसइमं ओहिपर्यं समत्तं ॥

## ३४. चउतीसइमं पवियारणापयं

[सुत्तं २०३२. चउतीसइमपयस्स अत्थाहिगारपरूपणं]

२०३२. अणंतरायआहारे १ आहाराभोगणाइ य २ ।

पोगला नेव जाणंति ३ अज्ज्वसाणा य आहिया ४ ॥ २२३ ॥

सम्मतस्स अभिगमे ५ ततो परियारणा य बोद्धव्वा ६ । ५

काए फासे रुवे सद्वे य मणे य अप्पबहुं ॥ २२४ ॥

[सुत्ताइ २०३३-३७. चउवीसदंडएसु १ अणंतराहारदारं]

२०३३. ऐरइया णं भंते ! अणंतराहारा तओ निवृत्तणया ततो परियाईयणया ततो परिणामणया ततो परियारणया ततो पच्छा विउव्वणया ? हंता गोयमा ! ऐरइया णं अणंतराहारा तओ निवृत्तणया ततो परियादियणता तओ १० परिणामणया तओ परियारणया तओ पच्छा विउव्वणया ।

२०३४. [१] असुरकुमारा णं भंते ! अणंतराहारा तओ णिवृत्तणया तओ परियाईयणया तओ परिणामणया तओ विउव्वणया तओ पच्छा परियारणया ? हंता गोयमा ! असुरकुमारा अणंतराहारा तओ णिवृत्तणया जाव तओ पच्छा परियारणया ।

[२] एवं जाव थणियकुमारा । १५

२०३५. पुढविकाइया णं भंते ! अणंतराहारा तओ णिवृत्तणया तओ परियाईयणया तओ परिणामणया य तओ परियारणया ततो विउव्वणया ? हंता गोयमा ! तं चेव जाव परियारणया, णो चेव णं विउव्वणया ।

२०३६. एवं जाव चउरिंदिया । णवरं वाउक्काइया पंचेदियतिरिक्ख-जोणिया मणुस्सा य जहा ऐरइया (सु. २०३३) । २०

२०३७. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा (सु. २०३४) ।

[सुत्ताइ २०३८-३९. चउवीसदंडएसु २ आहाराभोगणादारं]

२०३८. ऐरइयाणं भंते ! आहारे किं आभोगणिव्वत्तिए अणाभोगणिव्वत्तिए ? गोयमा ! आभोगणिव्वत्तिए वि अणाभोगणिव्वत्तिए वि ।

१. °तरगयाहारे जे० विना ॥ २-४. परियायणया पु२ । परियाइणया मु० ॥ ५. परियाइणया पु२ मु० ॥

२०३९. एवं असुरकुमाराणं जाव वेमाणियाणं । णवरं एगिंदियाणं णो आभोगणिव्वत्तिए, अणाभोगणिव्वत्तिए ।

[सुत्ताइं २०४०-४६. चउवीसदंडएसु ३ पोगलजाणणादारं]

२०४०. णेरइया णं भंते ! जे पोगले आहारताए गेण्हंति ते किं  
५ जाणंति पासंति आहोरेति ? उयाहु ण जाणंति ण पासंति आहोरेति ? गोयमा !  
ण जाणंति ण पासंति, आहोरेति ।

२०४१. एवं जाव तेइंदिया ।

२०४२. चउरिंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! अत्थेगइया ण जाणंति  
पासंति आहोरेति, अत्थेगइया ण जाणंति ण पासंति आहोरेति ।

१० २०४३. पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! अत्थेगइया जाणंति  
पासंति आहोरेति १ अत्थेगइया जाणंति न पासंति आहोरेति २ अत्थेगइया ण  
याणंति पासंति आहोरेति ३ अत्थेगइया ण याणंति ण पासंति आहोरेति ४ ।

२०४४. एवं मणूसाण वि ।

२०४५. वाणमंतर-जोतिसिया जहा णेरइया (सु. २०४०) ।

१५ २०४६. वेमाणियाणं पुच्छा । गोयमा ! अत्थेगइया जाणंति पासंति  
आहोरेति १ अत्थेगइया ण याणंति ण पासंति आहोरेति २ । से केणडेणं भंते !  
एवं बुच्चति अत्थेगइया जाणंति पासंति आहोरेति अत्थेगइया ण जाणंति ण  
पासंति आहोरेति ? गोयमा ! वेमाणिया दुविहा पण्णता, तं जहा—माइमिच्छदिडिउ-  
ववण्णगा य अमाइसम्मदिडिउववण्णगा य, एवं जहा इंदियउद्देसए पढमे भणियं  
२० (सु. ९९८) तहा भाणियव्वं जाव सेतेणडेणं गोयमा ! एवं बुच्चतिं० ।

[सुत्ताइं २०४७-४८. चउवीसदंडएसु ४ अज्ज्ववसाणदारं]

२०४७. णेरइयाणं भंते ! केवतिया अज्ज्ववसाणा पण्णता ? गोयमा !  
असंखेज्ञा अज्ज्ववसाणा पण्णता । ते णं भंते ! किं पसत्था अप्पसत्था ? गोयमा !  
पसत्था वि अप्पसत्था वि ।

२५ २०४८. एवं जाव वेमाणियाणं ।

१. बुच्चति वेमाणिया भत्ये० जे० पु२ सु० ॥ २. माइमि० जे० ॥ ३. अमाइस० जे० ॥

[ सुत्ताइं २०४९-५०. चउबीसदंडएसु ५ सम्मताभिगमदार ]

२०४९. एरइया णं भंते ! किं सम्मताभिगमी मिच्छताभिगमी सम्माभि-  
च्छताभिगमी ? गोयमा ! सम्मताभिगमी वि मिच्छताभिगमी वि सम्मामिच्छता-  
भिगमी वि ।

२०५० एवं जाव वेमाणिया । णवरं एगिंदिय-विगलिंदिया णो सम्मता- ५  
भिगमी, मिच्छताभिगमी, णो सम्मामिच्छताभिगमी ।

[ सुत्ताइं २०५१-५३. ६ परियारणादार ]

२०५१. देवा णं भंते ! किं सदेवीया सपरियारा सदेवीया अपरियारा  
अदेवीया सपरियारा अदेवीया अपरियारा ? गोयमा ! अत्थेगइया देवा सदेवीया  
सपरियारा १ अत्थेगइया देवा अदेवीया सपरियारा २ अत्थेगइया देवा अदेवीया १०  
अपरियारा ३ णो चेव णं देवा सदेवीया अपरियारा । से केणद्वेण भंते ! एवं  
बुच्चति अत्थेगइया देवा सदेवीया सपरियारा तं चेव जाव णो चेव णं देवा  
सदेवीया अपरियारा ? गोयमा ! भवणवति-वाणमंतर-जोतिस-सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु १५  
देवा सदेवीया सपरियारा, सणंकुमार-माहिंद-बंभलोग-लंतग-महासुक्क-सहस्सार-  
आण्य-पाण्य-आरण-अच्चुएसु कप्पेसु देवा अदेवीया सपरियारा, गेवेजङ्गुत्त- १५  
रोववाइयदेवा अदेवीया अपरियारा, णो चेव णं देवा सदेवीया अपरियारा, सेतेणद्वेण  
गोयमा ! एवं बुच्चति अत्थेगइया देवा सदेवीया सपरियारा तं चेव जाव णो चेव  
णं देवा सदेवीया अपरियारा ।

२०५२. [१] कतिविहा णं भंते ! परियारणा पण्णता ? गोयमा ! पंचविहा  
पण्णता । तं जहा-कायपरियारणा १ फासपरियारणा २ रूवपरियारणा ३ सदपरिया-  
रणा ४ मणपरियारणा ५ । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति पंचविहा परियारणा पण्णता  
तं जहा कायपरियारणा जाव मणपरियारणा ? गोयमा ! भवणवति-वाणमंतर-जोइस-  
सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु देवा कायपरियारगा, सणंकुमार-माहिंदेसु कप्पेसु देवा फास-  
परियारगा, बंभलोय-लंतगेसु कप्पेसु देवा रूवपरियारगा, महासुक्क-सहस्सारेसु देवा २०  
सदपरियारगा, आण्य-पाण्य-आरण-अच्चुएसु कप्पेसु देवा मणपरियारगा, गेवेज-  
अणुत्तरोववाइया देवा अपरियारगा, सेतेणद्वेण गोयमा ! तं चेव जाव मणपरियारणा । २५

१. अत आरभ्यास्मिन् सूत्रे यत्र यत्र °परियारणापाठो वर्तते तत्र तत्र जे० ध० म० प्रतिषु  
°परियारणया इति पाठ उपलभ्यते ॥

[२] तथं णं जे ते कायपरियारगा देवा॑ तेसि णं इच्छामणे समुप्पज्ज-  
इ-इच्छामो णं अच्छराहिं सद्भि॒ कायपरियारणं करेतए, तए णं तेहिं देवेहिं एवं  
मणसीकए समाणे खिष्णामेव ताओ अच्छराओ ओरालाइ॑ सिंगाराइ॑ मणुण्णाइ॑ मणोहराइ॑  
मणोरमाइ॑ उत्तरवेउव्वियाइ॑ रुवाइ॑ विउव्वंति, विउव्वित्ता तेसिं देवाणं अंतियं  
५ पादुव्वभवंति, तए णं ते देवा॑ ताहिं अच्छराहिं सद्भि॒ कायपरियारणं करेति, से  
जैहाणामए सीया पोगला॑ सीयं प॑ष्णा॑ सीयं चेव अतिवतिता॑ णं चिङ्गंति, उसिणा॑ वा  
पोगला॑ उसिणं प॑ष्णा॑ उसिणं चेव अइवइत्ता॑ णं चिङ्गंति एवामेव तेहिं देवेहिं ताहिं  
अच्छराहिं सद्भि॒ कायपरियारणे कते समाणे से इच्छामणे खिष्णामेववेति। अत्थि॑ णं  
भंते! तेसिं देवाणं सुक्रपोगला॑? हंता अत्थि॑। ते णं भंते! तासिं अच्छराणं  
१० कीसत्ताए॑ भुज्जो॑ २ परिणमंति? गोयमा॑! सोइंदियत्ताए॑ चविंखदियत्ताए॑ वार्णिदिय-  
त्ताए॑ रसिंदियत्ताए॑ फासिंदियत्ताए॑ इडुत्ताए॑ कंतत्ताए॑ मणुण्णत्ताए॑ मैणामत्ताए॑ सुभ-  
गत्ताए॑ सोहग-रुव-जोव्वण-गुणलायण्णत्ताए॑ ते तासिं भुज्जो॑ २ परिणमंति।

[३] तथं णं जे ते फासपरियारगा देवा॑ तेसि णं इच्छामणे समुप्पज्जइ॑,  
एवं जहेव कायपरियारगा तहेव निरवसेसं भाणियव्वं।

[४] तथं णं जे ते रुवपरियारगा देवा॑ तेसि णं इच्छामणे समुप्पज्जइ॑-  
इच्छामो णं अच्छराहिं सद्भि॒ रुवपरियारणं करेतए, तए णं तेहिं देवेहिं एवं  
मणसीकए समाणे तहेव जाव उत्तरवेउव्वियाइ॑ रुवाइ॑ विउव्वंति, विउव्वित्ता जेणामेव  
ते देवा॑ तेणामेव उवागच्छंति, तेणामेव उवागच्छित्ता॑ तेसिं देवाणं अदूरसामंते  
ठिक्का॑ ताइ॑ ओरालाइ॑ जाव मणोरमाइ॑ उत्तरवेउव्वियाइ॑ रुवाइ॑ उवदंसेमाणीओ॑ २  
२० चिङ्गंति, तए णं ते देवा॑ ताहिं अच्छराहिं सद्भि॒ रुवपरियारणं करेति, सेसं तं चेव  
जाव भुज्जो॑ २ परिणमंति।

[५] तथं णं जे ते सदपरियारगा देवा॑ तेसि णं इच्छामणे समुप्पज्जति॑-  
इच्छामो णं अच्छराहिं सद्भि॒ सदपरियारणं करेतए, तए णं तेहिं देवेहिं एवं मण-  
सीकए समाणे तहेव जाव उत्तरवेउव्वियाइ॑ रुवाइ॑ विउव्वंति, विउव्वित्ता जेणामेव  
२५ ते देवा॑ तेणामेव उवागच्छंति, तेणामेव उवागच्छित्ता॑ तेसिं देवाणं अदूरसामंते  
ठिक्का॑ अणुत्तराइ॑ उच्चावयाइ॑ सदाइ॑ समुदीरेमाणीओ॑ २ चिङ्गंति, तए णं ते देवा॑ ताहिं  
अच्छराहिं सद्भि॒ सदपरियारणं करेति, सेसं तं चेव जाव भुज्जो॑ २ परिणमंति।

१. ०वा॑ ष्टेसि॑ जे० ध०॥ २. ओरालियाइ॑ जे०॥ ३. जहा॑ णं सीया॑ जे०॥ ४-५. पप्प॑ पु२  
प्र० मु०॥ ६. मणामत्ताए॑ डतिपाठानुसारिणी॑ मलयवृत्तिः॥

[६] तत्थं जे ते मणपरियारगा देवा तोसिं इच्छामणे समुप्पज्जइ-इच्छामो  
णं अच्छराहिं सद्धि मणपरियारणं करेत्तए, तए णं तेहिं देवेहिं एवं मणसीकए  
समाणे खिप्पामेव ताओ अच्छराओ तत्थगताओ चेव समाणीओ अणुत्तराइं  
उच्चावयाइं मणाइं पैहोरेमाणीओ २ चिङ्गंति, तए णं ते देवा ताहिं अच्छराहिं  
सद्धि मणपरियारणं करेंति, सेसं णिरवसेसं तं चेव जाव भुजो २ परिणमंति । ५

२०५३. एतेसि णं भंते ! देवाणं कायपरियारगाणं जाव मणपरियारगाणं  
अपरियारगाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्बत्थोवा देवा  
अपरियारगा, मणपरियारगा संखेजगुणा, सद्वपरियारगा असंखेजगुणा, रूवपरियारगा  
असंखेजगुणा, फाँसपरियारगा असंखेजगुणा, कायपरियारगा असंखेजगुणा ।

॥ पैण्णवणाए भगवतीष चउतीसइमं पैवियारणापयं समत्तं ॥

## ३५. पंचतीसझमं वेयणापयं

[सुत्ताइँ २०५४. पणतीसझमपयस्स अत्थाहिगारपरूपवणं]

२०५४. सीता॑ १ य॒ दब्ब॑ २ सारीर॑ ३ सात॑ ४ तह॑ वेदणा

हवति दुक्खा॑ ५।

५ अब्मुवग॑मोवक्षमिया॑ ६ णिदा॑ य अणिदा॑ य ७ णायव्वा॑ ॥२२५॥  
सातमसातं॑ सब्वे॑ सुहं॑ च दुक्खं॑ अदुक्खमसुहं॑ च।  
माणसरहियं॑ विगलिंदिया॑ उ सेसा॑ दुविहमेव॑ ॥२२६॥

[सुत्ताइँ २०५५-५९. चउवीसदंडएसु॑ १ सीताइवेदणादारं]

२०५५. कतिविहा॑ णं भंते॑ ! वेदणा॑ पण्णता॑ ? गोयमा॑ ! तिविहा॑ वेदणा॑  
१० पण्णता॑ । तं जहा॑—सीता॑ १ उसिणा॑ २ सीतोसिणा॑ ३ ।

२०५६. णेरइया॑ णं भंते॑ ! किं सीतं॑ वेदणं॑ वेदेंति॑ उसिणं॑ वेदणं॑ वेदेंति॑  
सीतोसिणं॑ वेदणं॑ वेदेंति॑ ? गोयमा॑ ! सीयं॑ पि॑ वेदणं॑ वेदेंति॑ उसिणं॑ पि॑ वेदणं॑  
वेदेंति॑, णो॑ सीतोसिणं॑ वेदणं॑ वेदेंति॑ ।

२०५७. [१] केर्ई॑ एकेकीए॑ पुढवीए॑ वेदणाओ॑ भणंति॑—

१५ [२] र्यणप्पभापुढविणेरइया॑ णं भंते॑ ! ० पुच्छा॑ । गोयमा॑ ! णो॑ सीयं॑  
वेदणं॑ वेदेंति॑, उसिणं॑ वेदणं॑ वेदेंति॑, णो॑ सीतोसिणं॑ वेदणं॑ वेदेंति॑ । एवं॑ जाव  
वालुयप्पभापुढविणेरइया॑ ।

२०५८. [३] पंकप्पभापुढविणेरइयाणं॑ पुच्छा॑ । गोयमा॑ ! सीयं॑ पि॑ वेदणं॑ वेदेंति॑,  
२० उसिणं॑ पि॑ वेदणं॑ वेदेंति॑, णो॑ सीओसिणं॑ वेदणं॑ वेदेंति॑ । ते॑ बहुयतरागा॑ जे॑ उसिणं॑  
वेदणं॑ वेदेंति॑, ते॑ थोवतरागा॑ जे॑ सीयं॑ वेदणं॑ वेदेंति॑ ।

[४] धूमप्पभाए॑ एवं॑ चेव॑ दुविहा॑ । नवरं॑ ते॑ बहुयतरागा॑ जे॑ सीयं॑ वेदणं॑  
वेदेंति॑, ते॑ थोवतरागा॑ जे॑ उसिणं॑ वेयणं॑ वेदेंति॑ ।

[५] तमाए॑ तमतमाए॑ य॑ सीयं॑ वेदणं॑ वेदेंति॑, णो॑ उसिणं॑ वेदणं॑ वेदेंति॑,  
२५ णो॑ सीओसिणं॑ वेदणं॑ वेदेंति॑ ।

२०५८. असुरकुमाराणं॑ पुच्छा॑ । गोयमा॑ ! सीयं॑ पि॑ वेदणं॑ वेदेंति॑,  
उसिणं॑ पि॑ वेदणं॑ वेदेंति॑, सीतोसिणं॑ पि॑ वेदणं॑ वेदेंति॑ ।

२०५९. एवं॑ जाव॑ वेमाणिया॑ ।

१. सीता॑ १ दब्ब॑ २ सरीरा॑ ३ साता॑ ४ तह॑ पु१ पु२ पु३ ॥ २. दजे० ध० ॥ ३. °गमविक्क°० जे० ध० ॥

[सुत्ताइं २०६०-६२. चउवीसदंडएसु २ दब्वाइवेद्यादारं]

२०६०. कतिविहा णं भंते ! वेदणा पण्णता ? गोयमा ! चउव्विहा वेदणा पण्णता । तं जहा-दब्वओ खेतओ कालओ भावतो ।

२०६१. ऐरइया णं भंते ! किं दब्वओ वेदणं वेदेंति जाव किं भावओ वेदणं वेदेंति ? गोयमा ! दब्वओ वि वेदणं वेदेंति जाव भावओ वि वेदणं वेदेंति । ५

२०६२. एवं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं २०६३-६५. चउवीसदंडएसु ३ सारीराइवेद्यादारं]

२०६३. कतिविहा णं भंते ! वेयणा पण्णता ? गोयमा ! तिविहा वेदणा पण्णता । तं जहा-सारीरा १ माणसा २ सारीरमाणसा ३ ।

२०६४. ऐरइया णं भंते ! किं सारीरं वेदणं वेदेंति माणसं वेदणं १० वेदेंति सारीरमाणसं वेदणं वेदेंति ? गोयमा ! सारीरं पि वेयणं वेदेंति, माणसं पि वेदणं वेदेंति, सारीरमाणसं पि वेदणं वेदेंति ।

२०६५. एवं जाव वेमाणिया । णवरं एर्गिंदिय-विगलिंदिया सारीरं वेदणं वेदेंति, णो माणसं वेदणं वेदेंति णो सारीरमाणसं वेयणं वेदेंति ।

[सुत्ताइं २०६६-६८. चउवीसदंडएसु ४ साताइवेद्यादारं]

१५

२०६६. कतिविहा णं भंते ! वेयणा पण्णता ? गोयमा ! तिविहा वेयणा पण्णता । तं जहा-साता १ असाया २ सायासाया ३ ।

२०६७. ऐरइया णं भंते ! किं सायं वेदणं वेदेंति असायं वेदणं वेदेंति सातासायं वेदणं वेदेंति ? गोयमा ! तिविहं पि वेयणं वेदेंति ।

२०६८. एवं सव्वजीवा जाव वेमाणिया ।

२०

[सुत्ताइं २०६९-७१. चउवीसदंडएसु ५ दुकखाइवेद्यादारं]

२०६९. कतिविहा णं भंते ! वेयणा पण्णता ? गोयमा ! तिविहा वेयणा पण्णता । तं जहा-दुकखा सुहा अदुकखैमसुहा ।

२०७०. ऐरइया णं भंते ! किं दुकखं वेदणं वेदेंति० पुच्छा । गोयमा ! दुकखं पि वेदणं वेदेंति, सुहं पि वेदणं वेदेंति, अदुकखैमसुहं पि वेदणं वेदेंति ।

२५

२०७१. एवं जाव वेमाणिया ।

[ सुत्ताइँ २०७२-७६, चउबीसदंडएसु ६ अब्मोवगमियाइवेयणादारं ]

२०७२. कतिविहा णं भंते ! वेदणा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा वेदणा पण्णत्ता । तं जहा—अब्मोवगमिया य ओवक्कमिया य ।

५ २०७३. ऐरइया णं भंते ! किं अब्मोवगमियं वेदणं वेदेंति ओवक्कमियं वेदणं वेदेंति ? गोयमा ! णो अब्मोवगमियं वेदणं वेदेंति, ओवक्कमियं वेदणं वेदेंति ।

२०७४. एवं जाव चउरिंदिया ।

२०७५. पंचेदियतिरिक्खजोणिया मणूसा य दुविहं पि वेदणं वेदेंति ।

१० २०७६. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा ऐरइया (सु. २०७३) ।

[ सुत्ताइँ २०७७-८४, चउबीसदंडएसु ७ णिदाइवेदणादारं ]

२०७७. कतिविहा णं भंते ! वेदणा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा वेयणा पण्णत्ता । तं जहा—णिदा य अणिदा य ।

१५ २०७८. ऐरइया णं भंते ! किं णिदायं वेदणं वेदेंति अणिदायं वेदणं वेदेंति ? गोयमा ! णिदायं पि वेदणं वेदेंति अणिदायं पि वेदणं वेदेंति । से केणद्वेणं भंते ! एवं बुच्चति ऐरइया णिदायं पि वेदणं वेदेंति अणिदायं पि वेदणं वेदेंति ? गोयमा ! ऐरइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—सणिणभूया य असणिणभूया य । तत्थ णं जे ते सणिणभूया ते णं निदायं वेदणं वेदेंति, तत्थ णं जे ते असणिणभूया ते णं अणिदायं वेदणं वेदेंति, सेतेणद्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चति ऐरइया निदायं २० पि वेदणं वेदेंति अणिदायं पि वेदणं वेदिंति ।

२०७९. एवं जाव थणियकुमारा ।

२०८०. पुढविक्काइयाणं पुच्छा । गोयमा ! णो निदायं वेदणं वेदेंति, अणिदायं वेदणं वेदेंति । से केणद्वेणं भंते ! एवं बुच्चति पुढविक्काइया णो णिदायं वेदणं वेदेंति अणिदायं वेयणं वेदेंति ? गोयमा ! पुढविक्काइया सब्वे असणी २५ असणिणभूतं अणिदायं वेदणं वेदेंति, सेतेणद्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चति पुढविक्काइया णो णिदायं वेयणं वेदेंति, अणिदायं वेदणं वेदेंति ।

२०८१. एवं जाव चउरिंदिया ।

२०८२. पंचेंदियतिरिक्खजोणिया मणूसा वाणमंतरा जहा ऐरइया (सु. २०७८) ।

२०८३. जोइसियाणं पुच्छा । गोयमा ! णिदायं पि वेदणं वेदेंति अणिदायं पि वेदणं वेदेंति । से केणद्वेणं भंते ! एवं बुच्चति जोइसिया णिदायं पि वेदणं वेदेंति अणिदायं पि वेदणं वेदेंति ? गोयमा ! जोतिसिया दुविहा पण्णता, तं जहा—मौइमिच्छद्विद्विउववण्णगा य अँमाइसम्मद्विद्विउववण्णगा य, तत्थ णं जे ते मौइमिच्छद्विद्विउववण्णगा ते णं अणिदायं वेदणं वेदेंति, तत्थ णं जे ते अँमाइसम्मद्विद्विउववण्णगा ते णं णिदायं वेदणं वेदेंति, सेतेणद्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चति जोतिसिया दुविहं पि वेदणं वेदेंति ।

२०८४. एवं वेमाणिया वि ।

॥ पण्णवणाए भगवतीष पंचतीसइमं वेयणापयं समत्तं ॥

## ३६. छत्तीसइमं समुग्धायपर्यं

[सुत्ताइं २०८५-८६. समुग्धायभेयपर्लवर्ण]

२०८५. वेयण १ कसाय २ मरणे ३ वेउव्विय ४ तेयएय ५ आहारे ६ ।  
केवलिए चेव भवे ७ जीव-मणुस्साण सत्तेव ॥ २२७ ॥

५ २०८६. कति णं भंते ! समुग्धाया पण्णत्ता ? गोयमा ! सत्त  
समुग्धाया पण्णत्ता । तं जहा-वेदणासमुग्धाए १ कसायसमुग्धाए २ मारणं-  
तियसमुग्धाए ३ वेउव्वियसमुग्धाए ४ तेयासमुग्धाए ५ आहारगसमुग्धाए ६  
केवलिसमुग्धाए ७ ।

[सुत्ताइं २०८७-८८. समुग्धायकालपर्लवर्ण]

१० २०८७. [१] वेदणासमुग्धाए णं भंते ! कतिसमझे पण्णत्ते ? गोयमा !  
असंखेजसमझे अंतोमुहुत्तिए पण्णत्ते ।

[२] एवं जाव आहारगसमुग्धाए ।

२०८८. केवलिसमुग्धाए णं भंते ! कतिसमझे पण्णत्ते ? गोयमा !  
अद्वासमझे पण्णत्ते ।

१५ [सुत्ताइं २०८९-९२. चउवीसदंडएसु समुग्धायपर्लवर्ण]

२०८९. ऐरड्याणं भंते ! कति समुग्धाया पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि  
समुग्धाया पण्णत्ता । तं जहा-वेदणासमुग्धाए १ कसायसमुग्धाए २ मारणंतिय-  
समुग्धाए ३ वेउव्वियसमुग्धाए ४ ।

२० १०. [१] असुरकुमाराणं भंते ! कति समुग्धाया पण्णत्ता ? गोयमा !  
पंच समुग्धाया पण्णत्ता । तं जहा-वेदणासमुग्धाए १ कसायसमुग्धाए २ मारणं-  
तियसमुग्धाए ३ वेउव्वियसमुग्धाए ४ तेयासमुग्धाए ५ ।

[२] एवं जाव थणियकुमाराणं ।

२०११. [१] पुढविक्काइयाणं भंते ! कति समुग्धाया पण्णत्ता ? गोयमा !  
तिणिं समुग्धाया पण्णत्ता । तं जहा-वेदणासमुग्धाए १ कसायसमुग्धाए २  
२५ मारणंतियसमुग्धाए ३ ।

[२] एवं जाव चउरिंदियाणं । णवरं वाउक्काइयाणं चत्तारि समुग्धाया

पण्ता, तं जहा—वेदणासमुग्धाए १ कसायसमुग्धाए २ मारणंतियसमुग्धाए ३ वेउव्वियसमुग्धाए ४ ।

२०९२. पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं जाव वेमाणियाणं भंते ! कति समुग्धाया पण्ता ? गोयमा ! पंच समुग्धाया पण्ता । तं जहा—वेदणासमुग्धाए १ कसायसमुग्धाए २ मारणंतियसमुग्धाए ३ वेउव्वियसमुग्धाए ४ तेयासमुग्धाए ५ । ५ णवरं मणूसाणं सत्तविहे समुग्धाए पण्ते, तं जहा—वेदणासमुग्धाए १ कसाय-समुग्धाए २ मारणंतियसमुग्धाए ३ वेउव्वियसमुग्धाए ४ तेयासमुग्धाए ५ आहारगसमुग्धाए ६ केवलिसमुग्धाए ७ ।

[सुत्ताइँ २०९३-९६. चउवीसदंडएसु एगतेणं अतीताइसमुग्धायपरूपणं ]

२०९३. [१] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स केवतिया वेदणासमुग्धाया १० अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अतिथ कस्सइ णत्थि, जस्सअत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिणि वा, उक्कोसेणं संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा ।

[२] एवं असुरकुमारस्स वि, णिरंतरं जाव वेमाणियस्स ।

२०९४. [१] एवं जाव तेयगसमुग्धाए ।

[२] एवं एते पंच चउवीसा दंडगा ।

२०९५. [१] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स केवतिया आहारग-समुग्धाया अतीता ? गोयमा ! कस्सइ अतिथ कस्सइ णत्थि । जस्सअत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा, उक्कोसेणं तिणि । केवतिया पुरेक्खडा ? कस्सइ अतिथ कस्सइ णत्थि । जस्सअत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिणि वा, उक्कोसेणं २० चत्तारि ।

[२] एवं णिरंतरं जाव वेमाणियस्स । नवरं मणूसस्स अतीता वि पुरेक्खडा वि जहा णेरइयस्स पुरेक्खडा ।

२०९६. [१] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स केवतिया केवलिसमुग्धाया अतीया ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अतिथ कस्सइ २५ णत्थि । जस्सअत्थि एक्को ।

[२] एवं जाव वेमाणियस्स । णवरं मणूसस्स अतीता कस्सइ अतिथ कस्सइ णत्थि । जस्सअत्थि एक्को । एवं पुरेक्खडा वि ।

[सुत्ताहं २०९७—२१००, चउबीसदंडएसु पुहत्तेण अतीताइसमुग्धायपरूपण]

२०९७. [१] ऐरइयाणं भंते ! केवतिया वेदणासमुग्धाया अतीता ?  
गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अणंता ।

[२] एवं जाव वेमाणियाणं ।

५ २०९८. [१] एवं जाव तेयगसमुग्धाए ।

[२] एवं एते वि पञ्च चैउबीसा दंडगा ।

२०९९. [१] ऐरइयाणं भंते ! केवतिया आहारगसमुग्धाया अतीया ?  
गोयमा ! असंखेजा । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! असंखेजा ।

१० [२] एवं जाव वेमाणियाणं । णवरं वणप्फङ्काइयाणं मणूसाण य इमं  
णाणतं—वणप्फङ्काइयाणं भंते ! केवतिया आहारगसमुग्धाया अतीता ? गोयमा !  
अणंता । मणूसाणं भंते ! केवतिया आहारगसमुग्धाया अतीता ?  
गोयमा ! सिय संखेजा सिय असंखेजा । एवं पुरेक्खडा वि ।

२१००. [१] ऐरइयाणं भंते ! केवतिया केवलिसमुग्धाया अतीया ?  
गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! असंखेजा ।

१५ [२] एवं जाव वेमाणियाणं । णवरं वणप्फङ्काइय-मणूसेसु इमं णाणतं—  
वणप्फङ्काइयाणं भंते ! केवतिया केवलिसमुग्धाया अतीता ? [ग्रन्थाग्रम् ७६००]  
गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अणंता । मणूसाणं  
भंते ! केवतिया केवलिसमुग्धाया अतीया ? गोयमा ! सिय अत्थि सिय णत्थि ।  
जदि अत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सतपुहत्तं । केवतिया  
२० पुरेक्खडा ? गोयमा ! सिय संखेजा सिय असंखेजा ।

[सुत्ताहं २१०१—२०, चउबीसदंडयाणं २४ दंडएसु एगत्तेण

अतीताइसमुग्धायपरूपण]

२१०१. [१] एगमेगस्स णं भंते ! ऐरइयस्स ऐरइयते केवतिया  
वेदणासमुग्धाया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा !  
२५ कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सउत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा,  
उक्कोसेणं संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा ।

[२] एवं असुरकुमारते जाव वेमाणियते ।

<sup>१</sup> चउबीसद० जै० सु० । चउबीसं द० म० व० ॥

२१०२. एगमेगस्स णं भंते ! असुरकुमारस्स णेरइयते केवतिया वयणासमुग्धाया अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सउत्थि तस्स सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा सिय अणंता ।

२१०३. [१] एगमेगस्स णं भंते ! असुरकुमारस्स असुरकुमारते केवतिया वेदणासमुग्धाया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सउत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्ण वा, उक्कोसेणं संखिज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । ५

[२] एवं णागकुमारते वि जाव वेमाणियते ।

२१०४. [१] एवं जहा वेदणासमुग्धाएणं असुरकुमारे णेरइयादि-वेमाणियपञ्जवसाणेसु भणिए तहा णागकुमारादीया अवसेसेसु सद्वाण-परद्वाणेसु १० भाणियब्बा जाव वेमाणियस्स वेमाणियते ।

[२] एवमेते चउब्बीसं चउब्बीसा दंडगा भवंति ।

२१०५. एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स णेरइयते केवतिया कसाय-समुग्धाया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सउत्थि एगुत्तरियाए जाव अणंता । १५

२१०६. एगमेगस्स णं भंते ! नेरइयस्स असुरकुमारते केवतिया कसायसमुग्धाया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सउत्थि सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा सिय अणंता ।

२१०७. एवं जाव णेरइयस्स थणियकुमारते । पुढविकाइयते एगुत्तरियाए णेयब्बं, एवं जाव मणूसत्ते । वाणमंतरते जहा असुरकुमारते (सु. २१०६) । २० जोतिसियते अतीया अणंता, पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सउत्थि सिय असंखेज्जा सिय अणंता । एवं वेमाणियते वि सिय असंखेज्जा सिय अणंता ।

२१०८. असुरकुमारस्स णेरइयते अतीता अणंता । पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सउत्थि सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा सिय अणंता ।

२१०९. असुरकुमारस्स असुरकुमारते अतीया अणंता । पुरेक्खडा २५ एगुत्तरिया ।

२११०. एवं नागकुमारते निरंतरं जाव वेमाणियते जहा णेरइयस्स भणियं (सु. २१०७) तहेव भाणियब्बं ।

२१११. एवं जाव थणियकुमारस्स वि [जाव] वेमाणियते । णवरं सब्बेसिं सद्वाणे एगुत्तरिए परद्वाणे जंहेव असुरकुमारस्स (सु. २१०८-१०) ।

२११२. पुढविकाइयस्स णेरइयते जाव थणियकुमारते अतीता अणंता । पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सउत्थि सिय संखेज्ञा सिय असंखेज्ञा ५ सिय अणंता ।

२११३. पुढविकाइयस्स पुढविकाइयते जाव मणूसते अतीता अणंता । पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सउत्थि एगुत्तरिया । वाणमंतरते जहा णेरइयते (सु. २११२) । जोतिसिय-वेमाणियते अतीया अणंता, पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सउत्थि सिय असंखेज्ञा सिय अणंता ।

१० २११४. एवं जाव मणूसे वि णेयव्वं ।

२११५. [१] वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारे (सु. २१०८-१०) । णवरं सद्वाणे एगुत्तरियाए भाणियव्वा जाव वेमाणियस्स वेमाणियते ।

[२] एवं एते चउवीसं चउवीसा दंडगा ।

२११६. [१] मारणंतियसमुग्धाओ सद्वाणे वि परद्वाणे वि एगुत्तरियाए १५ नेयव्वो जाव वेमाणियस्स वेमाणियते ।

[२] एवमेते चउवीसं चउवीसा दंडगा भाणियव्वा ।

२११७. [१] वेउच्चियसमुग्धाओ जहा कस्सायसमुग्धाओ (सु. २१०५-१५) तहा णिख्खसेसो भाणियव्वो । णवरं जस्स णत्थि तस्स ण बुच्चति ।

[२] एथ वि चउवीसं चउवीसा दंडगा भाणियव्वा ।

२११८. [१] तेयगसमुग्धाओ जहा मारणंतियसमुग्धाओ (सु. २११६) । णवरं जस्स अत्थि ।

[२] एवं एते वि चउवीसं चउवीसा दंडगा भाणियव्वा ।

२११९. [१] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स णेरइयते केवतिया आहार-गसमुग्धाया अतीया ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! णत्थि ।

२५ [२] एवं जाव वेमाणियते । णवरं मणूसते अतीया कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सउत्थि जहण्णेण एक्को वा दो वा, उक्कोसेण तिण्णि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सउत्थि जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण चत्तारि ।

१. जहा असु० जे० ध० ॥ २. अदीया अ० जे० ॥

[३] एवं सब्वजीवाणं मणूसेसु भाणियव्वं ।

[४] मणूसस्स मणूसते अतीया कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सउत्थि जहणेण एक्को वा दो वा तिष्ण वा, उक्कोसेण चत्तारि । एवं पुरेक्खडा वि ।

[५] एवमेते वि चउवीसां चउवीसा दंडगा जाव वेमाणियस्स वेमाणियते ।

२१२०. [१] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स णेरइयते केवतिया ५ केनलिसमुग्धाया अतीया ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! णत्थि ।

[२] एवं जाव वेमाणियते । णवरं मणूसते अतीया णत्थि, पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सउत्थि एक्को ।

[३] मणूसस्स मणूसते अतीया कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सउत्थि १० एक्को । एवं पुरेक्खडा वि ।

[४] एवमेते चउवीसां चउवीसा दंडगा ।

[सुत्ताइं २१२१-२४. चउवीसदंडयाणं चउवीसदंडएसु पुहत्तेण  
अतीताइसमुग्धायपरुवर्णं ]

२१२१. [१] णेरइयाणं भंते ! णेरइयते केवतिया वेदणासमुग्धाया १५ अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अणंता । एवं जाव वेमाणियते ।

[२] एवं सब्वजीवाणं भाणियव्वं जाव वेमाणियाणं वेमाणियते ।

२१२२. एवं जाव तेयगसमुग्धाँओ । णवरं उवउज्जिञ्जण णेयव्वं जस्सउत्थि वेउञ्जिय-तेयगा । २०

२१२३. [१] णेरइयाणं भंते ! णेरइयते केवतिया आहारगसमुग्धाता अतीया ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! नत्थि ।

[२] एवं जाव वेमाणियते । णवरं मणूसते अतीया असंखेज्जा, पुरेक्खडा असंखेज्जा ।

[३] एवं जाव वेमाणियाणं । णवरं वणस्सइकाइयाणं मणूसते अतीया २५ अणंता, पुरेक्खडा अणंता । मणूसाणं मणूसते अतीया सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा, एवं पुरेक्खडा वि । सेसा सब्वे जहा णेरइया ।

१. मणूसाणं भा० ध० म० प्र० । मणुस्साणं भा० मु० ॥ २. °घ्वाते पु१ पु३ । °घ्वायो पु२ ॥

[४] एवं एते चउच्चीसं चउच्चीसा दंडगा ।

२१२४. [१] ऐरइयाणं भंते ! ऐरइयते केवतिया केवलिसमुग्धाया अतीया ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! णत्थि ।

५ [२] एवं जाव वेमाणियते । णवरं मणूसृते अतीता णत्थि, पुरेक्खडा असंखेजा ।

[३] एवं जाव वेमाणिया । णवरं वणण्फङ्काइयाणं मणूसृते अतीया णत्थि, पुरेक्खडा अणंता । मणूसाणं मणूसृते अतीया सिय अत्थि सिय णत्थि । जादि अत्थि जहण्णेण एक्षो वा दो वा तिणिं वा, उक्षोसेणं सतपुहत्तं । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! सिय संखेजा सिय असंखेजा ।

१० [४] एवं एते चउच्चीसं चउच्चीसा दंडगा सब्बे पुच्छाए भाणियवा जाव वेमाणियाणं वेमाणियते ।

[सुत्ताइं २१२५-३२. समुग्धायसमोहयासमोहयाणं जीवार्ड्द्विमप्पावहुयं]

१५ २१२५. एतेसि णं भंते ! जीवाणं वेयणासमुग्धाएणं कसायसमुग्धाएणं मारणंतियसमुग्धाएणं वेउच्चियसमुग्धाएणं तेयगसमुग्धाएणं आहारगसमुग्धाएणं केवलिसमुग्धाएणं समोहयाणं असमोहयाण य कतरे कतरेहितो अप्पा वा चहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा जीवा आहारगसमुग्धाएणं समोहया, केवलिसमुग्धाएणं समोहया संखेजगुणा, तेयगसमुग्धाएणं समोहया असंखेजगुणा, वेउच्चियसमुग्धाएणं समोहया असंखेजगुणा, मारणंतियसमुग्धाएणं समोहया अणंतगुणा, कसायसमुग्धाएणं समोहया असंखेजगुणा, वेदणासमुग्धाएणं २० समोहया विसेसाहिया, असमोहया असंखेजगुणा ।

२१२६. एतेसि णं भंते ! ऐरइयाणं वेदणासमुग्धाएणं कसायसमुग्धाएणं मारणंतियसमुग्धाएणं वेउच्चियसमुग्धाएणं समोहयाणं असमोहयाण य कतरे कतरेहितो अप्पा वा चहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा ऐरइया मारणंतियसमुग्धाएणं समोहया, वेउच्चियसमुग्धाएणं समोहया असंखेजगुणा, कसायसमुग्धाएणं समोहया संखेजगुणा, वेदणासमुग्धाएणं समोहया संखेजगुणा, असमोहया संखेजगुणा ।

२१२७. [१] एतेसि णं भंते ! असुरकुमाराणं वेदणासमुग्धाएणं कसाय-समुग्धाएणं मारणंतियसमुग्धाएणं वेउच्चियसमुग्धाएणं तेयगसमुग्धाएणं समोहयाणं असमोहयाण य कतरे कतरेहितो अप्पा वा चहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया

वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा असुरकुमारा तेयगसमुग्धाएणं समोहया, मारणंति-यसमुग्धाएणं समोहया असंखेजगुणा, वेयणासमुग्धाएणं समोहया असंखेजगुणा, कसायसमुग्धाएणं समोहया संखेजगुणा, वेउव्वियसमुग्धाएणं समोहया संखेजगुणा, असमोहया असंखेजगुणा ।

[२] एवं जाव थणियकुमारा ।

५

२१२८. [१] एतेसि णं भंते ! पुढविक्षाइयाणं वेदणासमुग्धाएणं कसायसमुग्धाएणं मारणंतियसमुग्धाएणं समोहयाणं असमोहयाण य कयरे० ? गोयमा ! सब्वत्थोवा पुढविक्षाइया मारणंतियसमुग्धाएणं समोहया, कसाय-समुग्धाएणं समोहया संखेजगुणा, वेदणासमुग्धाएणं समोहया विसेसाहिया, असमोहया असंखेजगुणा ।

१०

[२] एवं जाव वणप्फङ्काइया । णवरं सब्वत्थोवा वाउक्काइया वेउव्विय-समुग्धाएणं समोहया, मारणंतियसमुग्धाएणं समोहया असंखेजगुणा, कसायसमुग्धाएणं समोहया अंसंखेजगुणा, वेदणासमुग्धाएणं समोहया विसेसाहिया, असमोहया असंखेजगुणा ।

२१२९. [१] बेइंदियाणं भंते ! वेयणासमुग्धाएणं कसायसमुग्धाएणं मारणंतियसमुग्धाएणं समोहयाणं असमोहयाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्वत्थोवा बेइंदिया मारणंतियसमुग्धाएणं समोहया, वेदणासमुग्धाएणं समोहया असंखेजगुणा, कसायसमुग्धाएणं समोहया

१५

१. अत्र सर्वेष्वपि प्राचीनार्वाचीनेषु सूत्रादर्शेषु ‘कसायसमुग्धाएणं समोहया असंखेजगुणा’ इत्येव सूत्रपाठ उपलभ्यते, केवलं श्रीसागरानन्दसूरिचरणमुद्रिते सूत्रपाठे असंखेजगुणास्थाने संखेजगुणा इति सूत्रपाठो वर्तते । अपि चात्र यद्यपि श्रीसागरानन्दसूरिसम्पादितमलयगिरिपादवृत्तौ “तेभ्योऽपि कषायसमुद्धातेन समुद्धता सख्येयगुणा, तेभ्योऽपि वेदनासमुद्धातेन समुद्धता विशेषाधिकाः, तेभ्योऽसमवहता असंख्येयगुणाः, सकलसमुद्धातगतवात्कायिक०” इत्यादिरूपो मुद्रितो वृत्तिपाठो दृश्यते, तथाप्यस्मत्पार्थस्थप्राचीनार्वाचीनासु सर्वास्वपि श्रीमलयगिरिपादविरचितटीकाप्रतिषु मुद्रितवृत्तिगतपाठब्रूटित एवोपलभ्यते, तथाहि—“तेभ्योऽपि कषायसमुद्धातेन समुद्धता असंख्येयगुणाः, . . . . . सकलसमुद्धातगतवात्कायिक०” इत्यादिरूपः खण्डित एव वृत्तिपाठः प्राप्यते, अत सम्भाव्यते यत् श्रीमद्भूः सागरानन्दसूरिपादैरेवायं वृत्तिपाठः स्वप्रतिभया एव पूरितोऽस्ति इत्यतोऽत्रैतद् विचारास्पदमेव वर्तते यत् कषायसमुद्धातसमुद्धता वातकायिका कि सख्येयगुणा ? उत असख्येयगुणा ? इति । अत्र निर्णये टीकाप्रतयः खण्डिता एवेति सूत्रप्रतय एवात्र प्रमाणभूता इत्यतोऽस्माभिः प्राचीनार्वाचीनासु निखिलास्वपि प्रतिषुप्लभ्यमान एव सूत्रपाठोऽत्राद्यतोऽस्ति । तदन्त वस्तुतत्त्वानिर्णये तज्ज्ञा वहुश्रुता एव प्रमाणमिति ॥

संखेज़गुणा, असमोहयां संखेज़गुणा ।

[२] एवं जाव चउरिंदिया ।

२१३०. पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! वेदणासमुग्धाएणं कसायस-  
मुग्धाएणं मारणंतियसमुग्धाएणं वेउच्चियसमुग्धाएणं तेयासमुग्धाएणं समोहयाणं  
५ असमोहयाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्बत्थोवा पंचेदिय-  
तिरिक्खजोणिया तेयासमुग्धाएणं समोहया, वेउच्चियसमुग्धाएणं समोहया असंखेज-  
गुणा, मारणंतियसमुग्धाएणं समोहया असंखेज़गुणा, वेदणासमुग्धाएणं समोहया  
असंखेज़गुणा, कसायसमुग्धाएणं समोहया संखेज़गुणा, असमोहया संखेज़गुणा ।

२१३१. मणुस्साणं भंते ! वेदणासमुग्धाएणं कसायसमुग्धाएणं मारणंति-  
१० यसमुग्धाएणं वेउच्चियसमुग्धाएणं तेयगसमुग्धाएणं आहारगसमुग्धाएणं  
केवलिसमुग्धाएणं समोहयाण असमोहयाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ?  
गोयमा ! सब्बत्थोवा मणूसा आहारगसमुग्धाएणं समोहया, केवलिसमुग्धाएणं  
१५ समोहया संखेज़गुणा, तेयगसमुग्धाएणं समोहया संखेज़गुणा, वेउच्चियसमुग्धाएणं  
समोहया संखेज़गुणा, मारणंतियसमुग्धाएणं समोहया असंखेज़गुणा, वेयणासमुग्धा-  
एणं समोहया असंखेज़गुणा, कसायसमुग्धाएणं समोहया संखेज़गुणा, असमोहयां  
असंखेज़गुणा ।

२१३२. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिर्या जहा असुरकुमारा ।

[सुन्नाइं २१३३-४६. कसायसमुग्धायवत्तच्चव्या]

२१३३. कति णं भंते ! कसायसमुग्धाया पण्णता ? गोयमा ! चत्तारि  
२० कसायसमुग्धाया पण्णता । तं जहा-कोहसमुग्धाए १ माणसमुग्धाए २ माया-  
समुग्धाए ३ लोभसमुग्धाए ४ ।

१. अत्र “कसायसमुग्धाएणं समोहया असंखेज़गुणा” इति सूत्रपाठः श्रीसागरानन्दसूरिसम्पादिते  
सूत्रपाठे दृश्यते, एतत्सूत्रवृत्तिरपि तै “तेभ्य कपायसमुद्धातेन समुद्धता असंख्येयगुणा”, अति-  
प्रभूतराणा लोभादिकपायसमुद्धातभावात्” इत्येवं स्वमुद्रितसूत्रपाठानुकूलैव मुद्रिताऽस्ति । किञ्चा-  
स्मत्पार्थवर्तीनीषु सर्वास्वपि सूत्रप्रतिषु ‘० समोहया संखेज़गुणा’ इति सूत्रपाठः, वृत्तिप्रतिषु च  
“० समुद्धता. सख्येयगुणा.” इत्येव च वृत्तिपाठो वरीत्र्यते । अपि च वृत्तिकृता निष्ठद्वितः  
“अतिप्रभूतराणा लोभादिकपायसमुद्धातभावात्” इत्यत्र हेतौ तरप्रत्ययप्रयोगोऽपि संख्येयगुणत्व-  
मेवाविष्करोति, नासख्येयगुणत्वमिति ॥ २. °या असंखे० जे० ध० ॥ ३. °या संखेज़० पु२ मु०  
विना ॥ ४. °याणं जहा असुरकुमाराणं । मु० ॥

२१३४. [१] णेरइयाणं भंते ! कति कसायसमुग्धाया पण्णता ?  
गोयमा ! चत्तारि कसायसमुग्धाया पण्णता ।

[२] एवं जाव वेमाणियाणं ।

२१३५. [१] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स केवइया कोहसमुग्धाया  
अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अथि ५  
कस्सइ णत्थि । जस्सइत्थि जहण्णेण एक्हो वा दो वा तिण्ण वा, उक्होसेण संखेज्ञा  
वा असंखेज्ञा वा अणंता वा ।

[२] एवं जाव वेमाणियस्स ।

२१३६. एवं जाव लोभसमुग्धाएँ । एते चत्तारि दंडगा ।

२१३७. [१] णेरइयाणं भंते ! केवतिया कोहसमुग्धाया अतीया ? १०  
गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अणंता ।

[२] एवं जाव वेमाणियाणं ।

२१३८. एवं जाव लोभसमुग्धाएँ । एए वि चत्तारि दंडगा ।

२१३९. एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स णेरइयते केवतिया कोहसमु-  
ग्धाया अतीया ? गोयमा ! अणंता, एवं जहा वेदणासमुग्धाओ भणिओ (सु. १५  
२१०१-४) तहा कोहसमुग्धाओ वि भाणियब्बो णिरवसेसं जाव वेमाणियते ।  
माणसमुग्धाओ मायासमुग्धातो यै णिरवसेसं जहा मारणंतियसमुग्धाओ (सु.  
२११६) । लोभसमुग्धाओ जहा कसायसमुग्धाओ (सु. २१०५-१५) । णवरं  
सव्वजीवा असुरादी णेरइएसु लोभकसाएणं एगुत्तरियाँ णेयब्बा ।

२१४०. [१] णेरइयाणं भंते ! णेरइयते केवतिया कोहसमुग्धाया २०  
अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अणंता ।

[२] एवं जाव वेमाणियते ।

२१४१. एवं सद्गुण-परद्गुणेसु सव्वत्थैं वि भाणियब्बा सव्वजीवाणं  
चत्तारि समुग्धाया जाव लोभसमुग्धातो जाव वेमाणियाणं वेमाणियते ।

२१४२. एतेसि णं भंते ! जीवाणं कोहसमुग्धाएणं माणसमुग्धाएणं २५  
मायासमुग्धाएणं लोभसमुग्धाएण य समोहयाणं अकसायसमुग्धाएणं समोहयाणं  
असमोहयाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा

१. °ए । एवं एए मु० ॥ २. वि म० प्र० पु२ ॥ ३. °याते णे० मु० ॥ ४. °त्थ भा० पु२ मु० ॥

५. चत्तारि वि समु० मु० पु२ ॥

अक्षसायसमुग्धाएणं समोहया, माणसमुग्धाएणं समोहया अण्टगुणा, कोहसमुग्धा-एणं समोहया विसेसाहिया, मायासमुग्धाएणं समोहया विसेसाहिया, लोभसमुग्धा-एणं समोहया विसेसाहिया, असमोहया॑ संखेजगुणा ।

२१४३. एतेसि णं भंते ! णेरइयाणं कोहसमुग्धाएणं माणसमुग्धाएणं

५ मायासमुग्धाएणं लोभसमुग्धाएणं समोहयाणं असमोहयाण य कतरे कतरेहितो अप्पा वा ६ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा णेरइया लोभसमुग्धाएणं समोहया, मायासमुग्धाएणं समोहया संखेजगुणा, माणसमुग्धाएणं समोहया संखेजगुणा, कोहसमुग्धाएणं समोहया संखेजगुणा, असमोहया संखेजगुणा ।

२१४४. [१] असुरकुमाराणं पुच्छा । गोयमा ! सव्वत्थोवा असुरकुमारा

१० कोहसमुग्धाएणं समोहया, माणसमुग्धाएणं समोहया संखेजगुणा, मायासमुग्धाएणं समोहया॑ संखेजगुणा, लोभसमुग्धाएणं समोहया संखेजगुणा, असमोहया संखेजगुणा ।

[२] एवं सव्वदेवा जाव वेमाणिया ।

२१४५. [१] पुढविक्काइयाणं पुच्छा । गोयमा ! सव्वत्थोवा पुढविक्काइया

माणसमुग्धाएणं समोहया, कोहसमुग्धाएणं समोहया विसेसाहिया, मायासमुग्धाएणं १५ समोहया विसेसाहिया, लोभसमुग्धाएणं समोहया विसेसाहिया, असमोहया संखेजगुणा ।

[२] एवं जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणिया ।

२१४६. मणुस्सा जहा जीवा (सु. २१४२) । णवरं माणसमुग्धाएणं समोहया असंखेजगुणा ।

२० [सुत्ताहं २१४७-५२. चउबीसदंडएसु छाउमत्थियसमुग्धायपरूपणं ]

२१४७. कति णं भंते ! छाउमत्थिया समुग्धाया पण्णता ? गोयमा ! छाउमत्थिया छ समुग्धाया पण्णता । तं जहा-वेदणासमुग्धाए १ कसाय-समुग्धाए २ मारणंतियसमुग्धाए ३ वेउव्वियसमुग्धाए ४ तेयगसमुग्धाए ५ आहारगसमुग्धाए ६ ।

२५ २१४८. णेरइयाणं भंते ! कति छाउमत्थिया समुग्धाया पण्णता ? गोयमा ! चत्तारि छाउमत्थिया समुग्धाया पण्णता । तं जहा-वेदणासमुग्धाए १ कसायसमुग्धाए २ मारणंतियसमुग्धाए ३ वेउव्वियसमुग्धाए ४ ।

१. °या असंखेज़° जे० ध० ॥ २. °या असंखेज़° जे० ध० ॥

२१४९. असुरकुमाराणं पुच्छा । गोयमा ! पंच छाउमत्थिया समुग्धाया पण्णता । तं जहा—वेदणासमुग्धाए १ कसायसमुग्धाए २ मारणंतियसमुग्धाए ३ वेउव्वियसमुग्धाए ४ तेयगसमुग्धाए ५ ।

२१५०. एगिंदिय-विगलिंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! तिणि छाउमत्थिया समुग्धाया पण्णता । तं जहा—वेदणासमुग्धाए १ कसायसमुग्धाए २ ५ मारणंतियसमुग्धाए ३ । णवरं वाउक्काइयाणं चत्तारि समुग्धाया पण्णता, तं जहा—वेदणासमुग्धाए १ कसायसमुग्धाए २ मारणंतियसमुग्धाए ३ वेउव्वियसमुग्धाए ४ ।

२१५१. पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! पंच समुग्धाया पण्णता । तं जहा—वेदणासमुग्धाए १ कसायसमुग्धाए २ मारणंतियसमुग्धाए ३ वेउव्वियसमुग्धाए ४ तेयगसमुग्धाए ५ ।

१०

२१५२. मण्डूसाणं भंते ! कति छाउमत्थिया समुग्धाया पण्णता ? गोयमा ! छ छाउमत्थिया समुग्धाया पण्णता । तं जहा—वेदणासमुग्धाए १ कसायसमुग्धाए २ मारणंतियसमुग्धाए ३ वेउव्वियसमुग्धाए ४ तेयगसमुग्धाए ५ आहारगसमुग्धाए ६ ।

[सुन्नाइं २१५३—५४. वेयणासमुग्धायसमोहयजीवाईं ओगाहफासाइपर्ववणं ]

१५

२१५३. [१] जीवे णं भंते ! वेदणासमुग्धाएणं समोहए समोहणिता जे पोगले णिच्छुभति तेहि णं भंते ! पोगलेहिं केवतिए खेते अफुणे ? केवतिए खेते फुडे ? गोयमा ! सरीरपमाणमेते विक्खंभ-बाह्लेणं णियमा छहिसिं एवइए खेते अफुणे एवइए खेते फुडे ।

[२] से णं भंते ! खेते केवइकालस्स अफुणे केवइकालस्स फुडे ? गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा विगगहेण वा एवइकालस्स अफुणे एवइकालस्स फुडे ।

२०

[३] ते णं भंते ! पोगला केवइकालस्स णिच्छुभति ? गोयमा ! जहृणेण अंतोमुहुत्तस्स, उक्केसेण वि अंतोमुहुत्तस्स ।

[४] ते णं भंते ! पोगला णिच्छूढा समाणा जाइं तथ पाणाइं भूयाइं जीवाइं सत्ताइं अभिहणंति वत्तेंति लेसेंति संघेवेंति परियावेंति किल्लवेंति

२५

उद्वेति तेहितो णं भंते ! से जीवे कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंचकिरिए ।

[५] ते णं भंते ! जीवा ताओ जीवाओ कतिकिरिया ? गोयमा ! सिय तिकिरिया सिय चउकिरिया सिय पंचकिरिया ।

५ [६] से णं भंते ! जीवे ते य जीवा अणेसिं जीवाणं परंपरावाएणं कति-  
किरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि चउकिरिया वि पंचकिरिया वि ।

२१५४. [१] णेरइए णं भंते ! वेदणासमुग्धाएणं समोहए० एवं  
जहेव जीवे (सु. २१५३) । णवरं णेरइयाभिलावो ।

[२] एवं णिरवसेसं जाव वेमाणिए ।

१० [सुत्तं २१५५. कसायसमुग्धायसमोहयजीवाईणं ओगाहफासाइपरूवणं ]

२१५५. एवं कसायसमुग्धातो वि भाणियब्बो ।

[सुत्ताइं २१५६-५८. मारणंतियसमुग्धायसमोहयजीवाईणं

ओगाहफासाइपरूवणं ]

२१५६. [१] जीवे णं भंते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहए समोह-  
१५ णिता जे पोगले णिच्छुभति तेहि णं भंते ! पोगलेहिं केवतिए खेते अफुणे  
केवतिए खेते फुडे ? गोयमा ! सरीरपमाणमेते विकखंभ-वाहलेणं, आयामेणं जह-  
णेणं अंगुलस्स असंखेज्जतिमागं, उक्कोसेणं असंखेज्जाइं जोयणाइं एगदिसिं एवइए  
खेते अफुणे एवतिए खेते फुडे ।

[२] से णं भंते ! खेते केवतिकालस्स अफुणे केवतिकालस्स फुडे ?  
२० गोयमा ! एगसमझएण वा दुसमझएण वा तिसमझएण वा चउसमझएण वा विगहेणं  
एवतिकालस्स अफुणे एवतिकालस्स फुडे । सेसं तं चेव जाव पंचकिरिया ।

२१५७. एवं णेरइए वि । णवरं आयामेणं जहणेणं सातिरेगं जोयण-  
सहसं उक्कोसेणं असंखेज्जाइं जोयणाइं एगदिसिं एवतिए खेते अफुणे एवतिए  
खेते फुडे; विगहेणं एगसमझएण वा दुसमझएण वा तिसमझएण वा, णवरं चउ-  
२५ समझएण ण भण्णति । सेसं तं चेव जाव पंचकिरिया वि ।

२१५८ [१] असुरकुमारस्स जहा जीवपए (सु. २१५६) । णवरं  
विगहो तिसमझओ जहा णेरइयस्स (सु. २१५७) । सेसं तं चेव ।

[२] जहा असुरकुमारे एवं जाव वेमाणिए । णवरं एगिंदिए जहा जीवे णिरवसेसं ।

[सुत्ताइं २१५९-६४. वेउव्वियसमुग्धायसमोहयजीवाईणं

ओगाहफासाइपरूवणं ]

२१५९. [१] जीवे णं भंते ! वेउव्वियसमुग्धाएणं समोहए समोहणिता ५ जे पोगले णिच्छुभति तेहि णं भंते ! पोगलेहिं केवतिए खेते अफुणे केवतिए खेते फुडे ? गोयमा ! सरीरप्पमाणमेते विक्खंभ-वाहलेणं, आयामेणं जहणेणं अंगुलस्सं असंखेज्जतिभागं उक्कोसेणं संखेज्जाइं जोयणाइं एगदिसिं विदिसिं वा एवतिए खेते अफुणे एवतिए खेते फुडे ।

[२] से णं भंते ! खेते केवतिकालस्स अफुणे केवतिकालस्स फुडे ? १० गोयमा ! एगसमझेण वा दुसमझेण वा तिसमझेण वा विग्गहेण एवतिकालस्स अफुणे एवतिकालस्स फुडे । सेसं तं चेव जाव पंचकिरिया वि ।

२१६०. एवं णेरइए वि । णवरं आयामेणं जहणेणं अंगुलस्सं संखेज्जइ-भागं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं जोयणाइं एगदिसिं एवतिए खेते० । केवतिकालस्स० तं चेव जहा जीवपए (सु. २१५९) । १५

२१६१. एवं जहा णेरइयस्स (सु. २१६०) तहा असुरकुमारस्स । णवरं एगदिसिं विदिसिं वा । एवं जाव थणियकुमारस्स ।

२१६२. वाउक्काइयस्स जहा जीवपदे (सु. २१५९) । णवरं एगदिसिं ।

२१६३. पंचेंदियतिरिक्खजोणियस्स णिरवसेसं जहा णेरइयस्स (सु. २१६०) । २०

२१६४. मणूस-वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणियस्स णिरवसेसं जहा असुर-कुमारस्स (सु. २१६१) ।

[सुत्तं २१६५. तेयगसमुग्धायसमोहयजीवाईणं ओगाहफासाइपरूवणं ]

२१६५. जीवे णं भंते ! तेयगसमुग्धाएणं समोहए समोहणिता जे पोगले णिच्छुभइ तेहि णं भंते ! पोगलेहिं केवतिए खेते अफुणे० ? एवं जहेव वेउव्वियसमुग्धाए (सु. २१५९-६४) तहेव । णवरं आयामेणं २५

१. °स्स संखेज्ज० मु० ॥ २. °स्स असंखे० मु० पु२ ॥

जहण्णेण अंगुलस्सं असंखेजतिभागं, सेसं तं चेव । एवं जाव वेमाणियस्स,  
णवरं पंचेदियतिरिक्खेजोणियस्स एगदिसिं एवतिए खेते अफुण्णे० ।

[ सुत्ताइं २१६६-६७, आहारगसमुग्धायसमोहयजीवाईणं

ओगाहफासाइपरुवर्णं ]

५        २१६६. [१] जीवे णं भंते ! आहारगसमुग्धाएणं समोहए समोहणिता  
जे पोगले णिञ्च्छुभइ तेहि णं भंते ! पोगलेहिं केवतिए खेते अफुण्णे  
केवतिए खेते फुडे ? गोयमा ! सरीरपमाणमेते विक्खंभ-वाहलेणं, आयामेण  
जहण्णेण अंगुलस्सं असंखेजतिभागं उक्कोसेणं संखेजाइं जोयणाइं एगदिसिं  
ईवइए खेते० । एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा विगहेण  
१० एवतिकालस्स अफुण्णे एवतिकालस्स फुडे ।

[२] ते णं भंते ! पोगला केवतिकालस्स णिञ्च्छुभति ? गोयमा !  
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तस्स ।

१५ [३] ते णं भंते ! पोगला णिञ्चूढा समाणा जाइं तथ्य पाणाइं भूयाइं  
जीवाइं सत्ताइं अभिहण्णति जाव उद्वेति तैओ णं भंते ! जीवे कतिकिरिए ?  
गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंचकिरिए । ते णं भंते ! जीवा  
तातो जीवाओ कतिकिरिया ? गोयमा ! एवं चेव ।

[४] से णं भंते ! जीवे ते य जीवा अण्णेसिं जीवाणं परंपराघाएणं  
कतिकिरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि चउकिरिया वि पंचकिरिया वि ।

२१६७. एवं मण्णसे वि ।

[ सुत्ताइं २१६८-७१, केवलिसमुग्धायवत्तव्या ]

२१६८. अणगारस्स णं भंते ! भावियप्पणो केवलिसमुग्धाएणं समोहयस्स  
जे चरिमा णिज्जरापोगला सुहुमा णं ते पोगला पण्णता समणाउसो !  
सब्बलोगं पि य णं ते फुसिता णं चिङ्गंति ? हंता गोयमा ! अणगारस्स  
भावियप्पणो केवलिसमुग्धाएणं समोहयस्स जे चरिमा णिज्जरापोगला सुहुमा  
२५ णं ते पोगला पण्णता समणाउसो ! सब्बलोगं पि य णं ते फुसिता णं चिङ्गंति ।

१, ३. °स्स संखेजँ°ध० म० प्र० ॥ २. °कछुजोणियाणं एग° म० ॥ ४. एवद्वए खेते इत्यनन्तर-  
मयं पाठोऽवगन्तव्यः—“अफुण्णे एवइए खेते फुडे । से णं भंते ! केवइकालस्स अफुण्णे  
केवइकालस्स फुडे १ गोयमा !” ॥ ५. तते णं भंते ! म० पु१ पु३ । ते णं भंते ! पु२ मु० ॥

२१६९. छउमत्थे णं भंते ! मणूसे तेसिं णिजरापोग्गलाणं किंचि वण्णेण वण्णं गंधेणं गंधं रसेणं रसं फासेण वा फासं जाणति पासति ? गोयमा ! णो इण्डे समडे । से केणद्वेणं भंते ! एवं बुच्चति छउमत्थे णं मणूसे तेसिं णिजरापोग्गलाणं णो किंचि वि वण्णेणं वण्णं गंधेणं गंधं रसेणं रसं फासेणं फासं जाणति पासति ? गोयमा ! अयण्णं जंबुदीवे दीवे सव्वदीव-समुद्दाणं सव्वबमंतराए सव्वखुड्हाए ५ तेल्हापूयसंठाणसंठिए वडे रहचक्रवालसंठाणसंठिए वडे पुक्खरकण्णियासंठाणसंठिते वडे पडिपुण्णचंदसंठाणसंठिए एगं जोयणसयसहस्सं आयाम-विक्खंभेणं, तिणिण य जोयणसयसहस्साइं सोल्स य सहस्साइं दोणिण य सत्तावीसे जोयणसते तिणिण य कोसे अट्टावीसं च धणुसतं तेरस य अंगुलाइं अद्धंगुलं च किंचि विसेसाहिए परिक्खेवेणं पण्णते । देवे णं महिङ्गीए जाव मंहासोक्खे एगं महं सविलेवणं गंध- १० समुग्ययं गहाय तं अवदालेति, तं महं एगं सविलेवणं गंधसमुग्ययं अवदालेत्ता इणामेव कहु केवलकप्पं जंबुदीवं दीवं तिहिं अच्छराणिवातेहिं तिसत्तखुत्तो अणुपरियहित्ता णं हव्वमागच्छेज्ञा, से णूणं गोयमा ! से केवलकप्पे जंबुदीवे दीवे तेहिं घाणपोग्गलेहिं फुडे ? हंता फुडे । छउमत्थे णं गोतमा ! मणूसे तेसिं घाणपोग्गलाणं किंचि वण्णेणं वण्णं गंधेणं गंधं रसेणं रसं फासेणं फासं जाणति पासति ? भगवं ! णो इण्डे समडे । १५ सेतेणद्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चति छउमत्थे णं मणूसे तेसिं णिजरापोग्गलाणं णो किंचि वण्णेणं वण्णं गंधेणं गंधं रसेणं रसं फासेणं फासं जाणति पासति, ऐसुहुमा णं ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो ! सव्वलोगं पि य णं फुसित्ता णं चिङ्गुंति ।

२१७०. [१] कम्हा णं भंते ! केवली समुग्धायं गच्छति ? गोयमा ! केवलिस्स चत्तारि कम्मंसा अक्खीणा अवेदिया अणिजिणा भवंति । तं जहा— २० वेयणिजे १ आउए २ णामे ३ गोए ४ । सव्वबहुप्पएसे से वेदणिजे कम्मे भवति, सव्वत्थोवे से आउए कम्मे भवति ।

विसमं समं करेति बंधणेहिं ठितीहि य ।

विसमसमीकरणयाए बंधणेहिं ठितीहि य ॥ २२८ ॥

एवं खलु केवली समोहैण्णति, एवं खलु समुग्धायं गच्छति ।

[२] सव्वे वि णं भंते ! केवली समोहैण्णति ? सव्वे वि णं भंते ! केवली समुग्धायं गच्छति ? गोयमा ! णो इण्डे समडे,

१. महासक्खे इति मल्यवृत्तिनिर्दिष्टः पाठभेदः ॥ २. एतावत्सूक्ष्मा इत्यर्थः ॥ ३. °हणइ सु० ॥  
४. °हणंति सु० ॥

जस्साऽऽउपेण तुल्लाइं वंधणेहिं ठितीहि य ।

भवोवगगहकम्भाइं समुग्धायं से ण गच्छति ॥ २२९ ॥

अंगंतूण् समुग्धायं अणंता केवली जिणा ।

जर-मरणविष्पुक्का सिद्धि वरगति गता ॥ २३० ॥

६ २१७१. कतिसमइए णं भंते ! आउज्जीकरणे पणते ? गोयमा !  
असंखेजसमइए अंतोमुहुत्तिए आउज्जीकरणे पणते ।

२१७२. कतिसमइए णं भंते ! केवलिसमुग्धाए पणते ? गोयमा !  
अडुसमइए पणते । तं जहा-पढमे समए दंडं करेति, विइए समए कवाडं  
करेति, ततिए समए मंथं करेति, चउत्थे समए लोगं पूरेइ, पंचमे समये लोयं  
१० पडिसाहरति, छड्हे समए मंथं पडिसाहरति, सत्तमे समए कवाडं पडिसाहरति, अडुमे  
समए दंडं पडिसाहरति, दंडं पडिसाहरिता ततो पच्छा सरीरत्थे भवति ।

२१७३. [१] से णं भंते ! तहासमुग्धायगते किं मणजोगं जुंजति  
वैज्ञोगं जुंजति कायजोगं जुंजति ? गोयमा ! णो मणजोगं जुंजइ णो वैज्ञोगं  
जुंजइ, कायजोगं जुंजति ।

१५ २] कायजोगण्णं भंते ! जुंजमाणे किं ओरालियसरीरकायजोगं जुंजति  
ओरालियमीसासरीरकायजोगं जुंजति ? किं वेउव्वियसरीरकायजोगं जुंजति वेउ-  
व्वियमीसासरीरकायजोगं जुंजति ? किं आहारगसरीरकायजोगं जुंजइ आहारगमीसा-  
सरीरकायजोगं जुंजति ? किं कम्मगसरीरकायजोगं जुंजइ ? गोयमा ! ओरालिय-  
२० सरीरकायजोगं पि जुंजति ओरालियमीसासरीरकायजोगं पि जुंजति, णो वेउव्विय-  
सरीरकायजोगं जुंजति णो वेउव्वियमीसासरीरकायजोगं जुंजति, पो आहारगसरीर-  
कायजोगं जुंजति णो आहारगमीससरीरकायजोगं जुंजति, कम्मगसरीरकायजोगं पि  
जुंजति; पढमऽडुमेसु समएसु ओरालियसरीरकायजोगं जुंजति, वितिय-छड्ह-सत्तमेसु  
समएसु ओरालियमीसगसरीरकायजोगं जुंजति, ततिय-चउत्थ-पंचमेसु समएसु  
कम्मगसरीरकायजोगं जुंजति ।

२५ २१७४. [१] से णं भंते ! तहासमुग्धायगते सिज्जति बुज्जइ मुच्चइ  
परिणिव्वाइ सञ्चदुक्खाणं अंतं करेति ? गोयमा ! णो इणडे समडे, से णं तओ  
पडिनियत्तति, ततो पडिनियत्तिता ततो पच्छा मणजोगं पि जुंजति वैज्ञोगं पि  
जुंजति कायजोगं पि जुंजति ।

१. अगताणं जे० थ० पु१ पु२ पु३ ॥ २. वयजोगं पु२ ॥ ३. कायजोगे णं पु२ मु० ॥

[२] मणजोगण्णं जुंजमाणे किं सच्चमणजोगं जुंजति मोसमणजोगं जुंजति  
सच्चामोसमणजोगं जुंजति असच्चामोसमणजोगं जुंजति ? गोयमा ! सच्चमणजोगं  
जुंजति, णो मोसमणजोगं जुंजति णो सच्चामोसमणजोगं जुंजति, असच्चामोसमण-  
जोगं पि जुंजइ ।

[३] वयजोगं जुंजमाणे किं सच्चवद्वजोगं जुंजति मोसवद्वजोगं जुंजति ५  
सच्चामोसवद्वजोगं जुंजति असच्चामोसवद्वजोगं जुंजति? गोयमा! सच्चवद्वजोगं  
जुंजति, णो मोसवद्वजोगं जुंजइ णो सच्चामोसवद्वजोगं जुंजति, असच्चामोसवद्वजोगं  
पि जुंजइ।

[४] कायजोगं जुंजमाणे आगच्छेज वा गच्छेज वा चिट्ठेज वा णिसीएज वा तुयट्टेज वा उह्लंवेज वा पलंधेज वा पांडिहारियं पीढ-फलग-सेजा-संथारगं १० पच्चपिणेजा ।

१. पदिहा<sup>०</sup> पुर विना ॥ २. अजोगत्तं मु० ॥ ३. अभोगतं जे० । अजोगतां पुर ।  
 अजोगत्तं मु० ॥ ४. <sup>०</sup>त्ता ईसिं ह<sup>०</sup> मु० ॥ ५. विष्पहयण्णाहि विष्पहयति, विष्पहयत्ता जे० ॥  
 ६. <sup>०</sup>ज्ञति तत्थ सिद्धो भवति । २९७६. ते पं मु० ॥

[सुत्तं २१७६, सिद्धसरूपपरूपणं]

२१७६. ते णं तत्थ सिद्धा भवंति, असरीरा जीवघणा दंसण-णाणोवउत्ता  
णिद्वियद्वा णीरया णिरेयणा वितिमिरा विसुद्धा सासयमणागतद्वं कालं चिह्नंति । से  
केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति ते णं तत्थ सिद्धा भवंति असरीरा जीवघणा दंसण-णाणो-  
वउत्ता णिद्वियद्वा णीरया णिरेयणा वितिमिरा विसुद्धा सासतमणागयद्वं कालं चिह्नंति ?  
गोयमा ! से जहाणामए वीयाणं अगिदडूणं पुणरवि अंकुरुप्ती न हवइ एवमेव  
सिद्धाण वि कम्बवीएसु दडूसु पुणरवि जम्मुप्ती न हवति, सेतेणद्वेण गोयमा !  
एवं बुच्चति ते णं तत्थ सिद्धा भवंति असरीरा जीवघणा दंसण-णाणोवउत्ता  
निद्वियद्वा णीरया णिरेयणा वितिमिरा विसुद्धा सासयमणागयद्वं कालं चिह्नंति ति ।

२०

णिच्छिष्णसब्दुकखा जाति-जरा-मरण-बंधणविमुक्ता ।  
सासयमव्वावाहं चिह्नंति सुही सुहं पता ॥ २३१ ॥

॥ पणवणाए भगवतीए छत्तीसइमं समुग्धायपदं समत्तं ॥

॥ पणवणा समत्ता ॥

अनुष्टुप्छंदसा ग्रन्थाग्रम् ७८८७ ॥ छ ॥ मङ्गलं महाश्रीः ॥ छ ॥

१५

सं० १३८९ वर्षे ॥



## सुद्धिपत्रयं

पत्रसं	पंतीए	असुद्धं	सोहणीयं
८	शीर्षके	पणवणासुते	पणवणासुते
१२	१२	°पणवण	°पणवणा
१३	१	बदिय०	बैदिय०
१७	१०	पूईकरंज	पूई करंज
१८	९	आढ़ई	अछड़ई
,,	२५	आढ़ई जे० ध०॥	आढ़ई जे० ध० विना ॥
१९	२७	°छिराली	°छीराली
२२	१	जारू	जौरू
,,	२५	जीरू	जीरू
२४	२६	णिहुया	णिहु या
३६	२७	°बा०	°ब०
३७	९	बच्छ	बैच्छ
४६	४	पुढविसु	पुढवीसु
४८	२६	°भागे	°भागे
५०	२८	कोओय०	काओय०
५५	२७	मजिझम	मजिझमे
५७	२	दसदि०	दस दि०
,,	१८	°रकिखया-	°रकिखगा
५८	२२	°इसी०	°इसी०
५९	४	°भरणा-	°भरणा
६५	१५	दिव्वदैं	दिव्वाइं
,,	२५	पु२ मु० विना	पु२ विना
७७	२८	ईसीपभारा	ईसिपब्भारा
७८	३	तणुयरी	तणुययरी
,,	२१	चाइत्ता	चइत्ता
७९	२८	°दिड्डीहि	°दिड्डीहि
९१	१८	कतर	कतरे
९८	५	एकारसमं	एकारसमं
१११	६	°तउकाइया	°तेउकाइया
११५	२१	दसवास०	दस वास०
११६	१४	अपज्ञतिथाणं	अपज्ञतिथाणं
१२६	<	जहण्णेण	जहण्णेण
१३१	१५	महासुक्क	महासुक्के
१३७	१०	छंट्टाण वडिए	छट्टाणवडिए

पत्रस्स	पंतीषु	असुद्धं	सोहणीयं
१४०	शीर्षके	ओगाहणाइसु	ओगाहणाईहि
,,	१३	नरइए	नेरइए
१४३	१२	ओगाहणाइसु	ओगाहणाईहि
१४४	२५	"	"
१४६	१३	"	"
१४८	८	°पज्वेहि य	°पज्वेहि [ओहिंसणपज्वेहि] य
,,	१६	ओगाहणाइसु	ओगाहणाईहि
,,	२८	°पज्वेहिं ओहिंसण- पज्जवेहि य छ° मु०॥	°पज्वेहि य छ° सर्वासु प्रतिषु ॥
१४९	शीर्षके	९३]	४९३]
१५०	९	चउट्टाणवडिते	चउ(ति)ट्टाणवडिते
,,	१३	णवर सट्टाणे	णवर [ओगाहणट्टया] सट्टाणे
,,	१५	तिट्टाणवडिए	ति(चउ)ट्टाणवडिए
,,	२७	१. °ए तिट्टाण° मु०॥ २. णवर ओगाहणट्टया ए चउट्टाणवडिए सट्टाणे मु०॥	१. °ए चउट्टाण° सर्वासु प्रतिषु ॥ २. णवर सट्टाणे सर्वासु प्रतिषु ॥
१५१	१	ओगाहणाइसु	ओगाहणाईहि
१६३	२४	हा०	ह०
१६९	६	उववेज्जंति	उववज्जंति
,,	२८	द्वितीया टिप्पणी निष्कासनीया	
१७७	२७	प्र० मु०॥	प्र०।°रा रेहितो भाणियब्बा मु०॥
१८१	८	कुञ्जंति	कुञ्जंति
१९१	९	तेविहा	तिविहा
१९८	७	अचरिम	अचरिम
१९९	२७	नोपद्यन्ते	नोपपद्यन्ते
२०५	२६	पु३॥	पु३ ह० ॥
२१०	२६	अहमेसातु यामि	अहमेसा तुयामि
२१२	३	भंते मणुस्ते !	भंते ! मणुस्ते
२१७	२९	मधुर०	मधुर०
२१९	१७	°यामेद	°यामेदे
२२३	२४	अमेव०	अमेव०
२२६	शीर्षके	सररिपए	सरीरपए
२२८	१०	जहा ओहियाँ	जैहा ओहिया
,,	२०	१. °या । आहा०	१. °हा ओरालिया । आहा०
२३१	१०	तिरियंग०	तिरियंग०
२३३	शीर्षके	२३	२३९

पत्तस्स	पंतीए	असुद्धं	सोहणीयं
२४०	शीर्षके	पदसुद्धेसे	पदसुद्धेसे
२५०	१२	°उवओगप्पा°	°उवओगद्धप्पा°
"	१७	उवओगद्ध	उवओगद्धा
२५४	१०	गोयमा	गोयमा
२५६	१८	°दिया २ गो°	°दिया अतीया २ गो°
२६०	९	असंखज्जा	असंखेज्जा
२६४	१२	अहवगे	अहवेगे
२६७	२१	°प्पओगिणा	°प्पओगिणो
२७१	२६	सीद्ध°	सिद्ध°
२७२	२०	आयरिय	आयरियं
"	२७	समगं पट्टिया ३	विसमं पट्टिया ३
"	२८	विसमं	समगं
२७३	६	उवहिया	उब्बहिया
२७६	२६	म० पु२ प्रत्योरेवो°	म० पु२ मु० प्रतिष्वेवो°
"	२७	०मु ॥	मु०, एतत्पाठानुसारिणी मलयवृत्ति. ॥
२८५	१	तेउलेस्सांण	तेउलेस्साणं
२९० -	२८	इत्तरिय	इत्तरिय°
२९४	३	◀	◀
२९५	२०	°तुम्बी°	°तुंबी°
"	"	घोसाडिए	घोसांडिए
२९७	८	अणोवमाइ	अणोवमा इ
"	२५	उवमाइ	उवमा इ
३०२	२२	मालावगा	आलावगा
"	२५	मणूसे	मणूसे
३०८	११	उसपिणि°	उस्सपिणि°
३१२	शीर्षके	अट्टार°	अट्टार°
३२४	२९	उववज्जेज्जा	[उववज्जै]
३३०	"	°संठाणए	°संठाणपए
३३४	२०	१५०२	१५०७[१]
३३५	१२	धणू°	धैणू°
३३७	१५	अपजत्तग°	अपजत्तग°
३३८	शीर्षके	°पए ।	°पए
"	४	°वेउविव्यरीरे	वेउविव्यसरीरे
३५०	२६	देप	पदे
३५४	२९	प्रतिष्वेवो°	प्रतिष्वेवो°
३६०	३	°बंधिए	°बंधए
"	८	अट्टविहंव°	अट्टविहंव°

## सुद्धिपत्रयं

पत्रस्त	पंतीए	असुद्धं	सोहणीयं
३६३	शीर्षके	°राध्यन°	°राव्ययन°
३६४	२५	णियम	णियमा
३६५	३	वद्ध-फास-पुट्टस्स	वद्धफासपुट्टस्स
३७१	५	भंते	भंते
३७३	९	आवाहा	अवाहा
३७७	११	गो	एगो
३८१	५	एवं-ति°	एवं ति°
३८४	१३	°सकिलिंदु°	°सकिलिंदु°
३८६	१७	‘ताव होज्जा’ इत्येतत्पाठानन्तरं ‘सत्तविहवंधगा य’ इत्येतत्पाठाच्च पूर्व- मस्मदनवधानतो गलितः सूत्रपाठ एवमनुसन्धातव्यः—“सत्तविहवंधगा य अटुविहवंधगा य एगविहवंधगा य । अहवा” ।	
„	१८	१	२
„	”	२	३
३९०	२१	१ अहवा	१ [जाव] अहवा
„	२२	अवंधए य,	अवंधए य [२०],
„	२६	भाणिथावं	भाणिथवं
४४२	१	असंखेज्जतिभागं	संखेज्जतिभागं
„	८	”	”
„	२६	°स्स संखेज्ज° ध० म० प्र०॥	°स्स असंखेज्ज° ध० म० प्र० विना ॥
४४३	२८	१. महासक्खे इति मलय- वृत्तिनिर्दिष्टः पाठमेद	१. महेसक्खे महासक्खे इति च मलयवृत्तिनिर्दिष्टौ पाठमेदौ

